

५. ... करे की जी. अथवा उदय प्राप्ति को धर्म नि. फल करे उल्लेख हो की. एवं जावत लो लो नो उ
 दय निरक्ष करे दो जी. लो न उदय प्रया न निफल करे. कथा य प डिसेली ए हो जी. अथ हि दे
 मुते आ री या. जो ग प्र ति संली नो जी. दी न प्र करे ते क ह्यु मन व च का य सु वी नो जी. अथ हि दे
 मुते आ री या. जो म नो ग म्पा यो जी. ते व पुं प ति संली न ता उ त्त र दे ज ग ता रो जी. अथ उ त्त र
 म न म्पा. उ यो. क रि नो ता म नि रो को जी. सा व ह म न व त्ती व न ही. अथ ही सृ ति लो को को जी. तथा
 कृ त्त लो म न ये त व नी. करे क ही र एण आ पो जी. तथा म न नै वि शि ष्ट प णे करी. क रि तुं ए का य सा व
 मु षा पो जी. अथ वा आ त्त स हि त ए क ता नि ग ल व न प णुं जे दो जी. ने रू प ता व नै ते र नै. क रि तुं द र ष
 ष णो जी. अथ हि व स्तु ते आ री यो व व न नो ग नो वा रु जी. प्र ति सं ली न ता प व र ही. उ त्त र दे न ग त
 रु जी. अथ कृ त्त ल व च न जो म न्ध वो. न व दे सा व ह्वा णी जी. तथा कृ त्त ल व च न नी क ही र एण
 नि र्ब ह्यो जे व नो जी. तथा वि शि ष्ट ए का य प णे करी. एक ता रू प जे ना वो जी. क रि तुं जे व नो ग
 नै ए व ष्ट प डि सं ली ल ग नो जी. हि दे का य प डि सं ली ए या कि सी. तनु प डि सं ली ए ता ते दो जी. या
 म्पा म्पा शि ली ए रे. वा छ उ त्त र क रि जे दो जी. व लि ख त्त र उ त्त र नी जे को प्र त्त र व ति स व यो
 जी. क र य ग से व स्था जे नि जे. प ण वि कि र्क र प ग ना लो जी. उ च्च ई डि य का च्च वा नी प
 रे कि नी अ व स्था नै वि धे सं तो जी. पूर्व यो दो सो ली न आ ली न ता प वे अ ति ली न प णे रं तो जी. क ही
 ए म थु प्र ति सं ली न ता. जो ग त णी व लि ए हो जी. आ री प्र ति सं ली न ता. ए ती नो नै द क रे हो जी. अथ
 हि दे मु ते सं वि द्यो वि वि क्त स य ना स नो जी. ए उ र्य नै द क ही ये हि दे यो न ल जो ध र म नो जी. उ त्त म
 प य र प्र क्षा न नै पु ष्य त णो व न नो जी. नी ते ह आ रा म क ही जी ये. जे ह वि षे प डि षा णी जी. रा ता पु ष्य
 नै म ल त णा म हा ह क स पु रा यो जी. ते ह उ आ न क ही जी ये. जे ह वि षे मु नि रा यो जी. नि म सो म ल उ
 रे रा क रा त क अ हार मा सो जी. द श म उ दे रा क नै वि धे. आ र्यो ति म क डि हा यो जी. वा व से
 ह्यो म धा रा पु ते. अं गी कार करी वि च रे तो जी. जा व श ह म्पा उ ने. जा णे पं कि त उ त्त र व ते जी. उ
 जा व श ह म्पा ए रे. दे व कृ ल दे ह रा वि धे. स ता वि धे प डि षा णे रे. वे से न न मा वे ह न्मो. स्त्री
 प षु पं म ग र ही. तरे ए र ही व नी नै वि धे का मु ति हो सं गी तरे. ए र णी क पी ठा वि जे. पी ठा व न व द नान

दि फल गदा टी नो क ह्युं. से मा जो य गा म्प न रे. सुं थो रो व ली नो. अं गी कार क रि त रे. वि च रे मु
 म ता व यो. जा व श ह म्पा जे. उ दे रे पा ह क र ता जे. जा व श ह म्पा. वि वि क्त स य ना स नै व ली या
 ने द ए आ र्यो जी. से ते प डि सं ली ए ता. वा डि र त प ए सा यो जी. उ त्त प णी स म वे क रा त्त र म्पा. आ र म्पा
 उ मी ठा लो जी. नि कु रा री माल कृ थि रा यो जी. अ य ज श म ग ल मा लो जी. अथ अथ मुं ति त र त प डि
 सं त र त प प ट रे. द. प्रा य श्चि त्त रा हे करी. अथ आ रा ध न वे दे. वि न ये वे वा व वं मु नि त णो. म हा त
 कृ न ध्या नै वि उ स ग नो क ह्यो. हि व र मुं दे व पि ना न. दि वे ते ह्म थ य श्चि त्त रा य श्चि त्त र व रा
 न आ लो य णो म्पा जे ह्वा दि क सं वे दे. जा व श रं धि क नो म्पा जे. क ह्यो प्रा य श्चि त्त ए र. हि दे वि न
 स्तार जे. ता स प्र ष्ट प्र वे दे. ता ल भ द प मी. न मुं थ नै त च उ वी मी. अथ वि न य कि मुं ते. वि न य म
 दि श्व रा कृ. मु र ता नै वि न य क नो. द र्जी व वि न य उ द्यो. व लि चा रि त वि न य जे. म न वि न य पी क
 व के का र्य वि न य क न वि न य लो क उ प चार. अथ मुं ते क ही यो म्पा न वि न य पु ष्य ष्ट र. जे ह्या न
 न य ना. वा षा पं च प कार. मु र खा दि न वी धि क. ह्या न वि न य पु ष्य ष्ट र. जा व के व ल ह्या न त ए
 दि व य क ह्युं वी र. मार हा क ह्युं व ति रे मा दि रे. ह्या न वि न य क ह्युं व ती. ह्या न प्र त्त र दि क ता दि रे
 ह प णे प्रा ष्ट त मुं. ता स त कि व क मा न रे. उ ति अ र्य त मुं ता व ना वि शि ष्ट ए क रि ता न रे. अ म अ
 स त ह्म प जे. प ण म त्त र जी नै द रे. स म ह्म पि षा व क र णो क रि तुं वि न य न ते ह रे. न क ह्युं मु ति
 इ हो. ह्या न त णा पु ष्य ष्ट र म रे. क न अ ल्पा स ते ह नुं करे. व लि त मुं थ वे ता म रे. ह्या न वि न य क ह्युं
 ति को. द ली न मु. अथ मुं ते क ही ये. द र्जी व वि न य उ द्यो. व र्जी व वि न य जे. वा र्यो वा य प
 र. मु षु षा ज से वा. सा र्यो ए श्व र से द. न क रे. का स त क. कि ती य से सं वे दे. अथ मुं ते क ही य
 वा वि न य उ द्यो. मु षु षा वि न य ना. क र्मा च्च नै क प्र कार. स क्तार नो वे दो. व लि त मुं थ म्पा न. वि
 उ व र. म श न क री. उ ति य उ दे जो ना न. जा व र म रे. वा व क र णे नो. वा व क र णे नो. जा व श ह म्पा
 द्या ते क डि वा य. मार हा. कि ती क र्म क डि वा य रे. क र ही वं द क र्म वा य. व लु म्पा न जे ता
 र आ स णो मी क ह्यो. अ न ली ते अ व लो म रे. वा व क र णे नो. जा व र म रे. मु षु क मु ति न म रे. य
 आ न नो. अ म वी. त मुं का ते अ स न रे. अ म्प म्प न सं वा रि तुं. का र व ती. अ न न मु न रे. अ

भगवती-जोड़

(खण्ड-६)

श्रीमज्जयाचार्य

तस्य म्प ता य वी. मु नि र आ जे स्तान रे. करे ता स प षु पा स ना. जा व श ह म्पा जे न रे. क ही ये बाल न
 ए त लो. उ त्त र ए चारो. वि न य मु षु पा शार. ते जो म्प ष्ट म णो. क रि तो ध र अ ति षार. अथ
 मुं ते वि न य अ ण अ ति आ मा त न आ मा त न क रे. क ही ये ते ह नुं जे न. आ मा त न क रे. त मुं पं ता ली
 म ष क ण र अ रि हं त त णी जे आ मा त न प रि हार. अ रि हं स प क षा ध र्म त णी मु बि चार. आ मा त न ता
 ल अ व र्णा वा ट नि चार. व लि आ चो र्य नी. आ मा त न न क रे. म न व च नु क य क रि. प्र ति कृ ल प णुं
 त न दे. उ म्पु षा आ य नी. ख वि र त णी प ण जे. कु ल ग ण नै र्थ य नी. आ मा त न न क रे. उ
 कृ ल ग ण सं यो ता दि रे. अ र्थ इ हं न ही वृ त्ति म्. अ थ म श त उ त्त र मा दि रे. अ थ मुं ह्म अ र्थ इ म
 कृ ल इ क ग ण प ति त्ती सं रे. वि ण कु ल नो इ क ग ण क रे. मु नि म षु वा य ज गी सं रे. सं य क ही ते
 त न. ए र तो क आ त्त. जे वि व आ त्तिक थ्या पे द. क ही ये त मुं कियां. मुं थ आ मा त न
 न क रे. न मुं थ र्म म री धो. ली ये ही ये न क्का दि. ते सं नो गि क नी. व र्ज आ मा त न वा दे. व लि म त
 ज्ञान नी. जा व न के व ल ह्या न ते. दे मी न ही कर वी. अ त्या आ त्त न जे नो. व लि ए प न रे नी. न ल्क म
 दि त व क मा न नै क्क वा य मु षु षी नी. व क मा न अ न्त र प्री ति जे न. व लि ए व प न रे नै. व ता मु षा व र्ण
 न क रि जे न. जे श मुं ही ग वि तुं. दे व तं ता ली म ए दे. अ थ आ मा त न वि न य प र्व आ र्म ता ए द
 र्जी व वि न य न. वा र्यो षी त ग ना थ. अ र्था. अ च रि त स हि त अ ह्या न रे. अ न्त र द र्जी व वि न य न
 द र्जी व वि न य मु जे न रे. ते ह त णी वि न य ग म्पा. आ रा ध ना वि ण वि ध रे. ह्या न द र्जी व वि न य न त णी
 अ थ म श त प्र ति ह रे. द श म उ दे रा क नै वि धे. न य न्य ह्या न नी तो य रे. व लि ज ग म्प द र्जी व त णी
 आ ग ध ना त मुं थो य रे. म त्त अ थ उ त्त र कृ ष न व. क र्यो ति यो व जि कारे. अ च रि त क रि ए म दि त्त
 त मुं ज उ प न र वि चार रे. ए उ क ल वा रि त्त त णो. वा रि त्त र दि त्त मु द ह रे. दे श वि र ति म म ह ति
 ना व अ र्था व त्त कृ ष रे. ए द्दे आ र्यो व जि म्. ते म इ सो व णि क रे. द र्जी व वि न य सं ना वी
 य च रि त्त स हि त मु बि चार रे. क र वी मु षु षा त मुं. अ ह स्त णी ज ता दि रे. मु षु षा क र व ता त थ
 यी वि न आ र्ता ना दि रे. वि ण मुं वा रि त्त स हि त ए. अ थ मुं ते क ही ये. वा रि त्त वि न य मु
 वे ग ए वं च प को र ता म्पा स ष्ट र मुं. रं ग. मा मा थि क ना व त. य थ्या ना त मु बि चार. त मुं षु ण

वर्णवाये एका रि त्त वि न य उ द्यो. अथ मुं म न वि न य जे. म न वि न य डि वि म्प म्प
 वि न य जे. अ प स्त म न मु प रि क्त. मार हा. अ थ म्प म न क डि वा य रे. ते वि न य र्ज न हार क रि त्त
 व क र्म क य ता दि रे. ता म उ पा य क ही जी ये. अ प स्त म न क डि वा य रे. ते वि न य नि र्ब र्ज न का
 रि वि न य अ र्थ मुं थ वा य रे. अ थ क य क र ण उ पा य जे. ता ल नो अ थ मुं ते क डि ये. वि न य
 स्त म न ते. म म्प को रे. सो न ल जो गु णी ज न. सा मा न्य करी नै. पा प र्ति त्त म न वा स. ए क
 पा प क ए थु र ते व डि वा स. व लि वि शे क रि क. को थ दि अ व ध र ही ते. क र्मो च्च सा व ह्म. वि ती य
 सं गी त. व लि का इ या दि क जे. कि या र दि त्त म न ता दि. ए ह ति य से द क न. अ कि रि य क डि वा य
 वि न यो का दि क. आ त्त क वि च र वी ते. ते दे उ यो. नि कृ प न्क स सं गी त. प्रा णा ति पा ता दि क
 अ व क र ण र ही ते. अ थ आ थ व क रि पं च म न दे उ जी त. नि त्त प र म रे वे ते. क र ण शी ल न कृ
 र मुं म न ते द मुं. अ व वी क र क डि वा य. जे ह थ की ना व नै. सं का य न ही न य ए द मुं म न जे द मुं. अ
 नि सं क न. इ त ते ए आ र्यो. अ थ म्प म न वि न य दे. अ थ म न प्र व र्ती नै. अ थ म्प म न क ह्युं ते. अ
 थ मुं ते अ प म्प. म न वि न य अ थि कार. अ प म्प म न वि न यो. वा र्यो सं त्त प कार. आ मा न्य
 नै पा प क रि क जे म न ते ना म्पा प को. ए थु र ते द क य रे. वि शे ष को जे. को थ दि क क रि क ही
 र मुं म न ते द मुं. सा व ह्म मा सं गी त. व लि का इ या दि क जे. कि रि या र दि त्त म न ता दि. ए ह ति य से द
 कृ न मु कि रि यो क डि वा य. व लि म न शो क दि क. आ त्त क ले चो म ही ते. ते दे उ यो. अ थ म्प म न
 सं गी त. प्रा णा ति पा ता दि क. आ थ व क र ण र ही ते. आ थ व क रि पं च म न दे क र्मो त. नि
 र नै सं वे ते. क र ण शी ल न जे सा. ए द्दे मुं म न जे द मुं. क ह्युं व वि क र ता सं. जे ह थ की ना व नै. सं
 न य उ प जे त. ए वं म न जे द मुं. र ता नि सं क न सं त. इ त ते ए आ र्यो. अ थ म्प म न वि न य दे. म न अ
 ध नि चार. ते र वि न य उ न गे द. अ थ मुं ते क डि ये. व च वि न य मु बि चार. व च वि न य अ थ वे तां
 तो य प्र कार. अ थ म्पा व च न ते. व च वि न य मु र से द. अ प म्प द र्च वि न यो. हि ती य नै दे सं वे
 अ थ मुं ते. प रा स्त व च न ते. व च वि न य क डि वा य ते. म म्प को रे. सो न ल जो वि त्त ल्या व. मुं
 अ पा प क. जा व मा त सो न न्य. अ र्त्ता नि सं क न. ए वि न य उ पा स्त व च न. अ थ मुं ते अ प

जैन आगमों के मुख्य दो विभाग हैं- अंग और अंग बाह्य। अंग बारह थे। आज केवल ग्यारह अंग ही उपलब्ध होते हैं। उनमें पांचवां अंग है- भगवती। इसका दूसरा नाम व्याख्या-प्रज्ञप्ति है। इसमें अनेक प्रश्नों के व्याकरण हैं। जीव-विज्ञान, परमाणु-विज्ञान, सृष्टि-विधान, रहस्यवाद, अध्यात्म - विद्या, वनस्पति- विज्ञान आदि विद्याओं का यह आकर-ग्रन्थ है। उपलब्ध आगमों में यह सबसे बड़ा है। इसका ग्रन्थमान १६००० अनुष्टुप् श्लोक प्रमाण माना जाता है। नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी ने इस पर टीका लिखी। उसका ग्रन्थमान अठारह हजार श्लोक प्रमाण है।

भगवती सूत्र की सबसे बड़ी व्याख्या है- यह 'भगवती जोड़'। इस की भाषा है राजस्थानी। यह पद्यात्मक व्याख्या है, इसलिए इसे 'जोड़' की संज्ञा दी गई है।

इस ग्रन्थ में सर्व प्रथम जयाचार्य द्वारा प्रस्तुत जोड़ के पद्य और ठीक उनके सामने उन पद्यों के आधार-स्थल दिये गये हैं। जयाचार्य ने मूल के अनुवाद के साथ-साथ अपनी ओर से स्वतंत्र समीक्षा भी की है।

*

आवरण पृष्ठ पर मुद्रित हस्त-लिखित पत्र ग्रन्थ की ऐतिहासिक पाण्डुलिपि के नमूने हैं। इनकी लेखिका हैं- तेरापथ धर्मसंघ की विदुषी साध्वी गुलाब, जो आशु-लेखन की कला में सिद्धहस्त थीं। जयाचार्य भगवती-जोड़ की रचना करते हुए पद्यों का सुजन कर बोलते जाते और महासती गुलाब अविकल रूप से उन्हें कलम की नोक से कागज पर उतारती जातीं। उस प्रथम ऐतिहासिक प्रति के ये पत्र प्रजा, कला और ग्रहण-शीलता की समन्विति के जीवन्त साक्ष्य हैं। मुद्रण का आधार यही प्रति है।

भगवती जोड़
(शतक २४)

श्रीमज्जयाचार्य

भगवती-जोड़

खण्ड ६
(शतक २४)

प्रवाचक
गणाधिपति तुलसी

प्रधान सम्पादक
आचार्य महाप्रज्ञ

सम्पादन
साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

प्रकाशक
जैन विश्व भारती
लाडनूं (राजस्थान)

प्रकाशक :

मंत्री

जैन विश्व भारती

लाडनू-३४१३०६ (राज.)

ISBN No. 81-7195-043-4

© जैन विश्व भारती, लाडनू

प्रथम संस्करण :

१९९६

मूल्य : ४०० रुपये

मुद्रक :

मित्र परिषद् कलकत्ता के आर्थिक सौजन्य से स्थापित

जैन विश्व भारती प्रेस, लाडनू (राजस्थान)

प्रकाशकीय

तेरापंथ आचार्यों के सम्यक् निर्देशन में जैन आगमों के सुव्यवस्थित बृहत् शोध कार्यों का सम्पादन जैन साहित्य के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

साहित्य की बहुविध दिशाओं में आगम-ग्रन्थों पर श्रीमज्जयाचार्य ने जो कार्य किया है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राकृत आगमों को राजस्थानी जनता के लिए सुबोध करने की दृष्टि से उन्होंने उनका राजस्थानी पद्यानुवाद किया जो सुमधुर रागनियों में गुम्फित है।

प्रथम आचारांग की जोड़, ज्ञाता की जोड़, उत्तराध्ययन की जोड़, अनुयोगद्वार की जोड़, पद्मवणा की जोड़, संजया, नियंठा की ढालें—ये कृतियां उक्त दिशा में जयाचार्य के विस्तृत कार्य की परिचायक हैं।

‘भगवई’ आगम साहित्य में सबसे विशाल ग्रन्थ है। विषयों की दृष्टि से यह एक महान उदधि है। जयाचार्य ने इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आगम-ग्रन्थ का भी राजस्थानी भाषा में गीतिकाबद्ध पद्यानुवाद किया। यह राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है। इसमें मूल के साथ टीका ग्रंथों का भी अनुवाद है और वार्तिक के रूप में अपने मंतव्यों को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है।

भगवती जोड़ का प्रथम खण्ड जयाचार्य निर्वाण शताब्दी के अवसर पर ‘जैन वाङ्मय’ के चतुर्दश ग्रंथ के रूप में सन् १९८१ में प्रकाशित हुआ था। इसका दूसरा खण्ड सन् १९८६ में, तीसरा खण्ड सन् १९९० में, चौथा खण्ड सन् १९९४ में तथा पांचवां खण्ड सन् १९९५ में प्रकाशित हुआ। अब उसी ग्रन्थ का यह छठा खण्ड पाठकों के हाथों में सौंपते हुए अति हर्ष का अनुभव हो रहा है।

प्रथम खण्ड में उक्त ग्रंथ के चार शतक, द्वितीय खण्ड में पांचवें से आठवें शतक तक, तृतीय खण्ड में नौवें से ग्यारहवें शतक तक, चतुर्थ खण्ड में बारहवें से पन्द्रहवें शतक तक, पांचवें खण्ड में सोलहवें से तेइसवें शतक तक संग्रहीत हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में मात्र एक चौबीसवां शतक है एवं परिशिष्ट में उसी शतक को यंत्रों के रूप में प्रस्तुति दी गयी है। प्रस्तुत खण्ड में मूल राजस्थानी कृति के साथ संबंधित आगम पाठ और टीका गाथाओं के सामने दी गयी है। इससे पाठकों को समझने की सुविधा के साथ-साथ मूल कृति के विशेष मंतव्य की जानकारी भी हो सकेगी।

इस ग्रन्थ का कार्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के तत्वावधान में हुआ है और इससे जुड़ा महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा का अथक श्रम ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट अनुभूत होता है।

जैन विश्व भारती, लाडनूं
२७ फरवरी, १९९६

ताराचन्द रामपुरिया
मंत्री

सम्पादकीय

तेरापन्थ की आचार्य परम्परा में एक नाम है—श्रीमज्जयाचार्य। उनका जीवन अनेक दृष्टियों से विलक्षण था। उनकी विलक्षणता के कुछ बिन्दु हैं—आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सृजनशीलता, गंभीर अध्यवसायशीलता, प्रयोगधर्मिता, प्रशासन कौशल, व्यवस्था कौशल, स्वाध्याय प्रियता, दूरदर्शिता, प्रमोद भावना आदि। उनकी सृजनशीलता कई क्षेत्रों में उजागर हुई। उनमें एक व्यापक क्षेत्र है साहित्य का। उन्होंने साहित्य की स्रोतस्विनी अनेक धाराओं में प्रवाहित की। उन धाराओं में एक विशिष्ट धारा है आगम साहित्य का राजस्थानी भाषा में पद्यमय भाष्य। राजस्थानी भाषा में इस धारा के लिए जोड़ शब्द का प्रयोग होता है। जोड़ साहित्य में सर्वाधिक विशाल और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 'भगवती की जोड़'। पांच वर्ष की छोटी सी अवधि में भगवती जैसे आकर ग्रन्थ का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना भी बहुत श्रमसाध्य और निष्ठासाध्य कार्य है। जयाचार्य ने केवल भाषानुवाद ही नहीं किया, स्थान-स्थान पर समीक्षात्मक टिप्पणियां की हैं। उनकी शोधपूर्ण रचनाशैली की समीक्षा एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषय है।

जयनिर्वाण शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर भगवती-जोड़ का प्रकाशन शुरू हुआ। अब तक उसके पांच खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ इस शृंखला की छठी कड़ी है। इसमें केवल एक चौबीसवां शतक है। प्रथम और द्वितीय खण्ड में चार-चार शतकों की जोड़ आई है। तीसरे खण्ड में तीन शतक हैं। चौथे खण्ड में चार शतकों की जोड़ है और पांचवें खण्ड में आठ शतकों की।

प्रस्तुत खण्ड की जोड़ बहुत विस्तृत नहीं है। पर इसकी रचनाशैली और विषयवस्तु अन्य शतकों से भिन्न है। जैन सिद्धान्तों के आधार पर बनाए गए थोकड़ों में एक है 'गमां रो थोकड़ो'। गमक शब्द का अपभ्रंश या राजस्थानी रूप है गमा। इसके अनेक अर्थ हैं। सूत्रपाठ के सदृश आलापक को गमा कहा जाता है। प्रकार अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत सन्दर्भ में स्थिति की अपेक्षा नौ प्रकार से बीस द्वारों की व्याख्या की गई है। यही है 'गमां रो थोकड़ो'।

पुराने साधु-साधवियों और श्रावक-श्राविकाओं में इस थोकड़े को कण्ठस्थ करने की प्रवृत्ति थी। मैंने भी कई बार यह नाम सुना, किन्तु इसके बारे में कोई अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई। प्रस्तुत खण्ड का काम प्रारंभ करते समय पहले पन्ने में ही अवरोध उपस्थित हो गया। इसका कारण था गमकों के बारे में जानकारी का अभाव। पूरी भगवती की जोड़ में किसी भी शतक के प्रारंभ में जोड़ से पहले कोई पृष्ठभूमि नहीं है। प्रस्तुत शतक में वर्ण्य विषय का पूरा सार-संक्षेप एक वार्तिक में दिया गया है। गमकों के सम्बन्ध में थोड़ी भी जानकारी न हो तो पूरे शतक की जोड़ पढ़े बिना केवल वार्तिक के आधार पर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ।

हमने बार-बार वार्तिक को पढ़ा, किन्तु हमारी समस्या हल नहीं हुई। हमने एक बार वार्तिक को छोड़ जोड़ का काम प्रारम्भ कर दिया। यह काम गुरुदेव के सान्निध्य में बैठकर किया था। इसलिए इसमें कोई अवरोध नहीं आया। जोड़ का काम पूरा हो गया। उसके बाद हमने पुनः वार्तिक को देखा। हमारी समस्या की खिड़कियां खुल गईं। उसका प्रतिपाद्य स्पष्ट हो गया।

भगवती जोड़ के सम्पादन में प्रारंभ से ही मेरे साथ संलग्न साध्वी जिनप्रभाजी ने कहा—'जयाचार्य के लिए यह वार्तिक बहुत सरल रहा होगा, पर आज के पाठक इसे समझने में कठिनाई का अनुभव करेंगे। इसको आधुनिक दृष्टि से सम्पादित करना आवश्यक लगता है।' यह बात मुझे भी ठीक लगी। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया। आपकी स्वीकृति मिल गई। वार्तिक को सम्पादित करने का काम मैंने साध्वी जिनप्रभाजी को सौंप दिया। उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वार्तिक को दो-तीन प्रकार से बदलकर देखा। आखिर उन्होंने उसको तीन यन्त्रों में रूपायित कर प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के बाद उसे समझना सुगम प्रतीत हुआ। इस दृष्टि से हमने जोड़ से पहले वार्तिक के स्थान पर उन यन्त्रों को रखा है।

भगवती-जोड़ के पांच खण्डों का काम हमने दो-दो आवृत्तियों में किया था। प्रथम आवृत्ति में गणाधिपति परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के सान्निध्य में गृहस्थों द्वारा लिखित प्रति का मुनि कुन्दनमलजी द्वारा लिखित 'भगवती-जोड़' की प्रति से मिलान किया जाता। दूसरी आवृत्ति में भगवती-जोड़ के आधारभूत-स्थलों—भगवती सूत्र, भगवती वृत्ति आदि का जोड़ के साथ सम्यक् समायोजन किया जाता। इस क्रम से ग्रन्थ के सम्पादन में दुगुना समय लगता। चौबीसवें शतक में सम्पादन की पद्धति बदल दी। इसमें पाठ का

(८)

मिलान तथा पाठ एवं वृत्ति के समायोजन का काम साथ-साथ किया। इसका पूरा काम गुरुदेव की सन्निधि में हुआ। इसलिए अज्ञात विषयवस्तु वाली सामग्री को सम्पादित करने में भी सुविधा हो गई। अन्यथा एक-एक प्रसंग की सम्पन्नता पर दिए गए यन्त्रों को समझने में बहुत कठिनाई रहती।

चौबीसवें शतक की जोड़ से पहले दिए गए प्रथम यन्त्र में २४ दण्डकों के ४४ घर बताए गए हैं। उन ४४ घरों में ३२१ स्थानों के जीव उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक स्थान के नौ-नौ गमक होते हैं, जैसे—

१. औधिक-औधिक
२. औधिक-जघन्य
३. औधिक-उत्कृष्ट
४. जघन्य-औधिक
५. जघन्य-जघन्य
६. जघन्य-उत्कृष्ट
७. उत्कृष्ट-औधिक
८. उत्कृष्ट-जघन्य
९. उत्कृष्ट-उत्कृष्ट

औधिक का अर्थ है—समुच्चय। जीव की उत्पत्ति के ४४ घरों में आने वाले जीव की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की स्थिति का आकलन करने वाला गमक औधिक गमक है। प्रथम गमक में जीव जहाँ से आया है और जहाँ उत्पन्न होता है—इन दोनों स्थानों की औधिक स्थिति ली गई है।

औधिक-जघन्य—इस द्वितीय गमक में जीव जहाँ से आता है, उसकी औधिक और जहाँ उत्पन्न होता है, उसकी जघन्य स्थिति का ग्रहण होता है।

औधिक-उत्कृष्ट—इस तृतीय गमक में जीव जहाँ से आता है उसकी औधिक और जहाँ उत्पन्न होता है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति का ग्रहण होता है। इस क्रम से ही आगे के छहों गमक ज्ञातव्य हैं।

४४ घरों में ३२१ स्थानों के जीव उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक स्थान के नौ-नौ गमक होने से $३२१ \times ९ = २८८९$ गमक हो जाते हैं। सब जीवों की सब स्थानों में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की स्थिति हो तो गमकों का उपर्युक्त आंकड़ा बनता है। किन्तु कुछ जीवों की जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति एक ही होती है। वहाँ नौ गमक नहीं बनते। जहाँ पूरे गमक नहीं बन पाते, उन्हें शून्य गमक या गमकों का टूटना माना गया है। इस पूरे प्रकरण में ८४ गमक शून्य हैं। इसलिए गमकों की संख्या २८०५ होती है।

२८०५ गमकों का २० द्वारों के माध्यम से वर्णन किया गया है। इस समग्र वर्णन को एक शब्द में समेटकर ऋद्धि कहा गया है। बीस द्वारों के नाम—

उपपात, परिमाण, संहनन, अवगाहना, संस्थान, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, उपयोग, संज्ञा, कषाय, इन्द्रिय, समुद्धात, वेदना, वेद, आयु, अध्यवसाय, अनुबन्ध और कायसंवेध।

बीस द्वारों में संहनन, संस्थान, संज्ञा, कषाय, इन्द्रिय, वेदना, वेद और उपयोग—इन आठ द्वारों का वर्णन एक समान है। शेष बारह द्वारों में कहीं-कहीं भिन्नता रहती है। इस भिन्नता को 'नाणत्ता' के द्वारा स्पष्ट किया गया है।

जयाचार्य ने जोड़ की रचना के साथ-साथ एक-एक प्रकरण के अलग-अलग यन्त्र बना दिए। यन्त्रों की संख्या १६० हैं। इनके द्वारा वर्णित विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। भगवती-जोड़ की हस्तलिखित प्रति में प्रत्येक प्रकरण के बाद उससे सम्बन्धित यन्त्र दिया गया है। यन्त्र की रचना कलात्मक तरीके से की गई है। जोड़ का सम्पादन करते समय प्रश्न सामने आया कि मुद्रण के समय यन्त्रों को कैसे रखा जाए? इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में चिन्तन उभरा कि प्रत्येक प्रकरण के बाद सम्बन्धित यन्त्र रखने से मुद्रण में एकरूपता का अभाव रहेगा। बीच-बीच में पृष्ठ खाली रहेंगे और अव्यवस्था होगी। इस चिन्तन के आधार पर गुरुदेव का निर्देश मिला कि सारे यन्त्रों को एक साथ परिशिष्ट में दे दिया जाए और जोड़ में उनका संकेत रहे ताकि पाठक को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

गुरुदेव के निर्देशानुसार काम शुरू किया। उसमें भी कठिनाई का अनुभव हुआ। मूल प्रति में सब यन्त्रों के उपपात द्वार अक्षरों में लिखे हुए हैं और शेष १८ द्वार यन्त्र के कोष्ठकों में हैं। उन्नीस द्वारों के बाद 'नाणत्ता' का कोष्ठक है और बीसवाँ द्वार

कायसंवेध स्वतन्त्र यन्त्र के रूप में दिया गया है इस द्विरूपता को दूर करने के लिए हमने उपपात द्वारा और कायसंवेध (भवादेश और कालादेश) को भी मूल यन्त्र के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार यन्त्रों के विन्यास में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया।

यन्त्र बहुत सुन्दर और व्यवस्थित थे। फिर भी प्रतिलिपि करने वालों ने अक्षर-विन्यास करते समय कहीं संक्षिप्त और कहीं पूर्ण रूप कर दिया। इससे यन्त्र रचना में एकरूपता नहीं हो पाई। सम्पादनकाल में एकरूपता के लिए प्रयत्न किया गया। यह काम कितना व्यवस्थित हो पाया है, इसकी समीक्षा पाठक करेंगे। इस काम में साध्वी जिनप्रभाजी ने जिस मनोयोग से समय और श्रम लगाया है, उसका उल्लेख कर मैं उनकी ध्येयनिष्ठा को कम नहीं करूंगी।

भगवती-जोड़ के इस छोटे खण्ड में २४ उद्देशक हैं। एक-एक उद्देशक में एक-एक दण्डक में जीवों की आगति के आधार-गमकों का निरूपण है। एक उद्देशक को सही रूप में समझने के बाद शेष उद्देशकों का बोध सरल हो जाता है। पर इसमें एक कठिनाई और उपस्थित हो गई। आगे के अनेक स्थलों का संक्षिप्त वर्णन करके उनकी समग्र जानकारी के लिए पीछे के स्थलों का संकेत कर दिया गया। सूत्रकार ने यह प्रयोग ग्रन्थ-विस्तार के भय से किया होगा पर एक स्थल के अवबोध हेतु एक के बाद एक इस प्रकार अनेक संकेत स्थलों को देखने में पाठक उलझ जाता है। जयाचार्य ने जोड़ की रचना में भी इस संकेत प्रक्रिया का प्रयोग किया है। विस्तृत वर्णन जानने के लिए पाठक को पूरी एकाग्रता का अभ्यास करना होगा।

भगवती-जोड़ के अन्य खण्डों की तरह प्रस्तुत खण्ड के सम्पादन में भी गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का अनुग्रह भरा सान्निध्य बराबर उपलब्ध हुआ। यत्र तत्र आचार्यश्री महाप्रज्ञ के मार्गदर्शन से भी कार्य सुगम होता रहा। साध्वी जिनप्रभाजी ने इस खण्ड के सम्पादन में अतिरिक्त निष्ठा से काम किया। परिशिष्ट के यन्त्रों में पूरा श्रम उन्हीं का लगा है। जोड़ की पाण्डुलिपि के समानान्तर मूलपाठ और वृत्ति की पाण्डुलिपि साध्वी स्वर्णरेखाजी ने तैयार की। हमारे सामने मूलपाठ को लेकर कोई भी कठिनाई आई, मुनि हीरालालजी का सहयोग सहज भाव से उपलब्ध होता रहा। प्रूफ निरीक्षण में साध्वी विभाश्रीजी और स्वस्तिकाश्रीजी का भी श्रम लगा। गुरुजनों की कृपा और साध्वियों के सहयोग से भगवती-जोड़ जैसे विशाल ग्रन्थ का सम्पादन हो रहा है, इसकी मुझे प्रसन्नता है।

११ जनवरी १९९६
लाडनूँ, ऋषभद्वार

—साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा

विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ	पृथ्वीकाय में असन्नी मनुष्य की आगति	१०५
प्रथम नरक में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	६	पृथ्वीकाय में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	१०५
प्रथम नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	१८	पृथ्वीकाय में असुरकुमार की आगति	१०७
दूसरी नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	२७	पृथ्वीकाय में नवनिकाय की आगति	१११
तीसरी से छट्टी नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	२८	पृथ्वीकाय में व्यंतर की आगति	११३
सातवीं नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	२९	पृथ्वीकाय में ज्योतिषी की आगति	११४
प्रथम नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	३७	पृथ्वीकाय में सौधर्म देव की आगति	११६
दूसरी नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	४४	पृथ्वीकाय में ईशान देव की आगति	११७
तीसरी से छट्टी नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	४७	अपकाय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२०
सातवीं नरक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	४७	तेजकाय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२१
असुरकुमार में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	५२	वायुकाय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२३
असुरकुमार में तिर्यच यौगलिक की आगति	५३	वनस्पति में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२३
असुरकुमार में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	५९	बेइन्द्रिय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२५
असुरकुमार में मनुष्य यौगलिक की आगति	६२	तेइन्द्रिय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२७
असुरकुमार में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	६५	चउरिन्द्रिय में पृथ्वीकाय आदि की आगति	१२९
नागकुमार में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	६७	तिर्यच पंचेंद्रिय में प्रथम नरक की आगति	१३०
नागकुमार में तिर्यच यौगलिक की आगति	६८	तिर्यच पंचेंद्रिय में दूसरी से छट्टी नरक की आगति	१३४
नागकुमार में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	७१	तिर्यच पंचेंद्रिय में सातवीं नरक की आगति	१३४
नागकुमार में मनुष्य यौगलिक की आगति	७४	तिर्यच पंचेंद्रिय में पृथ्वीकाय की आगति	१३७
नागकुमार में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	७६	तिर्यच पंचेंद्रिय में अपकाय से चउरिन्द्रिय की आगति	१३९
सुपर्णकुमार से स्तनितकुमार में नागकुमार की तरह	७८	तिर्यच पंचेंद्रिय में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	१४०
पृथ्वीकाय में पृथ्वीकाय की आगति	७९	तिर्यच पंचेंद्रिय में असन्नी मनुष्य की आगति	१४८
पृथ्वीकाय में अपकाय की आगति	८३	तिर्यच पंचेंद्रिय में सन्नी मनुष्य की आगति	१४८
पृथ्वीकाय में तेजकाय की आगति	८६	तिर्यच पंचेंद्रिय में असुरकुमार की आगति	१५३
पृथ्वीकाय में वायुकाय की आगति	८७	तिर्यच पंचेंद्रिय में नवनिकाय की आगति	१५५
पृथ्वीकाय में वनस्पतिकाय की आगति	८९	तिर्यच पंचेंद्रिय में व्यंतर की आगति	१५६
पृथ्वीकाय में बेइन्द्रिय की आगति	९३	तिर्यच पंचेंद्रिय में ज्योतिषी की आगति	१५७
पृथ्वीकाय में तेइन्द्रिय की आगति	९७	तिर्यच पंचेंद्रिय में सौधर्म देव की आगति	१५९
पृथ्वीकाय में चउरिन्द्रिय की आगति	९८	तिर्यच पंचेंद्रिय में ईशान देव से सहस्रार देव तक की आगति	१६१
पृथ्वीकाय में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	१०१	मनुष्य में प्रथम नरक की आगति	१६४
पृथ्वीकाय में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	१०३	मनुष्य में दूसरी से छट्टी नरक की आगति	१६६
		मनुष्य में पृथ्वीकाय की आगति	१६८
		मनुष्य में अपकाय आदि की आगति	१७०
		मनुष्य में असुरकुमार की आगति	१७१
		मनुष्य में नवनिकाय की आगति	१७२
		मनुष्य में सनत्कुमार आदि देवों की आगति	१७३

मनुष्य में नौवें देवलोक के देवों की आगति	१७३	पहले देवलोक में मनुष्य यौगलिक की आगति	१९७
मनुष्य में दसवें से बारहवें देवलोक के देवों की आगति	१७४	पहले देवलोक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य	
मनुष्य में ग्रैवेयक देवों की आगति	१७६	की आगति	१९८
मनुष्य में अनुत्तर विमान के देवों की आगति	१७९	दूसरे देवलोक में मनुष्य यौगलिक की आगति	१९९
व्यंतर में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय की आगति	१८१	तीसरे देवलोक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच	
व्यंतर में तिर्यच यौगलिक की आगति	१८१	की आगति	२००
व्यंतर में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच की आगति	१८३	तीसरे देवलोक में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य	
व्यंतर में मनुष्य यौगलिक की आगति	१८३	की आगति	२००
व्यंतर में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	१८३	चौथे से आठवें देवलोक में सन्नी तिर्यच व सन्नी	
ज्योतिषी में तिर्यच यौगलिक की आगति	१८४	मनुष्य की आगति	२०१
ज्योतिषी में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय		नौवें देवलोक में सन्नी मनुष्य की आगति	२०२
की आगति	१८८	दसवें से बारहवें देवलोक में सन्नी मनुष्य की आगति	२०३
ज्योतिषी में मनुष्य यौगलिक की आगति	१९०	नौ ग्रैवेयक में सन्नी मनुष्य की आगति	२०४
ज्योतिषी में संख्याता वर्ष के सन्नी मनुष्य की आगति	१९१	चार अनुत्तर विमान में सन्नी मनुष्य की आगति	२०४
पहले देवलोक में तिर्यच यौगलिक की आगति	१९३	सर्वार्थसिद्ध में सन्नी मनुष्य की आगति	२०५
पहले देवलोक में संख्याता वर्ष के सन्नी तिर्यच			
की आगति	१९६		

चतुर्विंशतितम शतक

गर्सां नों अधिकाऱ

२४ दण्डक नां ४४ घर

७ नारकी ७	१० भवनपति १०	५ स्थावर ५	३ विकलेन्द्रिय ३	१ तिर्यंचपंचेन्द्रिय १	१ मनुष्यपंचेन्द्रिय १	व्यंतर १	ज्योतिषी १	१२ देवलोक १२	९ ग्रैवेयक ९	४ अनुत्तर विमान १	सर्वार्थसिद्ध १	कुल ४४
--------------	-----------------	---------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------------------	--------------------	-----------

४४ घरां में ३२१ ठिकानां नां ऊपजै तेहनों विवरो

घर	जिण ठिकानां नां ऊपजै तेहनां नाम	सख्या
१	प्रथम नरक ३ ठिकानां नां ऊपजै—असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय २ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ३	३
२-७	शेष छह नरक २-२ ठिकानां नां ऊपजै—सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १ सन्नी मनुष्य २ × ६ =	१२
८-१७	दश भवनपति ५-५ ठिकानां नां ऊपजै—असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १ तिर्यंच युगलियो २ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ३ मनुष्य युगलियो ४ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ५ ५ × १० =	५०
१८-२०	पृथ्वी, पानी, वसस्पति २६-२६ ठिकानां नां ऊपजै — पांच स्थावर ५ तीन विकलेन्द्रिय ८ असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ९ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १० सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ११ असन्नी मनुष्य १२ दस भवनपति २२ वाणव्यंतर २३ ज्योतिषी २४ प्रथम दो देवलोक २६ २६ × ३ =	७८
२१-२५	तेउ, वायु, तीन विकलेन्द्रिय १२-१२ ठिकानां नां ऊपजै—पांच स्थावर ५ तीन विकलेन्द्रिय ८ असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ९ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १० सन्नी मनुष्य ११ असन्नी मनुष्य १२	६०
२६	तिर्यंच पंचेन्द्रिय ३९ ठिकाना नां ऊपजै—सात नारकी ७ पांच स्थावर १२ तीन विकलेन्द्रिय १५ असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १६ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १७ असन्नी मनुष्य १८ सन्नी मनुष्य १९ दस भवनपति २९ वाणव्यंतर ३० ज्योतिषी ३१ प्रथम आठ देवलोक ३९	३९

घर	जिण-जिण ठिकानां नां ऊपजै तेहनां नाम	सख्या
२७	मनुष्य ४३ ठिकानां नां ऊपजै—छह नारकी ६ पृथ्वी ७ अप ८ वसस्पति ९ तीन विकलेन्द्रिय १२ असन्नी मनुष्य १३ असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १४ सन्नी तिर्यंच १५ सन्नी मनुष्य १६ दस भवनपति २६ वाण- व्यंतर २७ ज्योतिषी २८ बारह देवलोक ४० ग्रैवेयक ४१ च्यार अनुत्तर विमान ४२ सर्वार्थ- सिद्ध ४३	४३
२८	वाणव्यंतर ५ ठिकानां नां ऊपजै—असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १ तिर्यंच युगलियो २ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ३ मनुष्य युगलियो ४ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ५	५
२९	ज्योतिषी ४ ठिकानां नां ऊपजै—तिर्यंच युगलियो १ मनुष्य युगलियो २ सन्नी तिर्यंच ३ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ४	४
३०, ३१	प्रथम दो देवलोक ४ ठिकानां नां ऊपजै—तिर्यंच युगलियो १ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय २ मनुष्य युगलियो ३ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि ४	४
३२-३७	तीसरे से आठवें देवलोक २-२ ठिकानां नां ऊपजै—सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय १ सन्नी मनुष्य २	१२
३८-४४	ऊपर के च्यार देवलोक, ग्रैवेयक, च्यार अनुत्तरविमान सर्वार्थ सिद्ध १-१ ठिकानां नां ऊपजै— सन्नी मनुष्य कर्मभूमि १ १ × ७ =	७

३२१

२८०५ गमा नों विवरो

४४ वरां में ३२१ ठिकाणां ना उपजै । १-१ ठिकाणां में ९-९ गमां हुवै—

१. ओधिक नै ओधिक
२. ओधिक नै जधन्य
३. ओधिक नै उत्कृष्ट
४. जधन्य नै ओधिक
५. जधन्य नै जधन्य
६. जधन्य नै उत्कृष्ट
७. उत्कृष्ट नै ओधिक
८. उत्कृष्ट नै जधन्य
९. उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट

१ × ३२१ = २८८९ गमा
६४ गमा टूटे-८४

२८०५ गमा

८४ गमा टूटे तेहतों विवरो

	गमा टूटा
पृथ्वी १ पानी २ वनस्पति ३ बेइन्द्रिय ४ तेइन्द्रिय ५ चउरिन्द्रिय ६ असन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ७ सन्नी तिर्यंच पंचेन्द्रिय ८ असन्नी मनुष्य ९ सन्नी मनुष्य कर्मभूमि १०	असन्नी मनुष्य उपजतां ३-३ गमा हुवै ६-६ गमा टूटे ६ × १० = ६०
ज्योतिषी १ सौधर्म २ ईशान ३	तिर्यंच युगलियो उपजतां ७-७ गमा हुवै, २-२ गमा टूटे मनुष्य युगलियो उपजतां ७-७ गमा हुवै, २-२ गमा टूटे २ × ३ = ६ २ × ३ = ६
मनुष्य	सर्वार्थ सिद्ध थकी चवी मनुष्य उपजतां ३ गमा हुवै शेष ६ गमा टूटे ६
सर्वार्थ सिद्ध	कर्मभूमि मनुष्य उपजतां ३ गमा हुवै, ६ गमा टूटे ६ ८४

चतुर्विंशतितम शतक

ढाल : ४१२

डूहा

१. आख्यो शत तेवीसमो, अथ अवसर आयात ।
शत चउवीसम आदि में, द्वार संग्रह गाथ ॥
- उपपात आदि बीस द्वार
२. नारक प्रभु ! किहां थकी, ऊपजवो उत्पात ।
ऊपजस्यै नरकादि में, तसु परिमाण कहात ॥
३. किसान संघयण तणों घणी, नारक प्रमुखे जंत ।
उच्चपणै अवगाहना, तेह तणीं स्यूं हुंत ॥
४. फुन संठाण रु लेश वलि, दृष्टि रु ज्ञान अज्ञान ।
जोग अनै उपयोग फुन, संज्ञा कषाय जान ॥
५. इंद्रिय तिण में केतली, समुद्धात वेदन् ।
कहिवा वेद रु आउखो, अध्यवसाय प्रपन्न ॥
६. कहिवो फुन अनुबंध तसु, कायसंवेध कहाय ।
चउवीसम शत नै विषे, बीस द्वार ए आय ॥
७. हिव चउवीसम शतक नां, उद्देशक परिमाण ।
तेह जाणवा नै अर्थ, आगल गाथा जाण ॥
८. नारक आदि देई करी, जीव पदे अवधार ।
जीव तणां चउवीस जे, दंडक करि सुविचार ॥
९. एक-एक दंडक तणों, उद्देशक इक-एक ।
उद्देशक चउवीस इम, शत चउवीसम पेख ॥
- बा०—ए गाथा उक्त द्वार नीं दोग गाथा थकी किहांइक पहिलां दीसै छै ।
१०. नगर राजगृह नै विषे, जाव वदै वच एम ।
गोतम भक्ता वीर नों, प्रश्न करै धर प्रेम ॥

१. व्याख्यातं त्रयोविंशं शतम्, अथावसरायात्तं चतुर्विंशं
शतं व्याख्यायते, तस्य चादावेवेदं सर्वोद्देशकद्वारसंग्रह-
गाथाद्वयम्— (वृ० प० ८०५)
२. १. उववाय २. परीमाणं,
'उववाय' ति नारकादयः कुत उत्पद्यन्ते? इत्येव-
मुपपातो वाच्यः 'परीमाणं' ति ये नारकादिषूत्पत्-
स्यन्ते तेषां स्वकाये उत्पद्यमानानां परिमाणं वाच्यं
(वृ० प० ८०८)
३. ३.५. संघयणुच्चत्तमेव
'संघयणं' ति तेषामेव नारकादिषूत्पत्सूनां संहननं
वाच्यम् 'उच्चत्तं' ति नारकादियायिनामवगाहना-
प्रमाणं वाच्यम्, (वृ० प० ८०८)
४. ५. संठाणं । ६. लेस्सा ७. दिट्ठी ८. नाणे, अण्णाणे
९. जोग १०. उवओगे ॥१॥ ११ सण्णा १२. कसाय
५. १३. इंदिय, १४. समुग्घाया १५. वेदणा य १६ वेदे
य । १७. आउं १८. अज्जवसाणा,
६. १९. अणुबंधो २०. कायसंवेहो ॥२॥
७. अथाधिकृतशतस्योद्देशकपरिमाणपरिज्ञानार्थं गाथा-
माह— (वृ० प० ८०९)
- ८, ९. जीवपदे जीवपदे, जीवाणं दंडगम्मि उद्देशो ।
चउवीसतिमम्मि सए, चउवीसं होति उद्देशा ॥३॥
- बा०—इयं च गाथा पूर्वोक्तद्वारगाथाद्वयात् क्वचित्
पूर्वं दृश्यत इति । (वृ० प० ८०९)
१०. रायगिहे जाव एवं वयासी—

नरक का अधिकार

*जय जय ज्ञान जिनेंद्र नों ॥ (ध्रुपदं)

११. प्रभु ! नारक किहां थकी ऊपजै ?
स्यं नारक थी उपजंत हो ? जिनेंद्र !
कै तिरि मनु सुर थी हुवै ?
जिन भाखै सुण संत हो । मुणिंद्र !
१२. नारक थी नहि ऊपजै, तिर्यच थी उपजंत हो ।
मनुष्य थकी पिण ऊपजै, देव थकी नहि हुंत हो ॥
१३. जो तिर्यच थी ऊपजै, स्यं एकेंद्री थी उपजंत हो ?
बे.ते. चउरिंद्री थी ऊपजै, तिर्यच पंचेंद्री थी हुंत हो ?
१४. जिन कहै एकेंद्री थी नहि हुवै, बे.ते. चउरिंद्री थी नांय हो ।
तिर्यच पंचेंद्री थकी, नरक विषे उपजाय हो ॥
१५. जो तिरि पंचेंद्री थकी, नरक विषे उपजंत हो ।
तो स्यं सन्नी पं. तिरि थकी,
असन्नी पं. तिरि थी हुंत हो ?
१६. जिन कहै सन्नी-पंचेंद्री तिर्यच थी पिण हुंत हो ।
असन्नी पं. तिरि थी पिण बलि, नरक विषे उपजंत हो ॥
१७. जो असन्नी-पंचेंद्री-तिर्यच थी, नरक विषे उपजंत हो ।
तो स्यं जलचर थी ऊपजै, कै थल-खहचर थी हुंत हो ?
१८. जिन कहै जलचर पिण मरी, नरक विषे ऊपजेह हो ।
थलचर मरि पिण ऊपजै, खहचर पिण हुवै तेह हो ॥
१९. जो जल-थल-खहचर थकी, नरक विषे उपजंत हो ।
स्यं पर्याप्ता थी ऊपजै, कं अपर्याप्ता थी हुंत हो ?
२०. जिन कहै पर्याप्तो मरो, ऊपजै नरक मभार हो ।
अपर्याप्तो नहि ऊपजै, बलि पूछे गणधार हो ॥
प्रथम नरक में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय उपजै, तेहनों अधिकार'
२१. हे प्रभुजी ! पर्याप्त जे, असन्नी पंचेंद्री तिरि तेह हो ।
ऊपजवा जोग्य नरक में, किती पृथ्वी विषे उपजेह हो ?
२२. जिन भाखै सुण गोयमा ! एक रत्नप्रभा रै मांय हो ।
असन्नी पंचेंद्री तिर्यच नों पर्याप्तो मरी थाय हो ॥

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

१. परि. २, यंत्र १

६ भगवती जोड़

११. नेरइया णं भंते ! कओंहितो उववज्जंति—कि
नेरइएंहितो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिएंहितो
उववज्जंति ? मणुस्सेंहितो उववज्जंति ? देवेंहितो
उववज्जंति ?
१२. गोयमा ! नो नेरइएंहितो उववज्जंति, तिरिक्ख-
जोणिएंहितो उववज्जंति, मणुस्सेंहितो वि उववज्जंति
नो देवेंहितो उववज्जंति । (श० २४१)
१३. जइ तिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति—कि एगिदिय-
तिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति जाव पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति ?
१४. गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्खजोणिएंहितो उव-
वज्जंति, नो बेदिय, नो तेइदिय, नो चउरिदिय,
पंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति ।
(श० २४२)
१५. जइ पंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति—कि
सण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति ?
असण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति ?
१६. गोयमा ! सण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो
उववज्जंति, असण्ण-पंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो
वि उववज्जंति । (श० २४३)
१७. जइ असण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिएंहितो
उववज्जंति—कि जलचरेंहितो उववज्जंति ? थल-
चरेंहितो उववज्जंति ? खहचरेंहितो उववज्जंति ?
१८. गोयमा ! जलचरेंहितो उववज्जंति, थलचरेंहितो
वि उववज्जंति, खहचरेंहितो वि उववज्जंति ।
(श० २४४)
१९. जइ जलचर-थलचर-खहचरेंहितो उववज्जंति—कि
पज्जत्तएंहितो उववज्जंति ? अपज्जत्तएंहितो
उववज्जंति ?
२०. गोयमा ! पज्जत्तएंहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तए-
ंहितो उववज्जंति । (श० २४५)
२१. पज्जत्ताअसण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते !
जे भविए नेरइएसु उववज्जत्तए, से णं भंते ! कतिसु
पुढवोसु उववज्जेज्जा ?
२२. गोयमा ! एगाए रयणप्पभाए पुढवीए उववज्जेज्जा ।
(श० २४६)

वा०—इहां असत्री-तिर्यंच-पंचेंद्री रत्नप्रभा में ऊपजै, तेहनां नव गमा—
ओधिक नै ओधिक १, ओधिक नै जघन्य २, ओधिक नै उत्कृष्ट ३, जघन्य नै
ओधिक ४, जघन्य नै जघन्य ५, जघन्य नै उत्कृष्ट ६, उत्कृष्ट नै ओधिक ७,
उत्कृष्ट नै जघन्य ८, उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट ९, ए नव गमक में ओधिक नै ओधिक
प्रथम गमो कहै छै—

ओधिक नै ओधिक [१]

१. उपपात द्वार

२३. असत्री पं. तिरि पर्याप्तो, रत्नप्रभा नै विषेह हो ।
नारकपणै ऊपजवा जोग्य जे, किति स्थिति विषे उपजेह हो ?

२४. श्री जिन भाखै जघन्य थी, दश सहस्र वर्ष स्थितिकेह हो ।
उत्कृष्ट पल्योपम तणों, असंख्यातमा भाग विषेह हो ॥

२. परिमाण द्वार

२५. असत्री पंचेंद्री तिरियोनिक प्रभु! पर्याप्ता छै जेह हो ।
एक समय किता ऊपजै, रत्नप्रभा नै विषेह हो ?

२६. श्री जिन भाखै जघन्य थी, एक दोय नै तीन हो ।
उत्कृष्ट संख्याता ऊपजै, अथवा असंख कथीन हो ॥

३. संघयण द्वार

२७. स्यूं प्रभु ! ते जीवां तणों, तनु संघयणी कहाय हो ?
श्री जिन भाखै छेवट्ट-संघयणी छै ताय हो ॥

४. अवगाहना द्वार

२८. हे प्रभुजी ! ते जीवा तणों, कित्ती मोटी काय हो ।
शरीर तणों अवगाहना, असत्री पं. तिरि नों कहाय हो ?

२९. श्री जिन भाखै जघन्य थी, आंगुल नों अवधार हो ।
असंख्यातमो भाग छै, उत्कृष्ट योजन हजार हो ॥

५. संठाण द्वार

३०. हे प्रभु ! ते जीवां तणों, तनु नों स्यूं संठाण हो ?
जिन कहै हुंड संठाण छै, ए आकार पिच्छाण हो ॥

६. लेश्या द्वार

३१. हे प्रभु ! ते जीवां तणों, कितरी लेश्या होत हो ?
जिन कहै त्रिण लेश्या कही, कृष्ण नील कापोत हो ॥

७. दृष्टि द्वार

३२. हे प्रभुजी ! ते जीवड़ा, स्यूं समदृष्टी होय हो ।
कै मिथ्यादृष्टी तिके, कै समामिथ्यादृष्टी सोय हो ?

२३. पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिण ए णं भंते ! जे
भविण्ण रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु उववज्जित्तए,
से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?

२४. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु, उक्को-
सेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्ठितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।७)

२५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?

२६. गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति !
(श० २४।८)

२७. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंघयणी
पणत्ता ? गोयमा ! छेवट्टसंघयणी पणत्ता ।
(श० २४।९)

२८. तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा
पणत्ता ?

२९. गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं,
उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । (श० २४।१०)

३०. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया पणत्ता?
गोयमा ! हुंडसंठिया पणत्ता । (श० २४।११)

३१. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पणत्ताओ ?
गोयमा ! तिण्णि लेस्साओ पणत्ताओ, तं जहा—
कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा ।
(श० २४।१२)

३२. ते णं भंते ! जीवा कि सम्मदिट्ठी ? मिच्छादिट्ठी
सम्मामिच्छादिट्ठी ?

१. असत्री तिर्यंच पंचेंद्रिय नों समुच्चय स्थिति अनै रत्नप्रभा नै विषे पिण
समुच्चय स्थिति ।

३३. जिन कहै ते असन्नी-तिरि., समदृष्टी नहिं ताहि हो ।
मिथ्यादृष्टी तेह छै, समामिथ्यादृष्टी नाहि हो ॥

वा०—इहां पर्याप्ता असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय नीं पूछा छै । ते पर्याप्ता में
सास्वादन समदृष्टि न पावै, ते भणी समदृष्टि वरजी दीसै छै ।

८. ज्ञान-अज्ञान द्वार

३४. स्यूं ज्ञानी अज्ञानी तेह छै ? जिन कहै ज्ञानी नांय हो ।
अज्ञानी निश्चै करी, मति श्रुत अनाणी कहाय हो ॥

९. जोग द्वार

३५. ते मन जोगी स्यूं प्रभु ! कै वच काय प्रयोग हो ?
जिन कहै मन जोगी नहीं, होवै वचन काय जोग हो ॥

१०. उपयोग द्वार

३६. ते प्रभुजी ! स्यूं जीवड़ा, सागारोवउत्ता कहाय हो ।
अणागारोवउत्ता तिके ? जिन कहै दोनूं थाय हो ॥

११. संज्ञा द्वार

३७. प्रभु ! संज्ञा कती ते जीव रै ? जिन कहै संज्ञा च्यार हो ।
आहार संज्ञा नैं भय संज्ञा, मिथुन परिग्रह धार हो ॥

१२. कषाय द्वार

३८. हे प्रभुजी ! ते जीव रै, केतली कही कषाय हो ?
जिन कहै च्यार कषाय छै, क्रोधादिक कहिवाय हो ॥

१३. इन्द्रिय द्वार

३९. कति इंद्री प्रभु ! तेहनैं ? जिन कहै इंद्रिय पंच हो ।
दाखी धुर श्रोतेंद्रिय, जाव फासेदिय संच हो ॥

१४. समुद्घात द्वार

४०. प्रभु ! समुद्घात कति तेहनैं ? जिन भाखै त्रिण हुंत हो ।
समुद्घात धुर वेदना, कषाय नैं मारणंत हो ॥

१५. वेदग द्वार

४१. सातावेदगा ते प्रभु ! कै असातावेदग हुंत हो ?
जिन कहै सातावेदगा, असाता पिण वेदंत हो ॥

१६. वेद द्वार

४२. स्यूं प्रभु ! ते स्त्रीवेदगा, कै पुरुष नपुंसक सोय हो ?
जिन भाखै स्त्री पुं. नहीं, वेद नपुंसक होय हो ॥

१७. स्थिति द्वार

४३. प्रभु ! किता काल नीं स्थिति तसु ?
भाखैं जिन गुणिमोड़ हो ।
अंतर्मुहूर्त जघन्य थी, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ हो ॥

८ भगवती जोड़

३३. गोयमा ! नो सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मा-
मिच्छादिट्टी । (श० २४।१३)

३४. ते णं भंते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ?

गोयमा ! नो नाणी, अण्णाणी, नियमा दुअण्णाणी,
तं जहा—

मइअण्णाणी य, सुयअण्णाणी य । (श० २४।१४)

३५. ते णं भंते ! जीवा कि मणजोगी ? वइजोगी ?
कायजोगी ?

गोयमा ! नो मणजोगी, वइजोगी वि, कायजोगी
वि । (श० २४।१५)

३६. ते णं भंते ! जीवा कि सागारोवउत्ता ? अणा-
गारोवउत्ता ?

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि ।
(श० २४।१६)

३७. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति सण्णाओ पण्णत्ताओ ?
गोयमा ! चत्तारि सण्णाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

आहारसण्णा, भयसण्णा, मेहुणसण्णा परिग्गहसण्णा ।
(श० २४।१७)

३८. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति कसाया पण्णत्ता ?

गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा—
कोहकसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभकसाए ।
(श० २४।१८)

३९. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति इंदिया पण्णत्ता ?

गोयमा ! पंचेंदिया पण्णत्ता, तं जहा—सोइंदिए
जाव फासिंदिए । (श० २४।१९)

४०. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति समुग्घाया पण्णत्ता ?

गोयमा ! तओ समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा—
वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, मारणंतिय-
समुग्घाए । (श० २४।२०)

४१. ते णं भंते ! जीवा कि सायावेयगा ? असाया-
वेयगा ?

गोयमा ! सायावेयगा वि, असायावेयगा वि ।

(श० २४।२१)

४२. ते णं भंते ! जीवा कि इत्थीवेदगा ? पुरिसवेदगा ?
नपुंसगवेदगा ?

गोयमा ! नो इत्थीवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुंसक-
वेदगा । (श० २४।२२)

४३. तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतियं कालं ठित्ठी
पण्णत्ता ?

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्व-
कोडी । (श० २४।२३)

१८. अध्यवसाय द्वार

४४. प्रभु! अध्यवसाय तसु केतला ? जिन भाखै असंख्यात हो ।
पसत्थ अपसत्थ स्यूं प्रभु ! जिन कहै बिहुं आख्यात हो ॥

१९. अनुबंध द्वार

४५. हे प्रभु ! ते पर्याप्तो-असन्नी पंचेंद्री तिर्यंच हो ।
काल थकी कितरो अद्धा ? ए अनुबंध सुसंच हो ॥
४६. श्री जिन भाखै जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त्त होय हो ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ है, आयु जितो अवलोय हो ॥

२०. कायसंवेध द्वार

४७. ते प्रभुजी ! पर्याप्तो-असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच हो ।
रत्नप्रभा पृथ्वी विषे, नरकपणं रहि संच हो ॥
४८. पुनरपि ह्वै पर्याप्तो-असन्नी पंचेंद्री तिरि न्हाल हो ।
इम केतलो काल सेवै तिको,
करै गति आगति कितो काल हो ?
४९. जिन भाखै भव आश्रयी, बे भव ग्रहण सुजोय हो ।
इक भव तिरि पं. असन्नियो, दूजो नारक भव होय हो ॥

सोरठा

५०. मरी नेरइयो सोय, अंतर रहित सन्नीज ह्वै ।
असन्नी न ह्वै कोय, ते माटै भव ग्रहण बे ॥
५१. *काल आश्रयी जघन्य थी, वर्ष सहस्र दश तास हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, हिव तसु न्याय विमास ही ॥

सोरठा

५२. वर्ष सहस्र दश वक्क, जघन्य स्थिति नारक तणी ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक, असन्नी पं. तिरि आउखो ॥

५३. उत्कृष्ट पत्योपम तणी, असंख्यातमो भाग हो ।
कोड़ पूर्व वले अधिक ही, हिव तसु न्याय सुमाग हो ॥

वा०—इहां असन्नी भवे पूर्व कोड़ उत्कृष्ट आउखो भोगवी पहिली नरके
पत्य के असंख्यातमे भाग नेरइयापणै रूपनो । ए बिहुं भव उत्कृष्ट स्थिति नूं
काल जाणवूं ।

५४. सेवै कालज एतलो, करै गति आगति इतो काल हो ।
ओधिक नैं ओधिक गमो, दाखयो प्रथम दयाल हो ॥

वा०—इहां ज्ञान-अज्ञान द्वार एक गिणियो ते माटै बीस द्वार जाणवा ।
इति ओधिक नैं ओधिक प्रथम गमक कह्यो । असन्नी-तिर्यंच-पंचेंद्री पर्याप्तो

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

४४. तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतिया अज्झवसाणा
पण्णत्ता ?

गोयमा ! असंखेज्जा अज्झवसाणा पण्णत्ता ।

(श० २४।२४)

ते णं भंते ! कि पसत्था ? अप्पसत्था ?

गोयमा ! पसत्था वि, अप्पसत्था वि ।

(श० २५।२५)

४५. से णं भंते ! पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ?

४६. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्व-
कोडी ।

(श० २४।२६)

४७. से णं भंते ! पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
रयणप्पभाए पुढवीए नेरइए,

४८. पुणरवि पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति
केवतियं कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ?

४९. गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,
'दो भवग्गहणाइं' ति एकत्रासञ्जी द्वितीये नारकः
(वृ० प० ८०९)

५०. ततो निर्गतः सन्ननन्तरतया सञ्जित्वमेव लभते न
पुनरसञ्जित्वमिति, (वृ० प० ८०९)

५१. कालादेसेणं जहण्णेणं दस वाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मभहियाइं,

५२. दश वर्षसहस्राणि नारकजघन्यस्थितिरन्तर्मुहूर्त्ताभ्यधि-
कानि असञ्जित्वमेवसम्बन्धिजघन्यायुः सहितानीत्यर्थः
(वृ० प० ८०९)

५३. उक्कोसेणं पल्लिवोवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडि-
मभहियं,

वा०—इह पत्योपमासंख्येयभागः पूर्वभवासञ्जित्-
नारकोत्कृष्टायुष्करूपः पूर्वकोटी चासञ्जित्युत्कृष्टा-
युष्करूपेति, (वृ० प० ८०९)

५४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ॥१॥ (श० २४।२७)

समुच्चय ग्रहण कियो । अनै प्रथम नरके नेरइयापणै उपजै ते नेरइयो पिण समुच्चय ग्रहण कियो । ए बिहुं नै स्थिति निकेवल जघन्यईज ग्रहण न कीधी तथा निकेवल उत्कृष्टईज ग्रहण न कीधी, जघन्य-उत्कृष्ट बेहुं समुच्चय ग्रहण कीधी । तिणसूं असन्नी-तिर्यच-पंचेंद्री अनै नारकी ए बिहुं नै ओधिक कहा । ते माटै ओधिक नै ओधिक ए प्रथम गमक कह्यो ॥१॥

औधिक नै जघन्य [२]

वा०—असन्नी-तिर्यच-पंचेंद्री नै तो ओधिक जघन्य स्थिति थकी उत्कृष्ट स्थिति लगै ग्रहण ए ओधिक अनै प्रथम नरके नेरइयापणै ऊपजै ए जघन्य । ते माटै ओधिक नै जघन्य—ए द्वितीय गमक बखाणियै छै—

५५. असन्नी पंचेंद्री तिर्यच पर्याप्तो-रत्नप्रभा में तेह हो ।
जघन्य काल स्थिति नै विषे,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेह हो ॥
५६. ते कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमास हो ।
ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थिति विषे,
उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वास हो ॥
५७. ते एक समय किता ऊपजै ? इम वक्तव्यता सहु एह हो ।
भणवी पूर्वली परै, यावत अनुबंध लेह हो ॥
५८. असन्नी पंचेंद्री तिर्यच पर्याप्तो, रत्नप्रभा रै विषेह हो ।
ऊपजी ते नारकपणै, जघन्य स्थिति भोगवी जेह हो ॥
५९. वलि असन्नी तिर्यच पंचेंद्री हुवै, सेवै केतलो काल हो ।
केतला काल लगै वली, करै गति आगति ते बाल हो ?
६०. जिन भाखै भव आश्रयी, बे भव ग्रहण संभाल हो ।
धुर भव असन्नी पं. तिरि तणों, द्वितीय नारक भव न्हाल हो ॥
६१. काल आश्रयी जघन्य थी, दश सहस्र वर्ष कहिवाय हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बिहुं भव अद्धा न्याय हो ॥

सोरठा

६२. असन्नी पं. तिर्यच, अंतर्मुहूर्त्त स्थिति तसु ।
नारक भवेज संच, स्थिति सहस्र दश वर्ष ही ॥
६३. *उत्कृष्टो अद्धा इतो, पूर्व कोड़ पिछाण हो ।
वर्ष सहस्र दश अधिक ही, बिहुं भव नां ए जाण हो ॥

सोरठा

६४. असन्नी पं. तिर्यच, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ वर्ष ।
नारक भव नों संच, वर्ष सहस्र दश अधिक ही ॥
६५. *सेवै कालज एतलो, करै गति आगति इतो काल हो ।
ओधिक नै वली जघन्य ही, द्वितीय गमक ए भाल हो ॥

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

१० भगवती जोड

५५. पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे
भविए जहण्णकालद्वितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु
उववज्जित्तए,
५६. से णं भंते ! केवइकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण
वि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेजा ।
(श० २४।२८)
५७. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
एवं सच्चेव वत्तव्वया निरवसेसा भाणियव्वा जाव
अणुबंधो त्ति ।
(श० २४।२९)
५८. से णं भंते ! पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
जहण्णकालद्वितीयरयणप्पभापुढविनेरइए,
५९. पुणरवि पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति
केवतियं कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ?
६०. गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,
६१. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहूत्त-
मब्भहियाइं,

६३. उक्कोसेणं पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि अब्भहिया,

६५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ॥२॥
(श० २४।३०)

ओधिक नै उत्कृष्ट (३)

वा०—असन्नी तिर्यच पंचेद्री नों तो जघन्य अनै उत्कृष्ट ए बिहुं आउखो ग्रहण कीधो ते ओधिक अनै रत्नप्रभा नै विषे उत्कृष्ट आउखै नेरइयापणै ऊपनो ते उत्कृष्ट, ते माटै ओधिक-उत्कृष्ट—ए तृतीय गमक बखाणियै छै—

६६. असन्नी तिर्यच पंचेद्री-पर्याप्तो रत्नप्रभा में तेह हो ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे, ऊपजवा योग्य नेरइयापणेह हो ॥

६७. प्रभु ! कितै काल स्थितिक ते उपजै ?
जिन कहै जघन्य थी तेह हो ।
पल्य नों भाग असंख्यातमो, ते स्थितिक विषे उपजेह हो ॥

६८. उत्कृष्ट थी पिण पल्य तणों, असंख्यातमो भाग हो ।
तेह स्थितिक विषे ऊपजै, ए जिन वचन सुमाग हो ॥
६९. हे प्रभुजी ! ते जीवड़ा, एक समय कितो उपजेह हो ?
अवशेष तिमज कहिवो सह, यावत अनुबंध लेह हो ॥

कायसंवेध द्वार

७०. असन्नी पंचेद्री तिरि पर्याप्तो, रत्नप्रभा में तेह हो ।
नेरइयापणै ऊपजी करी, उत्कृष्ट स्थिति भोगवेह हो ॥
७१. वलि असन्नो पं. तिरि पर्याप्त हुवै,
जाव गति आगति कितो काल हो ?
जिन भाखै भव आश्रयी, वे भव ग्रहण संभाल हो ॥

७२. काल आश्रयी जघन्य थी, बिहुं भव नों कहिवाय हो ।
पल्य नों भाग असंख्यातमो, अंतर्मुहूर्त अधिकाय हो ॥

सोरठा

७३. नारक भव नों न्हाल, भाग असंखिज पल्य तणों ।
असन्नी पं. तिरि काल, अंतर्मुहूर्त अधिक ही ॥
७४. *अद्धा उत्कृष्ट पल्य तणों, असंख्यातमों भाग हो ।
पूर्व कोइज अधिक ही, बिहुं भव अद्धा माग हो ॥

सोरठा

७५. नारक भव नों न्हाल, भाग असंखिज पल्य तणों ।
असन्नी पं. तिरि काल, अधिक कोइ पूर्व इहां ॥
७६. *सेव कालज एतलो, करै गति आगति इतो काल हो ।
ओधिक नै उत्कृष्ट ही, तृतीय गमक ए भाल हो ॥

जघन्य नै ओधिक [४]

वा—असन्नी-तिर्यच-पंचेद्री नों तो जघन्य स्थिति काल ए जघन्य अनै नरक नै विषे ते जघन्य उत्कृष्ट स्थितिक काल नै विषे ऊपजै, ए नरक नो ओधिक—ए चउथो गमक बखाणियै छै—

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

६६. पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणि ए णं जे भवि ए
उक्कोसकालट्टितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु
उववज्जित्तए,

६७. से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभाग-
ट्टितीएसु,

६८. उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।३१)

६९. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
अवसेसं तं चेव जाव अणुबंधो । (श० २४।३२)

७०. से णं भंते ! पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणि ए
उक्कोसकालट्टितीयरयणप्पभापुढविनेरइए,

७१. पुणरवि पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणि एत्ति
केवतियं कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ?

गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,
७२. कालादेसेणं जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं
अंतोमुहुत्तमब्भहियं,

७४. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडि-
मब्भहियं ।

७६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ॥३॥ (श. २४/३२)

७७. असन्नी पंचेद्री तिर्यंच पर्याप्तो, जघन्य आयुवंत जेह हो ।
रत्नप्रभा पृथ्वी विषे ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेह हो ॥

७८. ते किते काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुइष्ट हो ।
वर्ष सहस्र दश स्थितिक विषे,
पल्य नें असंख भाग उत्कृष्ट हो ॥

७९. हे प्रभुजी ! ते जीवडा, एक समय किता उपजेह हो ।
इत्यादिक जे सर्व ही, तिमहिज कहिवो तेह हो ॥

नाणत्ता

८०. णवरं ए त्रिण णाणत्ता, तीन द्वार में फेर हो ।
आयु अध्यवसाय अनुबंध ही, जूजुओ आगल हेर हो ॥
८१. असन्नी पंचेद्री तिरि पर्याप्तो,
ते जघन्य स्थितिक कहिवाय हो ।
ते रत्नप्रभा में ऊपजै, त्रिण णाणत्ता तिरि भव पाय हो ॥

नाणत्ता (१)

८२. तुर्यं गमक तिण कारणे, असन्नी पं. तिरि नुं इष्ट हो ।
जघन्यायु अंतर्मुहूर्त्त ही, अंतर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट हो ॥

नाणत्ता (२)

८३. हे प्रभु ! ते असन्नी तणां, केतला अध्यवसाय हो ?
श्री जिन भाखै असंख ही, अध्यवसाय कहाय हो ॥
८४. स्यूं अध्यवसाय तेहनां, भला अथवा भूंडा ताय हो ?
जिन भाखै नहिं छै भला, अपसत्थ अध्यवसाय हो ॥

सोरठा

८५. अध्यवसायज स्थान, अपसत्थ तेहनां आखिया ।
अंतर्मुहूर्त्त जान, तेहनीं स्थिति तिण कारणे ॥
८६. जघन्यायु तिरि ताय, नरक ऊपजवा जोग्य जे ।
अपसत्थ अध्यवसाय, पिण भला न आवै तेहनां ॥
८७. दीर्घं स्थिति जसु होय, असन्नी पं. तिरि पज्जत्त नीं ।
भला बुरा पिण जोय, काल बहु तिण कारणे ॥
८८. तिण कारण अवलोय, अपसत्थ अध्यवसाय नों ।
द्वितीय णाणत्तो होय, जघन्य स्थितिक पं. तिरि विषे ॥

नाणत्ता (३)

८९. अनुबंध अंतर्मुहूर्त्त ही, आयु तितोइज थाय हो ।
आख्यो तीजो णाणत्तो, शेष तिमज कहिवाय हो ॥

७७. जहणकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिद्व-
जोणिए णं भंते !

जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जत्तए ।
७८. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु,
उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।३४)

७९. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
सेसं तं चेव ।

८०. नवरं—इमाइं तिण्णि नाणत्ताइं—आउं,
अज्भवसाणा, अणुबंधो य ।

८२. जहण्णेणं ठिती अंतोमुहूर्त्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहूर्त्तं ।
(श० २४।३५)

८३. तेसि णं भंते ! जीवाणं केवतिया अज्भवसाणा
पण्णत्ता ?
गोयमा ! असंखेज्जा अज्भवसाणा पण्णत्ता ।
(श० २४।३६)

८४. ते णं भंते ! कि पसत्था ? अप्पसत्था ?
गोयमा ! नो पसत्था, अप्पसत्था ।

८५, ८६. अध्यवसायस्थानान्यप्रशस्तान्येवान्तर्मुहूर्त्तस्थितिक-
त्वात् । (वृ.प. ८०९)

८७. दीर्घस्थितेहि तस्य द्विविधान्यपि तानि संभवन्ति
कालस्य बहुत्वात् । (वृ.प. ८०९)

८९. अणुबंधो अंतोमुहूर्त्तं, सेसं तं चेव ।
(श० २४।३७)

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम ने

१२ भगवती जोड़

कायसंवेध द्वार

१०. जघन्य काल स्थितिक पर्याप्तो,
तिरि असन्नी पंचेंद्रि तेह हो ।
रत्नप्रभा में ऊपजी, आयु भोगवी नरकपणेह हो ॥
११. वलि असन्नी पंचेंद्रि तिर्यंच ह्वै,
जाव गति आगति कितो काल हो ?
जिन भाखै भव आश्रयी, बे भव ग्रहण निहाल हो ॥
१२. काल आश्रयी जघन्य थी, वर्ष सहस्र दश जन्य हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बे भव काल जघन्य हो ॥

सोरठा

१३. वर्ष दश सहस्र हजार, अद्धा नारक भव तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त धार, पर्याप्त असन्नी पं. तिरि ॥
१४. *उत्कृष्ट पल्योपम तणों, असंख्यातमो भाग हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, उत्कृष्ट अद्धा माग हो ॥
१५. सेवै कालज एतलो, करै गति आगति इतो काल हो ।
जघन्य अनै ओधिक गमक, दाख्यो तुर्य दयाल हो ॥

जघन्य नै जघन्य [५]

वा०—असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री नों आउखो जघन्य अनै नरक नै विषे जघन्य
आउखे ऊपजै ते माटै जघन्य अनै जघन्य—ए पंचमो गमक बखाणिये छै—

१६. असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तो,
जघन्य आयुवंत जेह हो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा विषे,
जघन्यस्थितिक नेरइयापणेह हो ॥
१७. प्रभु ! कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमास हो ।
ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थिति विषे,
उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वास हो ॥
१८. एक समय किता ऊपजै ? शेष तिमज कहिवाय हो ।
त्रिण णाणत्ता पूर्वली परै, आयु अनुबंध अद्यवसाय हो ॥

कायसंवेध द्वार

१९. जाव ते प्रभु ! जघन्य स्थिति नों धणी,
पर्याप्तो असन्नी पं. तिर्यंच हो ।
रत्नप्रभा जघन्य स्थिति नारके, आयु भोगवनै संच हो ॥
१००. वलि असन्नी पं. तिरि पर्याप्तो,
किता काल गतागति तास हो ?
जिन भाखै भव आश्रयी, बे भव ग्रहण विमास हो ॥

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

- १०,११. से णं भंते ! जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिए रयणप्पभाए जाव गति-
रागति करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं ।

१२. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहूर्त्त-
मम्भहियाइं ।

१४. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं अंतोमुहूर्त्त-
मम्भहियं ।
१५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ४ । (श० २४।३८)

वा०—एवं जघन्यस्थितिकं तं जघन्यस्थितिकेषु
तेषूत्पादयन्नाह— (वृ.प. ८०९)

१६. जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिए णं भंते !
जे भविए जहण्णकालद्वितीएसु रयणप्पभापुढवि-
नेरइएसु उववज्जित्तए ।
१७. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु,
उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।३९)
१८. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
सेसं तं चैव, ताइं चैव तिण्णि नाणत्ताइं ।

- १९,१००. जाव— (श० २४।४०)
से णं भंते ! जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिए जहण्णकालद्वितीयरयणप्पभा-
पुढविनेरइए पुणरवि जाव गतिरागति करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं ।

वा०—एक पर्याप्तो असन्नी तिर्यच पंचेद्री नों भव अनै दूजो नारकी नों भव—ए बे भव कह्या । पिण नरक थकी नीकल असन्नी पंचेद्री तिर्यच न हुवै, तिणसूं तीजो भव न कह्यो ।

१०१. काल आश्रयी जघन्य थी, वर्ष सहस्र दश जन्य हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, पंचम गमे काल जघन्य हो ॥
१०२. काल थकी उत्कृष्ट पिण, वर्ष सहस्र दस तास हो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बिहुं भव काल विमास हो ॥
१०३. सेवै कालज एतलो, इतो काल गतागति होय हो ।
जघन्य अनै वलि जघन्य ही, ए गमो पंचमो जोय हो ॥

सोरठा

१०४. जघन्य स्थिति पर्याप्त, असन्नी पं. तिर्यच ए ।
धुर नरके पिण प्राप्त, जघन्य स्थिति नारकपणें ॥
१०५. बिहुं भव स्थिति जघन्य, पंचम गमा विषे कही ।
ते माटे इहां जन्य, जघन्योत्कृष्टज तुल्य अद्धा ॥

जघन्य नै उत्कृष्ट [६]

वा०—असन्नी तिर्यच पंचेद्री पर्याप्ता नों जघन्य आउखो अनै रत्नप्रभा नै विषे उत्कृष्ट आउखै ऊपजै, ते माटे जघन्य नै उत्कृष्ट—ए छठो गमक बखाणियै छे—

१०६. *असन्नी पंचेद्री तिर्यच पर्याप्तो, जघन्य आयुवंत जेह हो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा विषे,
स्थिति उत्कृष्ट नेरइयापणेह हो ॥
१०७. ते कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमास हो ।
पल्य नों भाग असंख्यातमो,
उत्कृष्ट पिण इतरो इज तास हो ।
१०८. प्रभु ! एक समय कित्ता ऊपजै ?
अवशेष तिमज कहिवाय हो ।
पूर्ववत् त्रिण णाणत्ता, आयु अनुबंध अध्यवसाय हो ॥
कायसंवेध
१०९. जाव हे प्रभु ! जघन्य स्थितिक तिको,
पर्याप्त असन्नी पं. तिर्यच हो ।
रत्नप्रभा उत्कृष्ट स्थिति नारके, आयु भोगवनै संच हो ॥
११०. वलि असन्नी पं. तिरि पर्याप्तो,
कितो काल गतागति तास हो ?
जिन भाखै भव आश्रयी, बे भव ग्रहण विमास हो ।

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

१४ भगवती जोड़

१०१. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं ।
१०२. उक्कोसेण वि दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं ।
१०३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिराम्गतिं
करेज्जा ५ । (श० २४।४१)

वा०—एवं जघन्यस्थितिकं तमुत्कृष्टस्थितिषु-
तेषूत्पादयन्नाह— (वृ.प. ८०९)

१०६. जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिए णं भंते ! जे भविए उक्कोस
कालद्वितीएसु रयणप्पभापुढवि-नेरइएसु
उववज्जित्तए ।
१०७. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभाग-
द्वितीएसु, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइ
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श. २४।४२)
१०८. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
अवसेसं तं चेव, ताइं चेव तिण्णि नाणत्ताइं ।
१०९, ११०. जाव— (श० २४।४३)
से णं भंते ! जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिए उक्कोसकालद्वितीयरयणप्प-
भाए जाव गतिराम्गतिं करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गह्णाइं ।

१११. काल आश्रयी जघन्य थी, पत्य नों असंख्यातमो भाग हो ।
अंतर्मुहूर्त अधिक ही, उत्कृष्ट पिण इतोइज माग हो ॥

११२. सेवै कालज एतलो, गतागति करे इतो काल हो ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमो, षष्टम दाख्यो दयाल हो ॥

उत्कृष्ट नै ओधिक [७]

वा०—असन्नी पंचेद्री तिर्यंच पर्याप्ता नों उत्कृष्ट आउखो अनै पहली
नरके ओधिक आउखे नेरइयापणें उपनों ते माटै उत्कृष्ट अनै ओधिक—
ए सातमों गमक बखाणियै छै—

११३. असन्नी पंचेद्री तिर्यंच पर्याप्तो, उत्कृष्ट स्थितिके जेह हो ।
ते रत्नप्रभा पृथ्वी विषे, ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेह हो ॥

११४. ते कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुमाग हो ।

दश सहस्र वर्ष स्थितिक विषे,
उत्कृष्ट पत्य नों असंखिज भाग हो ॥

११५. तिके एक समय किता ऊपजै ? अवशेष बोल सुजोय हो ।
जिम ओधिक गमक विषे कह्यु,
तिमहिज जाणवो सोय हो ॥

११६. णवरं ए बिहुं स्थानके, नानात्व कहितां भेद हो ।
कहियै वे तसु णाणत्ता, स्थिति अनुबंध संवेद हो ॥

११७. स्थिति आउखो जघन्य थी, पूर्व कोड़ कहाय हो ।
पूर्व कोड़ उत्कृष्ट पिण, अनुबंध पिण इम थाय हो ॥

११८. आयु नें अनुबंध विना, शेष सर्व ही बोल हो ।
ओधिक प्रथम गमक विषे, तिमहिज कहिवा तोल हो ॥

कायसंवेध द्वार

११९. हे प्रभु! उत्कृष्ट स्थितिक ते, पर्याप्त असन्नी पं. तिर्यंच हो ।
रत्नप्रभा में नेरइयापणें, आयु भोगवनें संच हो ॥

१२०. वलि असन्नी तिर्यंच पंचेद्री हुवै,
जाव गति आगति कितो काल हो ?
जिन भाखै भव आश्रयी, वे भव ग्रहण संभाल हो ॥

१२१. काल आश्रयी जघन्य थी, बिहुं भव नों कहिवाय हो ।
पूर्व कोड़ पिच्छाणियै, दश सहस्र वर्ष अधिकाय हो ॥

सोरठा

१२२. पूर्व कोड़ पिच्छाण, असन्नी पं. तिरि आउखो ।
वर्ष सहस्र दश जाण, धुर नरके नारक तणें ॥

१२३. *अद्धा उत्कृष्ट पत्य तणों, असंख्यातमो भाग हो ।
कोड़ पूर्व अधिको वली, बिहुं भव अद्धा माग हो ॥

*त्यय : घिन-घिन जंबू स्वाम नै

१११. कालादेसेणं जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं
अंतोमुहुत्तमब्भहियं, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स
असंखेज्जइभागं अंतोमुहुत्तमब्भहियं ।

११२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ६ ।

(श० २४।४४)

वा०—एवमुत्कृष्टस्थितिकं तं सामान्येषु
तेषूत्पादयन्नाह— (बृ.प. ८०९)

११३. उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिए णं भंते ! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएसु
उववज्जित्तए,

११४. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु,
उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।४५)

११५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जति ? अवसेसं जहेव ओहियगमएणं तहेव
अणुगंतव्वं,

११६. नवरं इमाइं दोण्णि नाणत्ताइं

११७. ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्व-
कोडी । एवं अणुबंधो वि ।

११८. अवसेसं तं चेव । (श० २४।४६)

११९, १२०. से णं भंते ! उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ता-
असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए रयणप्पभाए जाव
गतिरागति करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,

१२१. कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं
अब्भहिया,

१२३. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइ भागं पुव्व-
कोडीए अब्भहियं,

सोरठा

१२४. पत्य तणों पहिछाण, असंख्यातमो भाग जे ।
नारक आयु जाण, असन्नी पं. तिरि कोड़ पुव्व ॥

१२५. *सेवै कालज एतलो, करे गति आगति इतो काल हो ।
उत्कृष्ट नै ओधिक कह्य, सप्तम गमक निहाल हो ॥

उत्कृष्ट नै जघन्य [८]

वा०—ते असन्नी पंचेंद्री तिर्यंच पर्याप्तो नों उत्कृष्ट आउखो ए
अने ते प्रथम नरके जघन्य आउखै नेरइयापणें ऊपणें ए जघन्य ते माटे
अने जघन्य—ए अष्टम गमक बखाणियै छै—

१२६. असन्नी पंचेंद्री तिर्यंच पर्याप्तो, उत्कृष्ट स्थितिक जेह हो ।
जघन्य स्थिति रत्नप्रभा नें विषे,

ऊपजवा योग्य नेरइयापणेह हो ॥

१२७. ते किते काल स्थितिक विषे ऊपजै ?

जिन कहै जघन्य विमास हो ।

दश सहस्र वर्ष स्थितिक विषे,

उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वास हो ॥

१२८. ते एक समय किता ऊपजै ? शेष तिमज कहिवाय हो ।
गमक सातमां जिम सहु, जाव कायसंवेध हिव आय हो ॥

कायसंवेध द्वार

१२९. हे प्रभु ! उत्कृष्ट स्थितिक ते,

पर्याप्त असन्नी पं. तिर्यंच हो ।

रत्नप्रभा में नेरइयापणें, जघन्य आयु भोगवनें संच हो ।

१३०. वलि असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री हुवै,

जाव गति आगति कितो काल हो ?

जिन भाखै भव आश्रयी, वे भव ग्रहण संभाल हो ॥

१३१. काल आश्रयी जघन्य थी, पूर्व कोड़ पिछाण हो ।
वर्ष सहस्र दश अधिक ही, उत्कृष्ट पिण इतो जाण हो ॥

सोरठा

१३२. पूर्व कोड़ सुपेख, असन्नी पं. तिरि आउखो ।
वर्ष सहस्र दश देख, रत्नप्रभा नारकपणें ॥

१३३. *सेवै कालज एतलो, जाव गति आगति इतो काल हो ।
उत्कृष्ट नै वलि जघन्य ही, अष्टम गमक निहाल हो ॥

उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट [९]

वा०—उत्कृष्ट आउखावंत असन्नी पंचेंद्री तिर्यंच पर्याप्तो ते प्रथम नरके
उत्कृष्ट आउखे नेरइयापणें ऊपजै, ते माटे उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट—ए नवमो गमक
बखाणियै छै—

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

१६ भगवती जोड़

१२५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७ । (श० २४।४७)

वा०—एवमुत्कृष्टस्थितिकं तं जघन्यस्थितिकेषु
तेषूत्पादयन्नाह— (वृ० प० ८०८)

१२६. उक्कोसकालद्वितीयपञ्जत्ताअसण्णिपंचिदिय-
तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए जहणकाल-
द्वितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

१२७. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहणेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्को-
सेण वि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।

(श० २४।४८)

१२८. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जंति ? सेसं तं चेव, जहा सत्तमगमए जाव—
(श० २४।४९)

१२९, १३०. से णं भंते ! उक्कोसकालद्वितीयपञ्जत्ता-
असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए जहणकालद्वितीय-
रयणप्पभाए जाव गतिरागति करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,

१३१. कालादेसेणं जहणेणं पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि
अब्भहिया, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी दसहि
वाससहस्सेहि अब्भहिया,

१३३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ८ । (श० २४।५०)

वा०—एवमुत्कृष्टस्थितिषूत्पादयन्नाह—
(वृ० प० ८०९)

१३४. असन्नी पंचेंद्री तिर्यच पर्याप्तो, उत्कृष्ट स्थितिक जेह हो ।
स्थिति उत्कृष्ट रत्नप्रभा विषे,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेह हो ॥

१३५. ते कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य पिछाण हो ।
पल्य नां असंख भाग स्थितिक विषे,
उत्कृष्ट पिण इतोइज जाण हो ॥

१३६. हे भगवंत ! ते जीवड़ा, एक समय किता उपजेह हो ?
शेष सहु कहिवो इहां, गम सातमा नीं पर एह हो ॥

१३७. हे प्रभु ! उत्कृष्ट स्थितिक ते,
पर्याप्त असन्नी पां. तिर्यच हो ।
रत्नप्रभा में नेरइयापणें, उत्कृष्ट आयु भोगवनें संच हो ॥

१३८. वलि असन्नी तिर्यच पंचेंद्री ह्वै,
जाव गति आगति कितो काल हो ?
जिन भाखै भव आश्रयो, बे भव ग्रहण निहाल हो ॥
कायसंवेध द्वार

१३९. वलि काल आश्रयी जघन्य थी,
पल्य नां असंख्यातमो भाग हो ।
कोड़ पूर्व अधिको वली, उत्कृष्टो पिण इतोइज माग हो ॥

सोरठा

१४०. नारक आयु जाण, असंख्यातमो भाग जे ।
पल्य तणों पहिछाण, असन्नी पां. तिरि कोड़ पुव्व ॥

१४१. बिहुं भव स्थिति उत्कृष्ट, नवमा गमक विषे कही ।
ते माटै इहां इष्ट, तुल्य काल जघन्योत्कृष्ट ॥

१४२. *सेवै कालज एतलो, करै गतागति इतो काल हो ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट ही, नवम गमक ए न्हाल हो ॥

१४३. ओधिक नां घुर त्रिण गमा,
जघन्य काल स्थितिक विषे तीन हो ।
तीन उत्कृष्ट स्थितिक विषे, ए सहु नव गमका चीन हो ॥

सोरठा

१४४. मध्यम गमका तीन, तेह जघनिया जाणवा ।
तेह विषे इम लीन, तीन णाणत्ता आखिया ॥

१४५. जघन्य अनै उत्कृष्ट, अंतर्मुहूर्त्त आउखो ।
इतोअ अनुबंध इष्ट, अपसत्थ अध्यवसाय तसु ॥

१४६. सप्तम अष्टम नवम, एह तीन उत्कृष्ट गम ।
ते विषे अवगम, दोय णाणत्ता एहनां ॥

१३४. उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिए णं भंते ! जे भविए उक्कोसकालद्वितीयेसु
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

१३५. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीयेसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभाग-
द्वितीयेसु, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइ-
भागद्वितीयेसु उववज्जेज्जा । (श० २४।५१)

१३६. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जंति ? सेसं जहा सत्तमगमए जाव—
(श० २४।५२)

१३७, १३८. से णं भंते ! उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्ता-
असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए उक्कोसकालद्वितीय-
रयणप्पभाए जाव गतिरागतिं करेज्जा ?
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,

१३९. कालादेसेणं जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं
पुव्वकोडीए अब्भहियं, उक्कोसेण वि पलिओवमस्स
असंखेज्जइभागं पुव्वकोडीए अब्भहियं,

१४२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं
करेज्जा ९ ।

१४३. एवं एते ओहिया तिण्णि गमगा, जहण्णकाल-
द्वितीयेसु तिण्णि गमगा, उक्कोसकालद्वितीयेसु तिण्णि
गमगा सव्वेते नव गमगा भवन्ति । (श० २४।५३)

*लय : धिन-धिन जंबू स्वाम नै

१४७. जघन्य अनें उत्कृष्ट, पूर्वं कोड़ज आउखो ।
इतोज अनुबंध इष्ट, चरम तीन गमा विषे ॥
१४८. *असन्नी पंचेंद्री तिर्यच पर्याप्तो, रत्नप्रभा में जाय हो ।
विस्तार आख्यो तेहनों, हिवै सन्नी पं. तिरि कहिवाय हो ॥
१४९. शत चउवीसम धुर देश ए, व्यारसो नें बारमीं ढाल हो ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' मंगलमाल हो ॥

१४८. एवं तावदसञ्जिनः पञ्चेन्द्रियतिरश्चो
नारकेषूत्पादो नवघोक्तः, अथ सञ्जिनस्तस्यैव तथैव
तमाह— (वृ० प० ८०९)

ढाल : ४१३

दूहा

१. जो सन्नी पंचेंद्रिय-तिरि मरि नरके जाय ।
स्यूं संख वर्ष आयु थकी, कै असंख वर्ष थी थाय ?
२. जिन भाखै सुण गोयमा ! वर्षायु संख्यात ।
सन्नी पं. तिर्यच थी, नरक विषे उपपात ॥
३. पिण असंख वर्षायु सन्नी-तिरि पंचेंद्रिय ताय ।
नरक विषे नहिं ऊपजै, तेह युगल सुर थाय ॥
४. वर्षायु संख्यात जो, जाव नरक में जाय ।
स्यूं जल. थल. थी ऊपजै, कै खेचर थी थाय ?
५. जिन भाखै जलचर थकी, नरक विषे उपपात ।
जिम असन्नी नों आखियो, कहिवूं तिम अबदात ॥
६. यावत पर्याप्ता थकी, नरक विषे उपपात ।
अपजत्त थकी न ऊपजै, वलि शिष्य पूछै बात ॥
‡सन्नी तिर्यच नारक नव गमका ॥
७. पर्याप्त संख्यात वर्ष आयुष जे, सन्नी पंचेंद्री तिर्यचो ।
ऊपजवा जोग्य नरक विषे जे, नेरइयापणैज संचो ॥
८. प्रभु ! केतली पृथ्वी विषे ते ऊपजै ? जिन कहै सातूं मांह्यो ।
रत्नप्रभा नें आदि देई नें, जाव सप्तमी जायो ॥
प्रथम नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

ओधिक नें ओधिक [१]

९. ते पज्जत्त संख्यात वर्षायुष प्रभुजी ! सन्नी पंचेंद्री तिर्यचो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा नां, नारक नें विषे संचो ॥

*लय : धिन-धिन जम्बू स्वाम नें
‡लय : पर नारी नो संग न कीजै
१. परि० २, यंत्र २

१८ भगवती जोड़

१. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति—
कि संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए-
हितो उववज्जंति ? असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदिय-
तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ?
२. गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जंति,
३. नो असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए-
हितो उववज्जंति । (श० २४।५४)
४. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए-
हितो उववज्जंति—कि जलचरोहितो उववज्जंति—
पुच्छा ।
५. गोयमा ! जलचरोहितो उववज्जंति, जहा असण्णी
६. जाव पज्जत्तएहितो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहितो
उववज्जंति । (श० २४।५५)
७. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए,
८. से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु उववज्जेज्जा, तं जहा—
रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए । (श० २४।५६)
९. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
णं भंते ! जे भविए रयणप्पभपुढविनेरइएसु
उववज्जित्तए,

१०. ते कितै काल स्थिति ऊपजै प्रभु ? जिन कहै जघन्य सुलेखो ।
वर्ष सहस्र दश स्थितिक विषे जे, उत्कृष्ट सागर एको ॥
११. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? जिम असन्नी आकंखा ।
जघन्य एक बे तीन ऊपजै, उत्कृष्ट संख असंखा ॥
१२. ते सन्नी पं. तिरि पर्याप्त केरा, स्यूं तनु नां संघयणी ?
जिन कहै षटविध संघयणी छै, जु-जूअ नाम कहणी ॥
१३. वज्रऋषभनाराच संघयणी, द्वितीय ऋषभनाराचं ।
यावत छेवठ संघयणी ते, वर जिनवर नीं वाचं ॥
१४. तनु अवगाहन असन्नी जिम छै, जघन्य थकी अवधारं ।
असंख्यातमों भाग आंगुल नों, उत्कृष्ट योजन हजारं ॥
१५. तेहनां तनु प्रभु ! स्यूं संस्थानज ? जिन कहै षटविध जाणं ।
समचउरंस णग्गोह इत्यादिक जाव हुंड संठाणं ॥
१६. ते प्रभु ! जीव नें केतली लेश्या ? जिन भाखै षट लेशं ।
कृष्ण लेश जाव शुक्ल लेश्या, त्रिविध दृष्टि कहेसं ॥
१७. तीन ज्ञान नीं भजना भणवी, अथवा तीन अनाणं ।
ते पिण भजनाइं करि कहिवूं, हिव तसु न्याय पिच्छाणं ॥

सोरठा

१८. सन्नी पं. तिर्यंच, नरकगामी छै तेह में ।
दोय ज्ञान हुवै संच, तथा ज्ञान फुन तीन ह्वै ॥
१९. इमहिज बे अज्ञान, अथवा तीन अज्ञान ह्वै ।
इम भजनाइं जान, कह्या ज्ञान अज्ञान त्रिण ॥
२०. नरकायु नों बंध, न पडै समदृष्टी तणें ।
ज्ञान विषे पिण संघ, नरकायु बंधे नथी ॥
२१. नरकायु धुर बंध, सम्यकदृष्टि लही पछै ।
तदा ज्ञान गुण संघ, श्रेणिक कृष्ण तणी परे ॥
२२. *जोग त्रिविध पिण मन वच तनु नां,
शेष असन्नी जिम संचो ।
यावत अनुबंध कहिवो णवरं, समुद्घात धुर पंचो ॥

सोरठा

२३. असन्नी पं. तिर्यंच, समुद्घात तिण तेह विषे ।
सन्नी पं. तिरि संच, नरकगामी में पंच धुर ॥
२४. चरम दोय अवलोय, आहारक नें केवली वली ।
संयत मनु में होय, तिणसूं ए वर्जी इहां ॥

*लय : पर नारी नों संग न कीजै

१०. से णं भंते ! केवतियकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं
सागरोवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।५७)
११. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ?
जहेव असण्णी । (श० २४।५८)
१२. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंघयणी
पणत्ता ?
गोयमा ! छव्विहसंघयणी पणत्ता, तं जहा—
१३. वइरोसभनारायसंघयणी, उसभनारायसंघयणी जाव
छेवट्ट संघयणी ।
१४. सरीरोगाहणा जहेव असण्णीणं जहण्णेणं अंगुलस्स
असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ।
(श० २४।५९)
१५. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया
पणत्ता ?
गोयमा ! छव्विहसंठिया पणत्ता, तं जहा—
समचउरंसा, निग्गोहा जाव हुंडा । (श० २४।६०)
१६. तेसि णं भंते ! जीवाणं कति लेस्साओ पणत्ताओ ?
गोयमा ! छल्लेस्साओ पणत्ताओ, तं जहा—कण्ह-
लेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । दिट्ठी ति विहा वि ।
१७. तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणा भयणाए ।

- १८, १९. 'तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए' त्ति
तिरश्चां सञ्जिनां नरकगामिनां ज्ञानान्यज्ञानानि च
त्रीणि भजनया भवन्तीति द्वे वा त्रीणि वा स्युरित्यर्थः
(वृ० प० ८११)
२२. जोगो तिविहो वि । सेसं जहा असण्णीणं जाव
अणुबंधो, नवरं—पंच समुग्घाया आदिल्लगा ।
२३. 'नवरं पंच समुग्घाया आदिल्लग' त्ति असञ्जिनः
पंचेन्द्रियतिरश्चस्त्रयः समुद्घाताः सञ्जिनस्तु नरकं
यियासोः पञ्चाद्याः, (वृ० प० ८११)
२४. अन्त्ययोर्द्वयोर्मुष्याणामेव भावादिति ।
(वृ० प० ८११)

२५. *ते सन्नी पंचेंद्री मांहे, वेद त्रिविध पिण पायो ।
शेष बोल जे तिमहिज यावत, हिव निसुणो तसु न्यायो ॥

सोरठा

२६. असन्नी विषेज पाय, वेद नपुंसक एक ह्वै ।
सन्नी पं. तिरि मांय, त्रिविध वेद पिण पामियै ॥
२७. शेष बोल सह ताय, कहिवा असन्नी नीं परै ।
जाव प्रश्न हिव आय, द्वार कायसंवेध नों ॥

२८. *हे भगवंतजी ! पर्याप्तो जे, संख वर्षायुष तेहो ।
जाव तिर्यंच ते रत्नप्रभा में, ऊपजी नेरइयापणेहो ॥

२९. सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच हुवै वलि,
करै गति आगति कितो कालो ?
श्री जिन भाखै भव आश्रयी ते, जघन्य दाय भव न्हालो ॥

सोरठा

३०. धुर भव सन्नी तिर्यंच, द्वितीय भवे ह्वै नारकी ।
इम जघन्य दाय भव संच, तृतीय भवे ते मनुष्य ह्वै ॥

३१. *उत्कृष्ट थी भव ग्रहण हुवै अठ,
सन्नी पं. तिरि भव च्यारो ।
नारक नां पिण च्यार हुवै भव, नवमें भव मनु धारो ॥

सोरठा

३२. सन्नी पं. तिरि सोय, नारक विषेज ऊपजै ।
वलि सन्नी तिरि होय, फुन नारक में नेरइयो ॥
३३. वलि सन्नी तिरि थाय, फुन नारक वलि तिरि सन्नी ।
वलि नारक में जाय, इम अठ नवमें भव मनुष्य ॥

३४. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, वर्ष सहस्र दश जोयो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक कहीजै, जघन्य अद्धा भव दायो ॥

सोरठा

३५. वर्ष सहस्र दश पेख, नारक भव अद्धा जघन्य ।
सन्नी पं. तिरि देख, अंतर्मुहूर्त्त आउखो ॥

३६. *अद्धा उत्कृष्ट अष्ट भवां नों, कहियै सागर च्यारो ।
च्यार पूर्व कोड़ अधिक भणोजै, अदल न्याय अवधारो ॥

सोरठा

३७. सागर च्यार सुसंच, नारक चिउं भव नों अद्धा ।
सन्नी पं. तिर्यंच, च्यार कोड़ पूरव कह्यो ॥

*लय : पर नारी नों संग न कीजै

२० भगवती जोड

२५. वेदो त्रिविहो वि, अवसेसं तं चेव जाव—

(श० २४।६१)

२८, २९. से णं भंते ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचदिय-
तिरिक्खजोणिए रयणप्पभाए जाव गतिरागति
करेज्जा ?

गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,

३०. 'जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं' ति सञ्जिपञ्चेन्द्रिय-
तिर्यंङ् उत्पद्य पुनर्नारकेषूपद्यते ततो मनुष्येषु एवमधि-
कृतकायसंवेधे भवद्वयं जघन्यतो भवति,

(वृ० प० ८११)

३१. उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं ।

३२, ३३. सञ्जिपञ्चेन्द्रियतिर्यंङ् ततो नारकः पुनः
सञ्जिपञ्चेन्द्रियतिर्यंङ् पुनर्नारकः पुनः सञ्जि-
पञ्चेन्द्रियतिर्यंङ् पुनर्नारकस्ततः पुनः सञ्जि-
पञ्चेन्द्रियतिर्यंङ् पुनस्तस्यामेव पृथिव्यां नारक इत्येव-
मष्टावेव वारानुत्पद्यते नवमे भवे तु मनुष्यः स्यादिति,
(वृ० प० ८११)

३४. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहूर्त्त-
मब्भहियाइं,

३६. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं,

३८. *एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नै ओधिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयालो ॥

ओधिक नै जघन्य [२]

३९. पर्याप्त संख वर्षायुष सन्नी पंचेद्री तिरि जेहो ।
जघन्य स्थितिक विषे रत्नप्रभा में, ऊपजै नेरइयापणेहो ॥

४०. प्रभु ! कितै काल स्थितिक विषे ते ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमासो ।
वर्ष सहस्र दश विषे ऊपजै,

उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वासो ॥

४१. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? इत्यादिक अवधारो ।
एवं तेहिज पहिलो गमको, समस्तपणै कहिवो सारो ॥
कायसंवेध द्वार

४२. जाव कालसंवेध ते काल आश्रयी, जघन्य थकी इम थायो ।
दश हजार वर्ष नों कहियै, अंतर्मुहूर्त्त अधिकायो ॥

सोरठा

४३. नारक भव नों न्हाल, वर्ष सहस्र दश जघन्य ए ।
अंतर्मुहूर्त्त काल, जघन्य काल ए तिरि भवे ॥

४४. *उत्कृष्टो चिउं कोइ पूर्वं ही, सन्नी तिर्यच भव च्यारो ।
वर्ष चालीस हजार अधिक ए, नारक भव चिउं धारो ॥

४५. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नै वलि जघन्य कहीजै, द्वितीय गमक ए न्हालो ॥

ओधिक नै उत्कृष्ट [३]

४६. तेहिज पजत्त संख वर्षायु प्रभुजी !
सन्नी पंचेद्री तिरि जेहो ।
उत्कृष्ट स्थिति विषे रत्नप्रभा में

ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥

४७. प्रभु ! कितै काल स्थितिक विषे ते ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य अवेखो ।

एक सागर स्थितिक विषे ऊपजै, उत्कृष्ट पिण सागर एको ॥

४८. अवशेष परिमाण आदि देई नै, भवादेश लग भणियै ।
तेहिज प्रथम गमक कह्यो पूर्वं, तिणहिज रीते थुणियै ॥
कायसंवेध द्वार

४९. जाव काल आश्रयी जघन्य थकी जे, एक सागर अवलोयो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक कहीजै, जघन्य अद्धा भव दोयो ॥

सोरठा

५०. अंतर्मुहूर्त्त एह, सन्नी तिरि भव जघन्य स्थिति ।
सागर एक कहेह, नारक भव उत्कृष्ट स्थिति ॥

*लय : पर नारी नों संग न कीजै

३८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।६२)

३९. पजत्तसंखेज्जासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिण
णं भंते ! जे भविण्ण जहण्णकालट्ठितीएसु रयणप्पभा
पुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

४०. से णं भंते ! केवतियकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु, उक्कोसेण
वि दसवाससहस्सट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।

(श० २४।६३)

४१. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति?
एवं सो चेव पढमो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो

४२. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं,

४४. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वास-
सहस्सेहि अब्भहियाओ,

४५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा २ । (श० २४।६४)

४६, ४७. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो जहण्णेणं
सागरोवमट्ठितीएसु, उक्कोसेण वि सागरोवमट्ठितीएसु
उववज्जेज्जा ।

४८. अवसेसो परिमाणादीओ भवादेसपज्जवसाणो सो चेव
पढमगमो नेयव्वो

४९. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियं,

५१. *उत्कृष्ट चिउं दधि च्यार नारक भव,
अधिक पूर्व कोइ च्यारो ।
ए सन्नी तिरि चिउं भव अद्दा, उभय उत्कृष्टज धारो ॥
५२. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नैं उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो तृतीय दयालो ॥

जघन्य नैं ओधिक [४]

५३. जघन्य काल स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।
रत्नप्रभा पृथ्वी नैं विषे जे,
ऊपजवा जोग नेरइयापणेहो ॥
५४. प्रभु ! किता काल स्थितिक विषे ते ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुलेखो ।
ऊपज दश सहस्र वर्ष स्थितिक में, उत्कृष्ट सागर एको ॥
५५. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? इत्यादि शेष उदिष्टो ।
तेहिज गमक प्रथम जे कहिवूं, णवरं णाणत्ता अष्टो ॥
५६. ते सन्नी पं. तिरि नीं जघन्य अवगाहना,
आंगुल नो जिन इष्टं ।
असंख्यातमों भाग कह्यो छै, पृथक धनु उत्कृष्टं ॥

सोरठा

५७. सन्नी धुर गम पेख, जघन्य तास अवगाहना ।
आंगुल तणोंज लेख, असंख्यातमों भाग जे ॥
५८. उत्कृष्टी अवगाह, योजन सहस्र तणीं तिहां ।
इहां उत्कृष्टी पाह, पृथक धनुष्य अवगाहना ॥
५९. *जघन्यायु सन्नी ते माटै, प्रथम लेश त्रिण कहिये ।
जघन्य स्थितिक जे नरकगामी में,
भली लेश्या नहिं लहिये ॥

सोरठा

६०. सन्नी धुर गम मांय, षट लेश्या आखी तिहां ।
जघन्य गमे त्रिण पाय, लेश णाणत्तो ते भणी ॥
६१. *तृतीय णाणत्तो दृष्टि तणों जे, मिथ्यादृष्टी जेहो ।
जघन्य स्थितिक तिरि नरकगामी में,
सम-मिश्र दृष्टि न बेहो ॥

सोरठा

६२. सन्नी धुर गम मांय, आखा भव में दृष्टि त्रिण ।
जघन्य गमे मिच्छ पाय, दृष्टि णाणत्तो ते भणी ॥

*लय : पर नारी नो संग न कीजे

२२ भगवती जोइ

५१. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

५२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । (श० २४।६५)

५३. जहण्णकालद्वितीयपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए रयणप्पभ-
पुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

५४. से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं
सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।६६)

५५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
अवसेसो सो चेव गमओ, नवरं—इमाइं अट्ट
नाणत्ताइं—

५६. सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं,
उक्कोसेणं धणुपुहत्तं

५८. तत्र शरीरावगाहनोत्कृष्टा योजनसहस्रमुक्तेह धनुः
पृथक्त्वं, (वृ० प० ८११)

५९. लेस्साओ तिण्णि आदिल्लाओ

६०. तथा तत्र लेश्याः षड् इह त्वाद्यास्तिस्रः,
(वृ० प० ८११)

६१. नो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, नो सम्मामिच्छदिट्ठी

६२. तथा तत्र दृष्टिस्त्रिधा इह तु मिथ्यादृष्टिरेव,
(वृ० प० ८११)

६३. *नाण अनाण नों तुर्य णाणत्तो, ज्ञानी ते नहिं होयो ।
जघन्य स्थितिक जे नरकगामी में, निश्चै अज्ञानज दियो ॥

सोरठा

६४. सन्नी धुर गम मांय, तीन ज्ञान अज्ञान त्रिण ।
भजना ए कहिवाय, पूर्वे आख्यो छै तिहां ॥

६५. इहां जघन्य गम जान, ज्ञान तर्णोज निषेध छै ।
निश्चै दियो अज्ञान, ते माटै ए णाणत्तो ॥

६६. *पंचम णाणत्तो समुद्घात नों,
जघन्य स्थितिक तिरि मांह्यो ॥
समुद्घात त्रिण प्रथम कहीजै, अन्य निषेध कहायो ॥

सोरठा

६७. सन्नी धुर गम मांय, समुद्घात धुर पंच त्यां ।
जघन्य गमे त्रिण पाय, समुद्घात नों णाणत्तो ॥

६८. *षष्ठम णाणत्तो आयु तर्णो छै, जघन्य स्थितिक ए जोई ।
अंतर्मुहूर्त्त तास आउखो, अधिक आयु नहिं होई ॥

सोरठा

६९. सन्नी धुर गम जोड़, अंतर्मुहूर्त्त जघन्य स्थिति ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़, ते माटै ए णाणत्तो ॥

७०. *सप्तम णाणत्तो अध्यवसाय नों, अपसत्थ अध्यवसायो ।
जघन्य स्थितिक तिरि नरकगामी में,
भला अध्यवसाय नांह्यो ॥

सोरठा

७१. सन्नी धुर गम जेह, प्रशस्त नें अप्रशस्त फुन ।
इहां अपसत्थ जघन्य गमेह, ते माटै ए णाणत्तो ॥

७२. *अनुबंध नों कह्यो अष्टम णाणत्तो,
न्याय आयुवत जाणी ।
आयु जितो अनुबंध कह्यो छै, वारू जिनवर वाणी ॥

७३. अध्यवसाय आयु नें अनुबंध, ए तीनू अवलोई ।
असन्नी पंचेंद्री तिर्यच नां आख्या, तेम इहां इम होई ॥

७४. अवशेष जिम गम प्रथमज एहनों,
सन्नी तिर्यच नों आख्यो ।
तेम इहां पिण कहिवो सगलो, किहां लगै ए भाख्यो ॥

७५. यावत काल आश्री कहीजै, जघन्य थकी ए ताह्यो ।
दश हजार वर्ष नों अद्धा, अंतर्मुहूर्त्त अधिकायो ॥

*लय : पर नारी नों संग न कीजै

६३. नो नाणी, दो अण्णाणा नियमं

६४, ६५. तथा तत्राज्ञानानि त्रीणि भजनया इह तु द्वे
एवाज्ञाने, (वृ० प० ८११)

६६. समुग्धाया आदिल्ला तिणिण

६७. तथा तत्र आद्याः पञ्च समुद्घाता इह तु त्रयः,
(वृ० प० ८११)

६८-७३. आउं अज्झवसाणा अणुबंधो य जहेव असणीणं ।
'आउअज्झवसाणा अणुबंधो य जहेव
असन्नीणं' ति जघन्यस्थितिकासञ्जिगम इवेत्यर्थः,
ततश्चायुरिहान्तर्मुहूर्त्तं, अध्यवसायस्थानान्य-
प्रशस्तान्येव, अनुबन्धोऽप्यन्तर्मुहूर्त्तमेवेति,
(वृ० प० ८११)

७४. अवसेसं जहा पहमगमए
'अवसेस' मित्यादि, अवशेषं यथा सञ्जिनः प्रथमगमे
औघिक इत्यर्थः (वृ० प० ८११, ८१२)

७५. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं,

सोरठा

७६. बे भव काल जघन्य, वर्ष सहस्र दश नरक स्थिति ।
सन्नी तिरि भव जन्य, अंतर्मुहूर्त्त ए अद्धा ॥
७७. *उत्कृष्ट सागर च्यार कहीजै, नारक चिउं भव कालो ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार अधिक फुन, तिर्यच चिउं भव न्हालो ॥
७८. काल एतलो सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै ओधिक गमक ए, दाख्यो तुर्य दयालो ॥

जघन्य नै जघन्य [५]

वा०—जघन्य अनै जघन्य ते सन्नी तिर्यच नीं जघन्य स्थिति अनै नारकी
नै विषे जघन्य स्थितिपणै ऊपनो—ए पंचम गमक कहै छै—

७९. तेहिज जघन्य स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष,
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा में,
जघन्य स्थितिक नेरइयापणेहो ॥
८०. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमासो ।
ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थितिक में,
उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वासो ॥
८१. प्रभु ! एक समय ते किता ऊपजै ? इत्यादिक अवधारो ।
तुर्य गमक जिम एहनों आख्यो, भणवो तिमहिज सारो ॥
८२. यावत अद्धा आश्रयी जघन्य थी, वर्ष सहस्र दश जेहो ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक कहीजै, बे भव अद्धा एहो ॥
८३. उत्कृष्ट चालीस वर्ष सहस्र ए, नारक चिउं भव न्हालो ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार अधिक ए, तिर्यच चिउं भव कालो ॥
८४. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै वलि जघन्य गमो ए, दाख्यो पंचम दयालो ॥

जघन्य नै उत्कृष्ट [६]

वा०—हिंवै जघन्य अनै उत्कृष्ट ते सन्नी तिर्यच नीं तो जघन्य आयु अनै
उत्कृष्ट आयु नेरइयापणै ऊपनो—ए छठो गमक कहै छै—

८५. तेहिज जघन्य स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा में,
स्थिति उत्कृष्ट नेरइयापणेहो ॥
८६. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन भाखै तसु लेखो ।
जघन्य सागर स्थितिक विषे ऊपजै,
उत्कृष्ट पिण सागर एको ॥

७७. उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं अंतोमुहूर्त्तेहि
अब्भहियाइं,

७८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ४ । (श० २४।६७)

वा०—‘सो चेव जघन्नकाले’ त्यादिस्तु सञ्ज्ञिविषये
पञ्चमो गमः ५, (वृ० प० ८१२)

७९. सो चेव जहणकालद्वितीएसु उववणो जहणणं
दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्स-
द्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।६८)

८१. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
एवं सो चेव चउत्थो गमयो निरवसेसो भाणियव्वो

८२. जाव कालादेसेणं जहणणं दसवासहस्साइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं,

८३. उक्कोसेणं चत्तालीसं वाससहस्साइं चउहिं अंतो-
मुहुत्तेहिं अब्भहियाइं,

८४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ५ । (श० २४।६९)

वा०—इह च ‘सो चेव’ त्ति स एव सञ्ज्ञी जघन्य-
स्थितिकः, ‘सो चेव उक्कोसे’ त्यादिस्तु षष्ठः ६,

(वृ० प० ८११)

८५, ८६. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववणो जहणणं
सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण वि सागरोवमद्वितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।७०)

*लय : पर नारी नों संग न कीजै

२४ भगवती जोड़

८७. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? इत्यादिक सहु जाणी ।
तुर्य गमक ए सन्नी तणों जिम, भणवो सवें पिछ्छाणी ॥
८८. जाव काल आश्रयी जघन्य थी, नारक सागर एको ।
अंतर्मुहूर्त्त सन्नी तिर्यच भव, जघन्य उभय भव लेखो ॥
८९. उत्कृष्ट अद्धा च्यार सागर फुन,
नारक चिउं भव भणियै ।

अंतर्मुहूर्त्त च्यार अधिक ए,
चिउं तिरि भव स्थिति गिणियै ॥

९०. एतलो काल सेवें ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो षष्टम दयालो ॥

उत्कृष्ट नै ओधिक (७)

वा०—हिंवै उत्कृष्ट नै ओधिक—ते सन्नी तिर्यच नों तो उत्कृष्टो आउखो,
नारकी नै विषे ओधिक—ए सप्तम गमक कहै छै—

९१. जेष्ठ काल स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष,
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।

रत्नप्रभा पृथ्वी नै विषे जे, ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥

९२. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?

जिन कहै जघन्य सुपेखो ।

ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थितिक में, उत्कृष्ट सागर एको ॥

९३. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? शेष सवें ही जाणी ।
परिमाण आदि देई भव आश्रयी, एतला लगै पिछ्छाणी ॥

९४. एहिज सन्नी पंचेंद्री तिर्यच नों धुर गम,

कह्यो ओधिक नै ओधीको ।

तेहनै विषे ऊपजाव्या तेहिज, कहिवो सर्व सधीको ॥

९५. णवरं स्थिति आउखो तेहनों, जघन्य पूर्व कोड़ जाणी ।
उत्कृष्टी पिण कोड़ पूर्व नों, अनुबंध पिण इम ठाणी ॥

९६. शेष तिमज धुर गमे कह्यो जिम, काल आश्रयी तासो ।
जघन्य पूर्व कोड़ तिरि भव आयु, नरक सहस्र दश वासो ॥

९७. उत्कृष्ट अद्धा च्यार सागर ए, नारक चिउं भव न्हालो ।
च्यार पूर्व कोड़ तिर्यच भव चिउं, ए अठ भव स्थिति कालो ॥

९८. एतलो काल सेवें ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ॥
उत्कृष्ट नै ओधिक गमक ए, दाख्यो सप्तम दयालो ॥

उत्कृष्ट नै जघन्य [८]

वा०—ते सन्नी तिर्यच नों उत्कृष्ट आउखो अनै नारक ने विषे जघन्य
आउखापणों ऊरनों—ए षष्टम गमक कहै छै—

९९. तेहिज जेष्ठ स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष,
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।

ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा में,
जघन्य स्थितिक नेरइयापणेहो ॥

८७. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
एवं सो चेव चउत्थो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो
८८. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियं,
८९. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउर्हि अंतोमुहुत्तेहि
अब्भहियाइं,

९०. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ६ । (श० २४।७१)

वा०—‘उक्कोसकाले’ त्यादिस्तु सप्तमः ७, तत्र
च ‘एएसिं चेव पढमगमो’ त्ति एतेषामेव सञ्चिनां
प्रथमगमो यत्रौधिक औधिकेपूत्पादितः,
(वृ० प० ८१२)

९१. उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसणिण-
पंचिदियरिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविए रयण-
प्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

९२. से णं भंते ! केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं
सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।७२)

९३. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
अवसेसो परिमाणादीओ भवादेसपज्जवसाणो

९४. सो चेव पढमगमओ नेयव्वो,

९५. नवरं—ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि
पुव्वकोडी । एवं अणुबंधो वि,

९६. सेसं तं चेव । कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहिं
वाससहस्सेहिं अब्भहिया,

९७. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउर्हि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

९८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७ । (श० २४।७३)

वा०—‘सो चेवे’ त्यादिरिष्टमः ८, इह च ‘सो चेव’
त्ति स एवोत्कृष्टस्थितिकः सञ्ज्ञी ८,
(वृ० प० ८१२)

- ९९.१००. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं
दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं वि दसवाससहस्स-
द्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।७४)

१००. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य विमासो ।

ऊपजै दश सहस्र स्थितिक विषे,
उत्कृष्ट पिण दश सहस्र वासो ॥

१०१. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? इत्यादिक इम लहियै ।
तेहिज सप्तम गमक सन्नी नों, आख्यो जिम सहु कहियै ॥

१०२. यावत भव आदेश लगै ए, काल आश्रयी तासो ।
जघन्य पूर्व कोड़ तिरि भव आयु,
नारक दश सहस्र वासो ॥

१०३. उत्कृष्ट पूर्व कोड़ च्यार जे, तिर्यच चिउं भव बद्धा ।
चालीस सहस्र वर्ष नारक भव, अष्टम भवे इम लद्धा ॥

१०४. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नै फुन जघन्य गमक ए, दाख्यो अष्टम दयालो ॥

उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट [६]

बा०—ते सन्नी तिर्यच नों उत्कृष्ट आउखो अनै नारकी नै विषे उत्कृष्ट
आउखापणै ऊपनों—ए नवम गमक कहै छै—

१०५. जेष्ठ काल स्थितिक पजत्त संख वर्षायुष,
सन्नी पंचेंद्री तिरि जेहो ।

रत्नप्रभा में उत्कृष्ट स्थितिके,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥

१०६. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुलेखो ।

एक सागर स्थितिक विषे ऊपजै, उत्कृष्ट सागर एको ॥

१०७. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? इत्यादिक अवधारो ।
ते सन्नी तिर्यच नों गमक सप्तमों,

आख्यो तिम सुविचारो ॥

१०८. यावत भव आदेश लगै इम, काल आश्रयी जोड़ो ।
जघन्य सागर इक नारक भव में, तिरि भव पूर्व कोड़ो ॥

१०९. उत्कृष्ट च्यार सागर नों कहियै, नारक चिउं भव एहो ।
च्यार पूर्व कोड़ चिउं तिर्यच भव, अठ भव अद्धा लेहो ।

११०. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो नवम दयालो ॥

१११. इम ए नव गम आख्या तिण में, उत्क्षेप निक्षेप कहेवो ।
नव ही गमानें विषे पिण भणवा, असन्नी जिम स्वयमेवो ॥

बा०—नव ही गमका छै । ते एक-एक गमानें विषे उत्क्षेप निक्षेप स्वयमेव
कहिवा । उत्क्षेप ते गमो मांडिवो ते किम—पर्याप्तो संख्यात वर्ष आयु सन्नी
पंचेंद्री तिर्यच । रत्नप्रभा में नेरइयापणै ऊपजवा जोग्य इम गमक मांडिवो, तेहनै
उत्क्षेप कहियै । अनै निक्षेप ते गमक पुरो करिवो ते किम—एतलो काल सेवै
एतलो काल गति-आगति करै । ए निक्षेप कही नै ते एक-एक गमका विषे
असन्नी नीं परै उत्क्षेप-निक्षेप स्वयमेव कहिवा ।

२६ भगवती जोड़

१०१. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
सो चैव सत्तमो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो

१०२. जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्व-
कोडी दसाहं वाससहस्सेहिं अब्भहिया,

१०३. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वास-
सहस्सेहिं अब्भहियाओ,

१०४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ८ । (श० २४।७५)

बा०—‘उक्कोसे’ त्यादिर्नवमः ९, (वृ० प० ८१२)

१०५. उक्कोसकालद्वितीयपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिणं णं भंते ! जे भविए उक्कोस-
कालद्वितीएसु रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए,

१०६. से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?

गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण
वि सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।७६)

१०७. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
सो चैव सत्तमगमओ निरवसेसो भाणियव्वो

१०८. जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं
पुव्वकोडीए अब्भहियं,

१०९. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं,

११०. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ ।

१११. एवं एते नव गमका । उक्खेव-निक्खेवओ नवसु वि
जहेव असण्णीणं । (श० २४।७७)

बा०—‘उक्खेवनिक्खेवओ’ इत्यादि, तत्रोत्क्षेपः—
(ग्रन्थाग्रम् १६०००) प्रस्तावना स च प्रतिगम-
मीचित्येन स्वयमेव बाच्यः, निक्षेपस्तु—निगमनं
सोऽप्येवमेवेति । (वृ० प० ८१२)

११२. शतक चउबीसम प्रथम देश ए, च्यारसौ तेरमी ढालो ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे,
'जय-जश' हरष विशालो ॥

ढाल : ४१४

इहा

१. संख्यायु पर्याप्तो, सन्नी पं. तिर्यंच ।
रत्नप्रभा नें आश्रयी, पूर्वे आख्यो संच ॥
हिवै सक्करप्रभा नें विषे पर्याप्त संख्यात वर्षायुष सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच
ऊपजै, तेहनां नव गमा कहै छै—
२. सक्करप्रभा नें विषे, तेहिज ऊपजै ताय ।
ओधिक नें ओधिक हिवै, प्रथम गमो कहिवाय ॥

ओधिक नें ओधिक [१]

वा०—ओधिक नें ओधिक ते संख्यात वर्ष आयु पर्याप्तो सन्नी पंचेंद्री
तिर्यंच जघन्य-उत्कृष्ट स्थिति नों धणी सक्करप्रभा में जघन्य-उत्कृष्ट स्थितिक
नारकी नें विषे ऊपजै ते माटै सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री नों ओधिक, समचै स्थितिक
नारकी नें विषे पिण ओधिक ते समचै स्थितिक नें विषे ऊपजै—ए प्रथम गमक
बखाणियै छै—

इजी नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

*सन्नि तिर्यंच सक्कर प्रमुख ऊपजै ॥ (ध्रुवदं)

३. पर्याप्तो जे संख्यात वर्षायुष प्रभु ! सन्नी पंचेंद्री तिर्यंचो रे ।
ऊपजवा जोग्य सक्करप्रभा में, नारकी नें विषे संचो रे ॥

४. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य थी इष्टो रे ।
एक सागर स्थितिक विषे ऊपजै, तीन सागर उत्कृष्टो रे ॥

५. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ?
जिम रत्नप्रभा रै मांह्यो रे ।
ऊपजतां नें बोल कह्या जे, परिमाण संघयणादि ताह्यो रे ॥

६. सक्करप्रभा विषे ऊपजतां नें,
कहियै सहु निर्विशेषो रे ।
यावत भव आदेश जघन्य बे, उत्कृष्ट अठ भव लेखो रे ॥

७. काल आश्रयी जघन्य सागर इक, नारक भव स्थिति कालो रे ।
अंतर्मुहूर्त अधिक तिरि भव, बे भव अद्धा न्हालो रे ॥

*लय : प्रभवो चोर चोरां नें समझावें

१. परि. २. यंत्र ४

१. पर्याप्तकसंख्यातवर्षायुष्कसञ्ज्ञपञ्चेन्द्रियतिर्यंग्-
योनिकमाश्रित्यरत्नप्रभावक्तव्यतोक्ता,
(वृ० प० ८१२)

२. अथ तमेवाश्रित्य शर्कराप्रभावक्तव्यतोच्यते, तत्रौघिक
औघिकेषु तावदुच्यते— (वृ० प० ८१२)

३. पञ्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
णं भंते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइएसु
उववज्जित्तए,

४. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं
तिसागरोवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।७८)

५, ६. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति?
एवं जहेव रयणप्पभाए उववज्जंतगस्स लद्धी सच्चेव
निरवसेसा भाणियव्वा जाव भवादेसो त्ति ।

'पज्जत्ते' त्यादि, 'लद्धी सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा'
परिमाणसंहननादीनां प्राप्तिर्यैव रत्नप्रभायामुत्पित्तो-
रुक्ता सैव निरवशेषा शर्कराप्रभायामपि भणितव्येति,
(वृ० प० ८१३)

७. कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तमम्भहियं,

सोरठा

८. सक्करप्रभा मांय, जघन्य स्थिति सागर तणीं ।
जघन्यायु तिरि पाय, अंतर्मुहूर्त्त जाणवूं ॥
९. *उत्कृष्ट द्वादश सागर कहियै, च्यार नारक भव अद्धा रे ।
च्यार कोड़ पूर्व अधिकेरा, तिर्यंच भव चिउं बद्धा रे ॥

सोरठा

१०. दूजो नरके देख, सागर त्रि उत्कृष्ट स्थिति ।
चतुर्गुणे करि लेख, द्वादश सागर चिउं भवे ॥
११. कोड़ पूर्व उत्कृष्ट, संख्यायु सन्नी तिरि ।
चतुर्गुणे करि इष्ट, चिउं तिरि भव चिउं कोड़ पुव्व ॥
१२. *काल एतलो सेवै ते इम, करै गति आगति इतो कालो रे ।
ओधिक नै ओधिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयालो रे ॥
१३. इम रत्नप्रभा नां गमक सरीखा, सक्करप्रभा नै विषेहो रे ।
नव गमा पिण भणवा णवरं, एतलो फेर कहेहो रे ॥
१३. सर्व गमक विषे पिण नारक स्थिति,
वलि संवेधद्वारे लहिवूं रे ।
सागरोपम भणवा विधि सेती, ते इह रीते कहिवूं रे ॥

सोरठा

१५. रत्नप्रभा स्थिति द्वार, द्वार संवेध विषे वली ।
वर्ष सहस्र दश कार, इक सागर आखी तिहां ॥
१६. सक्कर विषे विचार, जघन्य एक सागर स्थिति ।
उत्कृष्टी अवधार, सागर तीन तणीं इहां ॥
१७. उत्कृष्ट संवेधेह, त्रिण सागर उत्कृष्ट स्थिति ।
कियां चउगुणां जेह, वारह उदधि उत्कृष्ट अद्धा ॥
- तीजो स्यूं छठी नरक तक संख्यात वर्ष नौ सन्नी तिर्यंच पंचेद्रिय ऊपजं,
तेहनौ अधिकार'

१८. *एवं यावत छठी पृथ्वी लग, णवरं इतरो विशेषो रे ।
नारक स्थिति जाव जे पृथ्वी नै, जघन्य उत्कृष्टी लेखो रे ॥
१९. तिका स्थिति तिणहिज अनुक्रम करी,
चउगुणी करवी ताह्यो रे ।
उत्कृष्ट कायसंवेध विषे ए, जुई-जुई कहिवायो रे ॥

सोरठा

२०. बालुकप्रभा मांय, जघन्य तीन सागर स्थिति ।
सागर सप्तज पाय, उत्कृष्टी स्थिति छै तिहां ॥
२१. पंक जघन्य स्थिति दधि सात, दश सागर उत्कृष्ट स्थिति ।
धूम जघन्य दश ख्यात, सतर उदधि उत्कृष्ट ही ॥

*लय : प्रभवो चोर चोरां नै समझावै

१. परि० २. यंच ६, ८, १०, १२

२८ भगवती जोड़

८. 'सागरोपमं अंतोमुहूर्त्तमन्वहियं' ति द्वितीयायां
जघन्या स्थितिः सागरोपममन्तर्मुहूर्त्तं च सञ्जिभव-
सत्कमिति, (वृ० प० ८१३)
९. उक्कोसेणं बारस सागरोपमाइं चउर्हि पुव्वकोडीहि
अव्वहियाइं,

१०. 'उक्कोसेणं बारसे' त्यादि द्वितीयायामुत्कृष्टतः
सागरोपमत्रयं स्थितिः तस्याश्चतुर्गुणत्वे द्वादश,
(वृ० प० ८१२)
११. एवं पूर्वकोटयोऽपि चतुर्षु सञ्जितिर्यंगभवेषु चतस्र
एवेति । (वृ० प० ८१३)
१२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
१३. एवं रयणप्पभपुढविगमसरिसा नव वि गमगा
भाणियव्वा, नवरं—
१४. सव्वगमएसु वि नेरइयट्ठिती-संवेहेसु सागरोपमा
भाणियव्वा,

१५. रत्नप्रभायामायुद्वारे संवेधद्वारे च दशवर्षसहस्राणि
सागरोपमं चोक्तं (वृ० प० ८१३)
१६. द्वितीयादिषु पुनर्जघन्यत उत्कर्षतश्च सागरोपमाण्येव
वाच्यानि, (वृ० प० ८१३)

१८. एवं जाव छट्ठपुढवि ति, नवरं नेरइयट्ठिई जा जत्थ
पुढवीए जहण्णुक्कोसिया
१९. सा तेणं चैव कमेणं चउगुणा कायव्वा ।
'चउगुणा कायव्व' ति उत्कृष्टे कायसंवेधे इति,
(वृ. प. ८१३, ८१४)

२२. तमा मही में ताम, जघन्य स्थिति सतरोदधि ।
उत्कृष्टी दुख धाम, उदधि बावीस तणीं कही ॥

२३. *वालुक सात सागर उत्कृष्टी, चउगुणी कीधां तेहो रे ।
सागरोपम अठवीस हुवै इम, उत्कृष्ट कायसंवेहो रे ॥

२४. पंक उदधि दश चउगुणी कीधां, चालीस सागर होयो रे ।
धूम सत्तर दधि चउगुणी कीधां, अडसठ सागर जोयो रे ॥

२५. छठी नरके उत्कृष्टी स्थिति, बावीस सागर इष्टो रे ।
चौगुणी कीधां उदधि अठघासी, कायसंवेध उत्कृष्टो रे ॥

२६. धुर बे नरके ऊपजै छै ते, षट संघयणी कहियै रे ।
आगल इक-इक नरक विषे जे, इक-इक हीणो लहियै रे ॥

२७. वालुकप्रभा विषे जे ऊपजै, पंच संघयणी जाणी रे ।
वज्रऋषभनाराच कहीजै, जाव कीलिका ठाणी रे ॥

२८. पंकप्रभा नें विषे ऊपजै, च्यार संघयणी धारो रे ।
कीलिका संघयणी नहि जावै, चउथी नरक मभारो रे ॥

२९. धूम विषे जाय तीन संघयणी, अर्द्धनाराच संघयणी रे ।
पंचमी नरक विषे नहि जावै, जिन वाणी सत्य कहणी रे ॥

३०. तमा विषे जाय बे संघयणी, वज्रऋषभनाराचो रे ।
ऋषभनाराचवंत पिण जावै, शेष तिमज वच साचो रे ॥

सातवीं नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यंच पंचेद्रिय ऊपजै, तेहनों
अधिकार^१

ओघिक नें ओघिक (१)

३१. पर्याप्तो संख्यात वर्षायुष, सन्नी पंचेद्री तिर्यंचो रे ।
ऊपजवा जोग्य अधोसप्तमी, नरक विषे जे संचो रे ॥

३२. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य कहायो रे ।
बावीस सागर स्थिति विषे ते, उत्कृष्ट तेतीस पायो रे ॥

३३. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ?
जिम रत्नप्रभा नें विषेहो रे ।
नव गमा कह्या तिणहिज रीते, कहिवा नव गम तेहो रे ॥

३४. लद्धी प्राप्ति पिण सहु तिम कहिवी,
णवरं इतरो विशेखो रे ।
धुर संघयणी तिहां ऊपजै, अन्य निखेध संपेखो रे ॥

२३. वालुयप्पभाए पुढवीए अट्टावीसं सागरोवमाइं चउ-
गुणिया भवंति,
'वालुयप्पभाए अट्टावीसं' तत्र सप्त सागरोपमाण्यु-
त्कर्षत स्थितिहक्ता सा च चतुर्गुणा अष्टाविंशतिः
स्यात्, (वृ. प. ८१४)

२४. पंकप्पभाए चत्तालीसं, धूमप्पभाए अट्टसट्ठि,

२५. तमाए अट्टासीइं ।

२६. आद्ययोरेव हि पृथिव्योः सेवार्त्तनोत्पद्यन्ते, एवं
चतुर्थी ४ पञ्चमी ३ षष्ठी २ सप्तमीषु १ एकैकं
संहननं हीयत इति । (वृ. प. ८१४)

२७. संघयणाइं—वालुयप्पभाए पंचविहसंघयणी, तं जहा
—वइरोसहनारायसंघयणी जाव खीलियासंघयणी,

२८. पंकप्पभाए चउव्विहसंघयणी,

२९. धूमप्पभाए तिविहसंघयणी,

३०. तमाए दुविहसंघयणी, तं जहा—वइरोसहनाराय-
संघयणी य, उसभनारायसंघयणी य, सेसं तं चेव ।
(श० २४।७९)

३१. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
णं भंते ! जे भविए अहे सत्तमाए पुढवीए नेरइएसु
उववज्जित्तए,

३२. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं बावीससागरोवमट्ठितीएसु,
उक्कोसेणं तेत्तीससागरोवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।८०)

३३. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ? एवं जहेव रयणप्पभाए नव गमका,

३४. लद्धी वि सच्चेव, नवरं—वइरोसहनारायसंघयणी ।

*लय : प्रभवो चोर चोरां नें समझावें

१. परि २. यंत्र १४

३५. स्त्री वेदक छठी लग जावै, सप्तमी में नहि जायो रे ।
शेष तिमज छठी तिम कहियो, जाव अनुबंध ताह्यो रे ॥

३६. कायसंवेधज भव आश्रयी ते, जघन्य तीन भव जाणी रे ।
उत्कृष्टा भव सात ग्रहण ह्वै, हिव तसु न्याय पिछाणी रे ॥

सोरठा

३७. मच्छ सप्तमी जाय, नारकपणैज ऊपजी ।
मच्छ विषे वलि आय, पुनः मच्छ तीजे भवे ॥

३८. तुर्य तमतमा जाय, पुनः मच्छ पंचम भवे ।
वलि सप्तमी पाय, वलि मच्छ सप्तम भव वृत्ती ॥

३९. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, उदधि बावीस कहायो रे ।
अंतर्मुहूर्त्त दोय अधिक फुन, निसुणो एहनों न्यायो रे ॥

सोरठा

४०. सागर बावीस जोय, सप्तमी नारक जघन्य स्थिति ।
अंतर्मुहूर्त्त दोय, प्रथम तृतीय भव मच्छ स्थिति ॥

४१. *काल आश्रयी उत्कृष्ट थी जे,
उदधि छासठ ह्वै ताह्यो रे ।
पूर्व कोड़ज च्यार अधिक फुन, निसुणों तेहनुं न्यायो रे ॥

सोरठा

४२. तमतमा विषे भव तीन, बावीस बावीस उदधि नां ।
कोड़ पूर्व चिउं चीन, मच्छ तणां चिउं भव विषे ॥

४३. नरक सातमीं मांय, जघन्य स्थितिक नारकपणै ।
उत्कृष्ट त्रिण भव पाय, एकांतरिकज इह विधे ॥

बा०—एकांतरिक तमतमा नां तीन भव, ते किम ? तिर्यंच १, तमतमा २, तिर्यंच ३, तमतमा ४, तिर्यंच ५, तमतमा ६, तिर्यंच ७—इम एकांतरिक सातमीं नै विषे जघन्य स्थितिक नां तीन भव करै पिण अधिक न करै । अनै तिर्यंच नां च्यार भव च्यार कोड़ पूर्व नां करै । ए सात भव उत्कृष्ट अद्धा । इहां सात भव नों काल परिमाण हुवै । जे 'कालओ' एहवू पाठ इहां कह्यो छै ते काल उत्कृष्ट वांछ्यो, पिण नारक नां भव नी उत्कृष्टी स्थिति न बांछी । जे भणी तीन कोड़ पूर्व सातमी नारकी नां जघन्य स्थितिक नों काल अनै च्यार कोड़ पूर्व तिर्यंच भव नों काल अधिक ए लेखव्यो ।

४४. *काल एतलो सेवै जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
ओधिक नै ओधिक गमो ए, दाखयो प्रथम दयालो रे ॥

३५. इत्थिवेदगा न उववज्जंति, सेसं तं चैव जाव अणु-
बंधो त्ति ।

'इत्थिवेद्या न उववज्जंति' त्ति षष्ठ्यन्तास्वेव
पृथिवीषु स्त्रीणामुत्पत्तेः (वृ० प० ८१४)

३६. संबेहो भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाइं ।

३७, ३८. 'उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाइं' ति मत्स्यो मृत्वा
१ सप्तम्यां गतः २ पुनर्मत्स्यो जातः ३ पुनः सप्त-
म्यां गतः ४ पुनरपि मत्स्यः ५ पुनरपि तथैव गतः
६ पुनर्मत्स्यः ७ इत्येवमिति । (वृ० प० ८१४)

३९. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं दोहि
अंतोमुहूर्त्तेहि अब्भहियाइं,

४०. 'कालादेसेण' मित्यादि, इह द्वाविंशतिः सागरो-
पमाणि जघन्यस्थितिकसप्तमपृथ्वीनारकसम्बन्धीनि
अन्तर्मुहूर्त्तद्वयं च प्रथमतृतीयमत्स्यभवसम्बन्धीति,
(वृ० प० ८१४)

४१. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

४२. 'छावट्ठि सागरोवमाइं' ति वारत्रयं सप्तम्यां द्वाविंशति-
सागरोपमायुक्ततयोत्पत्तेः चतस्रश्च पूर्वकोट्य-
श्चतुर्षु नारकभवान्तरितेषु मत्स्यभवेष्विति,
(वृ० प० ८१४)

४३. अतो वचनाच्चैतदवसीयते—सप्तम्यां जघन्यस्थिति-
भूत्कर्षतस्त्रीनेव वारानुत्पद्यत इति, (वृ० प० ८१४)

४४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।८१)

*लय : प्रभवो चोर चोरां नै समझावै

३० भगवती जोड़

ओधिक नें जघन्य (२)

४५. तेहिज जघन्य काल स्थितिक विषे ऊपनों,
वक्तव्यता सहु जाणी रे ।
लब्धि प्राप्त कहियै विध सेती,
जाव भवादेश लग माणी रे ॥

वा०—तेहिज सन्नी तिर्यंच जघन्य काल स्थितिक नें विषे ऊपनों, इह वचने करी जघन्य थकी बावीस सागर नें विषे ऊपनों अनै उत्कृष्ट थकी पिण बावीस सागर नें विषे ऊपनों, इम जाणवो । अनै लद्धी प्रमुख नीं सर्व ही वक्तव्यता जाणवी ।

४६. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, कालादेश पिण धारो रे ।
तिणहिज रीते कहिवो यावत, अधिक पूर्वं कोड़ च्यारो रे ॥
४७. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
ओधिक नें वलि जघन्य गमक ए,
दाख्यो द्वितीय दयालो रे ॥

ओधिक नें उत्कृष्ट (३)

४८. तेहिज उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे ऊपनों,
लब्धि सर्व ही लहियै रे ।
यावत ही अनुबंध लगै ए, भवादेश हिव कहियै रे ॥

वा०—तेहिज सन्नी तिर्यंच उत्कृष्ट काल स्थितिक नें विषे ऊपनों, इह वचने करी जघन्य थकी पिण ३३ सागर स्थितिक विषे ऊपनों, उत्कृष्ट थकी पिण ३३ सागर स्थितिक विषे ऊपनों, इम कहिवूं । अनै सगली ही लद्धी यावत अनुबंध लगै जाणवूं ।

४९. भव आश्रयी जघन्य थकी जे, तिण भव ग्रहण करेवो रे ।
प्रथम तृतीय भव तिर्यंच केरो, एक नारक भव लेवो रे ॥
५०. उत्कृष्ट भव पंच ग्रहण जे, मच्छ तणां भव तीनों रे ।
बे भव सप्तमी उत्कृष्ट आयु, हिव तसु न्याय सुचीनो रे ॥

सोरठा

५१. मच्छ मरी नें जेह, तेतीस सागर सप्तमीं ।
ऊपजी नें वलि तेह, मच्छ हुवै तीजे भवे ॥
५२. तुर्य भवे फुन जाय, उत्कृष्टी स्थिति सप्तमीं ।
मच्छ पुनरपि थाय, उत्कृष्टा भव पंच इम ॥
५३. सप्तमी नरक मभार, उत्कृष्टी स्थिति नें विषे ।
इम जावै बे वार, तीजी वार न ऊपजै ॥
५४. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, नारक उदधि तेतीसो रे ।
अंतर्मुहूर्त दोय अधिक पिण, बे भव मच्छ कहीसो रे ॥
५५. उत्कृष्ट छासठ सागर नारक, बे भव स्थिति उत्कृष्टो रे ।
कोड़ पूर्वं त्रिण अधिक कहीजै,
त्रिण मच्छ भव स्थिति जिष्ठो रे ॥

*लय : प्रभवो चोर चोरां नें समझावै

४५. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चेव वक्तव्यता जाव भवादेशो त्ति ।

४६. कालादेशेणं जहण्णेणं कालादेशो वि तहेव जाव चउहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं,
४७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा २ ।
(श० २४।८२)

४८. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जाव अणुबंधो त्ति ।

४९. भवादेशेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं,

५०. उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं ।
'उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं' ति त्रीणि मत्स्यभव-
ग्रहणानि द्वे च नारकभवग्रहणे (वृ० प० ८१४)

५३. अत एव वचनादुत्कृष्टस्थितिषु सप्तम्यां वारद्वय-
मेवोत्पद्यत इत्यवसीयते ३ (वृ० प० ८१४)
५४. कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि
अंतोमुहूर्तेहि अब्भहियाइं,
५५. उक्कोसेणं छासठं सागरोवमाइं तिहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

५६. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
ओधिक नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो तृतीय दयालो रे ॥

जघन्य अनै ओधिक (४)

५७. पजत्त संख्यात वर्षायुष सन्नी तिरि,
जघन्य स्थितिक छै जेहो रे ।
अधोसप्तमी पृथ्वी विषे जे,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो रे ॥

५८. रत्नप्रभा नां चउथा गमा नीं, वक्तव्यता सह भणवी रे ।
यावत भव आदेश लगै इम, णवरं विशेषज थुणवी रे ॥

५९. रत्नप्रभा में षट संघयणी, जघन्य स्थितिक तिरि जायो रे ।
तुर्य गमे इहां सप्तम पृथ्वी, धुर संघयणी ध्यायो रे ॥

६०. रत्नप्रभा में स्त्रीवेदक पिण,
तिरि स्थिति जघन्य गच्छंतो रे ।
तुर्य गमे इहां सप्तम पृथ्वी, स्त्री वेदक नहिं जंतो रे ॥

६१. भव आश्रयी जघन्य थकी जे, त्रिण भव ग्रहण कहीजै रे ।
उत्कृष्टा भव सप्त ग्रहण छै, न्याय पूर्ववत लीजै रे ॥

सोरठा

६२. जघन्य तीन भव ख्यात, दोय मच्छ, इक नारकी ।
उत्कृष्टा भव सात, त्रिण नारकी चिउं मच्छ नां ॥

६३. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, बावीस सागर न्हालो रे ।
अंतर्मुहूर्त्त दोय अधिक पिण, त्रिण भव नुं ए कालो रे ॥

६४. उत्कृष्ट छासठ सागर नारकि,
जघन्य स्थितिक भव तीनों रे ।
अंतर्मुहूर्त्त चार अधिक फुन,
चिउं मच्छ भव अठ लीनो रे ॥

६५. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
जघन्य अनै ओधिक गमक ए, दाख्यो तुर्य दयालो रे ॥

जघन्य नै जघन्य (५)

६६. पजत्त संख्यात वर्षायुष सन्नी तिरि,
जघन्य स्थितिक छै जेहो रे ।
जघन्य स्थितिक विषे नरक सप्तमी,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो रे ॥

६७. जघन्य स्थितिक विषे तेह ऊपनों,
इम तुर्य गमो पहिछाणो रे ।
तेहिज समस्त प्रकारे कहिवो,
जाव कालादेश लग जाणो रे ॥

५६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । (श० २४।८३)

५७,५८. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्ठितीओ जाओ,
सच्चेव रयणप्पभपुढविजहण्णकालट्ठितीयवत्तव्वया
भाणियव्वा जाव भवादेसो त्ति, नवरं—

५९,६०. पढमं संघयणं, नो इत्थिवेदगा ।
तत्र रत्नप्रभायां षट् संहननानि त्रयश्च वेदा उक्ताः
इह तु सप्तमपृथिवीचतुर्थगमे प्रथममेव संहननं स्त्री-
वेदनिषेधश्च वाच्य इति ४, (वृ० प० ८१४)

६१. भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं
सत्त भवग्गहणाइं ।

६३. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं दोहि
अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाइं

६४. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं
अब्भहियाइं,

६५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ४ । (श० २४।८४)

६६,६७. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, एवं सो
चेव चउत्थो गमओ निरवसेसो भाणियव्वा जाव
कालादेसो त्ति ५ । (श० २४।८५)

*लय : प्रभवो चोर चोरां नै समझावै

३२ भगवती जोड़

जघन्य नें उत्कृष्ट (६)

६८. पञ्च संख्यात वर्षायुष सन्नी तिरि,
जघन्य स्थितिक छै जेहो रे ।
उत्कृष्ट स्थितिक विषे नरक सप्तमी,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो रे ॥
६९. उत्कृष्ट स्थिति विषे तेह ऊपनों, लब्धि सर्व ही लहियै रे ।
यावत ही अनुबंध लगै ए, हिव भव आश्रयी कहियै रे ॥
७०. भव आश्रयी जघन्य थकी जे, त्रिण भव ग्रहण पिछाणी रे ।
प्रथम मच्छ भव द्वितीय सप्तमी,
तृतीय मच्छ फुन जाणी रे ॥
७१. उत्कृष्टा भव पंच कहीजै, बे भव सप्तमी लेहो रे ।
तिर्यच नां भव तीन करै ते, हिव तसु काल सुणेहो रे ॥
७२. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, तेतीस सागर तेहो रे ।
अंतर्मुहूर्त्त दोग अधिक फुन, त्रिण भव अद्धा एहो रे ॥
७३. उत्कृष्ट छासठ सागर नारक, उत्कृष्ट स्थिति बे वारो रे ।
अंतर्मुहूर्त्त तीन अधिक फुन, त्रिण तिरि भव अद्ध धारो रे ॥
७४. एतलो काल सेवै ते जंतु,
करै गति आगति इतो कालो रे ॥
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो षष्ठम दयालो रे ॥

उत्कृष्ट नें ओधिक (७)

७५. तेहिज उत्कृष्ट स्थितिक सन्नी तिर्यचज,
गयो सातमी विषे जगीसो रे ।
जघन्य बावीस सागर नें आउखै,
उत्कृष्ट सागर तेतीसो रे ॥
७६. एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? शेष लब्धि सह लहवी रे ।
सप्तमी पृथ्वी नां प्रथम गमक नीं,
वक्तव्यता इहां कहवी रे ॥
७७. यावत भव आश्रयी लग भणवूं, णवरं स्थिति अनुबंधो रे ।
जघन्य उत्कृष्ट पिण पूर्व कोड़ी, शेष तिमज जे संधो रे ॥
७८. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, सागरोपम बावीसो रे ।
कोड़ पूर्व बे अधिक कहीजै, हिव तसु न्याय जगीसो रे ॥

सोरठा

७९. बावीस सागर जोय, सप्तम पृथ्वी जघन्य स्थिति ।
पूर्व कोड़ी दोग, उत्कृष्ट स्थिति तिरि बे भवे ॥
८०. *उत्कृष्ट छासठ सागर नारक,
त्रिण भव स्थिति जघन्यो रे ।
च्यार पूर्व कोड़ उत्कृष्टी स्थिति,
तिर्यच चिउं भव जन्यो रे ॥

*लय : प्रभवो चोर चोरां नें समझावै

- ६८, ६९. सो चैव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जाव अणुबंधो त्ति ।
७०. भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं,
७१. उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं.
७२. कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि अंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाइं,
७३. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं तिहि अंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाइं,
७४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ६ । (श० २४।८६)
७५. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीओ जहण्णेणं बावीससागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेणं तेत्तीससागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।८७)
७६. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? अवसेसा सच्चेव सत्तमपुढविपढमगमवत्तव्वया भाणियव्वा
७७. जाव भवादेसो त्ति, नवरं—ठिती अणुबंधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी, सेसं तं चैव ।
७८. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं दोहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं,
८०. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं,

८१. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
उत्कृष्ट नै ओधिक गमक ए, दाख्यो सप्तम दयालो रे ॥

वा० —इहां तीन भव सातमीं नां जघन्य स्थिति नां बावीस सागर नां ते माटे बावीस नै त्रिगुणा कियां छासठ सागर थया । अनै तिर्यच नां च्यार भव, तिर्यच कोड पूर्व उत्कृष्ट स्थिति नां ते माटे च्यार कोड पूर्व अधिक—ए उत्कृष्ट काल कह्यो । इहां कोई पूछे—जे सातमीं गमै उत्कृष्ट नै ओधिक छै, ते तिर्यच नां उत्कृष्ट आउखो अनै नारकी नां ओधिक माटे उत्कृष्ट तेतीस सागर नां दोय भव गिण्यां छासठ सागर हुवै । ते उत्कृष्ट स्थिति नां बे भव किम न गिण्या अनै जघन्य स्थिति नां तीन भव किण न्याय गिण्या ?

तेहनो उत्तर —इहां कायसंवेध बीसमा द्वार नै विषे एहवूं प्रश्न पूछ्यो जे सन्नी तिर्यच मरी सातमीं जाय बलि तिहां थी नीकली सन्नी तिर्यच हुवै । इम गतागति केतलो काल करै ? जद भगवंत काल नां जाब दियो—जे भव आश्रयी जघन्य तीन भव, उत्कृष्टा सात भव । ते कोड पूर्व तिर्यच भव संबंधी अनै बावीस सागर सातमीं नां जघन्य स्थिति एतलुं काल बे भव आश्रयी जघन्य कह्यो । अनै उत्कृष्ट सात भव ते सप्तमी नां जघन्य स्थितिक नां तीन भव तेहनां छासठ सागर गिण्या । अनै च्यार तिर्यच नां भव संबंधी च्यार कोड पूर्व अधिक गिण्या । अनै जो सातमीं नां दोय भव उत्कृष्ट आउखा नां गिणै तो तिर्यच नां उत्कृष्ट आउखा नां तीन भव नां तीन पूर्व कोड ईज हुवै, इम पांच भव गिण्यां छतां उत्कृष्ट काल थोड़ो थावै अनै सात भव नां काल गिण्यां छतां जघन्य स्थिति सातमीं नां छासठ सागर हुवै अनै उत्कृष्ट स्थितिक तिर्यच नां च्यार पूर्व कोड हुवै ए एक पूर्व कोड काल वधै ते माटे उत्कृष्ट काल नां वांछा लेखवी नै सातमीं नां जघन्य स्थिति नां छासठ सागर गिण्या । इम काल नो प्रश्न पूछ्ये छते उत्कृष्ट अधिक काल सात भव गिण्या इज हुवै अनै पांच भव गिण्यां एक कोड पूर्व नो काल ओछो हुवै तिणसूं जघन्य स्थिति सातमी नां तीन भव नां छासठ सागर गिण्या ।

उत्कृष्ट नै जघन्य (८)

८२. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी-तिरि,
उत्कृष्ट स्थितिक जेहो रे ।
ऊपजवा जोग्य सप्तम पृथ्वी,
जघन्य स्थितिक नेरइयापणेहो रे ॥
८३. जघन्य स्थितिक विषे तेह ऊपनां,
लब्धि बोल सहु लहियै रे ।
कायसंवेध पिण तिमहिज भणवूं, सप्तम गम सम कहियै रे ॥

उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट (९)

८४. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी-तिरि,
उत्कृष्ट स्थितिक जेहो रे ।
अधो सप्तमीं पृथ्वी विषे जे,
स्थिति उत्कृष्ट नेरइयापणेहो रे ॥
८५. उत्कृष्ट स्थितिक विषे ऊपनां, लब्धि सर्व ही भणियै रे ।
यावत अनुबंध लग ए कहिवूं, भवादेश इम थुणियै रे ॥

३४ भगवती जोड

८१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७ । (श० २४।८८)

८२,८३. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, सच्चेव
लद्धी संवेहो वि तहेव सत्तमगमसरिसो ८ ।
(श० २४।८९)

८४,८५. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो एस
चेव लद्धी जाव अणुबंधो त्ति ।

८६. भव आश्रयी जघन्य तीन भव, मच्छ नारक तिर्यंचो रे ।
उत्कृष्टा भव पंच नारक बे, तिरि भव तीन विरंचो रे ॥
८७. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, नारक उदधि तेतीसो रे ।
कोड़ पूर्व बे अधिक जाणवा, बे तिरि भव स्थिति दीसो रे ॥
८८. उत्कृष्ट छासठ सागर नारक जेष्ठ स्थितिक भव दोयो रे ।
कोड़ पूर्व त्रिण तिर्यंच त्रिण भव, उत्कृष्ट आयू जोयो रे ॥
८९. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो रे ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो नवम दयालो रे ॥
९०. तिर्यंच नारकि जावै तेहनां, नव गम भव अधिकारो रे ।
लब्धि बोल नीं प्राप्ति दाखी, णाणत्ता भेद विचारो रे ॥

सोरठा

९१. तुर्य पंचम षष्ठम, जघन्य गमा त्रिण जाणवा ।
सप्तम अष्टम नवम, उत्कृष्ट गमाज तीन ए ॥
९२. असन्नी धुर नरकेह, जावै तसु जघन्य गमे ।
तीन णाणत्ता लेह, उत्कृष्ट गमेज दोय फुन ॥
९३. आयु जघन्योत्कृष्ट, अंतर्मुहूर्त्त जघन्य गम ।
अनुबंध इतोज इष्ट, अपसत्थ अध्यवसाय फुन ॥
९४. उत्कृष्ट गम अवलोय, आउ पूर्व कोड़ नों ।
अनुबंध इतोज होय, आख्या ए बे णाणत्ता ॥
९५. सन्नि तिर्यंच जाय, सातू नारकि तेहनां ।
जघन्य गमे कहिवाय, आठ-आठ है णाणत्ता ॥
९६. अवगाहना जघन्य, असंख्यातमें भाग जे ।
आंगुल तणें सुजन्य, उत्कृष्ट पृथक धनुष्य नीं ॥
९७. धुर लेश्या त्रिण पाय, दृष्टि एक मिथ्या कही ।
ज्ञान नहीं तिण मांय, समुद्घात त्रिण प्रथम ही ॥
९८. अंतर्मुहूर्त्त स्थिति संघ, अपसत्थ अध्यवसाय फुन ।
आयु जितो अनुबंध, अष्ट-अष्ट जघन्य गमे ॥
९९. उत्कृष्ट गमेज संघ, आउ पूर्व कोड़ नों ।
आउ जितो अनुबंध, दोय-दोय ए णाणत्ता ॥
१००. असन्नी धुर नरकेह, जावै तेहनां दोय भव ।
नव ही गमके लेह, नारक थी असन्नी न ह्वै ॥
१०१. सन्नी पं. तिर्यंच, धुर षट नरके जाय तसु ।
जघन्य दोय भव संच, उत्कृष्ट अठ नव ही गमे ॥
१०२. सन्नी पं. तिर्यंच, नरक सातमीं जाय तसु ।
जघन्य तीन भव संच, नव ही गमेज जाणवा ॥
१०३. उत्कृष्टा भव पंच, तृतीय छठे नवमे गमे ।
शेष गमे षट संच, उत्कृष्टा भव सात ह्वै ॥

८६. भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं
पंच भवग्गहणाइं ।
८७. कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि
पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं,
८८. उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं तिहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं
८९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ । (श० २४।९०)

१०४. *चउवीसम शत देश प्रथम नों,
चिउं सौ चवदमी ढालो रे ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे,
'जय-जश' मंगलमालो रे ॥

ढाल : ४१५

दूहा

१. मनुष्य थकी जो ऊपजै, नारक में भगवान !
स्युं सन्नी मनु थी हुवै, कै असन्नी थी जान ?
२. जिन कहै सन्नी मनुष्य मरि, ऊपजै नरक मभार ।
पिण असन्नी नहि ऊपजै, बलि पूछै गणधार ॥
३. जो सन्नी मनु थी हुवै, तो स्युं वर्ष संख्यात ?
आउखावंत ऊपजै, कै असंख वर्षायु जात ?
४. जिन कहै संख्यायुष मनु सन्नी नरके जात ।
असंख वर्ष आयु सन्नी मनुष्य थकी नहि थात ॥
५. जो संख्याता वर्ष स्थिति, जाव नरक में जाय ।
स्युं पर्याप्त थी हुवै, कै अपजत्त थी थाय ?
६. जिन कहै पर्याप्त जिके, वर्षायु संखेह ।
सन्नी मनु थी ऊपजै, अपजत्त नहि ऊपजेह ॥
*भाखे स्वामी, सन्नी मनुष्य नारक नव गमा । ध्रुपदं
†सन्नी मनुष्य नारक में ऊपजै, तसु नव गमका कहियै रे ॥ ध्रुपदं
७. पर्याप्तो संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य भगवान ?
जेह ऊपजवा जोग्य अछ जी, नारक नें विषे जान ॥
८. ते कति पुढवी विषे ऊपजै प्रभुजी ! जिन कहै सातूं मांय ।
रत्नप्रभा विषे जाव सप्तमी, पृथ्वी विषे उपजाय ॥

१. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जति—किं सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति ? असण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति ?
२. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति, नो असण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति । (श० २४।९१)
३. जइ सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति—किं संखेज्ज-वासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति ? असंखेज्ज-वासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति ?
४. गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उव-वज्जति, नो असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति । (श० २४।९२)
५. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति—किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उव-वज्जति ? अपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति ?
६. गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जति, नो अपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णि-मणुस्सेहिंतो उववज्जति । (श० २४।९३)
७. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तए,
८. से णं भंते ! कतिसु पुढवीसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु उववज्जेज्जा, तं जहा—रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए । (श० २४।९४)

*लय : प्रभवो चोर चोरां नें समझावें

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

तथा

†लय : लाल हजारी को जामो विराजें

नोट : दूसरी लय में दूसरे और चौथे पद में रे रहेगा ।

३६ भगवती जोड़

प्रथम नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

ओधिक नै ओधिक (१)

१. पर्याप्तो संख्यात वर्षायुष, सन्नी मनुष्य प्रभु ! जेह ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा नां, नारक नें विषे तेह ॥
१०. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?,
जिन कहै जघन्य सुलेखो ।
वर्ष सहस्र दश स्थितिक विषे ए, उत्कृष्ट सागर एको ॥
११. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? तब भाखै जगनाथं ।
जघन्य एक बे तीन ऊपजै, उत्कृष्टा संख्यातं ॥

सोरठा

१२. गर्भज मनुष्य सुजोय, संख्याताज सदा हुवै ।
ते माटे अवलोय, संख्याता इज ऊपजै ॥
१३. *षट संघयणी मनुष्य ऊपजै, तनु अवगाहन इष्टं ।
जघन्य थकी पृथक आंगुल नी, पांच सौ धनु उत्कृष्टं ॥
१४. एवं शेष जिम सन्नी पंचेंद्री, तिर्यंच नें आख्यातं ।
तेम इहां पिण कहिवूं यावत, भवादेश लग बातं ॥
१५. नवरं विशेषज च्यार ज्ञान नें, तीन अज्ञान सुजाणी ।
भजनाइं करिनें ते भणवा, इहां वृत्तिकार इम आणी ॥

सोरठा

१६. जे अवध्यादि उचित्त, पड़िये छते केइक तणुं ।
नारक में उपपत्त, वृत्तिकार इम आखियो ॥
१७. फुन कहै चूर्णिकार, अवधि अनै मनपज्जव तज वलि ।
छांडी तनु आहार, नरके उपजै चूर्ण मत ॥
१८. 'इहां पाठ में ख्यात, सन्नी मनु आखे भवे ।
भजनाइं करि थात, च्यार ज्ञान अज्ञान त्रिण ॥
१९. किणहिक में बे ज्ञान, किणहिक में त्रिण ज्ञान ह्वै ।
किणहिक में चिउं ज्ञान, इम भजनाइं ज्ञान चिउं ॥
२०. किण में दोय अज्ञान, किण में तीन अज्ञान ह्वै ।
आखै भव इम जान, भजना तीन अज्ञान इम ॥
२१. इण लेखे अवलोय, अंत समय तिरि भव विषे ।
विभंग अवधिज होय, एहवूं नियम न दीसतूं ॥
२२. युगल विषे बे ज्ञान, अथवा दोय अज्ञान ह्वै ।
अवधि विभंग न जान, पन्नवण पंचम पद विषे ॥
२३. हुवै युगलिया देव, सुर धुर समये भवप्रत्यय ।
अवधि विभंग लहेव, एहवूं जे दीसै अछै ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

१. परि. २. यंत्र ३

१. पज्जत्तसखेज्जवासाउयसणिमणुस्से णं भंते ! जे
भविण् रयणप्पभाए पुढवीए नेरइएसु उववज्जित्तए,
१०. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु, उक्को-
सेणं सागरोवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।

(श० २४।१५)

११. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति ।
१२. उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति' त्ति गर्भजमनुष्याणां
सदैव सङ्घातानामेवास्तित्वादिति,
(वृ० प० ८१६)
१३. संघयणा छ, सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलपुहत्तं,
उक्कोसेणं पंचघणुसयाइं ।
१४. एवं सेसं ब्रह्मा सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं
जाव भवादेशो त्ति,
१५. नवरं—चत्तारि नाणा तिण्णि अण्णाणा भयणाए ।

१६. 'नवरं चत्तारि नाणाइं' ति अवध्यादौ प्रतिपतिते
सति केषाञ्चिन्नारकेषूत्पत्तेः, (वृ० प० ८१६)
१७. आह च चूर्णिकारः—'ओहिनाणमणपज्जवआहारय-
सरीराणि लद्धूणं परिसाडित्ता उववज्जंति' त्ति,
(वृ० प० ८१६, ८१७)

२२. एवं उक्कोसट्ठितीए वि, नवरं—दो णाणा, दो
अण्णाणा । (वणवणा ५।१०५)

२४. तिम तिरि नरके जाय, नारक धुर समय विषे ।
अवधि विभंग पाय, भवप्रत्यय छै ते भणी ॥
२५. शत अष्टम द्वितीय उद्देश, लक्ष्मी ज्ञान अज्ञान नीं ।
आख्यो तिहां विशेष, कहियै छै ते सांभलो ।
२६. नारक हे भगवंत ! स्युं ज्ञानी कहियै तसु ।
कै अज्ञानी हुंत ? जिन भाखै दोनू हुई ॥
२७. जे ज्ञानी छै तेह, निश्चै त्रिण ज्ञानी हुवै ।
मति श्रुत अवधि लहेह, अर्थ कियो वृत्तिकार इम ।
२८. सम्यग्दृष्टि मोय, नारक नै भवप्रत्यय ।
अवधिज्ञान जे होय, तिणसू निश्चै ज्ञान त्रिण ।
२९. जे अज्ञानी होय, केइक में अज्ञान बे ।
केयक में त्रिण जोय, वृत्तिकार तिहां इम कह्यो ॥
३०. असज्ञी छताज जेह, नारकि विषेज ऊपजै ।
अपर्याप्ता विषेह, बे अज्ञान पिण विभंग नहीं ॥
३१. मिथ्यादृष्टी जेह, सज्ञी थकीज ऊपजै ।
ते भवप्रत्यय लेह, विभंग अनान हुवै तसु ॥
३२. नरकगतियो जेह, तिर्यच मनुष्य थकी जिको ।
नारक में ऊपजेह, अंतर गति जे वर्त्ततो ॥
३३. ते नरकगतिया मांय, निश्चै करिनै ज्ञान त्रिण ।
भजनाइं करि पाय, तीन अज्ञानज पूर्ववत ॥
३४. सुरगतिया आख्यात, नारकगतिया नीं परै ।
वृत्तिकार विख्यात, अर्थ कियो इण रीत सूं ॥
३५. सुरगतिया नै सोय, प्रथम समय देवायु नै ।
भवप्रत्यय अवलोय, अवधि ऊपजै नारकिवत ॥
३६. इह वचने करि मंत, नारक सुर में ऊपजै ।
मनुष्य तिरि भव अंत, अवधि विभंग नो नियम नहीं ॥' (ज० स०)
३७. *समुद्घात षट केवल वर्जी, स्थिति अनै अनुबंध ।
जघन्य मास पृथक उत्कृष्टो, पूर्व कोड़ संबंध ॥

सोरठा

३८. इह वचने अवलोय, आउखो बे मास थी ।
अंतरवर्त्ती होय, नरक न जावै ते मनु ॥
३९. *शेष तिमज कहिवो पूर्ववत, काल आश्रयी जघन्य ।
वर्ष सहस्र दश नारक जघन्य स्थिति,
मास पृथक मनु जन्य ।
४०. उत्कृष्ट चिउं सागर नारकि नां,
चिउं भव में स्थिति जिष्ठ ।
च्यार पूर्व कोड़ अधिक मनुष्य नां,
चिउं भव स्थिति उत्कृष्ट ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

३८ भगवती जोड़

२६. नेरइयाणं भंते ! किं नाणी ? अण्णाणी ?
गोयमा ! नाणी वि अण्णाणी वि (भगवई ८।१०५)
२७. जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, तं जहा—आभिणि-
बोहिय नाणो, सुयनाणी, ओहिनाणी ।
(भगवई ८।१०५)
२८. सम्यग्दृष्टिनारकाणां भवप्रत्ययमवधिज्ञानमस्तीति
कृत्वा ते नियमात् त्रिज्ञानिनः । (वृ० प० ३४५)
२९. जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दुअण्णाणी, अत्थेगतिया
तिअण्णाणी । (भगवई ८।१०५)
३०. असंज्ञिनः सन्तो ये नारकेषूपपद्यन्ते तेषामपर्याप्त-
कावस्थायां विभंगाभावादाद्यमेवाज्ञानद्वयमिति ते
द्वयज्ञानिनः । (वृ० प० ३४५)
३१. ये तु मिथ्यादृष्टिसंज्ञिभ्य उत्पद्यन्ते तेषां भवप्रत्ययो
विभंगो भवतीति ते द्वयज्ञानिनः । (वृ० प० ३४५)
३३. एवं तिण्णि अण्णाणाणि भयणाए ।
[(भगवई ८।१०५)]

३७. छ समुद्घाया केवलिवज्जा । ठिती अणुबंधो य
जहण्णेणं मासपुहत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी,

३८. 'जहन्नेणं मासपुहत्तं' ति, इदमुक्तं भवति—मास-
द्वयान्तर्वर्त्यायुर्नरो नरकं न याति (वृ० प० ८१७)

३९. सेसं तं चैव । कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं
मासपुहत्तमब्भहियाइं;

४०. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

सोरठा

४१. मनुष्य च्यार भव इष्ट, इक नरके ह्वै नारकी ।
अठ भव स्थिति उत्कृष्ट, पछै ऊपजै तिरि विषे ॥
४२. *एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नै ओधिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयालो ॥

ओधिक नै जघन्य [२]

४३. तेहिज पर्याप्त संख्यात वर्षायुष, सन्ती मनुष्य छै जेह ।
रत्नप्रभा में जघन्य स्थितिके,
ऊपजवा जोग्य नारकपणेह ॥
४४. ते जघन्य काल स्थितिक विषे ऊपनों, एहिज पूठली पेखो ।
वक्तव्यता कहियै विध सेती, णवरं इतरो विशेखो ।
४५. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, वर्ष सहस्र दश जन्य ।
मास पृथक अधिकेरी कहियै, बिहुं भव काल जघन्य ॥

सोरठा

४६. वर्ष सहस्र दश जाण, जघन्य स्थितिक नारक तणी ।
पृथक मास पिछाण, गर्भ विषे मनु आउखो ॥
४७. *उत्कृष्टो चिउं पूर्व कोडी, चिउं मनु भव स्थिति जिष्टं ।
अधिक चालीस सहस्र वर्ष नरके, चिउं भव आयु कनिष्ठं ॥
४८. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नै वलि जघन्य गमक ए, दाख्यो द्वितीय दयालो ॥

ओधिक नै उत्कृष्ट (३)

४९. तेहिज पर्याप्त संख्यात वर्षायुष, सन्ती मनुष्य छै जेह ।
रत्नप्रभा मे उत्कृष्ट स्थितिके,
ऊपजवा जोग्य नारक विषेह ।
५०. ते उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे ऊपनों,
एहिज पाछली जाणी ।
वक्तव्यता कहियै पिण णवरं, इतरो विशेष पिछाणी ॥
५१. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, एक सागर अवलोई ।
मास पृथक फुन अधिक कहीजै, बिहुं भव अद्धा जोई ॥

सोरठा

५२. पृथक मास मनु स्थित, गर्भ विषे मरि नै तिको ।
रत्नप्रभा उत्पत्त, इक सागर नै आउखे ॥
५३. *उत्कृष्ट थी चिउं सागर नारकी, च्यार भवे स्थिति जिष्टं ।
पूर्व कोड चिउं मनुष्य तणी ए, चिउं भव स्थिति उत्कृष्टं ॥
५४. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो तृतीय दयालो ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

४२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।९६)

- ४३,४४. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—

४५. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं मासपुहत्त
मब्भहियाइं,

४७. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वास
सहस्सेहि अब्भहियाओ,
४८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा २ । (श. २४।९७)

- ४९,५०. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो,
एस चेव वत्तव्वया, नवरं—

५१. कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं मासपुहत्त
मब्भहियं ।

५३. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं ।

५४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । (श. २४।९८)

जघन्य नें ओघिक (४)

५५. पजत्त संख्यात वर्षायुष सन्नी मनु जघन्य स्थितिक छै जेह ।
ऊपजवा जोर्य रत्नप्रभा में, नारकी नें विषे तेह ॥
५६. एहिज वक्तव्यता कही पूर्वे, तेहिज भणवी जान ।
णवरं पंच णाणत्ता कहियै, भेद अछै पंच स्थान ॥
५७. तनु अवगाहन जघन्य थकी जे, पृथक आंगुल लहियै ।
उत्कृष्टो पिण पृथक आंगुल, प्रथम णाणत्तो कहियै ॥

सोरठा

५८. प्रथम गमे अवगाह, जघन्य पृथक आंगुल तणी ।
उत्कृष्टी कही ताय, धनुष्य पंच शत नीं तिहां ॥
५९. इहां जघन्योत्कृष्ट पाय, पृथक आंगुल नीं कही ।
धनुष्य पंच सय नांय, तिणसू घुर गम णाणत्तो ।
६०. *तीन ज्ञान नें तीन अज्ञान नीं, भजनाइं करि भणियै ।
जघन्य स्थितिक नां भाव थकी ए,
द्वितीय णाणत्तो गिणियै ॥

सोरठा

६१. प्रथम गमे चिउं नाण, जघन्य गमे मनपज्जव नहि ।
ते माटै इहां जाण, द्वितीय णाणत्तो ज्ञान नीं ॥
६२. *समुद्घात पंच कही आदि नीं, आहारक केवल नांही ।
जघन्य स्थितिक नां भाव थकी ए, तृतीय णाणत्तो थाई ॥

सोरठा

६३. घुर गम षट समुद्घात, जघन्य स्थितिक नें पंच है ।
आहारक नहि आख्यात, तृतीय णाणत्तो ते भणी ॥
६४. *आउ अनें अनुबंध जघन्य थी, पृथक मास कथित्तो ।
उत्कृष्टो पिण मास पृथक नीं, तुर्य पंचम णाणत्तो ॥

सोरठा

६५. घुर गम स्थिति अनुबंध, जघन्य मास पृथक कह्यो ।
उत्कृष्ट ए बिहुं संध, कोइ पूर्व नीं छै तिहां ॥
६६. जघन्य गमे कनिष्ठ, स्थिति अनें अनुबंध जे ।
पूर्व कोइ नहि इष्ट, तिणसू ए बिहुं णाणत्ता ॥
६७. *शेष तिमज जाव भवादेश लग, जघन्य दोय भव जाणी ।
उत्कृष्टा भव आठ कहीजै, हिव तसु काल पिच्छाणी ॥
६८. काल आश्रयी जघन्य नारकि में, वर्ष सहस्र दश जन्य ।
पृथक मास अधिक मनुष्य भव स्थिति,
बिहुं भव काल जघन्य ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय हायो

४० भगवती जोइ

- ५५, ५६. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्ठितीओ जाओ, एस
चेव वत्तव्वया, नवरं—इमाइं पंच नाणत्ताइं—
५७. १. सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलपुहत्तं, उक्कोसेण
वि अंगुलपुहत्तं ।

५८. प्रथमगमे तु सा जघन्यतोऽङ्गुलपृथक्त्वमुत्कृष्टतस्तु
पञ्च धनुःशतानीति १ । (वृ. प. ८१७)
६०. २. तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणाइं भयणाए ।
तथेह त्रीणि ज्ञानानि त्रीण्यज्ञानानि भजनया
जघन्यस्थितिकस्यैषामेव भावात् । (वृ. प. ८१७)

६१. पूर्वं च चत्वारि ज्ञानान्युक्तानीति २ ।
(वृ. प. ८१७)
६२. ३. पंच समुग्घाया आदिल्ला ।
तथेहाद्याः पञ्च समुद्घाताः जघन्यस्थितिकस्यैषामेव
सम्भवात् । (वृ. प. ८१७)
६३. प्राक् च षडुक्ताः अजघन्यस्थितिकस्याहारकसमुद्-
घातस्यापि सम्भवात् ३ । (वृ. प. ८१७)
६४. ४, ५. ठिती अणुबंधो य जहण्णेणं मासपुहत्तं,
उक्कोसेण वि मासपुहत्तं ।

६५. प्राक् च स्थित्यनुबन्धो जघन्यतो
मासपृथक्त्वमुत्कृष्टतस्तु पूर्वकोट्यभिहितेति ।
(वृ. प. ८१७)

६७. सेसं तं चेव जाव भवादेशोत्ति ।

६८. कालादेशेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं
मासपुहत्तमब्भहियाइं ।

६९. उत्कृष्ट सागर च्यार नारकि में, चिहुं भव स्थिति उत्कृष्ट ।
पृथक मास चिउं मनुष्य तणें भव,

चिउं भव स्थिति कनिष्ठ ॥

७०. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै ओधिक गमक ए, दाख्यो तुर्य दयालो ॥

जघन्य नें जघन्य (५)

७१. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्ती मनु,
जघन्य स्थितिक छै जेहो ।
रत्नप्रभा में जघन्य स्थितिक विषे,

ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥

७२. ते जघन्य काल स्थितिक विषे ऊपनों,
वक्तव्यता सहु तेही ।
कहिवी चउथा गमक सरीखी, णवरं विशेष छै एही ॥

७३. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, अद्धा सहस्र दश वास ।
पृथक मास अधिक बलि कहियै, बे भव आश्रयी तास ॥

सोरठा

७४. वर्ष सहस्र दश जेह, जघन्य स्थितिक नारक मांहि ।
पृथक मास अधिकेह, मनुष्य भवे ए जघन्य स्थितिक ॥

७५. *उत्कृष्ट चालीस सहस्र वर्ष नीं, चिउं भव नरक जघन्य ।
पृथक मास चिउं च्यार मनुष्य भव, अद्धा अष्ट भव जन्य ॥

७६. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै बलि जघन्य गमक ए, दाख्यो पंचम दयालो ॥

जघन्य नें उत्कृष्ट (६)

७७. ते पजत्त संख्यात वर्षायु सन्ती मनु,
जघन्य स्थितिक छै जेहो ।
उत्कृष्ट स्थितिके रत्नप्रभा में,

ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥

७८. ते उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे ऊपनों,
पूर्व गमो कह्यो जिम एही ।
णवरं एह विशेष कहीजै, सांभलजो चित देई ॥

७९. काल आश्रयी जघन्य सागर इक,
नारकि भव स्थिति जिष्टं ।
मास पृथक ए मनुष्य जघन्य स्थिति, बे भव अद्धा इष्टं ॥

८०. उत्कृष्ट अद्धा चिउं सागर नारकि,
चिउं भव स्थितिक उत्कृष्टं ।
चिउं पृथक मास चिउं मनुष्य तणी ए,
चिउं भव स्थितिक निष्ठं ॥

८१. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो षष्ठम दयालो रे ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

६९. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहि
मासपुहत्तेहि अम्भहियाइं ।

७०. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ४ । (श० २४।९९)

७१,७२. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस
चेव वत्तव्वया चउत्थगमगसरिसा, नवरं—

७३. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं मासपुहत्तमम्भ-
हियाइं ।

७५. उक्कोसेणं चत्तालीसं वाससहस्साइं चउहि मास-
पुहत्तेहि अम्भहियाइं ।

७६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ५ । (श० २४।१००)

७७,७८. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चेव
गमगो, नवरं—

७९. कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं मासपुहत्त-
मम्भहियं ।

८०. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहि मासपुहत्तेहि
अम्भहियाइं ।

८१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ६ । (श० २४।१०१)

उत्कृष्ट नै ओधिक (७)

८२. पञ्जत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु, उत्कृष्ट स्थितिक जेहो ।
ऊपजवा जोग्य रत्नप्रभा में, नारकी नै विषे तेहो ॥
८३. जाव तेहिज धुर गमो जाणवूं, णवरं इतरो विशेषो ।
उत्कृष्ट गमे ए तीन णाणत्ता, जुआ-जुआ इम लेखो ॥
८४. तनु अवगाहन जघन्य थकी जे, धनुष्य पंच सय जाणी ।
उत्कृष्टी पिण धनुष्य पंच सय, प्रथम णाणत्तो माणी ॥

वा० -जघन्य-उत्कृष्ट ५०० धनुष्य नीं अवगाहना अनै उत्कृष्ट कोड़ पूर्व नीं स्थिति वालो बावतो हुवै तेहनों कथन न लेखव्यो । इहां बहुलपक्षे धोक-मारग' में उत्कृष्ट कोड़ पूर्व नीं ५०० धनुष्य नीं अवगाहना कही । रत्नप्रभा में उत्कृष्ट गमे संख्याता वर्ष नीं सन्नी मनुष्य ऊपजै अनै और ठिकाणे संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ऊपजै, उत्कृष्ट गमे एहीज न्याय जाणवो ।

सोरठा

८५. प्रथम गमे अवगाह, जघन्य पृथक आंगुल तणी ।
उत्कृष्टी कहिवाह, पूर्व कोड़ तणी तिहां ॥
८६. इहां उत्कृष्ट गमेह, जघन्य अनै उत्कृष्ट फुन ।
धनुष्य पंच सय लेह, आखी छै अवगाहना ॥
८७. पृथक आंगुल पेख, उत्कृष्ट गमा विषे नथी ।
ते माटै इम देख, अवगाहना धुर णाणत्तो ॥
८८. *स्थिति जघन्य थी पूर्व कोड़ नीं, उत्कृष्ट पिण पुव्व कोड़ी ।
द्वितीय णाणत्तो स्थित तणीं ए, अनुबंध पिण इम जोड़ी ॥

सोरठा

८९. प्रथम गमा रै मांय, पृथक मास नीं जघन्य स्थिति ।
उत्कृष्टि कहिवाय, पूर्व कोड़ तणी तिहां ॥
९०. पृथक मास पिच्छाण, उत्कृष्ट गमा विषे नथी ।
ते माटै ए जाण, द्वितीय णाणत्तो स्थिति नुं ॥
९१. आयु जिम अनुबंध, तृतीय णाणत्तो तेहनुं ॥
उत्कृष्ट गमे सुसंध, तीन णाणत्ता इह विधे ॥
९२. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, पूर्व कोड़ पिच्छाणी ।
वर्ष सहस्र दश अधिक कहीजे, विहुं भव अद्धा जाणी ॥

सोरठा

९३. पूर्व कोड़ पिच्छाण, मनुष्य भवे उत्कृष्ट स्थिति ।
वर्ष सहस्र दश जाण, जघन्य स्थिति नारकि तणी ॥
९४. *उत्कृष्ट च्यार सागर नारकी में,
चिउं भव स्थिति उत्कृष्टं ।
पूर्व कोड़ चिउं मनुष्य विषे ए, च्यार भवे स्थिति जिष्टं ॥

*लय राजा राघव रायां रो राय कहायो

१. उत्सर्ग मार्ग, सामान्य मार्ग

४२ भगवती जोड़

८२,८३. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, सो चैव पढमगमओ नेयव्वो, नवरं—

८४. सरीरोगाहणा जहण्णेणं पंचघणुसयाइं, उक्कोसेण वि पंचघणुसयाइं ।

८८. ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो वि ।

९२. कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि
अब्भहिया ।

९४. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं ।

९५. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नैं ओधिक गमक ए, दाखयो सप्तम दयालो ॥

उत्कृष्ट नैं जघन्य (८)

९६. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु,
उत्कृष्ट स्थितिक जेहो ॥

रत्नप्रभा में जघन्य स्थितिके,

ऊपजवा जोग्य नारकी विषेहो ॥

९७. ते जघन्य काल स्थितिक विषे ऊपनों, वक्तव्यता सह तेही ।

सातमा गमक सरीखी कहीवी, णवरं विशेष छै एही ॥

९८. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, पूर्व कोड़ पिछाणी ।

वर्ष सहस्र दश अधिक कहीजै, बिहुं भव अद्धा जाणी ॥

सोरठा

९९. पूर्व कोड़ सुपेख, मनुष्य तणी उत्कृष्ट स्थिति ।
वर्ष सहस्र दश देख, जघन्यायु नारकि तणी ॥

१००. *उत्कृष्ट पूर्व कोड़ चिउं ए, नर भव चिउं स्थिति जिष्ट ।
चालीस सहस्र वर्ष नारकि नां, चिउं भव आयु कनिष्ठं ॥

१०१. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नैं वलि जघन्य गमक ए, दाखयो अष्टम दयालो ॥

उत्कृष्ट नैं उत्कृष्ट (६)

१०२. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु,
उत्कृष्ट स्थितिक जेहो ।

रत्नप्रभा मे उत्कृष्ट स्थितिके,

उपजवा जोग्य नारकी विषेहो ॥

१०३. ते उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे,
ऊपनों वक्तव्यता सह तेही ।

सातमा गमक सरीखी कहीवी, णवरं विशेष छै एही ॥

१०४. काल आश्रयी जघन्य थकी जे, कहियै सागर एको ।
पूर्व कोड़ी अधिक कहीजै, बिहुं भव अद्धा लेखो ॥

सोरठा

१०५. सागर एक सुजोड़, रत्नप्रभा नारकि स्थिति ।
मनु भव पूर्व कोड़, बिहुं भव अद्धा एतलो ॥

१०६. *उत्कृष्ट अद्धा चार सागर नों, अधिक पूर्व कोड़ च्यारो ।
आठ भवां नों काल कह्यो ए, हिव तसु न्याय उदारो ॥

सोरठा

१०७. नारकि चिउं भव जाण, च्यार सागर उत्कृष्ट स्थिति ।
च्यार मनुष्य भव माण, पूर्व कोड़ चिउं जेष्ठ स्थिति ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

९५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७ । (श० २४।१०२)

९६,९७. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चेव
सत्तमगमगवत्तव्वया, नवरं—

९८. कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं
अब्भहिया ।

१००. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए
वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ ।

१०१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ८ । (श० २४।१०३)

१०२,१०३. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो,
सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया, नवरं—

१०४. कालादेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं पुव्वकोडीए
अब्भहियं ।

१०६. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।

१०८. * एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो नवम दयालो ॥
दूजी नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

ओधिक नें ओधिक [१]

१०९. पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु, हे भगवंतजी ! जेहो ।
सक्करप्रभा पृथ्वी नें विषे ते,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥
११०. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य लीनो ।
एक सागर स्थितिक विषे ऊपजै, उत्कृष्ट सागर तीनो ॥
१११. इम तेहिज रत्नप्रभा पृथ्वी नां, गमा सरिखी संपेखो ।
वक्कतव्यता कहिवी इहां सगली, णवरं इतरो विशेखो ॥
११२. तनु अवगाहन जघन्य थकी जे, पृथक हाथ पिछ्छाणी ।
उत्कृष्टी तेहनी अवगाहन, धनुष पंच सय माणी ॥

सोरठा

११३. दोय हस्त परिमाण, तेह थकी जे हीण अति ।
मनुष्य तणों तनु जाण, सक्कर विषे नहि ऊपजै ॥
११४. *स्थिति जघन्य थी वर्ष पृथक नीं, उत्कृष्ट पूर्व कोडी ।
अनुबंध पिण इमहिज जाणवो, शेष तं चैव सुजोडी ॥

सोरठा

११५. पृथक वर्ष कहेह, दोय वर्ष थी हीण अति ।
मनुष्य तणी स्थिति तेह, सक्कर विषे नहि ऊपजै ॥
११६. *यावत कहिवो भवादेश लग, काल आश्रयी हेरं ।
जघन्य अद्धा इक सागर कहियै, वर्ष पृथक अधिकेरं ॥

सोरठा

११७. सागर एकज तास, सक्करप्रभा में जघन्य स्थिति ।
मनु स्थिति पृथक वास, बे भव अद्धा जघन्य ए ॥
११८. *उत्कृष्ट अद्धा द्वादश सागर, पूर्व कोडी च्यारो ।
अष्ट भवां नों काल कह्यो ए, उत्कृष्टो अवधारो ॥

सोरठा

११९. सक्करप्रभा नी स्थित, उत्कृष्ट सागर तीन नीं ।
ते चिउं भवे कथित्त, द्वादश सागर इम हुइं ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

१. परि. २. यंत्र ५

४४ भगवती जोड़

१०८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ । (श० २३।१०४)

१०९. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते !
जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइएसु
उववज्जित्तए ।

११०. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं
तिसागरोवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।

(श० २४।१०५)

१११. सो चैव रयणप्पभपुढविगमओ नेयव्वो, नवरं—

११२. सरीरोगाहणा जहण्णेणं रयणिपुहत्तं, उक्कोसेणं
पंचधणुसयाइं ।

११३. ठिती जहण्णेणं वासपुहत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो वि । सेसं तं चैव ।

द्विहस्तप्रमाणेभ्यो हीनतरप्रमाणा द्वितीयायां नोत्पद्यन्ते
(वृ० प० ८१७)

११५. 'जहण्णेणं वासपुहत्तं' ति अनेनापि वर्षद्वयायुष्केभ्यो
हीनतरायुष्का द्वितीयायां नोत्पद्यन्त इत्यवसीयते ।
(वृ० प० ८१७)

११६. जाव भवादेशो त्ति । कालादेशेणं जहण्णेणं सागरोवमं
वासपुहत्तमभहियं ।

११८. उक्कोसेणं बारस सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहि
अभहियाइं ।

१२०. उत्कृष्ट पूर्व कोड़, मनुष्य तणों जे आउखो ।
ते चिउं भवे सुजोड़, च्यार कोड़ पूर्व अद्धा ॥
१२१. *एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओधिक नैं ओधिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयालो ॥
१२२. इम ए ओधिक धुर त्रिण गमके, पाछे कही ते भणवी ।
मनुष्य लद्धी परिमाण संघयणादि, तसु प्राप्त तिम थुणवी ॥
१२३. नानापणुं ते भेद कहुं ए, नारकि स्थिति रै मांह्यो ।
वलि काल आश्रयी कायसंवेधज, फरक तास कहिवायो ॥

सोरठा

१२४. इहां प्रथम गमा रै मांहि, नारकि नीं स्थित्यादि जे ।
पूर्व कहुं ज ताहि, द्वितीय तृतीय गम हिव कहुं ॥
१२५. द्वितीय गमे इम जाण, ओधिक जघन्यायु विषे ।
इहां नारकि स्थिति माण, इक सागर जघन्योत्कृष्ट ॥
१२६. काल थकी संवेध, जघन्य थकी वर्ष पृथक करि ।
सागर एक प्रवेध, बे भव अद्धा जघन्य ए ॥
१२७. उत्कृष्ट अद्धा एह, चिउं सागर चिउं कोड़ पुव्व ।
अठ भव काल कहेह, तिण में नारकि जघन्य स्थिति ॥
१२८. तृतीय गमे पहिछाण, ओधिक उत्कृष्ट स्थिति विषे ।
इहां नारक स्थिति जाण, त्रिण सागर जघन्योत्कृष्ट ॥
१२९. काल थकी संवेध, जघन्य थकी वर्ष पृथक करि ।
सागर तीन प्रवेध, बे भव अद्धा जघन्य ए ॥
१३०. उत्कृष्ट अद्धा जाण, बार उदधि चिउं कोड़ पुव्व ।
अठ भव काल पिछाण, इहां बिहुं भव उत्कृष्ट स्थिति ॥

जघन्य नैं ओधिक [४]

१३१. *पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु, जघन्य स्थितिक छै जेहो ।
ऊपजवा जोग्य सक्करप्रभा में, नारकी नैं विषे तेहो ॥
१३२. तेह जघनीया तीन गमा विषे,
जघन्य मनुष्य स्थिति मांह्यो ।
एहिज लब्धि परिमाणादि प्राप्ति,
धुर त्रिण गम जिम थायो ॥
१३३. णवरं तीन णाणत्ता कहियै, तनु अवगाहन जाणी ।
जघन्य अनैं उत्कृष्ट थकी पिण, पृथक हाथ पिछाणी ॥

सोरठा

१३४. धुर गम कही ओगाण, उत्कृष्टी धनु पंच सौ ।
इहां पृथक कर जाण, ते माटै ए णाणत्तो ॥
१३५. *स्थिति जघन्य थो पृथक वर्ष नीं, उत्कृष्टी पिण संघ ।
पृथक वर्ष तणी ए आखी, एतोइज अनुबंध ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

१. अवगाहना

१२१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
१२२. एवं एसा ओहिएसु तिसु गमएसु मणूसस्स लद्धी ।
१२३. नाणत्तं—नेरइयट्ठित्ति कालादेसेणं संवेहं च जाणेज्जा
१-३ । (श० २४।१०६)

१२४. तत्र प्रथमगमे स्थित्यादिकं लिखितमेव ।
(वृ० प० ८१७)
१२५. द्वितीये त्वौघिको जघन्यस्थितिष्वित्यत्र
नारकस्थितिर्जघन्येतराभ्यां सागरोपमं ।
(वृ० प० ८१७)
- १२६, १२७. कालतस्तु संवेधो जघन्यतो वर्षपृथक्त्वाधिकं
सागरोपममुत्कृष्टतस्तु सागरोपमचतुष्टयं चतुः
पूर्वकोट्यधिकं । (वृ० प० ८१७)

- १३१, १३२. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्ठित्तीओ जाओ,
तस्स वि तिसु वि गमएसु एस चेव लद्धी ।
१३३. नवरं—सरीरोगाहणा जहण्णेणं रयणिपुहत्तं,
उक्कोसेण वि रयणिपुहत्तं ।

१३५. ठित्ती जहण्णेणं वासपुहत्तं, उक्कोसेण वि वासपुहत्तं ।
एवं अणुबंधो वि ।

सोरठा

१३६. धुर गम स्थिति अनुबंध, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ त्यां ।
इहां पृथक वर्ष संघ, ते माटे ए णाणत्ता ॥
१३७. *शेष ओधिक गमे जिम आख्यो, कहिवो सगलो तेमो ।
कायसंवेध विचारी भणवूं, बुद्धि सूं कहियै एमो ॥

सोरठा

१३८. तुर्य गमे संवेह, एक उदधि नें पृथक वर्ष ।
जघन्य काल ए लेह, बिहुं भव अद्धा जघन्य स्थिति ॥
१३९. नारक सागर बार, चिहुं मनु भव चिहुं पृथक वर्ष ।
उत्कृष्ट अद्धा धार, तुर्य गमक नुं एतलुं ॥
१४०. इक दधि पृथक वास, जघन्य अद्धा वे भव तणो ।
उत्कृष्ट काल विमास, च्यार उदधि चिउं पृथक वर्ष ॥
१४१. त्रिण दधि पृथक वास, षष्ठम गम अद्धा जघन्य ।
उत्कृष्ट काल विमास, बार उदधि चिउं पृथक वर्ष ॥

उत्कृष्ट नें ओधिक [७]

१४२. *तेहिज पज्जत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु,
उत्कृष्ट स्थितिक जेहो ।
ऊपजवा जोग्य सक्करप्रभा में, नारकी नें विषे तेहो ॥
१४३. तेहनां पिण छेहला तीन गमे मनु, उत्कृष्ट आयु जासो ।
ते तीन गमा विषे एह णाणत्ता, कहियै तीन विमासो ॥
१४४. तनु अवगाहन जघन्य थकी जे, धनुष्य पंच सय होई ।
उत्कृष्टी पिण धनुष्य पांच सौ, प्रथम णाणत्तो जोई ॥

सोरठा

१४५. ओधिक गम अवगाह, जघन्य पृथक कर नीं कही ।
इहां धनु पंच सयाह, ते माटे ए णाणत्तो ॥
१४६. *स्थिति जघन्य थी कोड़ पूर्व नी, उत्कृष्ट पिण पुव्व कोड़ी ।
द्वितीय णाणत्तो स्थिति तणो ए, इमहिज अनुबंध जोड़ी ॥

सोरठा

१४७. धुर गम स्थिति अनुबंध, जघन्य पृथक वर्ष नीं ।
इहां कोड़ पुव्व संघ, ते माटे ए णाणत्ता ॥
१४८. *शेष प्रथम गमा विषे कह्यूं छे, तिणहिज रीत कहेवूं ।
णवरं नारकि नीं स्थिति अनें वलि, कायसंवेध जाणेवूं ॥

सोरठा

१४९. सप्तम गम मनु जाय, जघन्य एक दधि स्थिति विषे ।
उत्कृष्ट नारकी मांय, ऊपजे त्रिण सागर विषे ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

४६ भगवती जोड़

१३७. सेसं जहा ओहियाणं । संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो
४-६ । (श० २४।१०७)

- १३८, १३९. जघन्यस्थितिक औधिकेष्टित्यत्र गमे संवेधः
कालादेशेन जघन्यतः सागरोपमं वर्षपृथक्त्वाधिकं
उत्कृष्टतस्तु द्वादश सागरोपमाणि वर्षपृथक्त्वचतुष्का-
धिकानि । (वृ० प० ८१७)

- १४२, १४३. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ ।
तस्स वि तिसु वि गमएसु इमं नाणत्तं—

१४४. सरीरोगाहणा जहण्णेणं पंचघणुसयाइं, उक्कोसेण वि
पंचघणुसयाइं ।

१४५. शरीरावगाहना पूर्वं हस्तपृथक्त्वं धनु शतपञ्चकं
चोक्ता इह तु धनुःशतपञ्चकमेव । (वृ० प० ८१७)

१४६. ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो वि ।

१४८. सेसं जहा पढमगमए, नवरं—नेरइयठिइं कायसंवेहं
च जाणेज्जा ७-९ ।

१५०. कायसंवेध जघन्य, इक सागर नारकि अद्धा ।
कोड़ पूर्व मनु जन्य, बिहुं भव अद्धा जघन्य ए ॥
१५१. उत्कृष्ट अद्धा जोय, द्वादश सागर नारके ।
कोड़ पूर्व चिउं होय, च्यार मनुष्य भव नीं स्थिति ॥
१५२. अष्टम गम मनु जाय, जघन्य अनैं उत्कृष्ट पिण ।
ऊपजै नारकि मांय, इक सागर स्थिति नैं विषे ॥
१५३. कायसंवेधे ताय, जघन्य एक सागर कह्यो ।
कोड़ पूर्व अधिकाय, बिहुं भव अद्धा जाणवूं ॥
१५४. उत्कृष्ट अद्धा जोड़, च्यार सागर नारक भव ।
अधिक चिउं पुव्व कोड़, चिउं मनु भव उत्कृष्ट स्थिति ॥
१५५. नवम गमे मनु जाय, जघन्य अनैं उत्कृष्ट फुन ।
ऊपजै नारकि मांय, तीन सागर स्थिति नैं विषे ॥
१५६. कायसंवेध जघन्य, त्रिण सागर नैं कोड़ पुव्व ।
उत्कृष्ट अद्धा जन्य, बार सागर चिउं कोड़ पुव्व ॥
१५७. सक्करप्रभा नां एह, नव गमके लद्धी कही ।
वलि णाणत्ता जेह, कह्या जघन्य उत्कृष्ट गम ॥
- तीजी स्यूं छठी नरक तक संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

१५८. *एवं जाव छठी पृथ्वी लग, णवरं विशेष पिछ्छाणो ।
तीजी पृथ्वी थी आरंभी नैं, इक-इक संघयण हाणी ॥
१५९. जिम तिर्यंच पंचेंद्री सन्नी, नारकि में ऊपजेहो ।
तिणमें संघयण घटाया तिम ही, कहिवा मनुष्य विषेहो ॥
१६०. काल आश्रयी पिण तिम कहिवो, सन्नी तिर्यंच जेमो ।
णवरं मनुष्य नां गमा विषे जे,
कहिवी मनुष्य स्थिति एमो ॥

सोरठा

१६१. तिर्यंच स्थिति जघन्य, अंतर्मुहूर्त्त तिरि गमे ।
मनुष्य गमे फुन जन्य, मनुष्य तणी स्थिति जाणवी ॥
१६२. पृथक वर्ष जघन्न, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ मनु ।
सक्कर में उत्पन्न, इम यावत छठी विषे ॥
- सातवीं नरक में संख्याता वर्ष नो सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

ओधिक नैं ओधिक [१]

१६३. *पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु, हे भगवंतजी ! तेहो ।
अधोसप्तमी पृथ्वी विषे जे,
ऊपजवा जोग्य नेरइयापणेहो ॥
१६४. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य थी इष्ट ।
ऊपजै बावीस सागर स्थितिके, तेतीस सागर उत्कृष्ट ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

१. परि० २. यंत्र ७, ९, ११, १३ २. परि० २. यंत्र १५

१५८. एवं जाव छट्टुपुढवी, नवरं—तच्चाए आढवेत्ता
एक्केकक संघयणं परिहायति ।
१५९. जहेव तिरिक्खजोगियाणं ।
१६०. कालादेसो वि तहेव, नवरं—मणुस्सट्ठिती जाणियव्वा ।
(श० २४।१०८)

१६१. तिर्यक्स्थितिर्जघन्याऽन्तर्मुहूर्त्तमुक्ता मनुष्यगमेषु तु
मनुष्यस्थितिर्जातव्या । (वृ० प० ८१७)
१६२. सा च जघन्या द्वितीयादिगामिनां वर्षपृथक्त्वमुत्कृष्टा
तु पूर्वकोटीति । (वृ० प० ८१७)

१६३. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते !
जे भविए अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइएसु
उववज्जित्तए ।
१६४. से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं बावीससागरोवमद्वितीएसु,
उक्कोसेणं तेत्तीससागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१०९)

१६५. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ? शेष तिमहिज भणवो ।
सक्करप्रभा नों घुर गम भाख्यो, तिमहिज ए जाणवो ॥

१६६. णवरं सातमी पृथ्वी विषे जे, ऊपजै प्रथम संघयणी ।
इत्थिवेदगा ऊपजै नांही, शेष तिमज विध कहणी ॥

१६७. यावत अनुबंध लगै जाणवो, भव आश्रयी भव दोयो ।
एक मनुष्य दूजो सप्तम नरके, तेहथी तिर्यंच होयो ॥

१६८. काल आश्रयी जघन्य संवेधज, बावीस सागर जाणी ।
वर्ष पृथक बलि अधिक कहीजै, जघन्य काल ए माणी ॥

सोरठा

१६९. ए सागर बावीस, नरक सप्तमी जघन्य स्थिति ।
पृथक वर्ष जगीस, जघन्यायु मनु भव विषे ॥

१७०. *उत्कृष्ट अद्धा तेतीस सागर, सप्तमी थिति उत्कृष्ट ।
पूर्व कोडी अधिक कहीजै, ए नर भव स्थिति जिष्टं ॥

१७१. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
ओघिक नें ओघिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयालो ॥

ओघिक नें जघन्य (२)

१७२. तेहिज पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी मनु,
जघन्य स्थितिक विषे उपन्नो ।

एहिज वक्तव्यता कहिवी तसु, णवरं विशेष सुजन्नो ॥

१७३. नारकि स्थिति मांहे फेर जाणवूं, वलि कायसंवेध में फेरं ।
स्वयमेव उभय विचारो कहिवूं, आगल ते इम हेरं ॥

सोरठा

१७४. नारकि स्थिति ए न्हाल, जघन्य अनें उत्कृष्ट ही ।
बावीस सागर काल, तेह विषे ए ऊपनों ॥

१७५. कायसंवेध जघन्य, वर्ष पृथक बावीस दधि ।
उत्कृष्ट अद्धा जन्य, बावीस सागर कोड पुव्व ॥

ओघिक नें उत्कृष्ट [३]

१७६.* तेहिज पजत्त संख वर्षायु सन्नी मनु,
उत्कृष्ट स्थितिके उपनों ।

एहिज वक्तव्यता कहिवी तसु, णवरं विशेष सुजनों ॥

१७७. नारकि स्थिति अनें संवेधे, भेद विहुं रै मांह्यो ।
ते स्वयमेव जाणेवा मन स्यूं, आगल ते कहिवायो ॥

सोरठा

१७८. नारकि स्थिति ए न्हाल, जघन्य अनें उत्कृष्ट ही ।
तेतीस सागर काल, तेह विषे ए ऊपनों ॥

१६५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जंति ? अवसेसो सो चेव सक्करप्पभापुढविगमओ
नेयव्वो ।

१६६. नवरं—पढमं संघयणं, इत्थिवेदगा न उववज्जंति,
सेसं तं चेव ।

१६७. जाव अणुबंधो त्ति । भवादेसेणं दोभवग्गहणाइं ।

१६८. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं वासपुहत्त-
मब्भहियाइं ।

१७०. उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए
अब्भहियाइं,

१७१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरार्गतिं
करेज्जा १ । (श० २४।११०)

१७२. सो चेव जहणकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया । नवरं—

१७३. नेरइयट्ठिति संवेहं च जाणेज्जा २ ।
(श० २४।१११)

१७६. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—

१७७. संवेहं च जाणेज्जा ३ । (श० ४२।११२)

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

४८ भगवती जोड

१७९. कायसंवेध जघन्य, वर्ष पृथक तेतीस दधि ।
उत्कृष्ट अद्धा जन्य, तेतीस सागर कोड़ पुव्व ॥

हिं वै जघन्य नैं ओधिक, जघन्य नैं जघन्य, जघन्य नैं उत्कृष्ट—ए तीन जघन्य
गमका कहै छै—

१८०. तेहिज आपणपै जघन्य काल नों, स्थितिक हुओ जेही ।
तुर्य पंचम नैं छठा गमा विषे, वक्तव्यता छै एही ॥
१८१. णवरं णाणत्ता तीन इहां छै, तनु अवगाहन मन्य ।
जघन्य अनैं उत्कृष्ट थकी पिण, पृथक हाथ सुजन्य ॥

सोरठा

१८२. प्रथम गमे अवगाह, उत्कृष्टी धनु पंच सय ।
इहां उत्कृष्टी आह, पृथक कर ए णाणत्तो ॥
१८३. *स्थिति जघन्य थी वर्ष पृथक नी, उत्कृष्टी पिण संघ ।
पृथक वर्ष तणी कहिवी जे, इमहिज छै अनुबंध ॥

सोरठा

१८४. धुर गम स्थिति उत्कृष्ट, पूर्व कोड़ तणी तिहां ।
इहां उत्कृष्टी इष्ट, वर्ष पृथक अनुबंध स्थिति ॥
१८५. तुर्य गमे मनु जाय, नारकि स्थितिके जघन्य थी ।
बावीस सागर पाय, उत्कृष्ट तेतीस दधि विषे ॥
१८६. *कायसंवेध जघन्य उत्कृष्टो, उपयोगे करि भणवो ।
तीनूं गमके आगल इह विधि, प्रवर विचारी थुणवो ॥

सोरठा

१८७. कायसंवेध जघन्य, वर्ष पृथक बावीस दधि ।
उत्कृष्ट अद्धा जन्य, वर्ष पृथक तेतीस दधि ॥
१८८. पंचम गम मनु जाय, नरक सातमीं नैं विषे ॥
बावीस सागर पाय, जघन्य अनैं उत्कृष्ट फुन ।
१८९. पंचम गम पहिछाण, जघन्य अनैं उत्कृष्ट अद्ध ।
कालसंवेध सुजाण, वर्ष पृथक बावीस दधि ॥
१९०. कायसंवेध सुइष्ट, षष्टम गमे पिछाणियै ।
अद्धा जघन्य उत्कृष्ट, पृथक वर्ष तेतीस दधि ।
१९१. षष्टम गम मनु जाय, नरक सातमीं नैं विषे ॥
तेतीस सागर पाय, जघन्य अनैं उत्कृष्ट पिण ॥

१९२. *तेहीज उत्कृष्टायु मनुष्य ऊपनों, नरक सातमीं मांह्यो ।
सप्तम अष्टम नवम गमा विषे,
एहिज वक्तव्यता कहिवायो ॥

१९३. णवरं तेहनां तीन णाणत्ता, तनु अवगाहन जाणी ।
जघन्य अनैं उत्कृष्ट थकी पिण, धनुष्य पंच सय माणो ॥

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

१८०. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्ठितीओ जाओ, तस्स
वि तिसु वि गमएसु एस चेव वत्तव्वया ।

१८१. नवरं—सरीरोगाहणा जहण्णेणं रयणिपुहत्तं,
उक्कोसेण वि रयणिपुहत्तं ।

१८३. ठिती जहण्णेणं वासपुहत्तं, उक्कोसेण वि वासपुहत्तं ।
एवं अणुबंधो वि ।

१८६. संवेहो उवजुजिऊण भाणियव्वो ४-६ ।

(श० २४।११३)

१९२. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्ठितीओ जाओ, तस्स
वि तिसु वि गमएसु एस चेव वत्तव्वया,

१९३. नवरं—सरीरोगाहणा जहण्णेणं पंचघणुसयाइं,
उक्कोसेण वि पंचघणुसयाइं ।

सोरठा

१९४. घुर गम में अवगाह, पृथक कर नीं जघन्य त्यां ।
इहां जघन्य पिण ताह, धनुष्य पंच सय नीं कही ॥
१९५. *सप्तम अष्टम नवम गमा विषे, जघन्य स्थिति पुव्व कोड़ी ।
उत्कृष्टी पिण पूर्व कोड़ी, एवं अनुबंध जोड़ी ॥

सोरठा

१९६. घुर गम स्थिति अनुबंध, जघन्य वर्ष पृथक तिहां ।
इहां जघन्य पिण संघ, पूर्व कोड़ पिच्छाणजो ॥
१९७. *नवही गमक विषे नारक स्थिति, वलि संवेध पिच्छाणी ।
सर्वत्र नव गम बे भव कहियै, मनुष्य सातमीं माणी ॥

सोरठा

१९८. षट गम पूर्वे ख्यात, स्थिति सोरठिया दुहा विषे ।
तमतमा स्थिति अवदात, प्रगट संवेध कह्यो वली ॥

उत्कृष्ट नें ओधिक (७)

१९९. जेष्ठ स्थितिक मनु जाय, ओधिक स्थितिके सप्तमीं ।
बावीस सागर पाय, उत्कृष्ट तेतीस दधि विषे ॥
२००. अद्धा संवेध जघन्य, बावीस सागर कोड़ पुव्व ।
उत्कृष्ट अद्धा जन्य, कोड़ पूर्व तेतीस दधि ॥

उत्कृष्ट नें जघन्य (८)

२०१. जेष्ठ स्थितिक मनु इष्ट, नरक सातमीं नें विषे ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट, बावीस सागर आउखै ॥
२०२. कायसंवेधज काल, जघन्य अनै उत्कृष्ट अद्ध ।
बावीस सागर न्हाल, अधिक कोड़ पूर्व वली ॥
२०३. *यावत नवम गमे इम कहियो, काल आश्रयी ताह्यो ।
जघन्य अद्धा जे तेतीस सागर, कोड़ पूर्व अधिकायो ॥
२०४. उत्कृष्टो पिण तेतीस सागर, पूर्व कोड़ी इष्टं ।
प्रगट पाठ मांहि प्रभु आखी, बिहुं भव स्थिति उत्कृष्टं ॥
२०५. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो कालो ।
उत्कृष्ट नें उत्कृष्ट नवम गम, मनुष्य सप्तमी न्हालो ॥

वा०—प्रथम नारकी में सन्नी मनुष्य जावै, तेहनां जघन्य भव २, उत्कृष्ट भव ८ । नाणत्ता जघन्य गमे ५, तेहनों विवरो—अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट पृथक आंगुल नीं १, ज्ञान तीन री भजना २, समुद्घात पांच ३, आउखो पृथक मास ४, अनुबंध आउखा जेतो ५, उत्कृष्ट गमे ३ नाणत्ता—अवगाहना ५०० धनुष्य १, आउखो कोड़ पूर्व २, अनुबंध आउखा जेतो ३ ।

सातमी नारकि सन्नी मनुष्य जावै, तेहनां जघन्य भव २, उत्कृष्ट भव २ । जघन्य गमे ३ नाणत्ता एवं चैव । उत्कृष्ट गमे ३ नाणत्ता एवं चैव ।

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

५० भगवती जोड़

१९५. ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो वि ।

१९७. नवसु वि एतेसु गमएसु नेरइयट्ठित्ति संवेहं च
जाणेज्जा । सव्वत्थ भवग्गहणाइं दोण्णि

२०३. जाव नवमगमए । कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं
सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अब्भहियाइं ।
२०४. उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए
अब्भहियाइं
२०५. एवतियं कालं सेवेज्जा एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७-९ । (श० २४।११४)

सोरठा

२०६. प्रथम नारकि मांय, सन्नी मनु जावै तसु ।
जघन्य गमे कहाय, पंच णाणत्ता पाइयै ॥
२०७. उत्कृष्ट गमे सुजोय, तीन णाणत्ता तेहनां ।
नाम जुजूआ सोय, पूर्वे आख्या ईज छै ॥
२०८. सक्कर थी ले सोय, जाय तमतमा मनु सन्नी ।
तीन-तीन अवलोय, जघन्य गमेज णाणत्ता ॥
२०९. उत्कृष्ट गमेज ताह, तीन-तीन है णाणत्ता ।
इम षट नरक तणांह, तीस अनै षट णाणत्ता ॥
२१०. इम सातूं नरकेह, सन्नी मनु नां णाणत्ता ।
चउमालीस कहेह, निर्णय पूर्वे आखियो ॥
२११. *सेवं भंते ! सेवं भंते ! जाव गोतम विचरंतो ।
अर्थ थकी शत चउवीसम नों, प्रथम उद्देशक तंतो ॥
२१२. च्यारसौ पनरमीं ढाल कही ए, भिक्षु भारीमाल ऋषिरायो ।
तास प्रसादे गण वृद्धि संपति, 'जय-जश' हरष सवायो ॥
- चतुर्विंशतितमशते प्रथमोद्देशकार्थः ॥२४।१॥

२११. सेवं भंते ! भंते ! त्ति जाव विहरइ ।

(श० २४।११५)

ढाल : ४१६

दूहा

१. प्रथम उद्देशे आखियो, द्वितीय हिवै कहिवाय ।
तास संबंध वलि इहां, बखाणियै वर वाय ॥
२. जीव पदे इत्यादि जे, पूर्वे गाथा उक्त ।
सर्व उद्देश विषे अपि, इमहिज आदि सुजुक्त ॥
३. अथवा हिव एहनुं सूत्र धुर, राजगृहे वर रीत ।
यावत गोतम इम कहै, निरमल वचन पुनीत ॥
- धन प्रभु वीरजी, वच गुण हीर जी ।
धन धुर शीस जी, प्रश्न जगीस जी ॥ [ध्रुपद]
४. असुरकुमार किहां थी रूपजै ? स्यूं नरक थकी उपजंत बे ।
कै तिरिक्ख मनुष्य नें देव थकी ह्वै ? तब भाखै भगवंत बे ॥
५. नारक सुर थी रूपजै नांही, तिरि मनु थी उपजंत बे ।
इम जिम नारक प्रथम उद्देशे, दाख्यो तेम कहंत बे ॥

१,२. व्याख्यातः प्रथमोद्देशकः अथ द्वितीयो व्याख्यायते,
सम्बन्धस्तु जीवपदे इत्यादिपूर्वोक्तगाथानिर्दिशत एव,
(वृ० प० ८१८)

३. अस्य चेदमादिसूत्रम्— (वृ० प० ८१८)
रायगिहे जाव एवं वयासी—

४. असुरकुमारा णं भंते ! कओंहितो उववज्जंति—कि
नेरइएंहितो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-
देवेंहितो उववज्जंति ?

५. गोयमा ! नो नेरइएंहितो उववज्जंति, तिरिक्ख-
जोणिएंहितो उववज्जंति, मणुस्सेंहितो उववज्जंति,
नो देवेंहितो उववज्जंति । एवं जहेव नेरइय उद्देसए

*लय : राजा राघव रायां रो राय कहायो

†लय : धन प्रभु रामजी

असुरकुमार में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ऊपजं, तेहनो अधिकार'

ओधिक नें ओधिक (१)

६. जाव पर्याप्त असन्नी पंचेंद्री, तिर्यच प्रभुजी ! तेह बे ।
ऊपजवा नें जोग्य अछै जे, असुरकुमार विषेह बे ॥

७. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुइष्ट बे ।
ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थितिके,
पत्य नें असंख भाग उत्कृष्ट बे ॥

सोरठा

८. इहां पत्य नों पेख, असंख्यातमों भाग जे ।
ग्रहिवे करि सुविशेख, ग्रहिवो पूर्व कोड़ जे ॥
९. असन्नी तिरि नों जाण, आउखो उत्कृष्ट थी ।
पूर्व कोड़ परिमाण, आख्यो छै तिण कारणे ॥
१०. ते असन्नी सुर आयु, बांधै तो उत्कृष्ट थी ।
निज स्थिति तुल्यज पायु, पिण अधिक न बंधै इम वृत्तौ ॥
११. वृत्ति विषे ए बात, देखी जिम दाखी इहां ।
पिण निश्चय अवदात, वदै केवली तेह सत्य ॥

१२. *ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ?
जिम रत्नप्रभा रै मांहि बे ।
असन्नी ऊपजै तसु नव गमका, ते सम भणवा ताहि बे ॥
१३. णवरं तुर्य पंचम षष्ठम गम,
जघन्य स्थितिक तिरि ताय बे ।
अध्यवसाय शुभ पिण नहि भूंडा,
शेष तिमज कहिवाय बे ॥

सोरठा

१४. असन्नी नरके जाय, जघन्यायु तिरि नां हुवै ।
माठा अध्यवसाय, सुरगामी नां शुभ हुवै ॥

१५. *जो सन्नी पंचेंद्री तिर्यच थकी जे,
ऊपजै असुर मभार बे ।
स्युं वर्ष संख्यायु सन्नी यावत ऊपजै,
कै असंख वर्षायु थी धार बे ?

*लय : घन प्रभु रामजी

१. परि० २. यंत्र १६

२. इस सन्दर्भ में वृत्तिकार ने चूर्णिकार के मत को उद्धृत किया है। वह इस प्रकार है—

उक्कोसेणं स तुल्लपुव्वकोडी आउयत्तं निवत्तेइ ।

न य संमुच्छिमो पुव्वकोडी आउयत्ताओ परो अत्थि । (वृ० प० ८२०)

५२ भगवती जोड़

६. जाव— (श० २४।११६)
पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते !
जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जित्तए,
७. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु,
उक्कोसेणं पलिभोवमस्स असंखेज्जइभागट्टितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।११७)

८. इह पत्योपमासङ्खेयभागग्रहणेन पूर्वकोटी ग्राह्या,
(वृ० प० ८२०)
९. यतः संमुच्छिमस्योत्कर्षतः पूर्वकोटीप्रमाणमायुर्भवति,
(वृ० प० ८२०)
१०. स चोत्कर्षतः स्वायुष्कतुल्यमेव देवायुर्बन्धनाति नाति-
रिक्तं, (वृ० प० ८२०)

१२. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ? एवं रयणप्पभागगसरिसा नव वि गमा
भाणियव्वा,
१३. नवरं—जाहे अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ भवति
ताहे अज्झवसाणा पसत्था, नो अप्पसत्था तिसु वि
गमएसु । अवसेसं तं चेव १-९ । (श० २४।११८)

१५. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति
—कि संखेज्जवासाउय-सण्णिपंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जंति ? असंखेज्जवासाउयसण्णि-
पंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ?

१६. जिन कहै संख वर्षायुष यावत, ऊपजै असुर मभार बे ।
असंख वर्षायुष यावत ऊपजै, वलि पूछै गणधार बे ॥
असुरकुमार में तिर्यंच युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार'

ओघिक नै ओघिक (१)

१७. हे प्रभु ! वर्ष असंख आयुष नां,
सन्नी पंचेद्री तिरि जेह बे ।
ऊपजवा नें जोग्य अछै जे, असुरकुमार विषेह बे ॥
१८. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै जघन्य सुचीन बे ।
ऊपजै दश सहस्र वर्ष स्थितिके, उत्कृष्टो पत्य तीन बे ॥

सोरठा

१९. युगल देवकुरु आदि, त्रिण पत्य स्थितिक असुर ह्वै ।
जो उत्कृष्ट आयु लाधि, तो निज स्थिति सम तीन पत्य ॥
२०. *ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ?
तब भाखे जगनाथ बे ।
जघन्य एक दोय तीन ऊपजै, उत्कृष्टा संख्यात बे ॥

सोरठा

२१. युगल तिर्यंच सुजोय, संख्याता इज ते हुवै ।
पिण असंख नहि होय, इम संख्याता इज ऊपजै ॥
२२. *वज्रऋषभनाराच संघयणी, ते ऊपजै असुर मभार बे ।
वर्ष असंख्याता स्थितिक जे, धुर संघयणी धार बे ॥
२३. जघन्य थकी अवगाहन जेहनी, पृथक धनुष्य पिछाण बे ।
उत्कृष्टी तो छ गाउ नीं, उभय न्याय इम जाण बे ॥

सोरठा

२४. जघन्य पृथक धनु थाय, ए छै पंखी आश्रयी ।
पंखी नीं अवगाह, धनुष्य पृथक उत्कृष्ट ह्वै ॥
२५. ते जुगल पंखी नीं स्थित्त, असंख्यातमों भाग जे ।
पत्य तणोंज कथित्त, वृत्ति विषे इम आखियो ॥
२६. षट गाउ उत्कृष्ट, देवकुरु प्रमुख विषे ।
हस्ति आदिक इष्ट, वर्ष असंख्यायु तिके ॥
२७. *ते समचउरंस संठाण संठिया, ऊपजै असुर मभार बे ।
सर्व युगलिया धुर संठाणिक, न ह्वै अन्य आकार बे ॥

*लय : धन प्रभु रामजी

१. परि० २, यंत्र १७

१६. गौयमा ! संखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति,
असंखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति । (श० २४।११९)

१७. असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं
भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जंतए,
१८. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गौयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु,
उक्कोसेणं तिपलिओवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१२०)

१९. इदं देवकुर्वादिमिथुनकतिरश्चोऽधिकृत्योक्तं, ते हि
त्रिपत्योपमायुष्कत्वेनासंख्यातवर्षायुषो भवन्ति, ते च
स्वायुः सदृशं देवायुर्ब्रह्मन्तीति । (वृ० प० ८२०)
२०. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं—पुच्छा ।
गौयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति ।

२१. 'संखेज्जा उववज्जंति' ति असंख्यातवर्षायुस्तिर-
श्चामसंख्यातानां कदाचिदप्यभावात्,
(वृ० प० ८२०)
२२. वइरोसभनारायसंघयणी ।
'वयरोसहनारायसंघयणी' ति असंख्यातवर्षायुषां
यतस्तदेव भवतीति, (वृ० प० ८२०)
२३. ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं छ
गाउयाइं ।

२४. 'जहन्नेणं धणुपुहत्तं' ति इदं पक्षिणोऽधिकृत्योक्तं,
पक्षिणामुत्कृष्टतो धनुः-पृथक्त्वप्रमाणशरीरत्वात्,
आह च 'धणुपुहत्तं पक्खिसु' ति (वृ० प० ८२०)
२५. असंख्यातवर्षायुषोऽपि ते स्युर्गंदाह—'पलिय-
असंखेज्जपक्खीसु' ति पत्योपमासंख्यायेभागः पक्षिणा-
मायुरिति, (वृ० प० ८२०)
२६. 'उक्कोसेणं छ गाउयाइं' ति, इदं च देवकुर्वादिह-
स्त्यादीनाधिकृत्योक्तं, (वृ० प० ८२०)

२७. समचउरंससंठिया पण्णत्ता ।

४३. उत्कृष्ट अद्धा लेह, तीन पल्योपम तिरि युगल ।
असुर विषे ऊपजेह, तीन पल्योपम स्थितिके ॥
४४. सुर भव थकी उद्धृत, निश्चै नहीं ह्वै युगलिया ।
तिणसूं एम कथित, अद्धा बे भव नों इहां ॥
४५. *एतलो काल सेवै ते जंतु,
करै गति आगति इतो काल बे ।
ओधिक नें ओधिक गमक ए, दाख्यो प्रथम दयाल बे ॥

ओधिक नें जघन्य (२)

४६. तेहिज युगल तिर्यच ऊपनों, जघन्य स्थितिक नें विषेह बे ।
एहिज वक्तव्यता तसु कहिवी, णवरं विशेष छै एह बे ॥
४७. असुरकुमार नों स्थिति विषे वलि, कायसवेध मभार बे ॥
ए दोनूं में फेर अछै ते, कहिवूं मन सू विचार बे ॥

सोरठा

४८. जघन्य स्थितिके इष्ट, युगल ऊपजै असुर में ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट, वर्षं सहस्र दश स्थितिके ॥
४९. कायसवेध सुजोड़, जघन्य काल तेहनुं इतो ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्षं सहस्र दश अधिक ए ॥
५०. उत्कृष्ट अद्धा जेह, तीन पल्योपम युगल स्थिति ।
वर्षं सहस्र दश एह, असुर तणें भव जघन्य स्थिति ॥

ओधिक नें उत्कृष्ट (३)

५१. *तेहिज युगल तिरि जेष्ठ स्थितिक ते,
ऊपनों उत्कृष्ट स्थितिक विषेह बे ॥
जघन्य अनें उत्कृष्ट थकी ते, तीन पल्य स्थिति लेह बे ॥
५२. एहिज वक्तव्यता तसु कहिवी, णवरं इतरो विशेष बे ।
स्थिति अनुबध जघन्य उत्कृष्टी, तीन पल्योपम देख बे ॥
५३. काल आश्रयी जघन्य अद्धा जे, पल्योपम षट पाय बे ।
उत्कृष्टो पिण षट पल्योपम, बिहुं भव नूं कहिवाय बे ॥
५४. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो काल बे ।
ओधिक नें उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो तृतीय दयाल बे ॥

जघन्य नें ओधिक (४)

५५. तेहिज तिरि जघन्य काल स्थितिक हुओ,
साधिक पूर्व कोड़ बे ।
ते असुरकुमार नें विषे ऊपजै, तुर्य गमो ए जोड़ बे ॥
५६. ओधिक स्थितिक विषे ते ऊपजै,
जघन्य सहस्र दश वास बे ।
उत्कृष्ट साधिक कोड़ पूर्व नां, आयु विषे सुविमास बे ॥

- ४३,४४. 'उक्कोसेणं छप्पलिओवमाइ' ति त्रीण्यसङ्घात-
वर्षायुस्तिर्यग्भवसम्बन्धीनि त्रीणि चासुरभवसम्बन्धी-
नीत्येवं षट्, न च देवभवादुद्वृत्तः पुनरप्यसङ्घात-
वर्षायुष्केषूत्पद्यत इति (वृ० प० ८२०)
४५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।१२१)

४६. सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो—एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—
४७. असुरकुमारट्टिति संवेहं च जाणेज्जा २ ।
(श० २४।१२२)

५१. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं
तिपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेण वि तिपलिओवम-
ट्टितीएसु उववज्जेज्जा—
५२. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—ठिती से जहण्णेणं तिण्णि
पलिओवमाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिओवमाइ ।
एवं अणुबंधो वि ।
५३. कालादेसेणं जहण्णेणं छप्पलिओवमाइ, उक्कोसेण
वि छप्पलिओवमाइ,
५४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा, सेसं तं चेव ३ । (श० २४।१२३)

- ५५,५६. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओ
जहण्णेणं दसवाससहस्रट्टितीएसु, उक्कोसेणं सातिरेग-
पुव्वकोडीआउएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।१२४)

*लय : धन प्रभु रामजी

सोरठा

५७. साधिक पूर्व कोड़, निज आयु तुल्य सुर स्थिति ।
उत्कृष्टी ए जोड़, पंखी प्रमुखज युगलिया ॥
५८. *ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै,
तिमहिज शेष सुचीन बे ।
यावत भव आदेश लगै ए, णवरं णाणत्ता तीन बे ॥
५९. तनु अवगाहन जघन्य थकी जे, पृथक धनुष्य संपेख बे ।
उत्कृष्टी धनु सहस्र जाभेरी, तास न्याय इम देख बे ॥

सोरठा

६०. धनुष सहस्र अधिकाय, सप्तम कुलकर तेहथी ।
पूर्व काले पाय, भावी जे हस्त्यादि नीं ॥
६१. साधिक पूर्व कोड़, जघन्य स्थिति तिरि युगल नीं ।
ए संख वर्ष स्थिति जोड़, असंख वर्ष स्थिति किम कही ॥
६२. युगल तणों ए नाम, असंख्यात वर्ष स्थितिकः ।
संज्ञावाची ताम, आगम में व्यवहार इम ॥

वा० — अत्र जुगलियां नुं जघन्यायु साधिक पूर्व कोड़ हुवै, तेहनें आगम वचने करी असंख्यात वर्षायुष कहियै । जे सर्व युगलिया नों असंख्यात वर्षायुष एहवी संज्ञा छै । जिम देवता मरै छै, तो पिण तेहनुं नाम अमर एहवू संज्ञा छै । तिम युगलिया नीं पिण असंख्यात वर्षायुष एहवी संज्ञा छै ।

६३. फुन एहवू हस्त्यादि, कुलकर सप्तम तेह थी ।
पूर्व काले लाधि, जघन्य स्थितिक अवगाहना ॥
६४. तथाज सप्तम जाण, कुलकर नीं अवगाहना ।
धनुष पंच सय माण, पंचवीस धनु अधिक फुन ॥
६५. तेह थकी सुविचार, पूर्व काल जे भावि नें ।
धनुष पंच सय धार, अतिहि अधिक अवगाहना ॥
६६. ते काले हस्त्यादि, उच्चपणों द्विगुणो हुई ।
सहस्र धनुष तसु लाधि, अतिहि अधिक अवगाहना ॥
६७. घुर गम उत्कृष्ट वक्क, षट गाऊ आखी तिहां ।
इहां धनु सहस्र अधिकक, ते माटै ए णाणत्तो ॥
६८. *स्थिति जघन्य उत्कृष्ट थी, तेहनीं साधिक पूर्व कोड़ बे ।
तुर्य गमो ए छै ते माटै, एवं अनुबंध जोड़ बे ॥

सोरठा

६९. घुर गम स्थिति उत्कृष्ट, तीन पत्य दाखी तिहां ।
इहां जेष्ठ स्थिति इष्ट, साधिक पूर्व कोड़ में ॥
७०. अनुबंध स्थिति जिम होय, तृतीय णाणत्तो तेहनें ।
घुर गम थी ए जोय, तुर्य गमे त्रिण णाणत्ता ॥

*लय : धन प्रभु रामजी

५६ भगवती जोड़

५७. इह च जघन्यकालस्थितिकः सातिरेकपूर्वकोटघायुः
स च पक्षिप्रभृतिकः प्रक्रान्तः (वृ० प० ८२०)
५८. ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ? अवसेसं तं चेव जाव भवादेशो त्ति,
नवरं—
५९. ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं सातिरेगं
धणुसहस्सं ।

६०. 'उक्कोसेणं सातिरेगं धणुसहस्सं' ति यदुक्तं तत्
सप्तमकुलकरप्राक्कालभाविनो हस्त्यादीनपेक्षयेति
(वृ० प० ८२०)
- ६१, ६२. तथाहि—इहासङ्ख्यातवर्षायुर्जघन्यस्थितिकः
प्रक्रान्तः स च सातिरेकपूर्वकोटघायुर्भवति तथैवागमे
व्यवहृतत्वात्, (वृ० प० ८२०)

६३. एवंविधश्च हस्त्यादिः सप्तमकुलकरप्राक्काले लभ्यते,
(वृ० प० ८२०)
- ६४, ६५. तथा सप्तमकुलकरस्य पञ्चविंशत्यधिकानि
पञ्च धनुःशतानि उच्चैस्त्वं तत्प्राक्कालभाविनां च
तानि समधिकतराणीति (वृ० प० ८२०)
६६. तत्कालीनहस्त्यादयश्चैतद्द्विगुणोच्छ्रयाः
(वृ० प० ८२०)

६८. ठिती जहण्णेणं सातिरेगा पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि
सातिरेगा पुव्वकोडी । एवं अणुबंधो वि ।

७१. *काल आश्रयी जघन्य थकी जे, साधिक पूर्व कोड़ बे ।
वर्ष सहस्र दश अधिक कहीजै, बिहुं भव अद्धा जोड़ बे ॥

सोरठा

७२. तिरि भव स्थिति संबंध, साधिक पूर्व कोड़ नीं ।
वर्ष सहस्र दश संघ, असुर स्थिति ए धुर अद्धा ॥

७३. *काल आश्रयी उत्कृष्ट अद्धा, साधिक बे पुव्व कोड़ बे ।
एक युगल तिरि भव संबंधी, द्वितीय असुर भव जोड़ बे ॥

७४. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो काल बे ।
जघन्य अनै ओधिक गमक ए, दाख्यो तुर्य दयाल बे ॥

जघन्य अनै जघन्य (५)

७५. तेहिज तिर्यंच जघन्य आयुवंत, असुर विषे अवधार बे ।
जघन्य काल स्थितिक विषे ऊपनों,
पंचम गम सुविचार बे ॥

७६. एहिज वक्तव्यता तसु कहिवी, णवरं इतलो फेर बे ।
असुरकुमार नीं स्थिति विषे छै, वलि संवेध सुहेर बे ।

सोरठा

७७. जघन्य अनै उत्कृष्ट, वर्ष सहस्र दश स्थितिक में ।
ऊपजवो इहां इष्ट, जघन्य स्थितिक तिरि युगलियो ॥

७८. कायसंवेध सुजोड़, अद्धा जघन्य उत्कृष्ट पिण ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश अधिक फुन ॥

जघन्य नै उत्कृष्ट (६)

७९. *तेहिज तिर्यंच जघन्य आयुवंत, असुर विषे अवलोय बे ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे ऊपनों,
षष्ठम गमे सुजोय बे ॥

८०. जघन्य अनै उत्कृष्ट थकी पिण, साधिक पूर्व कोड़ बे ।
आउखा नै विषे ऊपजै, शेष तिमज विधि जोड़ बे ।

८१. णवरं संवेधकाल आश्रयी, जघन्य अनै उत्कृष्ट बे ।
साधिक बे पुव्व कोड़ कहीजै, इक तिरि इक सुर इष्ट बे ॥

८२. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो काल बे ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो षष्ठम दयाल बे ॥

उत्कृष्ट नै ओधिक (७)

८३. तेहिज तिरि उत्कृष्ट आयुवंत, ऊपजै असुर मभार बे ।
वक्तव्यता सह प्रथम गमा नीं, भणवी तेहिज सार बे ॥

७१. कालादेसेणं जहण्णेणं सातिरेगा पुव्वकोडी दसहिं
वाससहस्सेहिं अब्भहिया,

७३. उक्कोसेणं सातिरेगाओ दो पुव्वकोडीओ,
'सातिरेगाओ दो पुव्वकोडीओ' इति एका सातिरेका
तिर्यंगभवसत्काऽन्या तु सातिरेकैवासुरभवसत्केति ४ ।
(वृ० प० ८२०)

७४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ४ । (श० २४।१२५)

७५. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो,

७६. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—असुरकुमारद्विइं संवेहं
च जाणेज्जा ५ । (श० २४।१२६)

७७,७८. 'असुरकुमारद्विइं संवेहं च जाणिज्ज' ति तत्र
जघन्याऽसुरकुमारस्थितिदंशवर्षसहस्राणि संवेधस्तु
सातिरेका पूर्वकोटी दशवर्षसहस्राणि चेति ५,
(वृ० प० ८२०)

७९. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो

८०. जहण्णेणं सातिरेगपुव्वकोडिआउएसु, उक्कोसेण वि
सातिरेगपुव्वकोडीआउएसु उववज्जेज्जा, सेसं तं चेव,
८१. नवरं—कालादेसेणं जहण्णेणं सातिरेगाओ दो पुव्व-
कोडीओ, उक्कोसेण वि सातिरेगाओ दो
पुव्वकोडीओ,
८२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ६ । (श० २४।१२७)

८३. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीओ जाओ; सो
चेव पढमगमगो भाणियव्वो,

*लय : धन प्रभु रामजी

८४. णवरं तिरि में दोय णाणत्ता, स्थिति जघन्य उत्कृष्ट बे ।
तीन पल्योपम तेह युगल नीं, एवं अनुबंध इष्ट बे ॥

सोरठा

८५. धुर भव स्थिति जघन्य, साधिक पूर्व कोड़ नीं ।
इहां तीन पल्य जन्य, एवं अनुबंध पिण कह्यो ॥

८६. *कायसंवेधज काल आश्रयी, जघन्य तीन पल्य होय बे ।
वर्ष सहस्र दश अधिक कहीजै, बिहुं भव अद्धा जोय बे ॥

सोरठा

८७. तीन पल्योपम तेह, युगल तिर्यंचज भव स्थिति ।
असुर भव स्थिति जेह, वर्ष सहस्र दश नीं अधिक ॥

८८. *उत्कृष्ट अद्धा षट पल्योपम, त्रिण पल्य युगल तिर्यंच बे ।
तीन पल्योपम असुर भवायु, इम षट पल्यज संच बे ॥

८९. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति इतो काल बे ।
उत्कृष्ट नै ओधिक गमक ए, दाख्यो सप्तम दयाल बे ॥

उत्कृष्ट नै जघन्य (८)

९०. तेहिज उत्कृष्ट आयुवंत तिरि,
जघन्य स्थितिक विषे उत्पन्न बे ।
एहिज वक्तव्यता तसु कहवी, सप्तम गम जिम जन्न बे ॥

९१. णवरं विशेष एतलुं कहिवूं, असुर स्थिति में फेर बे ।
कायसंवेध विषे पिण अंतर, तेह जाणवूं हेर बे ।

सोरठा

९२. जघन्य अनै उत्कृष्ट, वर्ष सहस्र दश स्थितिक में ।
ऊपजवो तसु इष्ट, स्थिति असुर नीं जाणवी ॥

९३. कायसंवेध पिच्छाण, जघन्य अनै उत्कृष्ट पिण ।
तीन पल्योपम जाण, वर्ष सहस्र दश अधिक फुन ॥

उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट (९)

९४. *तेहिज उत्कृष्ट आयुवंत तिरि, असुरकुमार रै मांय बे ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे उपनों,
नवम गमे कहिवाय बे ॥

९५. जघन्य तीन पल्य स्थितिक विषे जे, ऊपनों असुर मभार बे ।
उत्कृष्टो पिण तीन पल्योपम स्थितिक विषे सुविचार बे ॥

९६. एहिज वक्तव्यता पिण णवरं, काल आश्रयी देख बे ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट अद्धा पिण, षट पल्योपम पेख बे ॥

९७. एतलो काल सेवै ते जंतु, करै गति आगति एतलो काल बे ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमक ए, दाख्यो दीन दयाल बे ॥

८४. नवरं—ठिती जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं, उक्को-
सेण वि तिण्णि पलिओवमाइं । एवं अणुबंधो वि ।

८६. कालादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं दसहि
वाससहस्सेहि अब्भहियाइं,

८८. उक्कोसेणं छ पलिओवमाइं,

८९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ७ । (श० २४।१२८)

९०. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया,

९१. नवरं—असुरकुमारट्ठिति संवेहं च जाणेज्जा ९ ।
(श० २४।१२८)

९४. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो

९५. जहण्णेणं तिपलिओवमाइं, उक्कोसेण वि तिपलि-
ओवमाइं,

९६. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—कालादेसेणं जहण्णेणं
छप्पलिओवमाइं, उक्कोसेण वि छप्पलिओवमाइं,

९७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ । (श० २४।१३०)

*लय : धन प्रभु रामजी

५८ भगवती जोड

असुरकुमार में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

९८. जो वर्ष संख्यायुष सन्नी पंचेंद्रिय, जाव असुर में जाय बे ।
स्यूं जलचर थी ऊपजै प्रभुजी ! एवं जाव कहाय बे ॥
९९. पजत्त संख्यात वर्षायु सन्नी पं. तिर्यचयोनिक तेह बे ।
ऊपजवा नें जोग्य अछै जे, असुरकुमार विषेह बे ॥
१००. किता काल स्थितिक विषे ते प्रभु ! ऊपजै ?
जिन कहै गोयम ! तेह बे ।
जघन्य थकी दश सहस्र वर्ष नों,
स्थितिक विषे उपजेह बे ॥
१०१. उत्कृष्टी साधिक सागर नों, स्थितिक विषे उपजंत बे ।
असुर उत्तर दिशि वलि निकायज, तेह आश्रयो मंत बे ॥
१०२. ते एक समय प्रभु ! किता ऊपजै ?
इम एहनें पहिछाण बे ।
रत्नप्रभा नां गमा सरीखा, गमा नवूं ही जाण बे ॥
१०३. णवरं एतलो विशेष कहीजै,
जघन्य स्थितिक हुआ आप बे ।
तुर्य पंचम नें षष्ठम गमके, जघन्य काल स्थिति स्थाप बे ॥
१०४. ए तीनूंइ गमा विषे इम, कह्या णाणत्ता एह बे ।
लेश्या च्यार कहीजै तिणमें, तास न्याय इम लेह बे ॥

सोरठा

१०५. रत्नप्रभा रै मांहि, जाणहार जघन्यायु जे ।
सन्नी तिरि में ताहि, लेश्या तीन कही तिहां ॥
१०६. इहां लेश्या चिउं मंत, तेजु लेश्यावंत पिण ।
असुर विषे उपजंत, ते माटै ए णाणत्तो ॥
१०७. * अद्यवसाय पसत्थ कह्या तसु,
पिण अपसत्थ नहीं आय बे ।
द्वितीय णाणत्तो तिर्यच मांहे, हिव कहियै तसु न्याय बे ॥

सोरठा

१०८. रत्नप्रभा रै मांय, जाणहार धुर स्थितिक नां ।
माठा अद्यवसाय, भला न आवै तिण भवे ।
१०९. इहां भलाहिज ख्यात, जघन्यायु तिरि नें विषे ।
अप्रशस्त नहि पात, अद्धा अल्पपणां थकी ॥
११०. दीर्घ स्थितिक तिरि जोय, जाणहार जे असुर में ।
प्रशस्त अप्रशस्त होय, अल्प स्थितिक नां शुभ हुवै ।

*लय : धन प्रभु रामजी

१. परि० २. यंत्र १८

९८. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिखजोणिए-
हितो उववज्जंति—किं जलचरेहितो उववज्जंति ?
एवं जाव— (श० २४।१३१)
९९. पजत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिखजोणिए
णं भंते ! जे भविए असुरकुमारेसु उववज्जित्तए,
१००. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्रट्टितीएसु,
१०१. उक्कोसेणं सातिरेगसागरोवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१३२)
'उक्कोसेणं सातिरेगसागरोवमट्टितीएसु' त्ति यदुक्तं
तद्बलिनिकायमाश्रित्येति (वृ० प० ८२०)
१०२. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
एवं एतेसि रयणप्पभपुढविगमगसरिसा नव गमगा
नेयव्वा,
१०३. नवरं जाहे अप्पणा जहण्णकालठितीओ भवइ ताहे
१०४. तिसु वि गमएसु, इमं नाणत्तं—चत्तारि
लेस्साओ ।

- १०५,१०. 'चत्तारि लेसाओ' त्ति रत्नप्रभापृथिवीगामिनां
जघन्यस्थितिकानां तिस्रस्ता उक्ताः एषु पुनस्ताश-
चत्तः असुरेषु तेजोलेश्यावानप्युत्पद्यत इति ।
(वृ० प० ८२१)
१०७. अज्झवसाणा पसत्था, नो अप्पसत्था ।

- १०८,१०९. तथा रत्नप्रभापृथिवीगामिनां जघन्यस्थिति-
कानामध्यवसायस्थानान्यप्रशस्तान्येवोक्तानि इह तु
प्रशस्तान्येव । (वृ० प० ८२१)
११०. दीर्घस्थितिकत्वे हि द्विविधान्यपि संभवन्ति न त्वितरेषु
कायस्याल्पत्वात् । (वृ० प० ८२१)

१११. *शेष तिमज कहिवूं सगलोई, कायसंवेध विषेह बे ।
साधिक सागर एक संघाते, करिवूं संबंध जेह बे ॥

१११. सेसं तं चेव । सवेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायव्वो
१-९ । (श० २४।१३३)

सोरठा

११२. प्रथम गमे पहिछाण, कायसंवेधज जघन्य अद्ध ।
वर्ष सहस्र दश जाण, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
११३. उत्कृष्ट अद्धा जोड़, साधिक सागर चिउं असुर ।
फुन चिउं पूर्व कोड़, अठ भव स्थिति उत्कृष्ट ए ॥
११४. द्वितीय गमे इम लेख, जघन्य थकी अद्धा इतो ।
वर्ष सहस्र दश देख, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
११५. उत्कृष्ट अद्धा जास, कोड़ पूर्व चिउं तिरि भवे ।
चालीस सहस्र वास, असुर तणी ए जघन्य स्थिति ॥
११६. तृतीय गमे पहिछाण, अद्धा जघन्य थकी कह्यो ।
साधिक सागर जाण, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
११७. उत्कृष्ट अद्धा काल, चिउं साधिक सागर असुर ।
कोड़ पूर्व चिउं न्हाल, तिर्यंच भव उत्कृष्ट स्थिति ॥
११८. तुर्य गमे संवेह, वर्ष सहस्र दश असुर स्थिति ।
अंतर्मुहूर्त्त एह, सन्नी तिरि भव जघन्य थी ॥
११९. उत्कृष्ट अद्धा धार, चिउं साधिक सागर असुर ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, चिउं तिरि भव ए जघन्य स्थिति ॥
१२०. पंचम गमे जघन्य, अंतर्मुहूर्त्त तिरि भवे ।
वर्ष सहस्र दश जन्य, बिहुं भव अद्धा जघन्य स्थिति ॥
१२१. उत्कृष्ट अद्धा धार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार तिरि ।
वर्ष चालीस हजार, अष्ट भवे ए जघन्य स्थिति ॥
१२२. षष्ठम गमे संवेह, अंतर्मुहूर्त्त तिरि भवे ।
साधिक सागर लेह, षष्ठम गम ए जघन्य अद्धा ॥
१२३. उत्कृष्ट अद्धा धार, साधिक सागर चिउं असुर ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, षष्ठम गम उत्कृष्ट अद्धा ॥
१२४. सप्तम गमे सुजोड़, जघन्य अद्धा संवेध नों ।
तिरि भव पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश असुर स्थिति ॥
१२५. उत्कृष्ट अद्धा जोड़, चिउं साधिक सागर असुर ।
तिरि भव चिउं पुव्व कोड़, अष्ट भवां नों काल ए ।
१२६. अष्टम गमे सुजोड़, जघन्य थकी अद्धा इतो ।
तिरि भव पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश असुर स्थिति ॥
१२७. उत्कृष्ट अद्धा संच, वर्ष सहस्र चालीस ही ।
चिउं पुव्व कोड़ तिर्यंच, अष्ट भवां नों काल ए ।
१२८. नवमे गमे सुन्हाल, जघन्य थकी अद्धा इतो ।
साधिक सागर काल, कोड़ पूर्व बलि अधिक ही ॥
१२९. उत्कृष्ट अद्धा जोड़, साधिक सागर चिउं असुर ।
तिरि भव चिउं पुव्व कोड़, अठ भव उत्कृष्ट काल स्थिति ॥

*लय : घन्य प्रभु रामजी

६० भगवती जोड़

१३०. ए नव गमे संवेह, संख्यायु सन्नी तिरि ।
असुर विषे ऊपजेह, जघन्योत्कृष्ट अद्धा कह्यो ॥
१३१. असन्नी असुर मभार, जावै तसु जघन्य गमे ।
तीन णाणत्ता धार, उत्कृष्ट गम बे णाणत्ता ॥
१३२. युगल तिर्यंच सुचीन, असुर विषे जावै तसु ।
जघन्य गमेज तीन, उत्कृष्ट गम बे णाणत्ता ॥
१३३. संख्यायु तिर्यंच, असुर विषे जावै तसु ।
जघन्य गमे अठ संच, उत्कृष्ट गम बे णाणत्ता ॥
१३४. इम तिर्यंच विचार, जावै तसु जघन्य गमे ।
तीस णाणत्ता धार, पूर्वे आख्या ए सहू ॥
१३५. *शत चउवीसम द्वितीय देश ए,
च्यार सौ नें सोलमी ढाल बे ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय प्रसादे,
'जय-जश' मंगलमाल बे ॥

ढाल : ४१७

दूहा

१. मनुष्य थकी जो ऊपजे, असुरकुमार मभार ।
तो स्यूं सन्नी मनुष्य थकी, कै असन्नी थी धार ?
२. जिन कहै सन्नी मनुष्य थी, असुर विषे ऊपजेह ।
असन्नी मनुष्य मरी करी, असुर हुवै नहीं तेह ॥
३. जो सन्नी मनु थी हुवै, तो संख्यायु वास ।
तथा असंख्यायु मनुष्य ऊपजे तेह प्रकाश ?
४. जिन कहै वर्ष संख्यायुष, यावत उपजे तेह ।
असंख वर्ष आयुष पिण, यावत ही ऊपजेह ॥

१. जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति—किं सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ? असण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ?
२. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति, नो असण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ।
(श० २४।१३४)
३. जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति—किं संखेज्ज-वासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ? असंखेज्जवासा-उयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ?
४. गोयमा ! संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति, असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जंति ।
(श० २४।१३५)

*लय : धन्य प्रभु रामजी

१. प्रस्तुत गाथा में 'तीस णाणत्ता' लिखा है । किन्तु पूर्ववर्ती तीन गाथाओं, णाणत्ता के यन्त्र और गमा के थोकड़े के अनुसार 'बीस णाणत्ता' होना चाहिए । जोड़ की हस्तलिखित प्रतियों में 'तीस णाणत्ता' ही है । संभव है श्रुति या लिपि में रहे अन्तर के कारण यह पाठभेद हुआ है ।

असुरकुमार में मनुष्य युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

ओधिक नैं ओधिक (१)

*सुगुण जन सांभलो रे ॥ (ध्रुपदं)

५. असंख्यात वर्ष आउखो रे, सन्नी मनुष्य छै जेह ।
ऊपजवा नैं जोग्य छै रे, असुरकुमार विषेह ॥
६. किता काल स्थितिक विषे ऊपजै रे ?,
तब भाखै जिनराय ।
जघन्य सहस्र दश स्थितिक में रे, उत्कृष्ट त्रिण पल्य पाय ॥

सोरठा

७. उत्कृष्ट स्थितिक जान, देवकुर्वादिक मनुष्य नीं ।
ते निज आयु समान, देवायुष नां बंधका ॥
८. ते माटै इम ख्यात, त्रिण पल्य उत्कृष्ट स्थितिक थी ।
असुर विषे उपपात, सन्नी युगलिया मनुष्य नीं ॥
९. *इम असंख्यात वर्ष आउखो रे, तिर्यच सरखा देख ।
भणवा प्रथम गमा त्रिहुं रे, णवरं इतलो विशेष ॥
१०. शरीर तणीं अवगाहना रे, प्रथम द्वितीय गम चीन ।
जघन्य साधिक धनु पांचसौ रे, उत्कृष्ट गाऊ तीन ॥

सोरठा

११. प्रथम द्वितीय गमकेह, असंख्यात वर्षायु नर ।
जघन्य थकी इम लेह, ह्वै साधिक धनु पांचसौ ॥
१२. सप्तम कुलकर जाण, तेहथी पूर्व काल जे ।
भावी ते पहिछाण, मनुष्य युगलिया नीं हुवै ॥
१३. उत्कृष्ट थीं संवादि, गाऊ तीन प्रमाण जे ।
यथा देवकुरु आदि, मनुष्य युगलिया नीं हुवै ॥
१४. ते उभय अवगाह, प्रथम अनैं द्वितीये गमे ।
पुगल विषे कहिवाह, शेष तिमज भणवो सह ॥

वा०—असुरकुमार में जाणहार तिर्यच युगलियो, युगलिया नीं प्रथम तीन गमे अवगाहना जघन्य पृथक धनुष्य नीं, उत्कृष्टी छद् गाऊ नीं । अनैं इहां युगलिया मनुष्य नीं पहिले, दूजे गमे जघन्य पांच सय धनुष्य जाभेरी, उत्कृष्टी तीन गाऊ नीं । शेष तिर्यच युगलिया नैं कह्यो तिम कह्यो ।

१५. *तृतीय गमे अवगाहना रे, जघन्य अनैं उत्कृष्ट ।
गाऊ तीन तणी कही रे, शेष तिरिक्ख जिम इष्ट ॥

*लय : सीता सुन्दरी रे

१. परि. २. यंत्र १९

६२ भगवती जोड

५. असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए
असुरकुमारेसु उववज्जित्तए ।
६. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं
तिपलिओवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।

७. 'उक्कोसेणं तिपलिओवमट्टितीएसु' त्ति देवकुर्वादिनरा
हि उत्कर्षतः स्वायुः-समानस्यैव देवायुषो बन्धकाः ।
(वृ० प० ८२१)

८. अतः 'तिपलिओवमट्टितीएसु' इत्युक्तं ।
(वृ० प० ८२१)
९. एवं असंखेज्जवासाउयतिरिक्खजोणियसरिसा
आदिल्ला तिण्णि गमगा नेयव्वा । नवरं—
१०. सरीरोगाहणा पढमबित्तिएसु गमएसु जहण्णेणं
सातिरेगाइं पंचधणुसयाइं, उक्कोसेणं तिण्णि
गाउयाइं ।

११. तत्र प्रथम ओधिक ओधिकेषु द्वितीयस्त्वौधिको
जघन्यस्थितिष्विति, तत्रौधिकोऽसंख्यातवर्षायुर्नरो
जघन्यतः सातिरेकपञ्चधनुः शतप्रमाणो भवति ।
(वृ० प० ८२१)
१२. यथासप्तमकुलकरप्राक्कालभावी मिथुनकरः ।
(वृ० प० ८२१)
१३. उत्कृष्टतस्तु त्रिगव्यूतमानो यथा देवकुर्वादिमिथुनक-
नरः ।
(वृ० प० ८२१)
१४. स च प्रथमगमे द्वितीये च द्विविधोऽपि संभवति ।
(वृ० प० ८०१)
- सेसं तं चैव ।

१५. तइयगमे ओगाहणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयाइं,
उक्कोसेणं वि तिण्णि गाउयाइं । सेसं जहेव
तिरिक्खजोणियाणं १-३ । (श० २४।१३६)

सोरठा

१६. तृतीय गमे पहिछाण, त्रिण गाऊ अवगाहना ।
ते अवगाहन जाण, उत्कृष्ट स्थितिक विषेज ह्वै ॥
१७. ओधिक नें उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थितिक असुर में ॥
ऊपजवो इहां इष्ट, तेह तीन पत्य नें विषे ॥
१८. त्रिण पत्य स्थितिक विषेह, मनुष्य युगलियो ऊपजै ।
ते उत्कृष्ट सुलेह, स्वायु सम आयु बंधक ॥
१९. *तेहिज आपणपै थयो रे, जघन्य स्थितिक जे काल ।
तुर्य पंचम छठै वली रे, ए त्रिहुं गमके न्हाल ॥
२०. युगल तिर्यच ए त्रिहुं गमे रे, ऊपजै असुर मभार ।
तेह सरीखा जघनिया रे, ए त्रिहुं गमे विचार ॥
२१. णवरं तनु अवगाहना रे, तीनुं गमां विषे इष्ट ।
पंच सौ धनुष्य जाभी कही रे, जघन्य अनें उत्कृष्ट ॥
२२. शेष तिमज कहिवो सहु रे, जिम युगल तिरि ऊपजेह ।
असुरकुमार विषे तिको रे, मनुष्य युगल तिम लेह ॥
२३. तेहिज आपणपै हुओ रे, उत्कृष्ट स्थितिक काल ।
ते मनु नां पिण जाणवा रे, चरम त्रिहुं गमे न्हाल ॥
२४. तेहिज तिर्यच युगलियो रे, असुर विषे ऊपजेह ।
पाछिला तीन गमा तसु रे, तिमहिज मनुष्य नां लेह ॥
२५. णवरं तनु अवगाहना रे, तीनुई गमां विषेह ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट ही रे, गाऊ तीन कहेह ॥
२६. शेष तिमज कहिवो सहु रे, तिर्यच जिम अधिकार ।
मनुष्य युगलियो असुर में रे, आख्यो तसु विस्तार ॥
हिंवे युगलियो मनुष्य नव गमे असुर नीं केतली स्थितिक विषे ऊपजै, तेहनूं
निर्णय कहै छै—

गीतक छंद

२७. जे प्रथम सप्तम गम युगल मनु, असुर नीं स्थिति पाव ही ।
दश सहस्र वर्ष जघन्य, उत्कृष्ट तीन पत्य विषे सही ॥
२८. फुन द्वितीय पंचम अष्टमे गम, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
दश सहस्र वर्षज असुर स्थितिके, ऊपजै नर मिथुन ही ॥
२९. फुन तृतीय नै नवमे गमे जु, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
त्रिण पत्योपम जे असुर स्थितिके, ऊपजै नर युगल ही ॥
३०. फुन तुर्य गमके जघन्य थी, दश सहस्र वर्ष स्थितिके वही ।
उत्कृष्ट साधिक कोड़ पूर्व, असुर स्थितिक विषे सही ॥
३१. षष्ठम गमे फुन जघन्य नें, उत्कृष्ट थीज कहाव ही ।
पुव्व कोड़ साधिक असुर स्थितिके ऊपजै इम भाव ही ॥

*लय : सीता सुन्दरी रे

१६-१८. तृतीये तु त्रिगव्यूतावगाहन एव यस्मादसावेवो-
त्कृष्टस्थितिषु-पत्योपमत्रयायुष्केषूत्पद्यते उत्कर्षतः
स्वायुः समानायुर्बन्धकत्वात्तस्येति ।
(वृ० प० ८२१)

१९,२०. सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीओ जाओ,
तस्स वि जहण्णकालद्वितीयतिरिक्खजोणियसरिसा
तिण्णि गमगा भाणियव्वा ।

२१. नवरं—सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहण्णेणं
सातिरेगाइं पंचधणुसयाइं, उक्कोसेणं वि सातिरेगाइं
पंचधणुसयाइं ।

२२. सेसं तं चेव ४-६ । (श० २४।१३७)

२३,२४. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीओ जाओ,
तस्स वि ते चेव पच्छिल्ला तिण्णि गमगा
भाणियव्वा ।

२५. नवरं—सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहण्णेणं
तिण्णि गाउयाइं, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइं ।

२६. अवसेसं तं चेव ७-९ । (श० २४।१३८)

३२. धुर गम संवेध जघन्य अद्धा, साधिको पुव्व कोड़ ही ।
दश सहस्र वर्षज अधिक ही, उत्कृष्ट षट पल्य जोड़ ही ॥
३३. गम द्वितीय साधिक कोड़ पूर्व, दश सहस्र वर्ष जघन्य ही ।
उत्कृष्ट अद्धा तीन पल्य, दश सहस्र वर्षज अधिक ही ॥
३४. गम तृतीय कायसंवेध अद्धा, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
बिहुं भव संबंधी षट पल्योपम, प्रवर न्यायज इम लही ॥
३५. गम तुर्य धुर पुव्व कोड़ साधिक, दश सहस्र वर्ष अधिक ही ।
उत्कृष्ट बे पुव्व कोड़ साधिक, कायसंवेधे सही ॥
३६. गम पंचमे संवेध कहियै, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
पुव्व कोड़ साधिक फुन वर्ष दश सहस्र कहियै अधिक ही ॥
३७. षष्ठम गमे संवेध ते इम, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
पुव्व कोड़ बे साधिक कहीजे, प्रवर जिन वचने लही ॥
३८. गम सप्तमे अद्ध जघन्य त्रिण पल्य,
दश सहस्र वर्ष अधिक ही ।
उत्कृष्ट अद्धा षट पल्योपम, बिहुं भवे ए स्थिति लही ॥
३९. गम अष्टमे संवेध कहियै, जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
पल्य तीन नें फुन सहस्र दश ए, वर्षा कहियै अधिक ही ॥
४०. गम नवम फुन संवेध छै, इम जघन्य नें उत्कृष्ट ही ।
बिहुं भव संबंधी षट पल्योपम, स्वाम वच अति सरस ही ॥

सोरठा

४१. जघन्य गमे सुजाण, तीन णाणत्ता तेहनां ।
अवगाहन नों माण, आयू नें अनुबन्ध नों ॥
४२. जघन्योत्कृष्ट अवगाह, तसु साधिक धनु पांच सौ ।
स्थिति अनुबन्ध सुलाह, कोड़ पूर्व जाभी कही ॥
४३. धुर गम में अवगाह, उत्कृष्ट गाऊ त्रिण तणीं ।
इहां धनु पंच सयाह, साधिक छै उत्कृष्ट पिण ॥
४४. धुर गम स्थिति अनुबन्ध, उत्कृष्टी त्रिण पल तणीं ।
इहां उत्कृष्टी संघ, साधिक पूर्व कोड़ नीं ॥
४५. ते माटै कहिवाय, जघन्य गमे त्रिण णाणत्ता ।
बिचला त्रिण गम ताय, गमा जघन्य कहीजियै ॥
४६. छेहला त्रिण गमकेह, गम उत्कृष्ट कह्या तसु ।
ते उत्कृष्ट गमेह, तीन णाणत्ता तेहनां ॥
४७. अवगाहन पहिछाण, जघन्योत्कृष्ट तिण गाउ नीं ।
आयु अनुबन्ध जाण, तीन पल्य जघन्योत्कृष्ट ॥
४८. अवगाहन पहिछाण, साधिक धनु पंच सय जघन्य ।
इहां जघन्य पिण जाण, त्रिण गाऊ अवगाहना ॥
४९. धुर गम स्थिति अनुबन्ध, साधिक पुव्व कोड़ी जघन्य ।
इहां जघन्य पिण संघ, तीन पल्योपम नीं कही ॥
५०. ते माटै इम हेर, धुर गम थी उत्कृष्ट गमे ।
तीन बोल में फेर, तिणसू ए त्रिण णाणत्ता ॥

६४ भगवती जोड़

असुरकुमार में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

५१. *जो संख वर्षायु सन्नी मनुष्य थी रे, ऊपजै असुर मभार ।
तो पर्याप्त थी ऊपजै रे, कै अपर्याप्त थी धार ?

५२. जिन कहै पर्याप्ता थकी रे, असुर विषे ऊपजेह ।
अपजत्त थी नहीं ऊपजै रे, वलि गोयम पूछेह ॥

ओधिक नै ओधिक (१)

५३. पजत्त संख्यात वर्षायुषो रे, सन्नीम नुष्य प्रभु ! जेह ।
ऊपजवा नै जोग्य छ रे, असुरकुमार विषेह ॥

५४. ते किता काल स्थितिक विषे ऊपजै रे ? ,
जिन कहै जघन्य सुइष्ट ।
वर्ष सहस्र दश स्थितिके रे, साधिक सागर जिष्ट ॥

५५. ते एक समय किता ऊपजै रे ? इम एहनां जिमहीज ।
धुर नरके ऊपजता थका रे, नव गम पूर्व कहीज ॥

५६. तिमज इहां पिण नव गमा रे, करिवा णवरं संवेध ।
साधिक उदधि संघात ही रे, कहिवूं इतलुं भेद ॥

५७. शेष परिमाणादिक सह रे, कहिवा तिमज विचार ।
सन्नी मनुष्य धुर नारकी रे, ऊपजता जिम धार ॥

वा०—हिवै एहनै इज सुगम समभवा नै अर्थे जुओ-जुओ देखाइ छै—
प्रथम तो सन्नी मनुष्य असुरकुमार नीं केतला काल नीं स्थिति नै विषे ऊपजै ते
नव गमके जुओ-जुओ अर्थ देखाइ छै—

ओधिक नै ओधिक प्रथम गमे जघन्य १० हजार वर्ष असुर नीं स्थिति नै
विषे ऊपजै, उत्कृष्ट एक सागर जाभी असुर नीं स्थिति नै विषे ऊपजै १ ।
परिमाणद्वारे एक समय जघन्य एक, दोय, तीन अर्नै उत्कृष्ट संख्याता ऊपजै २ ।
छ संघयणी ऊपजै ३ । अवगाहना जघन्य पृथक आंगुल नीं, उत्कृष्ट पंच सय
घनुष्य नों घणी ऊपजै ४ । छ संठाण नों घणी ऊपजै ५ । षट लेध्यावंत ऊपजै
६ । तीन दृष्टिवंत असुर में ऊपजै ७ । ते सन्नी मनुष्य में च्यार ज्ञान, तीन अज्ञान
नीं भजना हुवै ८ । जोग ३ हुवै ९ । दोय उपयोगी ऊपजै १० । च्यार संज्ञावंत
११ । च्यार कषाय नों घणी ऊपजै १२ । पांच इन्द्रिय १३ । षट समुद्घातवंत १४ ।
साता-असाता बे वेदनावंत ऊपजै १५ । त्रिण वेद नों घणी १६ । आउखो जघन्य
पृथक मास, उत्कृष्टो कोइ पूर्व स्थितिवंत ऊपजै १७ । अध्यवसाय भला-भूंडा बिहुं
हुवै १८ । अनुबंध आउखा जेतो १९ । एतली लब्धि नों घणी असुर में ऊपजै ।

हिवै कायसंवेध २० मों द्वार कहै छै—भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल
आश्रयी जघन्य पृथक मास नै १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोइ पूर्व ४ साधिक
सागर ॥१॥

हिवै ओधिक नै जघन्य द्वितीय गमे जघन्य उत्कृष्ट दश हजार वर्ष नीं

*सय : सीता सुन्दरी रे

१. परि. २. यंत्र २०

५१. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति—
कि पज्जत्ता संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो
उववज्जंति ? अपज्जत्ता संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से-
हितो उववज्जंति ?

५२. गोयमा ! पज्जत्ता संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो
उववज्जंति, नो अपज्जत्ता संखेज्जवासाउयसण्णि-
मणुस्सेहितो उववज्जंति । (श० २४।१३९)

५३. पज्जत्ता संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे
भवि ए असुरकुमारेसु उववज्जत्तए ।

५४. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उक्कोसेणं
सातिरेगसागरोवमेण एसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१४०)

५५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
एवं जहेव एतेसि रयणप्पभाए उववज्जमाणणं नव
गमगा ।

५६. तहेव इह वि नव गमगा भाणियव्वा, नवरं—संवेहो
सातिरेगेण सागरोवमेण कायव्वो ।

५७. सेसं तं चव १-९ । (श० २४।१४१)

१,२. यहाँ पज्जतग संखेज्ज और अपज्जत्तग संखेज्ज
पाठ है । ग् का लोप होने से पज्जता अपज्जत्ता
शब्द हो गए ।

श० २४, उ० २, ढा० ४१७ ६५

असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाणद्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे प्रथम गमे लद्धी कही, तिमज द्वितीय गमे जाणवी । भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य पृथक मास १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४० हजार वर्ष ॥२॥

हिवै ओधिक नैं उत्कृष्ट तृतीय गमे जघन्य नैं उत्कृष्ट सागर जाभी स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे प्रथम गमे लद्धी कही, तिमज तृतीय गमे जाणवी । भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य पृथक मास एक साधिक सागर, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ साधिक सागर ॥३॥

हिवै चतुर्थे गमे जघन्य नैं ओधिक ए जघन्य स्थिति वालो मनुष्य असुर नैं विषे ऊपजै, ते जघन्य १० हजार वर्ष असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै, उत्कृष्ट साधिक सागर असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे लद्धी प्रथम गमा नीं परै जाणवी । णवरं पांच बोलां में फेर— अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट पृथक आंगुल नीं १ । तीन ज्ञान, तीन अज्ञान नीं भजना २ । समुद्घात पांच पहिली ३ । आऊ जघन्य-उत्कृष्ट पृथक मास ४ । अनुबंध आउखा जेतो ५—ए पांच णाणत्ता । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य पृथक मास अनैं १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ पृथक मास अनैं ४ साधिक सागर ॥४॥

जघन्य नैं जघन्य पंचमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट दस हजार वर्ष असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे लद्धी चतुर्थे गमा नीं परै जाणवी । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य पृथक मास अनैं १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ४० हजार वर्ष ।

हिवै जघन्य नैं उत्कृष्ट षष्ठम गमे जघन्य-उत्कृष्ट सागर जाभी असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे चतुर्थे गमा नीं परै जाणवी । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य पृथक मास अनैं साधिक सागर, उत्कृष्ट ४ प्रथक मास ४ साधिक सागर ॥६॥

हिवै सप्तमे गमे उत्कृष्ट नैं ओधिक ए उत्कृष्ट स्थितिवालो सन्नी मनुष्य असुर नैं विषे ऊपजै ते जघन्य १० हजार वर्ष असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै, उत्कृष्ट साधिक सागर असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे लद्धी प्रथम गमा नीं परै जाणवी । णवरं तीन बोलां में फेर—अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट ५०० धनुष्य १ । स्थिति जघन्य उत्कृष्ट कोड़ पूर्व २ । अनुबंध आउखा जेतो ३—ए तीन णाणत्ता । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य कोड़ पूर्व १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ साधिक सागर ॥७॥

हिवै उत्कृष्ट नैं जघन्य अष्टमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट १० हजार वर्ष असुर नीं स्थिति नैं विषे उपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे लद्धी सप्तम गमा नीं परै जाणवी । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी जघन्य कोड़ पूर्व १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४० हजार वर्ष ॥८॥

हिवै उत्कृष्ट नैं उत्कृष्ट नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट साधिक सागर असुर नीं स्थिति नैं विषे ऊपजै । अनैं परिमाण द्वार सूं लेई अनुबंध द्वार लगे लद्धी सप्तम

६६ भगवती जोड़

गमा नीं परै जाणवी । अनैं कायसंवेध भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ । काल आश्रयी
जघन्य कोइ पूर्व साधिक सागर, उत्कृष्ट ४ कोइ पूर्व ४ साधिक सागर ॥९॥

असुर में सन्नी मनुष्य जाय तेहनां नव गमा नीं विस्तार कह्यो । इम अनेरे
ठिकाणे पिण संभवै, तिम विस्तार करी कहियो ।

सोरठा

५८. मिथुनक मनुष्य सुचीन, असुर विषे जावै तसु ।
जघन्य गमेज तीन, उत्कृष्ट गम त्रिण णाणत्ता ॥
५९. सन्नी मनुष्य सुसंच, असुर विषे जावै तसु ।
जघन्य गमेज पंच, उत्कृष्ट गम त्रिण णाणत्ता ॥
६०. मनुष्य असुर में जाय, इम तसु चवदै णाणत्ता ।
नाम जु-जुआ ताय, पूर्व आख्याईज छै ।
६१. *सेवं भंते ! स्वाम जी रे, सत्य तुम वच सुविशेष ।
चउवीसम शत नुं कह्यो रे, अर्थ थी द्वितीय उद्देस ॥
६२. ढाल च्यारसौ सतरमीं रे, जिन वच परम रसाल ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे, 'जय-जश' मंगलमाल ॥
चतुर्विंशतितमशते द्वितीयोद्देशकार्थः ॥२४१२॥

६१. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४१४२)

ढाल : ४१८

डूहा

१. द्वितीय उद्देश कह्या असुर, तृतीये नागकुमार ।
राजगृह यावत वदै, इम गोयम गणधार ॥
२. नागकुमारा हे प्रभु ! किहां थकी उपजंत ।
स्युं नारक थी ऊपजै, तिरि मनु सुर थी हुंत ?
३. जिन भाखै नारक थकी, नागकुमार न हुंत ।
तिरि मनु थकीज ऊपजै, सुर थी नहिं उपजंत ॥
४. जो तिर्यंच थकी हुवै, इम जिम असुर थकीज ।
वक्तव्यता दाखी तिहां, एहनीं पिण तिमहीज ॥
नागकुमार में असन्नी तिर्यंच पंचेद्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार'
५. यावत असन्नी लग सहु, असन्नी नाग विषेह ।
ऊपजै तेहनां नव गमा, असुर तणीं पर एह ॥

१. रायगिहे जाव एवं वयासी—

२. नागकुमाराणं भंते ! कओहितो उववज्जंति—कि
नेरइएहितो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-
देवेहितो उववज्जंति ?
३. गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्ख-
जोणिएहितो उववज्जंति, मणुस्सेहितो उववज्जंति,
नो देवेहितो उववज्जंति । (श० २४१४३)
४. जइ तिरिक्खजोणिएहितो ? एवं जहा असुर-
कुमाराणं वक्तव्यता तहा एतेसि पि ।

५. जाव असण्णित्ति १-९ । (श० २४१४४)

*सत्य : सीता सुन्दरी रे

१. परि० २, यंत्र २१

६. जो सन्नी पं. तिरि थकी, ऊपजे नाग मभार ।
स्यूं संख्यायुष थी हुवै, कै असंख्यायुष थी धार ?
७. जिन कहै संख्यायु थी, नाग विषे उपजंत ।
वर्ष असंख्यायु थी, जाव उपजवो हुंत ॥
नागकुमार में तिर्यंच युगलियो ऊपजे, तेहनों अधिकार^१

ओधिक नें ओधिक [१]

*वारु जय-जय ज्ञान जिनेंद्र नों, एतो जयवंता जिनराज रे ।

शिष्य गोयम जय जश गुणनिला,

ए तो प्रत्यक्ष भव दधि पाज रे ॥ (ध्रुपदं)

८. असंख्यात वर्ष नों आउखो, तिरि सन्नी पंचेंद्री जेह रे ।
प्रभु ! ऊपजवा नें जोग्य छै, नागकुमार विषेह रे ॥
९. प्रभु ! किता काल स्थितिक विषे ऊपजे ?
जिन भाखै जघन्य थी जोय रे ।
दश सहस्र वर्ष स्थितिक विषे, उत्कृष्ट देसूण पत्य दोय रे ॥

सोरठा

१०. उत्तर दिशि नां सोय, नागकुमार निकाय नों ।
देश ऊण पत्य दोय, उत्कृष्ट स्थितिक नें विषे ॥

११. *प्रभु ! एक समय किता ऊपजे ?
अवशेष तिमज अवधार रे ।
असुर में ऊपजतां गमो आखियो,
कहिवो तिमहिज विचार रे ॥

१२. जाव भवादेश लग जाणवूं, काल आश्रयी जघन्य कहाय रे ।
पूर्व कोड़ जाभेरो जाणवूं, दश सहस्र वर्ष अधिकाय रे ॥

सोरठा

१३. साधिक पूर्व कोड़, जघन्य भव स्थिति तिरि युगल ।
वर्ष सहस्र दश जोड़, नागकुमार जघन्य स्थिति ॥

१४. *उत्कृष्ट थकी देश ऊण जे, पंच पत्योपम जोय रे ।
तिरि युगल पत्योपम त्रिण कही,
नाग देश ऊण पत्य दोय रे ॥

१५. सेवै कालज एतलो, गति आगति एतलो काल रे ।
ओधिक नें ओधिक गमो, दाख्यो युगल नाग नों दयाल रे ॥

ओधिक नें जघन्य (२)

१६. तेहिज युगल जघन्य काल स्थिति विषे,
ओ तो ऊपनों नाग विषेह रे ।
तेहनीं पिण एहिज वारता, घुर गमे भाखी जेह रे ॥

*लय : मोरी तूंबी देवो नों हो सेठजी अथवा चम्पानगरी नां बाणिया
१. परि० २, यंत्र २२

६८ भगवती जोड़

६. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति
—किं संखेज्जवासाउय ० ? असंखेज्जवासाउय ?
७. गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय जाव
उववज्जंति । (श० २४।१४५)

८. असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं
भंते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जित्तए ।
९. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठितीएसु, उक्को-
सेणं देसूणदुपलिओवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१४६)

१०. 'उक्कोसेणं देसूणदुपलिओवमट्ठितीएसु' त्ति यदुक्त्तं
तदौदीच्यनागकुमारनिकायापेक्षया, यतस्तत्र द्वे
देशोने पत्योपमे उत्कर्षत आयुः स्यात् ।
(वृ०प० ८२२)

११. ते णं भंते ! जीत्रा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
अवसेसो सो चेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स
गमगो भाणियव्वो ।

१२. जाव भवादेशो त्ति । कालादेशेणं जहण्णेणं
सातिरेगा पुब्बकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं
अब्भहिया ।

१४. उक्कोसेणं देसूणाइं पंच पलिओवमाइं ।

१५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरार्गति
करेज्जा १ । (श० २४।१४७)

१६. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया ।

१७. पिण णवरं नागकुमार नीं, स्थिति नें वलि कालसंवेह रे ।
ते बुद्धि सूं विचारी जाणवो, सूत्र नें अनुसारे जेह रे ॥

सोरठा

१८. प्रथम द्वार में लेह, कति स्थितिके ऊपजै ।
चरम द्वार संवेह, ए बिहुं आगल आखियै ॥
१९. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट, नागकुमार तणीं कही ।
वर्ष सहस्र दश इष्ट, तेह विषे ए ऊपजै ॥
२०. कायसंवेध सुजोड़, काल थकी जे जघन्य ए ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश अधिक फुन ॥
२१. फुन उत्कृष्टो काल, तीन पल्योपम तिरि स्थिति ।
वर्ष सहस्र दश न्हाल, नाग जघन्य स्थिति जाणियं ॥

ओघिक नें उत्कृष्ट (३)

२२. *तेहिज युगल उत्कृष्टी स्थिति विषे,
नाग विषे ऊपनों संपेख रे ।
तेहनीं पिण एहिज वारता,
णवरं स्थिति में इतरो विशेख रे ॥
२३. जघन्य स्थिति ते युगल नीं, देश ऊण पल्योपम वेह रे ।
उत्कृष्ट तीन पल्य स्थितिक जे,
युगल नाग विषे उपजेह रे ॥

वा०—इहां जघन्य स्थिति देश ऊण दोग पल्योपम, एह अवसर्पिणी नां सुषमा नामे बीजा आरा नां केतला एक भाग गयां तिर्यंच नों आउखो देश ऊण दोग पल्य नों । ते मरी नागकुमार नें विषे उत्कृष्ट आउखै ऊपजै ते तिर्यंच युगलिया नां देव आउ संबंधिया आउखा बरोबर देवता नों आउखो बांधै ।

उत्कृष्टो तीन पल्योपम—एह देवकुरु आदि देई तिर्यंच युगलिया नां तीन पल्योपम नां आउखा नों धणी नागकुमार नें विषे देश ऊण दोग पल्योपम नें उत्कृष्ट आउखा नें विषे ऊपजै । ए युगलिया नें आउखा थकी देवतां नें ओछे आऊखे ऊपने छते अत्र जघन्य देश ऊणो दोग पल्योपम युगलिया नों आउखो कह्यो ते किम ? अनै कोड़ पूर्व जाभो किम न कह्यो ? उत्तर—इहां ओघिक नें उत्कृष्ट तीजा गमा नों कथन छै । ते तिर्यंच युगलिया नीं ओघिक स्थिति नों धणी नागकुमार नें विषे उत्कृष्ट आउखे ऊपजै ते नागकुमार नों देश ऊणों दोग पल्योपम उत्कृष्टो आउखो छै तेहनें विषे युगलियो ऊपजै, ते जघन्य देश ऊणों दोग पल्योपम आउखा वालोईज ऊपजै, पिण ओछा आउखा वालो न ऊपजै, ते माटे कोड़ पूर्व जाभो आउखो न कह्यो । अनै जघन्य देश ऊणों दोग पल्योपम नों धणी ऊपजै एहवूं कह्यो ।

२४. शेष परिमाणादिक जिके, पूर्व कह्यो तिमज अवलोय रे ।
जाव भवादेश लग जाणवो, जघन्य उत्कृष्टा भव दोग रे ॥
२५. हिव काल आश्रयी जघन्य अद्धा,
देश ऊण च्यार पल्य माग रे ।
देश ऊण दोग पल्य तिरि स्थिति,
देसूण बे पल्य नाग रे ॥

१७. नवरं नागकुमारद्विति संवेहं च जाणेज्जा २ ।
(श० २४।१४८)

१९. तत्र जघन्या नागकुमारस्थितिदंशवर्षसहस्राणि ।
(वृ० प० ८२२)
२०. संवेधस्तु कालतो जघन्या सातिरेकपूर्वकोटी
दशवर्षसहस्राधिका ।
(वृ०प० ८२२)
२१. उत्कृष्टः पुनः पल्योपमत्रयं तैरेवाधिकमिति ।
(वृ०प० ८२२)

२२. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, तस्स वि
एस चेव वत्तव्वया, नवरं ---ठिती ।
२३. जहण्णेणं देसूणाइं दो पलिओवमाइं, उक्कोसेणं
तिण्णि पलिओवमाइं ।

वा०—तथा 'ठिई जहन्नेणं दो देसूणाइं पलिओव-
माइं' ति यदुक्तं तदवसर्पिण्यां सुषमाभिधानद्विती-
यारकस्य कियत्यपि भागेऽतीतेऽसंख्यातवर्षायुषस्तिर-
श्चोऽधिकृत्योक्तं, तेषामेवैतत्प्रमाणायुष्कत्वात्
एषामेव च स्वायुः-समानदेवायुर्वन्धकत्वेनोक्त-
स्थितिषु नागकुमारेषूपपादात् ।
तिन्नि पलिओवमाइं' ति, एतच्च देवकुर्वाद्यसंख्यात-
जीवितिरश्चोऽधिकृत्योक्तं, ते च त्रिपल्योपमायु-
षोऽपि देशोनद्विपल्योपममानमायुर्वन्धनन्ति यतस्ते
स्वायुषः समं हीनतरं वा तद्बन्धनन्ति न तु महत्तर-
मिति ।
(वृ०प० ८२२, ८२३)

२४. सेसं तं चेव जाव भवादेशो ति ।
२५. कालादेशेणं जहण्णेणं देसूणाइं चत्तारि
पलिओवमाइं ।

*लय : चम्पा नगरी नां बाणिया

२६. उत्कृष्ट अद्धा देश ऊण जे, पंच पल्योपम जोय रे ।
पल्य तीन युगल तिरि आउखो,
नाग देश ऊणों पल्य दोग रे ॥
२७. सेवै कालज एतलो, करे गति आगति इतो काल रे ।
ओधिक अनै उत्कृष्ट गमो, दाख्यो तृतीय दयाल रे ॥

बिचला तीन गमा (४-६)

२८. तेहिज युगल जघन्य स्थिति नों धणी,
तेहनां तीनूइ गमा विषेह रे ।
चउथे पंचमे नैं छठे गमे, हिवै तेहनों लेखो सुणेह रे ॥
२९. जिमहिज असुरकुमार में, ऊपजता नैं पेख रे ।
जघन्य काल स्थितिक नैं कह्युं, तिमहिज सर्व अशेख रे ॥

उत्कृष्ट नै ओधिक (७)

सोरठा

३०. जघन्य सहस्र दश वास, उत्कृष्ट साधिक कोड़ पुव्व ।
नाग स्थितिके जास, ऊपजै ए चउथे गमे ॥
३१. परिमाणादिक पेख, युगल तिरि मरि ह्वै असुर ।
तिमहिज ए संपेख, तीन णाणत्ता पिण तिमज ॥
३२. तनु अवगाहन जाण, जघन्य पृथक धनु युगल तिरि ।
उत्कृष्टी पहिछाण, सहस्र धनुष्य जाभी कही ॥
३३. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट, साधिक पूर्व कोड़ नीं ।
एवं अनुबंध इष्ट, ए तीन णाणत्ता असुरवत ॥
३४. कायसंवेध पिछाण, साधिक पूर्व कोड़ तिरि ।
वर्ष सहस्र दश माण, जघन्य थकी अद्धा इतो ॥
३५. उत्कृष्ट अद्धा पेख, साधिक पूर्व कोड़ बे ।
तिरि युगल भव एक, द्वितीय भवे फुन नाग स्थिति ॥

उत्कृष्ट

३६. पंचम गमके हेर, तुर्य गमा जिम जाणवो ।
नाग स्थिति में फेर, कायसंवेध विषे वली ॥
३७. जघन्य अनै उत्कृष्ट, वर्ष सहस्र दश स्थितिक में ।
ऊपजवो इहां इष्ट, जघन्य स्थितिक तिरि युगलियो ॥
३८. कायसंवेध सुजोड़, अद्धा जघन्य उत्कृष्ट पिण ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश अधिक फुन ॥

छठो गमो

३९. षष्ठम गमके हेर, तुर्य गमा जिम जाणवो ।
नाग स्थितिके फेर, कायसंवेध विषे वली ॥
४०. जघन्य अनै उत्कृष्ट, साधिक पूर्व कोड़ जे ।
नाग स्थितिके इष्ट, तिरिख युगलियो ऊपजै ॥

७० भगवती जोड़

२६. उक्कोसेणं देसूणाइं पंच पलिओवमाइं ।

२७. एवतियं कालं सेवेज्जा; एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । (श० २४।१४९)

२८. सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीओ जाओ, तस्स
वि तिसु वि गमएसु ।

२९. जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स जहण्णकाल-
द्वितियस्स तहेव निरवसेसं ४-६ । (श० २४।१५०)

४१. कायसंवेध सुजोड़, जघन्य अन उत्कृष्ट अद्धा ।
साधिक बे पुव्व कोड़, बिहुं भव नों षष्ठम गमे ॥

छेहला तीन गमा (७-६)

४२. *तेहिज युगल उत्कृष्टायु थयो,
तेहनां पिण त्रिहुं गमा विषेह रे ।
सप्तमे अष्टमे नवमे गमे,
ए पिण तिणहिज रीत कहेह रे ॥
४३. जिम जेष्ठ स्थितिक तिरि युगलियो,
असुर विषे ऊपजता नें ख्यात रे ।
कहिवो तिणहिज रीत सूं, णवरं इतरो विशेषज थात रे ॥
४४. नागकुमार नीं स्थिति विषे, वलि कायसंवेध में फेर रे ।
कहिवो मन सूं विचार नें रे, ते इम भणिवूं हेर रे ॥
४५. शेष परिमाणादिक सहु, जिम असुरकुमार विषेह रे ।
तिरि युगल ऊपजता नें कह्या,
ओ तो कहिवो जिमहिज एह रे ॥

सोरठा

४६. इहां णाणत्ता दोय, आयु नें अनुबन्ध जे ।
तीन पल्योपम होय, उत्कृष्ट गमकपणां थकी ॥
४७. सप्तम गमे विमास, नागकुमार नीं स्थिति विषे ।
जघन्य सहस्र दश वास, उत्कृष्ट देसूण पल्य बे ॥
४८. अद्धा जघन्य संवेह, वर्ष सहस्र दश पल्य त्रिण ।
उत्कृष्ट अद्धा लेह, देश ऊण पल्य पंच फुन ॥
४९. अष्टम गमे सुदृष्ट, नागकुमार नीं स्थिति विषे ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट, वर्ष सहस्र दश आउखे ॥
५०. अष्टम गमे संवेह, जघन्य अनें उत्कृष्ट फुन ।
तीन पल्योपम लेह, वर्ष सहस्र दश अधिक ही ॥
५१. नवमे गमे सुदृष्ट, नागकुमार नीं स्थिति विषे ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट, देश ऊण बे पल्य जे ॥
५२. नवमे गमे संवेह, जघन्य अनें उत्कृष्ट ही ।
बे भव अद्धा लेह, देश ऊण पंच पल्य जे ॥
तिर्यंच युगलियो नागकुमार में ऊपजं, तेहनां नव गमा कह्या ।

नागकुमार में संख्यात वर्ष नों सन्नी तिर्यंच ऊपजं, तेहनों अधिकार'

५३. *जो संखेज वर्षायु सन्नी पंचेंद्रिय यावत तेह रे ।
स्यूं पर्याप्तो अपर्याप्तो, ऊपजं नागकुमार विषेह रे ?

*लय : चम्पा नगरी नां बाणिया

१. परि. २, यंत्र २३

४२. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीओ जाओ, तस्स
वि तहेव तिण्णि गमगा ।

४३. जहा असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स, नवरं—

४४. नागकुमारद्विति संवेहं च जाणेज्जा ।

४५. सेसं तं चेव ७-९ । (श० २४।१५१)

५३. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए-
हितो उववज्जति— कि पज्जत्तसखेज्जवासाउय० ?
अपज्जत्तसखेज्जवासाउय० ?

श० २४, उ० ३, ढा० ४१८ ७१

५४. जिन कहै संख वर्षायु सन्नी तिर्यच पंचेंद्री पर्याप्त रे ।
ते नागकुमार में ऊपजै, पिण नहि उपजै अपर्याप्त रे ।

ओघिक नें ओघिक [१]

५५. पजत्त संख वर्षायु सन्नी प्रभु ! पंचेंद्रिय तिर्यच तेह रे ।
ऊपजवा जोग्य नागकुमार में,

कितै काल स्थितिक उपजेह रे ?

५६. श्री जिन भाखै जघन्य थी, दश सहस्र वर्ष स्थितिकेह रे ।
उत्कृष्टी देश ऊण जे, दोय पल्य विषे उपजेह रे ॥

५७. इम जिम असुरकुमार में, वर्ष संख्यायु सन्नी तिर्यच रे ।
ऊपजता नीं वारता, इहां पिण तिम नव गम संच रे ॥

५८. णवरं नागकुमार नीं, स्थिति विषे जे फेर रे ।
वलि कायसंवेध में फेर छै, शेष तिमहिज कहिवूं हेर रे ॥

हिवै नव गमे नागकुमार नीं स्थिति विषे ऊपजै, ते कहै छै—

सोरठा

५९. प्रथम तुर्य सप्तम, जघन्य सहस्र दश स्थितिक में ।
उत्कृष्ट स्थिति अवगम, देश ऊण बे पल्य विषे ॥

६०. द्वितीय पंचमे इष्ट, अष्टम गम फुन ऊपजै ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट, वर्ष सहस्र दश स्थितिक में ॥

६१. तीजे षष्ठम नवम, जघन्य अनै उत्कृष्ट ही ।
नाग स्थिति अवगम, देश ऊण बे पल्य विषे ॥

६२. प्रथम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

६३. उत्कृष्ट अद्धा काल, कहियै अष्टज भव तर्णों ।
अठ पल्य देसूण न्हाल, कोड़ पूर्व चिउं अधिक फुन ॥

६४. दूजे गमे संवेह, बिहुं भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

६५. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवे इम आखियो ।
पूर्व कोड़ज च्यार, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥

६६. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
देश ऊण पल्य बेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥

६७. उत्कृष्ट अद्धा जोय, अष्ट भवां नीं आखियो ।
अठ पल्य देसूण सोय, पूर्व कोड़ चिउं अधिक ही ॥

६८. तुर्य गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥

६९. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नीं इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, अष्ट पल्य देसूण जे ॥

७०. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥

७२. भगवती जोड़

५४. गोयमा ! पजत्तसंखेज्जवासाउय, नो अपजत्त-
संखेज्जवासाउय । (श० २४।१५२)

५५. पजत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए
णं भंते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जित्तए, से
णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?

५६. गोयमा ! जहण्णेणं दस वाससहस्साइं, उक्कोसेणं
देसूणाइं दो पलिओवमाइं ।

५७. एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स वत्तव्वया
तहेव इह वि नवसु वि गमएसु,

५८. नवरं नागकुमारट्टित्तं संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं
चेव १-९ । (श० २४।१५३)

७१. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥
७२. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, देश ऊण बे पल्य फुन ॥
७३. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों आखियो ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, देश ऊण पल्य अष्ट फुन ॥
७४. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पूर्व कोड़ज लेह, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥
७५. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
पूर्व कोड़ज च्यार, देश ऊण पल्य अष्ट फुन ॥
७६. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोड़ पूर्व तिरि लेह, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥
७७. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
पूर्व कोड़ज च्यार, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥
७८. नवमे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोड़ पूर्व तिरि लेह, देश ऊण बे पल्य जे ॥
७९. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
पूर्व कोड़ज च्यार, देश ऊण पल्य अष्ट फुन ॥

हिवै पर्याप्त सन्नी तिर्यंच नागकुमार नें विषे ऊपजै, तेहनां णाणत्ता कहै छै —

८०. असुर सन्नी तिर्यंच, वर्ष संख्यायु ऊपजै ।
जघन्य गमे सुसंच, अष्ट णाणत्ता आखिया ॥
८१. उत्कृष्ट गमे सुजोय, दोय णाणत्ता दाखिया ।
तिम एहनां पिण होय, अष्ट अनें बे णाणत्ता ॥
८२. *चउवीसम देश तीजा तणों जी,
च्यारसौ नें अठारमीं ढाल रे ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी,
सुख 'जय-जश' हरष विशाल रे ॥

ढाल : ४१९

दूहा

१. मनुष्य थकी जो ऊपजै, नागकुमार मभार ।
तो स्यूं सन्नी मनुष्य थो, कै असन्नी मनु थी धार ?
२. जिन कहै सन्नी मनुष्य थी नाग विषे उपजंत ।
असन्नी मनुष्य मरी करी, नागकुमार न हुंत ॥
३. इम जिम असुरकुमार में, सन्नी मनुष्य सुजोय ।
ऊपजता नें आखियो, तिम कहिवो अवलोय ॥

१. जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति—कि सण्णिमणुस्से-
हितो ? असण्णिमणुस्सेहितो ?
२. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो, नो असण्णिमणुस्सेहितो,
३. जहा असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स

*लय : चम्पा नगरी नां बणिया

श० २४, उ० ३, ढा० ४१८, ४१९ ७३

वा०—सत्री मनुष्य नागकुमार में जाव, तेहनां नवूं ही गमे जघन्य भव २, उत्कृष्ट भव ८ । चउथे पांचमे छठे—ए तीन जघन्य गमे णाणत्ता ५—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट पृथक आंगुल नीं १, आऊ जघन्य-उत्कृष्ट पृथक मास २, तीन ज्ञान अनै तीन अज्ञान नीं भजना ३, समुद्घात पांच पेहली ४, अनुबंध आऊ जेतो ५, सप्तमे अष्टमे नवमे—ए तीन उत्कृष्ट गमे णाणत्ता ३—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट ५०० धनुष्य नीं १, आऊ जघन्य-उत्कृष्ट कोड़ पूर्व २, अनुबंध आउखा जेतो ३ ।

नागकुमार में मनुष्य युगलियो ऊपजै, तेहनो अधिकार'

*जय-जय ज्ञान जिनेंद्र नों ॥ (ध्रुपदं)

४. जाव असंख्याता वर्ष नों, आयुवंत मनु जेह प्रभुजी !
ऊपजवा नें जोग्य छै, नागकुमार विषेह प्रभुजी !

५. ते किते काल स्थितिक विषे ऊपजै ?

जिन कहै जघन्य सुजोय गोयम जी !
वर्ष सहस्र दश स्थिति विषे,
जेष्ठ देसूण पल्य दोय गोयम जी !

[वीर कहै सुण गोयमा]

६. इम जिम पूर्व आखियो, असंख वर्षायु तियंच गोयम जी ।
नागकुमार में ऊपजै, तसु धुर गम त्रिण संच गोयम जी ॥
७. एहनां पिण तिमहीज जे, धुर त्रिण गम कहिवाय ।
णवरं इतरो विशेष छै, प्रथम द्वितीय गम मांय ॥
८. तनु अवगाहन जघन्य थी, पांचसौ धनु अधिकाय ।
उत्कृष्टी अवगाहना, तीन गाउ कहिवाय ॥

सोरठा

९. पूर्व काले संच, कुलकर तणी अपेक्षया ।
साधिक धनु शत पंच, गाउ त्रिण सुर कुरु प्रमुख ॥

१०. *तृतीये गमे अवगाहना, जघन्य देसूण गाउ दोय ।
उत्कृष्ट तीन गाऊ तणी, शेष तिमज अवलोय ॥

सोरठा

११. देश ऊण गाउ दोय, एते अवसर्पिणी तणां ।
द्वितीय आरा नां सोय, किताक भाग गयां ह्वै ॥

१२. *तेहिज सत्री मनु जुगलियो, पोतै जघन्य स्थितिवंत ।
तुर्य पंचमे नें छठे, ए त्रिहुं गमे उदंत ॥

१३. जिम तेहिज मनु युगल नों, जघन्य स्थितिक नों जेह ।
असुर में ऊपजर्ता थकां, गमे तीन कहा तिम लेह ॥

*लय : तारा हो प्रत्यक्ष मोहनी

१. परि. २. यंत्र २४

७४ भगवती जोड़

४. जाव— (श० २४।१५४)
असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविए
नागकुमारेसु उववज्जित्तए,

५. से णं भते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं
देसूणाइं दो पलिओवमाइं ।

६. एवं जहेव असंखेज्जवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं
नागकुमारेसु आट्टिल्ला तिण्णि गमगा

७. तहेव इमस्स वि, नवरं—पढमबित्तिएसु गमएसु

८. सरीरोगाहणा जहण्णेणं सातिरेगाइं पंचधणुसयाइं,
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं ।

१०. तइयगमे ओगाहणा जहण्णेणं देसूणाइं दो गाउयाइं,
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं । सेसं तं चैव १-३ ।

(श० २४।१५५)

१२. सो चैव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओ, तस्स
तिसु वि गमएसु

१३. जहा तस्स चैव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स तहेव
निरवसेसं ४-६ । (श० २४।१५६)

१४. तेहिज सन्नी मनु युगलियो,
निज उत्कृष्ट स्थितिवंत ।
सप्तम अष्टम नवम जे, ए त्रिहुं गमे उदंत ॥
१५. जिम तेहिज मनु युगल नां, जेष्ठ स्थितिक नां जेह ।
असुर विषे ऊपजतां थकां, गमा तीन कह्या तिम लेह ॥
१६. णवरं नागकुमार नीं, स्थिति अनै संवेध ।
बुद्धि सूं विचारी जाणवूं, शेषं तं चेव न भेद ॥

१४. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, तस्स
तिसु वि गमएसु
१५. जहा तस्स चेव उक्कोसकालट्टितीयस्स असुरकुमारसु
उववज्जमाणस्स,
१६. नवरं—नागकुमारट्टिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं
चेव ७-९ । (श० २४।१५७)

वा०—हिवै नागकुमार नीं स्थिति अनै कायसंवेध नवूं ही गमे जूओ-जूओ कहे छै । तिण में सन्नी मनुष्य युगलियो नागकुमार नै विषे ऊपजै तिण में प्रथम नै सातमे गमे जघन्य १० हजार वर्षे नागकुमार नीं स्थिति नै विषे ऊपजै, उत्कृष्ट देश ऊण बे पत्योपम नीं स्थिति नै विषे ऊपजै । अनै दूजे, पंचमे, गमे जघन्य-उत्कृष्ट १० हजार वर्षे नाग नीं स्थिति नै विषे ऊपजै । अनै तीजे, नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट देश ऊण बे पत्योपम नाग नीं स्थिति नै विषे ऊपजै । चउथे गमे जघन्य दश हजार स्थिति नै विषे ऊपजै, उत्कृष्ट एक कोड़ पूर्व जाभी स्थिति नै विषे ऊपजै । अनै छठे गमे जघन्य-उत्कृष्ट कोड़ पूर्व जाभी स्थिति नै विषे ऊपजै ।

सोरठा

१७. प्रथम गमे इम जोड़, कायसंवेध जघन्य अद्ध ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्षे सहस्र दश अधिक फुन ॥
१८. उत्कृष्ट अद्धा माग, देश ऊण पत्य पंच जे ।
देसूण बे पत्य नाग, तीन पत्य मनु युगल स्थिति ॥
१९. द्वितीय गमे सुजोड़, जघन्य थकी अद्धा इतो ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्षे सहस्र दश अधिक फुन ॥
२०. उत्कृष्ट अद्धा तास, तीन पत्य मनु युगल स्थिति ।
वली सहस्र दश वास, नाग तणीं ए जघन्य स्थिति ॥
२१. तृतीय गमे अवधार, अद्धा जघन्य थकी इतो ।
देश ऊण पत्य च्यार, न्याय विचारी लीजियै ॥
२२. उत्कृष्ट अद्धा चीन, देश ऊण पत्य पंच जे ।
मनुष्य युगल पत्य तीन, देश ऊण बे नाग स्थिति ॥
२३. तुर्य गमे इम जोड़, जघन्य काल तसु एतलो ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्षे सहस्र दश अधिक फुन ॥
२४. उत्कृष्ट अद्धा तास, साधिक पूर्व कोड़ बे ।
लीजो न्याय विमास, तुर्य गमो छै ते भणी ॥
२५. पंचम गम इम जोड़, जघन्य अनै उत्कृष्ट अद्धा ।
साधिक पूर्व कोड़, वर्षे सहस्र दश अधिक फुन ॥
२६. षष्ठम गमे सुइष्ट, साधिक पूर्व कोड़ बे ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट, कायसंवेध समान ए ॥
२७. सप्तम गम अवलोय, जघन्य अद्धा ए जाणवूं ।
तीन पत्योपम सोय, वर्षे सहस्र दश अधिक फुन ॥

*लय : तारा हो प्रत्यक्ष मोहनी

२८. उत्कृष्ट अद्धा चीन, देश ऊण पत्य पंच जे ।
मनुष्य युगल पत्य तीन, देश ऊण बे नाग स्थिति ॥
२९. अष्टम गम इम न्हाल, जघन्य अनै उत्कृष्ट ही ।
तीन पत्योपम काल, वर्ष सहस्र दश अधिक फुन ॥
३०. नवम गमे इम संच, जघन्य अनै उत्कृष्ट ही ।
देश ऊण पत्य पंच, बिहुं भव उत्कृष्टी स्थिति ॥

नागकुमार में संख्यात वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

३१. *जो संख वर्षायु मनुष्य सन्नी, ऊपजै नाग विषेह ।
तो पर्याप्तो स्यूं ऊपजै, कै अपर्याप्तो ऊपजेह ?

३२. जिन कहै पर्याप्ता थकी,

असुर विषे ऊपजंत गोयमजी !

अपजत्त थी नहीं ऊपजै, वलि गोतम पूछंत प्रभुजी !

३३. वर्ष संख्यायु पर्याप्तो, सन्नी मनुष्य छै जेह ।
ऊपजवा नै जोग्य छै, नागकुमार विषेह ॥

३४. ते कितै काल स्थितिक विषे ऊपजै ?

जिन कहै जघन्य सुइष्ट ।

वर्ष सहस्र दश स्थितिक में, देसूण बे पत्य जिष्ट ॥

३५. इम जिम असुरकुमार में, एहिज मनु उपपात ।
तास लब्धि नव गम विषे, आखी ते सर्व सुजात ॥

३६. णवरं जे नागकुमार नीं, स्थिति अछै ते कहेह ।
वलि तसु कायसंवेध ही, बुद्धि सूं विचारी लेह ।

बा०—संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य असुरकुमार में ऊपजता नै परिमाण-
दिक लद्धी कही, तिम कहिवी । तिमहिज णाणत्ता जघन्य गमे ५—अवगाहना
जघन्य-उत्कृष्ट पृथक आंगुल नीं १ । तीन ज्ञान नै तीन अज्ञान नीं भजना २ ।
समुद्घात पांच पहिली ३ । आउ जघन्य-उत्कृष्ट पृथक मास ४, अनुबंध आउ जेतो
५ । उत्कृष्ट गमे ३—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट ५०० धनुष्य नीं १, आउ
जघन्य-उत्कृष्ट कोड पूर्व २, अनुबंध आउखा जेतो ३ । भव जघन्य २, उत्कृष्ट
८ । णवरं नागकुमार नीं स्थिति अनै कायसंवेध में फेर छै, ते नवूं ही गमै कहै
छै—प्रथम, चउथे नै सातमे गमे जघन्य १० हजार वर्ष नागकुमार नीं स्थिति नै
विषे ऊपजै, उत्कृष्ट देश ऊण बे पत्योपम नीं स्थिति नै विषे ऊपजै । दूजे,
पांचमे, आठमे, गमे जघन्य-उत्कृष्ट १० हजार वर्ष नाग नीं स्थिति नै विषे
ऊपजै । तीजे, छठे, नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट देश ऊण बे पत्योपम नीं नाग नीं
स्थिति नै विषे ऊपजै ।

सोरठा

३७. प्रथम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश लेह, पृथक मास अधिको वली ॥
३८. उत्कृष्ट अद्धा जोय, अष्ट भवां नों आखियो ।
कोड़ पूर्व चिउं होय, देश ऊण अष्ट पत्य फुन ॥

*लय : तारा हो प्रत्यक्ष मोहनी

१. परि० २, यंत्र २५

७६ भगवती जोड़

३१. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति—
किं पज्जत्तसंखेज्जं ? अपज्जत्तसंखेज्जं ?

३२. गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जं, नो अपज्जत्तसंखेज्जं ।

(श० २४।१५८)

३३. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे
भविए नागकुमारेसु उववज्जत्तए,

३४. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्टितीएसु, उवको-
सेणं देसूणदोपलिओवमट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।

३५. एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स सच्चेव
लद्धी निरवसेसा नवसु गमएसु,

३६. नवरं—नागकुमारट्टिंति संवेहं च जाणेज्जा १-९ ।

(श० २४।१५९)

३९. द्वितीय गमे इम जाण, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पृथक मास पहिछाण, वर्ष सहस्र दश अधिक ही ॥
४०. उत्कृष्ट अद्धा ताय, अष्ट भवां नों इह विधे ।
कोड़ पूर्व चिउं पाय, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥
४१. तृतीये गमे इम ताय, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
मास पृथक कहिवाय, देश ऊण पत्य दाय फुन ।
४२. उत्कृष्ट अद्धा वक्ष, अष्ट भवां नों आखियो ।
चिउं पुव्व कोड़ प्रत्यक्ष, देश ऊण पत्य अष्ट फुन ॥
४३. तुर्य गमे इम थाय, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पृथक मास मनु मांय, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥
४४. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवे कहियै इतो ।
पृथक मास है च्यार, देश ऊण पत्य अष्ट फुन ॥
४५. पंचम गमे पिछाण, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
मास पृथक मनु जाण, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ॥
४६. उत्कृष्ट अद्धा सोय, अष्ट भवां नों एतलो ।
मास पृथक चिउं होय, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥
४७. षष्ठम गमेज तास, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
नर भव पृथक मास, देश ऊण पत्य दाय फुन ॥
४८. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
मास पृथक है च्यार, देश ऊण पत्य अष्ट फुन ॥
४९. सप्तम गमे सुजोड़, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
नर भव पूर्व कोड़, वर्ष सहस्र दश नाग स्थिति ।
५०. उत्कृष्ट अद्धा लेख, अष्ट भवां नों आखियो ।
चिउं पुव्व कोड़ संपेख, देश ऊण पत्य अष्ट फुन ॥
५१. अष्टम गमे कथित्त, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोड़ पूर्व नर स्थित्त, वर्ष सहस्र दश नाग नों ॥
५२. अद्धा उत्कृष्ट धार, अष्ट भवां नों एतलो ।
कोड़ पूर्व है च्यार, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥
५३. नवमे गमे निहाल, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोड़ पूर्व मनु भाल, देश ऊण पत्य दाय फुन ॥
५४. उत्कृष्ट अद्धा जेह, अष्ट भवां नों इह विधे ।
कोड़ पूर्व चिउं लेह, देश ऊण पत्य अष्ट फुन ॥
५५. नाग विषे उपजेह, संख्यायु सन्नी मनुष्य ।
तसु ए कायसंवेह, बुद्धि सू अवलोकी कह्यो ॥
५६. *सेवं ! भंते स्वाम जी ! शत चउवीसम सोय ।
तृतीय उद्देशक दाखियो, अर्थ थकी अवलोय ॥

५६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।१६०)

चतुशतितमशते तृतीयोद्देशकार्थः ॥२४।३॥

*लय : तारा हो प्रत्यक्ष मोहनी

सुपर्णकुमार स्थं स्तनितकुमार तक नागकुमारवत, ५ ठिकाणां नों
अधिकार'

५७. शेष जे सुवन्नकुमार नें, आदि देई सुविशेष ।
जाव थणित लग जाणवा, ते पिण अष्ट उद्देश ॥
५८. वक्तव्यता जिम नाग नीं, तिम कहिवूं निरवसेस ।
सेवं भंते ! स्वाम जी, एकादशमों उद्देश ॥

बा०—युगलियो मनुष्य असुर में जाय तो भव जघन्य-उत्कृष्ट २ । णाणत्ता
जघन्य गमे ३—अवगाहना जघन्य उत्कृष्ट ५०० धनुष्य जाभी १ । आउखो पूर्व
कोड जाभेरो २ । अनुबंध आउ जेतो ३ । उत्कृष्ट गमे ३—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट
३ गाऊ १ । आउ जघन्य-उत्कृष्ट ३ पत्य २ । अनुबंध आउ जेतो ३ । युगलियो तिर्यंच
असुर में जाय तेहनां भव जघन्य-उत्कृष्ट २ । णाणत्ता ३—अवगाहना जघन्य
पृथक धनुष्य, उत्कृष्ट १००० धनुष्य जाभी १, आउखो पूर्व कोड जाभेरो २,
अनुबंध आउ जेतो ३ । उत्कृष्ट गमे २—आउखो तीन पत्य नों १ अनुबंध आउ
जेतो २ । संख्यात वर्षायु सत्री तिर्यंच असुर में जाय तेहनां भव जघन्य २, उत्कृष्ट
८ । जघन्य गमे णाणत्ता ८ नारकीवत । पिण इहां अद्यवसाय भला कहिवा ।
उत्कृष्ट गमे २—आउखो कोड पूर्व १, अनुबंध आउ जेतो २ ।

कर्मभूमि नां सत्री मनुष्य असुर में जाय तेहनां भव जघन्य २, उत्कृष्ट ८ ।
जघन्य गमे णाणत्ता ५—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट पृथक आंगुल नीं १, तीन ज्ञान
अनें तीन अज्ञान नीं भजना २, समुदघात पांच पहली ३, जघन्य-उत्कृष्ट आउ पृथक
मास ४, अनुबंध आउ जेतो ५ । उत्कृष्ट गमे ३—अवगाहना जघन्य-उत्कृष्ट
पांच सौ धनुष्य नीं १ । आउ जघन्य-उत्कृष्ट कोड पूर्व नों २ । अनुबंध आउ जेतो
३ । एवं नवतिकाय नां ठिकाणा १, गमा २, नाणत्ता ३—एतला बोल असुर
कुमार नीं परे जाणवा ।

५९. च्यारसौ नें उगणीसमीं, आखी ढाल रसाल ।

भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' मंगलमाल ॥

चतुर्विंशतितमशते आचतुर्थदिकादशोद्देशकार्थः ॥२४१४-११॥

ढाल : ४२०

बूहा

१. अथ हिव पृथ्वीकाय नों, द्वादशमों उद्देश ।
अर्थ थकी कहिये अछे, सांभलजो सुविशेष ॥
२. पृथ्वीकायिक हे प्रभु ! किहां थकी ऊपजंत ?
स्यूं नारक थी ऊपजै, तिरि मनु सुर थी हुंत ?
३. जिन भाखे नारक थकी, पृथ्वी में नहिं हुंत ।
तिरि मनु सुर थी ऊपजै, वलि गोतम पूछंत ॥

१. परि० २, यंत्र २१-२५

७८ भगवती जोड़

५७. अवसेसा सुवण्णकुमारादी जाव थणियकुमारा एए
अट्ट वि उद्देशगा

५८. जहेव नागकुमारा तहेव निरवसेसा भाणियव्वा ।
(श० २४।१६१)
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।१६२)

२. पुढविककाइया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति—
किं नेरइएहितो उववज्जंति ? तिरिक्खजोणिय-
मणुस्स-देवेहितो उववज्जंति ?
३. गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्ख-
जोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जंति ।

(श० २४।१६३)

४. जो तिर्यंच थकी हुवै, तो स्यू हे भगवंत !
एकेन्द्रिय तिर्यंच थी, पुढवी में ऊपजंत ?
५. इम जिम पन्नवण पद छठे, ऊपजवो आख्यात ।
तिण विधि कहिवूं छै इहां, किहां लगे अवदात ॥
६. जावत जो बादर पृथ्वीकाय थी ऊपजंत ।
तो स्यू पर्याप्त थकी, कै अपजत्त थी हुंत ?
७. जिन भाखे पर्याप्त जे, बादर पृथ्वीकाय ।
तेह थकी उपजै अछै, अपजत्त थी पिण थाय ॥

पृथ्वीकाय में पृथ्वीकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

ओघिक नै ओघिक (१)

*जिनेश्वर धन-धन आपरो ज्ञान,

संशय तिमर निवारवा जी जाणक ऊगो भान ॥ (ध्रुपदं)

८. पृथ्वीकायिक जीवड़ो जी, हे भगवंत जी ! तेह ।
ऊपजवा नें जोग्य छै जी, पुढवीकाय विषेह ॥
९. ते किता काल स्थितिक विषे जी, हे प्रभुजी ! ऊपजेह ?
श्री जिन भाखै जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्त विषेह ॥
१०. उत्कृष्ट वर्ष कहीजियै जी, सहस्र बावीस विख्यात ।
एह स्थितिक में ऊपजै जी, ए प्रथम द्वार उपपात ॥
११. ते एक समय किता ऊपजै जी ? तब भाखै जगनाथ ।
समय-समय प्रति ऊपजै जी, विरह रहित असंख्यात ॥
१२. छेवट संघयणी ऊपजै जी, तनु अवगाहन माग ।
जघन्य थकी आंगुल तणों जी, असंख्यातमों भाग ॥
१३. उत्कृष्ट पिण आंगुल तणों जी, असंख्यातमों भाग ।
मसूर चंद्र संठाण छै जी, पंचम द्वार सुभाग ॥
१४. धुर लेश्या चिउं तेह में जी, सम्यगदृष्टि न होय ।
मिथ्यादृष्टि ते हुवै जी, सम्मामिथ्या नहिं कोय ॥
१५. ज्ञानी तसु कहियै नहीं जी, ते अज्ञानी होय ।
बे अज्ञानी जाणवा जी, नियम थकी अवलोय ॥
१६. मन जोगी नहिं ह्वै तिके जी, वच जोगी नहिं कोय ।
काय जोगी कहियै तसु जी, बिहुं उपयोगी जोय ॥
१७. च्यारुई संज्ञा हुवै जी, फुन च्यारुई कषाय ।
एक फर्श इंद्रो हुवै जी, समुद्धात त्रिण पाय ॥
१८. साता असाता वेदना जी, इत्थी वेद न कोय ।
पुरिस वेद पिण नहिं हुवै जी, वेद नपुंसक होय ॥

*लय : खिन्यावंत धिन भगवंत जी रो ज्ञान

१. परि. २. यंत्र २६

४. जइ तिरिक्खजोणिएंहितो उववज्जंति—कि एगि-
दियतिरिक्खजोणिएंहितो
५. एवं जहा वक्कंतीए उववाओ
६. जाव— (श० २४।१६४)
जइ बायरपुढविकाइयएंगिदियतिरिक्खजोणिएंहितो
उववज्जंति—कि पज्जत्ताबादर जाव उववज्जंति,
अपज्जत्ताबादरपुढवि ?
७. गोयमा ! पज्जत्ताबादरपुढवि, अपज्जत्ताबादरपुढवि
जाव उववज्जंति । (श० २४।१६५)

८. पुढविकाइए णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु
उववज्जित्तए,
९. से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु,
१०. उक्कोसेणं बावीसवाससहस्सट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।
(श० २४।१६६)
११. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं—पुच्छा ।
गोयमा ! अणुसमयं अविरहिया असंखेज्जा उव-
वज्जंति ।
१२. छेवटसंघयणी । सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स
असंखेज्जइभागं,
१३. उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्जइभागं । मसूरा-
चंदासंठिया ।
१४. चत्तारि लेस्साओ । णो सम्मदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, नो
सम्मामिच्छादिट्ठी ।
१५. नो नाणी, अण्णाणी, दो अण्णाणा नियमं ।
१६. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी । उवओगो
दुविहो वि ।
१७. चत्तारि सण्णाओ । चत्तारि कसाया । एगै फासिदिए
पण्णत्ते । तिण्णिण समुग्घाया ।
१८. वेदणा दुविहा । नो इत्थिवेदगा; नो पुरिसवेदगा;
नपुंसगवेदगा ।

श० २४; उ० १२; डा० ४२० ७९

१९. स्थिति जघन्य थी तेहनीं जी, अंतर्मुहूर्तं जगीस ।
उत्कृष्टी ह्वै एतली जी, वर्ष सहस्र बावीस ॥
२०. अध्यवसायज आखिया जी, प्रशस्त पिण तसु होय ।
अप्रशस्त पिण ह्वै वली जी,
अनुबंध स्थिति जिम जोय ॥
२१. ते प्रभु ! पृथ्वीकाइयो जी, पुनरपि पृथ्वी थाय ।
इम सेवै कालज केतलो जी,
कितो काल गतागति पाय ?
२२. जिन भाखै भव आश्रयी जी, जघन्य थकी भव दोग ।
उत्कृष्टा ते भव करै जी, असंख्यात अवलोय ॥
२३. काल आश्रयी जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्तं दोग ।
उत्कृष्टो अद्दा कह्यो जी, असंखेज्ज तसु जोय ॥
२४. सेवै कालज एतलो जी, करै गति आगति इतो काल ।
ओधिक नैं ओधिक गमो जी, दाख्यो प्रथम दयाल ॥

ओधिक नैं जघन्य (२)

२५. तेहिज पृथ्वीकाइयो जी, पृथ्वीकायपणेह ।
जघन्य काल स्थितिक विषे जी,
उपनों तसु स्थिति एह ॥
२६. जघन्य अनैं उत्कृष्ट ही जी, अंतर्मुहूर्तं कहीज ।
स्थितिक विषेज ऊपनां जी, सह वक्तव्यता इमहीज ।

सोरठा

२७. जघन्य कायसंवेह, अंतर्मुहूर्तं दोग तसु ।
उत्कृष्टो इम लेह, काल असंख्या पूर्ववत ॥

ओधिक नैं उत्कृष्ट (३)

२८. *तेहिज पृथ्वीकाइयो जी, पृथ्वीकायपणेह ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे जी,
ऊपनों कर्म वसेह ॥
२९. घुर सहस्र वर्ष बावीस नीं जी, स्थितिक विषे ऊपजेह ।
उत्कृष्टी पिण एतली जी, सहस्र बावीस वर्षेह ॥

सोरठा

३०. उत्कृष्ट स्थिति विषेह, एह ऊपनों ते भणी ।
सहस्र बावीस वर्षेह, जघन्य अनैं उत्कृष्ट पिण ॥
३१. *शेष तिमज कहिवो सह जी, यावत अनुबंध लग्ग ।
णवरं फेर परिमाण में जी, फुन कायसंवेध सुमग्ग ॥
३२. परिमाण में इम आखियै जी, जघन्य एक वे तीन ।
उत्कृष्टा ते ऊपजै जी, संख असंख्या चीन ॥

*लय : खिम्यावंत धिन भगवंत जी रो ज्ञान

८० भगवती जोइ

१९. ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वास-
सहस्साइं ।
२०. अज्झवसाणा पसत्था वि, अपसत्था वि । अणुबंधो
जहा ठिती । (श० २४।१६७)
२१. से णं भंते ! पुढविककाइए पुणरवि पुढविककाइएत्ति
केवतियं कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ?
२२. गोयमा ! भवादेशेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं असंखेज्जाइं भवग्गहणाइं ।
२३. कालादेशेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं
असंखेज्ज कालं ।
२४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।१६८)

२५. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो

२६. जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं वि अंतो-
मुहुत्तद्वितीएसु, एवं चेव वक्तव्वया निरवसेसा २ ।
(श० २४।१६९)

२८. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो

२९. बावीसवाससहस्रद्वितीएसु, उक्कोसेणं वि बावीस-
वाससहस्रद्वितीएसु ।

३१. सेसं तं चेव जाव अणुबंधो त्ति, नवरं—

३२. जहण्णेणं एवको वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जेज्जा ।

सोरठा

३३. उत्कृष्ट स्थिति विषेह, जाणहार थोडा हुवे ।
तिणसूं जघन्य कहेह, इक बे त्रिण उपजे कदा ॥

३४. कदा बहु उपजेह, तो उत्कृष्ट पदे करी ।
संख असंख कहेह, आख्यो द्वार परिमाण ए ॥

३५. *कायसंवेध हिवै कहुं जी, भव आदेश करेह ।
जघन्य दोय भव जाणवा जी, उत्कृष्ट भव अठ लेह ॥

वा०—भवादेशे करी जघन्य दोय भव ग्रहण करै, उत्कृष्ट थकी आठ भव ग्रहण करै । इहां इम जाणवो—जिहां कायसंवेध में बे पक्ष नै मांहि एक पिण पक्ष नै विषे उत्कृष्ट स्थिति हुवै तिहां उत्कृष्टे अष्ट भव ग्रहण हुवै । तेह थकी अनेरा पक्ष नै विषे तो असंख्याता भव ग्रहण ते माटे इहां उत्पत्ति विषय-भूत जीव नै विषे उत्कृष्ट थकी आठ भव ग्रहण करै । एहिज वार्ता विशेष करी ओलखावे छै—प्रथम गमे कायसंवेध जघन्य दोय अंतर्मुहूर्त्त कह्या । इहां दोनू भव नौं जघन्य स्थिति कही, ते माटे उत्कृष्टा असंख्याता भव कह्या १ ।

अनै दूजै गमे कायसंवेधे जघन्य दोय भव । तेहनों जघन्य काल बे अंतर्मुहूर्त्त कह्यो । इहां पिण दोनू भव जघन्य स्थिति कही, ते माटे उत्कृष्टा असंख्याता भव कह्या २ ।

अनै तीजे गमे जघन्य दोय भव । तेहनों काल जघन्य थी बावीस हजार वर्ष नै अंतर्मुहूर्त्त । इहां एक पृथ्वी नां भव नौं जघन्य स्थिति अनै एक भव नौं उत्कृष्ट स्थिति । ए बे पक्ष में एक पक्षे उत्कृष्ट स्थिति आई, ते माटे उत्कृष्टा अष्ट भव ३ ।

अनै चउथे, पांचमे गमे जघन्य दोय भव । तेहनों काल दोय अंतर्मुहूर्त्त ते माटे उत्कृष्टा असंख्याता भव । अनै छठे, सातमे, आठमे, नवमे गमे जघन्य बे-बे भव । तेहनों काल बावीस हजार वर्ष नै अंतर्मुहूर्त्त । इहां पिण एक भव नौं जघन्य स्थिति एक भव नौं उत्कृष्ट स्थिति । एक भव रूप पक्ष नौं उत्कृष्ट स्थिति माटे आठ-आठ भव कहिस्यै ।

३६. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष सहस्र बावीस ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही जी, बे भव स्थिति जगीस ॥

३७. उत्कृष्ट अद्ध इक लक्ष वली जी,
वर्ष सहस्र छीहंतर इष्ट ।
ए पुढवी नां जीव नौं जी,
अठ भव स्थिति उत्कृष्ट ॥

३८. सेवै कालज एतलो जी, करै गति-आगति इतो काल ।
ओधिक नै उत्कृष्ट गमो जी, दाख्यो तृतीय दयाल ॥

जघन्य नै ओधिक (४)

३९. तेहिज आपणपै हुओ जी, जघन्य काल स्थितिवंत ।
तेहिज प्रथम गमे आखियो जी,
भणवो तिमज उदंत ॥

३५. भवादेशेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं ।

वा०—‘उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं’ ति, इहेदमव-गन्तव्यं—यत्र संवेधे पक्षद्वयस्य मध्ये एकत्रापि पक्षे उत्कृष्टा स्थितिर्भवति तत्रोत्कर्षतोऽष्टौ भवग्रहणानि तदन्यत्र त्वसङ्ख्येयानि, ततश्चेहोत्पत्तिविषयभूत-जीवेषूत्कृष्टा स्थितिरित्युत्कर्षतोऽष्टौ भवग्रहणा-न्युक्तानि, (वृ० प० ८२५)

३६. कालादेशेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतो-मुहुत्तमभहियाइं,

३७. उक्कोसेणं छावत्तरं वाससयसहस्सं,

३८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ३ ।
(श० २४।१७०)

३९. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्ठित्थीओ जाओ, सो चेव पढमित्तलो गमओ भाणियव्वो

*लय : खिम्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान.

४०. णवरं लेण्या त्रिण हुवै जी,
जघन्य स्थितिक पृथ्वी मांय ।
सुर नहि ऊपजै ते भणी जी, तेजुलेश न पाय ॥
४१. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट थी जी, अंतर्मुहूर्त्त होय ।
अध्यवसाय हुवै बुरा जी, भला न पावै कोय ॥
४२. अनुबंध स्थिति जिम जाणवो जी,
शेष बोल छै जेह ।
प्रथम गमा जिम जाणवा जी, तुर्य गमो इम लेह ॥

जघन्य नै जघन्य (५)

४३. तेहिज जघन्य स्थिति नों धणी जी,
जघन्य स्थितिके उपपन्न ।
तुर्य गमक सम वारता जी, भणवी सर्व सुजन्न ॥

जघन्य नै उत्कृष्ट (६)

४४. तेहिज जघन्य स्थिति नों धणी जी,
उत्कृष्ट स्थितिक विषेह ।
ऊपनों वक्तव्यता तसु जी, पूर्व रीत कहेह ॥
४५. णवरं विशेष एतलो जी, परिमाण कालसवेह ।
फेर अछे ए बिहुं विषे जी, आगल कहियै जेह ।
४६. एक समय ते ऊपजै जी, जघन्य एक बे तीन ।
उत्कृष्ट संख्याता तथा जी, असंख्याता ही चीन ॥
४७. यावत ते भव आश्रयी जी, बे भव ग्रहण जघन्न ।
उत्कृष्ट अठ भव जाणवा जी,
हिव तसु काल कथन्न ॥
४८. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष सहस्र बावीस ।
अंतर्मुहूर्त्त आखियो जी, बे भव अद्धा जगीस ॥
४९. उत्कृष्ट अद्धा एतलो जी, सहस्र अठ्यासी वास ।
अंतर्मुहूर्त्त चिउं वलि जी, अधिका एह विमास ॥

सोरठा

५०. जघन्य स्थितिक भव च्यार,
जेष्ठ स्थितिक भव चिउं वली ।
वर्ष अठ्यासी हजार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं अधिक ॥
५१. *सेवै कालज एतलो जी,
करै गति-आगति इतो काल ।
जघन्य अने उत्कृष्ट गमो जी,
दाख्यो षष्ठम दयाल ॥

उत्कृष्ट नै ओधिक (७)

५२. तेहिज आपणवै थयो जी, उत्कृष्ट आयुवंत ।
इम तीजा गम सारिखो जी, भणवो सर्व उदंत ॥

४०. नवरं—लेसाओ तिणि ।
'लेसाओ तिनि' ति जघन्यस्थितिकेषु देवो नोत्पद्यते
इति तेजोलेण्या तेषु नास्तीति, (वृ० प० ८२५)
४१. ठिती जहण्णेणं अंतोमुहूर्त्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहूर्त्तं ।
अप्पसत्था अज्झवसाणा ।
४२. अणुबंधो जहा ठिती । सेसं तं चेव ४ ।
(श० २४।१७१)

४३. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो सच्चेव
चउत्थगमगवत्तव्वया भाणियव्वा ५ ।
(श० २४।१७२)

४४. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया,

४५. नवरं—

४६. जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं
संखेज्जा वा असंखेज्जा वा
४७. जाव भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं ।
४८. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतो-
मुहूर्त्तमब्भहियाइं,
४९. उक्कोसेणं अट्टासीइं वाससहस्साइं चउहि अंतो-
मुहूर्त्तेहि अब्भहियाइं,

५०. तत्र जघन्यस्थितिकस्योत्कृष्टस्थितिकस्य च चतुष्कृत्व
उत्पन्नत्वाद् द्वाविंशतिवर्षसहस्राणि चतुर्गुणितान्य-
ष्टाशीति भवन्ति चत्वारि चान्तर्मुहूर्त्तानीति,
(वृ० प० ८२५)
५१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतं
करेज्जा ६ ।
(श० २४।१७३)

५२. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालद्वितीओ जाओ, एवं
तइयगमगसरिसो निरवसेसो भाणियव्वो,

*लय : खिम्यावंत धिन मगवंत रो जी ज्ञान

५३. णवरं आपणपै तिको जी, जघन्य अनै अत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र बावीस नों जी, आयुवंतज इष्ट ॥

उत्कृष्ट नै जघन्य (८)

५४. तेहिज जेष्ठ स्थिति नों धणी जी,
जघन्य स्थितिके उत्पन्न ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट थी जी, अंतर्मुहूर्त्त प्रपन्न ॥
५५. इम जिम सप्तम गम विषे जी, आख्यो तिम कहिवाय ।
यावत भव बे जघन्य थी जी, उत्कृष्टा अठ पाय ॥
५६. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष सहस्र बावीस ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक थी जी, बे भव काल जगीस ॥
५७. उत्कृष्ट अद्दा एतलो जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।
अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली जी, अठ भव काल विचार ॥
५८. सेवै कालज एतलो जी,
करै गति-आगति इतो काल ।
उत्कृष्ट अनै जघन्य गमो जी, दाख्यो अष्टम दयाल ॥

उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट (९)

५९. तेहिज जेष्ठ स्थिति नों धणी जी,
उत्कृष्ट स्थितिके उत्पन्न ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट थी जी,
वर्ष सहस्र बावीस कथन्न ॥
६०. एहिज सप्तम गम तणी जी, वक्तव्यता सुविशेष ।
आखी तिम कहिवी इहां जी, यावत भव आदेश ॥
६१. काल आश्रयी जघन्य थी जी,
सहस्र चोमालीस वास ॥
बे भव पृथ्वीकाय नां जी, उत्कृष्ट स्थिति नां विमास ।
६२. उत्कृष्ट इक लक्ष ऊपरै जी, वर्ष छीहंतर हुंत ।
अठ भव पृथ्वीकाय नां जी, उत्कृष्ट आयुवंत ॥
६३. सेवै कालज एतलो जी, करै गति-आगति इतो काल ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमो जी, दाख्यो नवम दयाल ॥

पृथ्वीकाय में अपकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

६४. जो अपकायिक एकेंद्रियो जी, तिर्यच थी ऊपजेह ।
स्यू सूक्ष्म अपकाय थी जी, बादर अप थी लेह ॥
६५. इम चिउं भेदे जाणवा जी, सूक्ष्म बादर तेम ।
पर्याप्तो अपर्याप्तो जी, पृथ्वीकायिक जेम ॥

ओघिक नै ओघिक [१]

६६. हे प्रभुजी ! अपकाइयो जी, पृथ्वीकाय विषेह ।
ऊपजवा नै जोग्य छै जी,
कितै काल स्थितिक ऊपजेह ?

५३. नवरं—अप्यणा से ठिई जहण्णेणं बावीसं वास-
सहस्साइं, उक्कोसेण वि बावीसं वाससहस्साइं ७ ।
(श० २४।१७४)

५४. सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ।

५५. एवं जहा सत्तमगमगो जाव भवादेसो ।

५६. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतो-
मुहत्तमम्भहियाइं,

५७. उक्कोसेणं अट्टासीइं वाससहस्साइं चउहि अंतो-
मुहुत्तेहि अम्भहियाइं,

५८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ८ ।
(श० २४।१७५)

५९. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववण्णो जहण्णेणं
बावीसवाससहस्साइं, उक्कोसेण वि बावीसवास-
सहस्साइं, उक्कोसेण वि बावीसवास-

६०. एस चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणियव्वा जाव
भवादेसो त्ति ।

६१. कालादेसेणं जहण्णेणं चोयालीसं वाससहस्साइं,

६२. उक्कोसेणं छाबत्तरं वाससयसहस्सं,

६३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ ।
(श० २४।१७६)

६४. जइ आउक्काइयएंगिदियतिरिक्खजोणिएहितो उव-
वज्जंति—किं सुहुमआउ० ? बादरआउ० ?

६५. एवं चउक्कओ भेदो भाणियव्वो जहा
पुढविक्काइयाणं ।
(श. २४।१७७)
'चउक्कओ भेदो' त्ति सूक्ष्मबादरयोः पर्याप्तका-
पर्याप्तकभेदात् (वृ० प० ७२५)

६६. आउक्काइए णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु
उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवइकालट्टितीएसु
उववज्जेज्जा ?

६७. जिन कहै गोतम ! जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्त्त लेह ।
वर्ष सहस्र बावीस नीं जी, उत्कृष्ट स्थितिक विषेह ।

६८. इम पृथ्वीकायिक तणां जी, गमा सरीखा जी लेख ।
अपकायिक नां नव गमा जी, भणवा णवरं विशेख ॥

६९. स्तिबुक बिंदु संठाण छै जी,
स्थिति जघन्य थी जी इष्ट ।

अंतर्मुहूर्त्त अप तणीं जी, सप्त सहस्र वर्ष जिष्ट ॥

७०. अनुबंध पिण इम जाणवूं जी, त्रिहुं गम एम पिछाण ।
जघन्य जेष्ठ स्थिति अप तणीं जी,

फुन संवेध सुजाण ॥

७१. तृतीय छठे सातमे जी, अष्टम नवमे गमेह ।
भवादेश धुर भव बिहुं जी, उत्कृष्ट अठ भव लेह ॥

७२. शेष चिउं गम नें विषे जी, जघन्य दोय भव देख ।
उत्कृष्टा भव तेहनां जी, असंख्यात सुविशेख ॥

हिवै तीजे, छठे सातमे, आठमे, नवमे गमे जघन्य दोय भव, उत्कृष्टा
आठ भव कह्या । तेहनों कायसंवेध कहै छै—

७३. संवेध तीजा गम विषे जी, काल आश्रयी जघन्न ।
वर्ष सहस्र बावीस छै जी, अंतर्मुहूर्त्त कथन्न ॥

सोरठा

७४. अंतर्मुहूर्त्त ताहि, अपकायिक स्थिति भोगवी ।
रूपनीं पृथ्वी मांहि, स्थिति वर्ष सहस्र बावीस तसु ॥

७५. अप ओधिक संजात, जघन्य काल नें वांछवें ।
अंतर्मुहूर्त्त ख्यात, सप्त सहस्र वर्ष नहिं कह्या ॥

७६. *उत्कृष्ट अद्दा एतलूं जी, इक लक्ष वर्ष निहाल ।
सोल सहस्र वर्ष ऊपरे जी, ए अठ भव नूं काल ॥

सोरठा

७७. पुढवी नां भव च्यार, सहस्र अठ्घासी वर्ष जे ।
अप चिउं भव अवधार, वर्ष सहस्र अठ वीस फुन ॥

७८. ए बिहुं मेली तास, वर्ष एक लक्ष ऊपरें ।
सोलै सहस्रज वास, अष्ट भवे उत्कृष्ट स्थिति ॥

७९. सेवै कालज एतलो जी, करै गति-आगति इतो काल ।
जघन्य अनें जघन्य गमो जी, दाख्यो दीनदयाल ॥

८०. *छठ्ठा गमा नें विषे जी, जघन्य स्थितिक छै जेह ।
उत्कृष्ट स्थिति विषे तिको जी, उपनों तसु संवेह ॥

८१. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष बावीस हजार ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक छै जी, बे भव अद्दा धार ॥

६७. गौयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु उक्कोसेणं
बावीसवाससहस्सट्टितीएसु उववज्जेज्जा ।

६८. एवं पुढविककाइयगमगरिसा नव गमगा भाणियव्वा,
नवरं—

६९. थिबुगाबिंदुसंठिए । ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं ।

७०. एवं अणुबंधो वि । एवं तिसु वि गमएसु । ठिती
संवेहो

७१. तइयछट्टसत्तमट्टमनवमेसु गमएसु—भवादेसेणं
जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं,

७२. सेसेसु चउसु गमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं असंखेज्जाइं भवग्गहणाइं ।

७३. ततियगमए कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वास-
सहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं

७६. उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं,

७९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

८०. छट्ठे गमए
'छट्ठे गमए' इत्यादि, षष्ठे गमे हि जघन्यस्थितिक
उत्कृष्टस्थितिषूत्पद्यते (वृ० प० ८२६)

८१. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं

*लय : खिन्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

८४ भगवती जोड़

८२. अद्धा उत्कृष्टो वली जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।
अंतर्मुहूर्त्तं चिउं वली जी, ए गति-आगति धार ॥

सोरठा

८३. वर्ष बावीस हजार, चिउं भव पुढवीकाय नां ।
ए सहस्र अठ्यासी धार, अंतर्मुहूर्त्तं च्यार अप ॥

८४. *सप्तम गमा विषे वली जी, काल आश्रयी जघन्न ।
सप्त सहस्र वर्ष अप भवे जी, अंतर्मुहूर्त्तं कथन्न ॥

८५. उत्कृष्ट इक लक्ष ऊपरे जी, सोल सहस्र फुन वास ।
चिउं भव पुढवी अप चिउं जी,
स्थिति उत्कृष्टी तास ॥

८६. सेवै कालज एतलो जी, करै गति-आगति इतो काल ।
उत्कृष्ट नै ओघिक गमो जी, एह सप्तमो न्हाल ॥

८७. अष्टम गम काल आश्रयी जी,
जघन्य थकी अवितत्थ ।
सप्त सहस्र वर्ष अप स्थिति जी, पृथ्वी अंतर्मुहूर्त्त ॥

८८. उत्कृष्ट अद्धा एतलो जी, सहस्र वर्ष अठवीस ।
अंतर्मुहूर्त्तं चिउं वली जी, इतलो काल जगीस ॥

सोरठा

८९. वर्ष सहस्र अठवीस, उत्कृष्ट स्थिति अप चिउं भवे ।
मही चिउं भवे जगीस, चिउं अंतर्मुहूर्त्तं जघन्य ॥

९०. *सेवै कालज एतलो जी, करै गति-आगति इतो काल ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट गमो जी, दाख्यो दीनदयाल ॥

९१. नवम गमे भव आश्रयी जी, जघन्य दौय भव देख ।
उत्कृष्टा अठ भव कह्या जी, हिव तसु काल संपेख ॥

९२. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष सहस्र गुणतीस ।
सप्त सहस्र वर्ष अप स्थिति जी,
पृथ्वी सहस्र बावीस ॥

९३. अद्ध उत्कृष्ट वर्ष एतला जी, इक लक्ष सोल हजार ।
सेवै कालज एतलो जी, ए गति-आगति धार ॥

सोरठा

९४. सहस्र अठ्यासी वास, पृथ्वी चिउं भव जेष्ठ स्थिति ।
अप चिउं भव स्थिति तास,
वर्ष सहस्र अठवीस फुन ॥

९५. प्रथम द्वितीय गम जोय, तुर्य गमे फुन पंचमे ।
जघन्य थकी भव दौय, उत्कृष्टा असंख भव हुवै ॥

९६. जघन्य अद्धा तसु जोय, अंतर्मुहूर्त्तं दौय ह्वै ।
उत्कृष्टो अवलोय, काल असंखिज्ज ह्वै तसु ॥

*सय : खिभ्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

८२. उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं चउर्हि अंतो-
मुहुत्तेहि अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एव-
तियं कालं गतिरागति करेज्जा ।

८३. इत्यन्तर्मुहूर्त्तस्य वर्षसहस्रद्वाविंशतेषु प्रत्येकं चतुर्भवं-
ग्रहणगुणितत्वे यथोक्तमुत्कृष्टं कालमानं स्यात्
८८००० (वृ० प० ८२६)

८४. सत्तमे गमए कालादेसेणं जहण्णेणं सत्त वाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं,

८५. उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं,

८६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

८७. अट्टमे गमए कालादेसेणं जहण्णेणं सत्त वाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं ।

८८. उक्कोसेणं अट्टावीसं वाससहस्साइं चउर्हि अंतो-
मुहुत्तेहि अब्भहियाइं,

९०. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

९१. नवमे गमए भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं,

९२. कालादेसेणं जहण्णेणं एकूणतीसं वाससहस्साइं

९३. उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं, एवतियं कालं
सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ।

(श० २४।१७८)

हिवं पृथ्वीकाय में तेऊकाय ऊपजे, तेहनों अधिकार'

९७. *जो तेऊ थी ऊपजे, पृथ्वीकाय विषेह ।
तेऊ नीं पिण वारता जी, एहिज रीत कहेह ॥

९८. णवरं नव ही गमा विषे जी, लेश्या तीनज पाय ।
देव थकी नहिं ऊपजे जी, तेऊकायिक मांय ॥

९९. तेऊकायिक नों कह्यो, सूची समूह संठाण ।
ए आकारज जाणवो जी, स्थिति तास पहिछाण ॥

सोरठा

१००. स्थिति जघन्य सुविचार, अंतर्मुहूर्त्त नीं अखी ।
उत्कृष्टी अवधार, तीन दिवस-निश नीं तसु ॥

१०१. *तीजा गमक विषे कह्यो जी, काल आश्रयी जघन्न ।
वर्ष सहस्र बावीस नीं जी, अंतर्मुहूर्त्त कथन्न ॥

१०२. उत्कृष्टो अद्धा इतो जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।
रात्रि-दिवस द्वादश बली जी, एह अधिक अवधार ॥

वा०—इहां तीजे गमे ओधिक तेऊकायिक छै, ते पृथ्वीकायिक उत्कृष्ट स्थितिक विषे ऊपजे । अत्र एक पक्ष ते पृथ्वीकायिक उत्कृष्ट स्थितिपणों छै, ते भणी उत्कृष्ट थकी अष्ट भव ग्रहण हुवै ।

ते च्यार भव पृथ्वीकायिक नां उत्कृष्ट स्थिति बावीस हजार वर्ष नां करै । ते चउगुणां कीधां अठ्यासी हजार वर्ष हुवै । अनै उत्कृष्ट आउखा नां च्यार भव तेऊकायिक नां करै । एक-एक भव तीन-तीन दिन-रात्रि नां । ते चउगुणां कीधां बारै दिन-रात्रि हुवै ।

१०३. गति-आगति इतरो अद्धा जी, कायसंवेधज एम ।
मन नै उपयोगे करी जी, कहिवूं सगलो तेम ॥

सोरठा

१०४. अठ भव पंचम गमेह, तृतीय गमे संवेध जे ।
पूर्वे आख्यो जेह, हिव गम षष्ठम प्रमुख ते ॥

१०५. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त तेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

वा०—इहां तेऊकाय नीं अंतर्मुहूर्त्त नीं स्थिति, पृथ्वीकाय नीं बावीस हजार वर्ष नीं स्थिति । एक पक्ष में उत्कृष्ट स्थिति कही ते माटे अष्ट भव छै ।

१०६. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र फुन ॥

१. परि० २, यंत्र २८

*लय : खिम्बावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

८६ भगवती जोड़

९७. जइ तेउक्काइएहितो उववज्जति ? तेउक्काइयाण
वि एस चव वत्तव्वया,

९८. नवरं—नवसु वि गमएसु तिणिण लेस्साओ ।
'तिन्नि लेसाओ' त्ति अष्कायिकेषु देवोत्पत्ते: तेजो-
लेश्यासद्भावाच्चतस्सस्ता उक्ता: इह तु तदभावात्तिस्र
एवेति, (वृ. प. ८२६)

९९. तेउक्काइया णं सूईकलावसठिया । ठिई जाणियव्वा ।

१००. 'ठिई जाणियव्व' त्ति तत्र तेजसो जघन्या स्थिति-
रन्तर्मुहूर्त्तमितरा तु त्रीण्यहोरात्राणीति ।

(वृ. प. ८२६)

१०१. तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वास-
सहस्साइं अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं,

१०२. उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं बारसहिं राइं-
दिएहिं अम्भहियाइं,

वा०—'तइयगमे' इत्यादि, तृतीयगमे ओधिकस्तेज-
स्कायिक उत्कृष्टस्थितिषु पृथिवीकायिकेषूपद्वयेते
इत्यत्रैकस्य पक्षस्योत्कृष्टस्थितिकत्वमतोऽष्टौ भव-
ग्रहणान्युत्कर्षतः,

तत्र च चतुर्षु पृथिवीकायिकोत्कृष्टभवग्रहणेषु द्वा-
विशतेर्वर्षसहस्राणां चतुर्गुणितत्वेऽष्टाशीतिस्तानि
भवन्ति, तथा चतुर्वेव तेजस्कायिकभवेष्कर्षतः
प्रत्येकमहोरात्रत्रयपरिमाणेषु द्वादशाहोरात्राणीति,

(वृ० प० ८२६)

१०३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा । एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो १-९ ।

(श० २४।१७९)

१०७. सप्तम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
तीन दिवस-निशि तेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

बा०—तेउकाय नीं उत्कृष्टी स्थिति अनै पृथ्वीकायिक नीं जघन्य स्थिति ।
तिहां पिण एक पक्ष उत्कृष्टी स्थिति कही ते माटे अष्ट भव ।

१०८. उत्कृष्ट अद्धा धार, वर्ष अठ्चासी सहस्र जे ।
दिवस-रात्रि जे बार, अष्ट भवां नों आखियो ॥

१०९. अष्टम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
तीन दिवस-निशि जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

बा०—इहां पिण एक पक्ष उत्कृष्टी स्थिति, ते माटे अष्ट भव ।

११०. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों आखियो ।
दिवस-रात्रि जे बार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार फुन ॥

१११. नवमे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
तीन दिवस-निशि जेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

बा०—अत्र तेउकाय नीं तीन दिन-रात्रि नीं स्थिति अनै पृथ्वीकाय नीं
बावीस हजार वर्ष नीं स्थिति । इहां बिहुं पक्ष उत्कृष्टी स्थिति छै, ते माटे अष्ट
भव ग्रहण ।

११२. उत्कृष्ट अद्धा धार, वर्ष अठ्चासी सहस्र जे ।
दिवस-निशा बलि बार, अष्ट भवे अद्धा इतो ॥

बा०—ए पंच गमे जघन्य दोग भव, उत्कृष्टा अष्ट भव नों कायसंवेध
कह्यो । अनै शेष १, २, ४, ५ —ए च्यार गमे कायसंवेध कहे छै —

११३. शेष चिउं गमकेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट काल असंख ही ॥

बा०—इहां जघन्य बे भव नों काल बे अंतर्मुहूर्त्त । अत्र तेउकाय नीं अनै
पृथ्वीकाय नीं पिण अंतर्मुहूर्त्त—ए बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति । ते माटे उत्कृष्ट
असंख्याता भव । तेहनों असंख्यातो काल कह्यो ।

पृथ्वीकाय में वाउकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

११४. *जो वाउकायिक थकी जी, ऊपजै पृथ्वी रे मांय ।
वायु नां पिण नव गमा जी, एवं चेव कहाय ॥

११५. जिमहिज तेउकाय नों जी, पृथ्वी में उपपात ।
तिमहिज वाऊ महि विषे जी, ऊपजतां नें थात ॥

११६. नवरं वाऊ नों कह्यो जी, पताका नों संस्थान ।
तेऊ नों संठाण छै जी, सुचो-कलाप जान ।

बा०—इहां तेऊ में समुद्घात ३ पावै । वाऊ में समुद्घात ४ पावै, ते
णवरं पाठ में खोली नथी । ते वाऊ ओदारिक मूल शरीर नीं अपेक्षाए संभावियै
छै । वाऊ में बेक्रिय समुद्घात पावै छै, पिण ते उत्तर रूप माटे इहां लेखव्यो न
दीसै ।

*लय : खिम्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

१. परि. २, यंत्र २९

११४. जइ वाउक्काइएहितो ? वाउक्काइयाण वि एवं
चेव नव गमगा

११५. जहेव तेउक्काइयाण,

११६. नवरं—पढागासंठिया पण्णत्ता ।

११७. वलि संवेधज तेहनों जी, वर्ष सहस्र संघात ।
करिवो वाऊकाय नों जी, तास न्याय इम खयात ॥

सोरठा

११८. तेऊ नें अधिकार, दिन-निशि कर संवेध कृत ।
इहां वायु में धार, करिवूं वर्ष सहस्रे करी ॥
११९. तिहां दिवस-निशि तीन, स्थिति उत्कृष्ट तेऊ तणीं ।
इहां उत्कृष्टी चीन, वर्ष सहस्र त्रिण नीं कही ॥
१२०. *तीजे गमे काल आश्रयी जी, जघन्य थकी संवेह ।
वर्ष सहस्र बावीस नीं जी, अंतर्मुहूर्त्त अधिकेह ॥

वा०—इहां एक पक्ष पृथ्वीकाय नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट अष्ट भव
तेहनों काल कहै छै—

१२१. उत्कृष्ट अद्धा एतलो जी, वर्ष एक लक्ष जाण ।
वायु नें पृथ्वी तणां जी, च्यार-च्यार भव माण ॥

सोरठा

१२२. पृथ्वी स्थिति उत्कृष्ट, चिउं भव अठघासी सहस्र ।
वायु नीं स्थिति जिष्ट, चिउं भव द्वादश सहस्र वर्ष ॥
१२३. ए बिहुं मेली जोय, वर्ष एक लक्ष आखियो ।
तृतीय गमे अवलोय, गतागति संवेध ए ॥

१२४. *एवं कायसंवेध नें जी, गमक विषे अवधार ।
मन नें उपयोगे करी जी, कहिवूं सर्व विचार ॥

वा०—जे गमा नें विषे एक पक्षे अथवा बिहुं पक्षे उत्कृष्टी स्थिति हुवै,
ते गमा नें विषे उत्कृष्ट थकी अष्ट भव ग्रहण हुवै । अनें जे गमा नें विषे बिहुं
पक्षे जघन्य स्थिति हुवै, तेहनां उत्कृष्ट असंख्याता भव हुवै । तेहनों काल पिण
असंख्यातो हुवै । तिहां प्रथम, द्वितीय, चौथे, पंचमे गमे जघन्य दोय भव उत्कृष्ट
असंख्याता भव हुवै । तेहनों काल पिण असंख्यातो हुवै । तिहां तृतीय छठे,
सातमे, आठमे, नवमे गमे जघन्य दो भव, उत्कृष्ट आठ भव । तिहां तीजे गमे तो
कायसंवेध कह्यो । हिंवें छठे गमे कायसंवेध कहै छै—

सोरठा

१२५. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ॥
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र बावीस ही ॥

इहां एक पक्ष पृथ्वीकाय नीं उत्कृष्ट स्थिति कही ते माटे उत्कृष्टा अष्ट भव—

१२६. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष अठघासी सहस्र फुन ॥
१२७. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र त्रिण लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
इहां एक पक्ष वाऊकाय नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे अष्ट भव—

११७. संवेहो वाससहस्सेहि कायव्वो ।

११८, ११९. 'संवेहो वाससहस्सेहि कायव्वो' त्ति तेज-
स्कायिकाधिकारेऽहोरात्रैः संवेधः कृतः इह तु वर्ष-
सहस्रैः स कार्यो वायूनामुत्कर्षतो वर्षसहस्रत्रय-
स्थितिकत्वादिति । (वृ० प० ८२६)
१२०. तद्ग्रहणमए कालादेशेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तमम्भहियाइं,

१२१. उवकोसेणं एगं वाससयसहस्सं ।

१२२, १२३. 'उवकोसेणं एगं वाससयसहस्सं' त्ति अत्राष्टी
भवग्रहणानि तेषु च चतुर्विंशतीतिर्वर्षसहस्राणि
पुनरन्येषु चतुर्षु वायुसत्केषु वर्षसहस्रत्रयस्य चतुर्गुणि-
तत्त्वे द्वादश उभयमीलने च वर्षलक्षमिति,
(वृ० प० ८२६)

१२४. एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो १-९ ।

(श० २४।१८०)

वा०—यत्रोत्कृष्टस्थितिसम्भवस्तत्रोत्कर्षतोऽष्टी भव-
ग्रहणानि इतरत्र त्वसंख्येयानि, एतदनुसारेण च
कालोऽपि वाच्य इति । (वृ० प० ८२६)

*लय : खिन्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

८८ भगवती जोड़

१२८. उत्कृष्ट अद्धा ताय, वर्ष एक लक्ष आठ भवे ।
 बार सहस्र वर्ष वाय, वर्ष अठ्यासी सहस्र मही ॥
 १२९. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
 वर्ष सहस्र त्रिण जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
 इहां पिण एक पक्ष वायु नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट अष्ट भव—

१३०. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
 द्वादश सहस्रज वास, अंतर्मुहूर्त्त च्यार फुन ॥
 १३१. नवम संवेध जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
 वर्ष सहस्र पणवीस, वाउ पृथ्वी जेष्ठ स्थिति ॥
 इहां वाउकाय नीं अनै पृथ्वीकाय नीं ए बिहुं पक्षे उत्कृष्टी स्थिति ते माटे
 उत्कृष्ट अष्ट भव—

१३२. उत्कृष्ट अद्धा ताय, वर्ष एक लक्ष अठ भवे ।
 बार सहस्र वर्ष वाय, पुढवी अठ्यासी सहस्र ॥
 हिवै प्रथम, बीजे चउथे पंचमे गमे जघन्य दो भव, उत्कृष्ट असंख्याता भव
 नों कायसंवेध कहै छै—

सोरठा

१३३. शेष चिउं गमकेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
 अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा असंख ॥
 वा०—इहां वायुकाय नीं अनै पृथ्वीकाय नीं बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति ते
 माटे उत्कृष्ट असंख्याता भव । ए च्यार गमे जघन्य कायसंवेध में दोय अंतर्मुहूर्त्त
 कह्या । ते वाउकाय नों पिण जघन्य आउखो अनै पृथ्वीकाय नों पिण जघन्य
 आउखो । तेहनां पिण दोय अंतर्मुहूर्त्त । ए बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति ते भणी
 उत्कृष्टा असंख्याता भव जाणवा । अनै तीजे, छठे, सातमे, आठमे गमे तेहनीं
 जघन्य एक पक्षे उत्कृष्ट स्थिति, तिणसू उत्कृष्ट आठ भव । अनै नवमे गमे
 जघन्य थकी बे भव नीं बिहुं पक्षे उत्कृष्ट स्थिति ते भणी तेहनां उत्कृष्ट आठ भव
 जाणवा । ए वाउकाय पृथ्वीकाय नै विषे ऊपजै, तेहनों अधिकार कह्यो । हिवै
 वनस्पतिकाय पृथ्वीकाय नै विषे ऊपजै, तेहनों अधिकार कहै छै—

पृथ्वीकाय में वनस्पतिकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

१३४. *जो वनस्पति थी ऊपजै जी, पृथ्वीकाय विषेह ।
 अप नां नव गम सारिखा जी, वनस्पति नां कहेह ॥
 १३५. णवरं विशेष एतलो जी, वनस्पति नां संठाण ।
 कह्या अनेक प्रकार नां जी, ए आकार पिछ्छाण ॥

सोरठा

१३६. अपकाय संठाण, स्तिबुक तणें आकार जे ।
 वनस्पति नों जाण, नाना प्रकार नों कह्यो ॥
 १३७. *शरीर तणीं अवगाहना जी, घुर त्रिण गमक विषेह ।
 अथवा त्रिण गम पाछिला जी, तेह विषे इम लेह ॥

*लय : खिभ्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

१. परि. २, यंत्र ३०

१३४. जइ वणस्सइकाइएहितो उववज्जंति ? वणस्सइ-
 काइयाणं आउकाइयगमगसरिसा नव गमगा
 भाणियन्वा,

१३५. नवरं—नाणासंठिया ।

१३६. अपकायिकानां स्तिबुकाकारावगाहना एषां तु
 नाना संस्थिता । (व० प० ८२६)

१३७. सरीरोगाहणा पढमएसु पच्छिल्लएसु य तिसु
 गमएसु

१३८. जघन्य थकी आंगुल तर्णं जी, असंख्यातमे भाग ।
उत्कृष्ट योजन सहस्र नीं जी, जाभेरी तसु माग ॥

सोरठा

१३९. धुर ओधिक गम तीन, उत्कृष्ट स्थिति त्रिण गम चरम ।
वनस्पति नीं चीन, कहिवी जघन्योत्कृष्ट अवगाहना ॥

१४०. *मध्यम त्रिण गम नें विषे जी, जघन्य गमक ए जाण ।
तेह विषे इम आखियो जी, पृथ्वी नीं पर माण ॥

सोरठा

१४१. पृथ्वीकाय विषेह, पृथ्वी ऊपजता तर्णं ।
आख्यो तेम कहेह, असंख भाग आंगुल तर्णों ॥

१४२. *कायसंवेध अनं वलि जी, वनस्पति नीं स्थित्त ।
तेह जाणवी बुद्धि करी जी, जिन वच करी पवित्त ॥

सोरठा

१४३. वनस्पति स्थिति जाण, उत्कृष्टी दश सहस्र वर्ष ।
जघन्य प्रसिद्ध पिच्छाण, इण अनुसार संवेध पिण ॥

१४४. *संवेध तीजा गम विषे जी, काल आश्रयी जघन्न ।
वर्ष सहस्र बावीस नीं जी, अंतर्मुहूर्त्त कथन्न ॥

सोरठा

१४५. वर्ष सहस्र बावीस, पृथ्वी नीं उत्कृष्ट स्थिति ।
अंतर्मुहूर्त्त जगीस, वनस्पति नीं जघन्य स्थिति ॥

इहां बे भव में जघन्य थकी काल एक पक्षे पृथ्वीकाय नीं उत्कृष्टी स्थिति
कही ते भणी उत्कृष्ट गमे आठ भव । तेहनों कायसंवेध कहे छै—

१४६. *उत्कृष्ट अद्धा एतलो जी, अष्ट भवे अवधार ।
वर्ष एक लक्ष आखियो जी, वलि अठवीस हजार ॥

सोरठा

१४७. पृथ्वी नां भव च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र जे ।
फुन चालीस हजार, चिउं भव वणस्सइ जेष्ठ स्थिति ॥

१४८. वर्ष सहस्र बावीस, उत्कृष्ट स्थिति पृथ्वी तर्णी ।
वणस्सइ तर्णी जगीस, उत्कृष्टी दश सहस्र नीं ॥

१४९. च्यार-च्यार भव तास, तेह चउगुणां थी हुइ ।
एक लक्ष जे वास, वर्ष सहस्र अठवीस फुन ॥

१५०. इतो काल सेवंत, गति-आगति पिण एतलो ।
अद्धा करै जे जंत, तीजा गमा विषेज इम ॥

*स्य : खिभ्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

९० भगवती जोड़

१३८. जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइभागं, उक्कोसेणं
सातिरेगं जौयणसहस्सं,

१३९. प्रथमकेव्वीधिकेषु गमेषु पाश्चात्येषु चोत्कृष्ट-
स्थितिकगमेव्ववगाहना वनस्पतिकायिकानां द्विधाऽपि
(वृ० प० ८२६)

१४०. मज्झिम्बल्लएसु तिसु तेहव जहा पुढविकाइयाणं ।

१४१. मध्यमेषु जघन्यस्थितिकगमेषु त्रिषु यथा पृथिवी-
कायिकानां पृथिवीकायिकेषूपद्यमानानामुक्ता तथैव
वाच्या, अंगुलासंख्यातभागमात्रैवेत्यर्थः
(वृ० प० ८२६)

१४२. संवेहो ठिती य जाणियन्वा ।

१४३. तत्र स्थितिरुत्कर्षतो दशवर्षसहस्राणि जघन्या तु
प्रतीतैव, एतदनुसारेण संवेधोऽपि ज्ञेयः
(वृ० प० ८२६)

१४४. तद्व्यगमे कालादेशेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं
अंतोमुहुत्तमन्महियाइं

१४६. उक्कोसेणं अट्ठावीसुत्तरं वाससयसहस्सं,

१४७-१४९. इह गमे उत्कर्षतोऽष्टौ भवग्रहणानि तेषु
चत्वारि पृथिव्याश्चत्वारि च वनस्पतेः तत्र चतु-
पृथिवीभवेषुत्कृष्टेषु वर्षसहस्राणामष्टाशीतिः तथा
वनस्पतेर्दशवर्षसहस्रायुष्कत्वाच्चतुर्षु भवेषु वर्षसह-
स्राणां चत्वारिंशत् उभयमीलने च यथोक्तं मानमिति।
(वृ० प० ८२६)

१५०. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

१५१. *मन नें उपयोगे करी जी, कहिवूं इम संवेह ।
सूत्रे तो आख्यो इतो जी, तसु निर्णय इम लेह ॥

१५१. एषं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो १-९ ।

(श० २४।१८१)

सोरठा

१५२. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

इहां पृथ्वी नीं एक पक्ष उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट न भव । तेहनों कायसंवेध कहै छै—

१५३. *उत्कृष्टो अद्धा इतो जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।
चिउं अंतर्मुहूर्त्त वली जी, अष्ट भवे अवधार ॥

सोरठा

१५४. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश लेह, पृथ्वी अंतर्मुहूर्त्त स्थिति ॥

इहां वनस्पति नीं एक पक्ष उत्कृष्ट स्थिति, ते माटे उत्कृष्ट न भव ।
तेहनों कायसंवेध कहै छै—

१५५. उत्कृष्ट अद्धा इष्ट, इक लख वर्ष अठवीस सहस्र ।
पृथ्वी चिउं भव जिष्ट, जेष्ठ वणस्सइ भव चिउं ॥

१५६. अष्टम भव संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

इहां पिण एक पक्षे वनस्पति नीं उत्कृष्ट स्थिति, ते माटे उत्कृष्ट अष्ट
भव छै । तेहनों काल कहै छै—

१५७. उत्कृष्ट अद्ध विचार, अष्ट भवां नों इह विघे ।
वर्ष चालीस हजार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार फुन ॥

१५८. नवमे संवेध तास, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सहस्र बतीसज वास, वण० पुढवी उत्कृष्ट स्थिति ॥

इहां वनस्पति अनै पृथ्वी ए बिहुं पक्षे उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट आठ
भव नों काल कहै छै—

१५९. उत्कृष्ट अद्धा सोय, अष्ट भवां नों इह विघे ।
इक लख वर्ष सुजोय, वर्ष सहस्र अठवीस फुन ॥

अनै पहिले, दूजे, चउथे, पंचमे गमे जघन्य दो भव, उत्कृष्ट असंख्याता
भव । तेहनों कायसंवेध कहै छै—

१६०. चिउं भव शेष संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा असंख ॥

इहां बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति माटे उत्कृष्ट असंख्याता भव नों असंख्यातो
काल कायसंवेध कह्यो । ए वनस्पति पृथ्वी नै विषै ऊपजै तेहनों अधिकार कह्यो ।

*लय : खिन्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

नाणत्ता

१६१. पृथ्वी पृथ्वी मांय, ऊपजै तसु चिउं णाणत्ता ।
जघन्य गमेज पाय, प्रथम तीन लेश्या हुवै ॥
१६२. आयु नै अनुबंध, अंतर्मुहूर्त्त नों कह्यो ।
अध्यवसायज मंद, माठा ए चिउं णाणत्ता ।
१६३. अप पृथ्वी में जाय, तसु पिण ए चिउं णाणत्ता ।
तेऊ नां पिण ताय, लेश विना त्रिण णाणत्ता ॥
१६४. वायू पृथ्वी मांय, उपजै तसु चिउं णाणत्ता ।
तेऊवत त्रिहुं पाय, समुद्घात वैक्रिय वली ।
१६५. धुर गम वैक्रिय पाय, मध्यम त्रिण गम अपज्जते ।
वैक्रिय लहियै नांय, इम समुद्घात वैक्रिय नहीं ॥

वा०—'इहां सूत्रे प्रथम ओधिक गमे वाउकाय नां औदारिक मूल शरीर नां कथन माटै वैक्रिय समुद्घात न कही । तिणसूं इहां सूत्रं जघन्य गमे वैक्रिय समुद्घात नों णाणत्तो नथी कह्यो । अनै पन्नवणा पद ३६ में वाउकाय में वेदनी, कषाय मारणांतिक, वैक्रिय—ए ४ समुद्घात कही । तथा जीवाभिगम पहिली पडिवत्ती में वाउकाय में एहिज ४ समुद्घात कही । तथा भगवती शतक ८ उद्देशे १ वाउकाय रा पर्याप्ता में वैक्रिय समुद्घात पावै । अनै जघन्य गमे अपर्याप्ता माटै न पावै । तिणसूं समुद्घात नों नाणत्तो चउथो कहियै । जिम पृथ्वी नै विषे वाऊ ऊपजतां नै वैक्रिय गमा नै विषे कह्यो, तिम अप में, तेऊ में, वाऊ में, वनस्पति में, विकलेंद्रिय में, तिर्यंच पंचेंद्रिय में वाऊ ऊपजै तिण में वैक्रिय समुद्घात इहां न कही । ते औदारिक मूल शरीर माटै । पिण और सूत्रे वाउकाय में ४ शरीर, ४ समुद्घात कही । ते माटै जघन्य गमे समुद्घात नों चउथो णाणत्तो सर्व ठिकाणे संभवै ।' (ज० स०)

१६६. पृथ्वी विषे पिच्छाण, ऊपजतो जे वणस्सइ ।
जघन्य गमे सुजाण, पंच णाणत्ता तेहनां ॥
१६७. चिउं पृथ्वीवत इष्ट, अवगाहन नों पंचमो ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट, असंख भाग आंगुल तणों ॥

वा०—पृथ्वी अप, तेऊ, वाऊ, वनस्पति—ए पांच स्थावर पृथ्वी में आवै १, २, ४, ५—ए च्यार गमा जघन्य दो भव, उत्कृष्ट असंख्याता भव । असंख्यातो काल अनै समै-समै असंख्याता ऊपजै । तथा ३, ६, ७, ८, ९,—ए पांच गमा जघन्य २ भव, उत्कृष्ट ८ भव ऊपजै तो जघन्य १, २, ३ ऊपजै अनै उत्कृष्ट संख्याता-असंख्याता ऊपजै ।

१६८. *ए चउवीसम शत तणों जी, वर द्वादशम उद्देश ।
देथ अर्थ थी आखियो जी, देश रह्यो फुन शेष ॥
१६९. एह च्यारसौ बीसमीं जी, ढाले पृथ्वी संबंध ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी, 'जय-जश' परमानंद ॥

*सय : खिम्यावंत धिन भगवंत रो जी ज्ञान

९२ भगवती जोड़

वा०—वाउक्काइयाणं चत्तारि समुग्घाया पणत्ता,
तं जहा—

वेदणासमुग्घाए कषायसमुग्घाए मारणंतिय-
समुग्घाए वेउव्वियसमुग्घाए । (पण्ण० ३६।५६)
तेसि (वाउक्काइयाणं) णं भंते !.....चत्तारि
समुग्घाया—वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए,
मारणंतियसमुग्घाए वेउव्वियसमुग्घाए ।

(जीवाजीवाभिगमे १।८२)

दूहा

१. जो पृथ्वीकायिक विषे, बेद्रिय थी ऊपजेह ।
तो स्यू पर्याप्त थीकी, कै अपजत्त थी लेह ?
२. जिन भाखै पर्याप्त थी, पुढवी में उपजंत ।
अपजत्त थी पिण ऊपजे, वलि गोयम पूछंत ॥

पृथ्वीकाय में बेद्रिय ऊपजे, तेहनों अधिकार^१

*चतुर नर सुणजो पुढवी संबन्ध ॥ (धूपदं)

३. हे प्रभुजी ! बेद्रिया जी, पृथ्वीकाय विषेह ।
ऊपजवा नें जोग्य छै ते, किते काल स्थितिक उपजेह ?
४. श्री जिन भाखै जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्त विषेह ।
उत्कृष्ट बावोस सहस्र नों जी, काल स्थितिके जेह ॥
५. ते एक समय किता ऊपजे जी ? जिन कहै जघन्य सुअंक ।
एक दोय त्रिण ऊपजे जी, उत्कृष्ट संख असंख ॥
६. छेवट संघयणी हुवै जी, अवगाहन इम माग ।
जघन्य थीकी आंगुल तणों जी, असंख्यातमों भाग ॥
७. उत्कृष्टी अवगाहना जी, कहियै जोजन बार ।
संख बेद्रिय आश्रयी जी, एम कह्यो वृत्तिकार ॥
८. हुंड संठाण हुवै तसु जी, धुर त्रिहुं लेशज होय ।
बेद्रिय में सुर नहीं ऊपजे, तिणसू तेजू लेश न कोय ॥
९. समदृष्टि पिण ते हुवै जी, सास्वादन कहेह ।
ए ओधिक बेद्रिय तणों जी, ओधिक पृथ्वी विषेह ॥
१०. मिथ्यादृष्टि पिण हुवै जी, मिश्रदृष्टि नहीं थाय ।
द्वार कह्यो ए सातमों जी, ए बोल बेद्रि में पाय ॥
११. सास्वादन हुवै तरै जी, निश्चै छै बे नाण ।
अन्यथा दो अज्ञान नीं जी, नियमा निश्चै जान ॥
१२. मन जोगी ते नहीं हुवै जी, वच काय जोगी होय ।
द्विविध उपयोगी हुवै जी, च्यार संज्ञा हुवै सोय ॥
१३. च्यार कषाय ह्वै तेह में जी, इंद्रिय पावै दोय ।
जिभ्या इंद्रिय नें वली जी, फासिदिय अवलोय ॥

१. जइ बेद्रिहितो उववज्जंति—कि पज्जत्ताबेद्रिहितो
उववज्जंति ? अपज्जत्ताबेद्रिहितो उववज्जंति ?
२. गोयमा ! पज्जत्ताबेद्रिहितो उववज्जंति, अपज्जत्ताबेद्रिहितो वि उववज्जंति । (श० २४।१८२)

३. बेद्रि ए णं भंते ! जे भविए पुढविककाइएसु उव-
वज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु
उववज्जेज्जा ?
४. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं
बावीसवाससहस्सट्टितीएसु । (श० २४।१८३)
५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि
वा, उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा
उववज्जंति ।
६. छेवटसंघयणी ! ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स
असंखेज्जइभागं ।
७. उक्कोसेणं बारस जोयणाइं ।
'बारस जायणाइं' ति यदुक्तं तच्छङ्खमाश्रित्य ।
(वृ० प० ८२८)
८. हुंडसंठिया । तिण्णि लेसाओ ।
९. सम्मदिट्ठी वि ।
'सम्मदिट्ठी वि' त्ति एतच्चोच्यते सास्वादनसम्यक्त्वा-
पेक्षयेति, इयं च वक्तव्यतौघिकद्वीन्द्रियस्यौघिक-
पृथिवीकायिकेषु । (वृ० प० ८२८)
१०. मिच्छादिट्ठी वि, नो सम्मामिच्छादिट्ठी ।
११. दो नाणा, दो अण्णाणा नियमं ।
१२. नो मणजोगी, वइजोगी कायजोगी वि । उवओगे
दुविहो वि । चत्तारि सण्णाओ ।
१३. चत्तारि कसाया । दो इंद्रिया पण्णत्ता, तं जहा—
जिंभदि ए य फासिदि ए य ।

*लय : चतुर नर समसो ज्ञान विचार

१. परि. २, यत्र ३१

१४. समुद्घात त्रिण घुर कही जी, शेष वेदना आदि ।
जिम पृथ्वी में ऊपजै जी, कहिवूं तिम संवादि ॥
१५. णवरं स्थिति बेइंद्रिय तणीं जी, जघन्य थकी सुविमास ।
अंतर्मुहूर्त्त नीं हुवै जी, उत्कृष्टा द्वादश वास ॥
१६. अनुगंध पिण तसु एतलो जी, शेष तिमज कहिवाय ।
कालसंवेध कहै हिवै जी, सांभलजो चित ल्याय ॥
१७. भव आश्रयी थी जघन्य जी, बे भव ग्रहण करेह ।
उत्कृष्टा भव तेहनां जी, संख्याता गिण लेह ॥
१८. काल आश्रयी जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्त्त बेह ।
उत्कृष्ट काल संखेज छै जी, एतलो काल सेवेह ॥
१९. तेहिज जघन्य स्थिति नैं विषे जी, ऊपनों द्वितीय गमेह ।
वक्तव्यता घुर गम कही जी, तेहिज कहिवी एह ॥
२०. तेहिज उत्कृष्ट काल नीं जी, स्थितिक विषे उपन्न ।
एहिज बेइंद्रिय तणीं जी, कहिवी लब्धि सुजन्न ॥
२१. णवरं विशेष संवेध में जी, भव आश्रयी जघन्य ।
बे भव ग्रहण करै तिको जी, उत्कृष्टा अठ जन्य ॥
२२. काल आश्रयी जघन्य थी जी, बे भव नों कहिवाय ।
बावीस सहस्र वर्ष मही जी, अंतर्मुहूर्त्त अधिकाय ॥

सोरठा

२३. जघन्य थकी भव दौय, घुर भव बेइंद्रिय तणीं ।
बीजो भव अवलोय, उत्कृष्ट स्थिति पृथ्वी विषे ॥
२४. एक पक्ष नैं पेख, उत्कृष्ट स्थितिकपणां थकी ।
उत्कृष्ट सुविशेख, अठ भव ग्रहण कह्या इहां ॥
२५. *उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे जी, वर्ष अठचासी हजार ।
अधिक अड़ताली वर्ष वली जी, एतलो काल उचार ॥

सोरठा

२६. बेइंद्रिय भव च्यार, द्वादश वर्षज एक भव ।
चतुर्गुणो अवधार, अड़तालीसज वर्ष ह्वै ॥
२७. तिण कर अधिका एह, अन्य अठचासी सहस्र वर्ष ।
चिउं पृथ्वी भव लेह, तृतीय गमे उत्कृष्ट अद्धा ॥
२८. तेहिज आपणपे थयो जी, जघन्य काल स्थितिवंत ।
तेहनें पिण एहिज विधे जी, वक्तव्यता सुवृत्तंत ॥
२९. विचला तीनुंइ गमा विषे जी, ओघिकवत अवदात ।
णवरं इतरो विशेष छै जी, एह णाणत्ता सात ॥
३०. शरीर तणीं अवगाहना जी, कहिवी पृथ्वी जेम ।
पुढवी पृथ्वी नैं विषे जी, ऊपजता नैं तेम ॥

१४. तिण्णि समुग्घाया । सेसं जहा पुढविकाइयाणं ।
१५. नवरं—ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बारस संवच्छराइं ।
१६. एवं अणुबंधो वि । सेसं तं चेव ।
१७. भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं संखेज्जाइं भवग्गहणाइं ।
१८. कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं संखेज्ज कालं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा १ । (श० २४।१८५)
१९. सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया सव्वा २ । (श० २४।१८५)
२०. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो एस चेव बेदियस्स लद्धी ।
२१. नवरं—भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं ।
२२. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-मब्भहियाइं ।

२४. 'अट्ट भवग्गहणाइं' त्ति एकपक्षस्योत्कृष्टस्थितिकत्वात् (वृ० प० ८२९)
२५. उक्कोसेणं अट्टासीत्ति वाससहस्साइं अड्यालीसाए संवच्छरेहि अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ३ । (श० २४।१८६)
- २६, २७. 'अड्यालीसाए संवच्छरेहि अब्भहियाइं' ति चतुर्षु द्वीन्द्रियभवेषु द्वादशाब्दमानेष्वष्टचत्वारिंशत् संवत्सरा भवन्ति तैरभ्यधिकान्यष्टाशीतिर्षसहस्राणी ति । (वृ० प० ८२९)
२८. सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्वितीओ जाओ, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया ।
२९. तिसु वि गमएसु, नवरं—इसाइं सत्त नाणत्ताइं—
३०. १. सरीरोगाहणा जहा पुढविकाइयाणं ।

*लय : चतुर नर समझो ज्ञान विचार

९४ भगवती जीइ

सोरठा

३१. जघन्य आउखावंत, बेइंद्रिय छै ते भणी ।
बिचलै त्रिहुं गम हुंत, पृथ्वीवत अवगाहना ॥
३२. जिम पुढवी नीं जाण, आंगुल तणोंज भाग जे ।
असंख्यातमों माण, जघन्य जेष्ठ अवगाहना ॥
३३. बेन्द्रिय नीं पिण एह, जघन्य स्थितिक छै ते भणी ।
अनें ओधिक गमकेह, द्वादश योजन नीं कही ॥
३४. *सम्यकदृष्टि ते नहीं जी, मिथ्यादृष्टी होय ।
मिश्रदृष्टि पिण नहीं हुवै जी, तास न्याय अवलोय ॥

सोरठा

३५. जघन्य आउखावंत, बेइंद्रिय छै तेह में ।
सास्वादन नहिं हुंत, सम्यक्त वमत न ऊपजै ॥
३६. पूर्व चिउं गमा मांय, सम्यकदृष्टी पिण कह्यो ।
मध्यम स्थिति पिण पाय, सम्यक्त वमतो ऊपजै ॥
३७. *निश्चै बे अज्ञान छै जी, पिण ज्ञानी नहिं थात ।
पूर्व त्रिहुं गम नें विषे जी, ज्ञानी पिण आख्यात ॥
३८. मन जोगी ते नहिं हुवै जी, वच जोगी पिण नांय ।
काय जोगी कहियै तसु जी, हिवै तसु न्याय कहाय ।

सोरठा

३९. जघन्यायुष्कपणेह, अपर्याप्तपणां थकी ।
वचन योग नहिं लेह, धुर त्रिहुं गम वच पिण कह्यु ॥
४०. *स्थिति जघन्य उत्कृष्ट थी जी, अंतर्मुहूर्त्त इष्ट ।
प्रथम त्रिहुं गम नें विषे जी, बार वर्ष स्थिति जिष्ट ॥
४१. अध्यवसाय बुरा हुवै जी, जीव बेइंद्रिय एह ।
जघन्य आउखावंत छै जी, पृथ्वी विषे ऊपजेह ॥

सोरठा

४२. पूर्वे धुर गम तीन, प्रशस्त नें अपसत्थ पिण ।
उभय रूप त्यां चीन, छठो णाणत्तो ते भणी ॥
४३. *अनुबन्ध स्थिति तणीं परै जी, सप्तम णाणत्तो लेह ।
बिचला त्रिहुं गम नें विषे जी, सप्त णाणत्ता एह ॥
हिवै कायसंवेध कहै छै । तिण में बिचला तीन गमा में आदि नां दोय
गमा नों संवेध प्रथम कहै छै—
४४. संवेध मध्यम त्रिण गम विषे जी, आदि बे धुर गमकेह ।
ओधिक आदि बे गम कह्या जी, तिमहिज कहिवूं एह ॥

*लय : चतुर नर समसो ज्ञान विचार

- ३२, ३३. शरीरावगाहना यथा पृथिवीकायिकानामंगुला-
संख्येयभागमानमित्यर्थः प्राक्तनगमत्रये तु द्वादश-
योजनमानाऽप्युक्तेति ? (वृ० प० ७२९)
३४. २. नो सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छा-
दिट्टी ।

३५. 'नो सम्मदिट्टी' जघन्यस्थितिकतया सासादनसम्यग्-
दृष्टीनामनुत्पादात् । (वृ० प० ८२९)
३६. प्राक्तनगमेषु तु सम्यग्दृष्टिरप्युक्तोऽजघन्यस्थिति-
कस्यापि तेषु भावात् २ । (वृ० प० ८२९)
३७. ३. दो अण्णाणा नियमं ।
तथा द्वे अज्ञाने प्राक् च ज्ञाने अग्युक्ते ३ ।
(वृ० प० ८२९)
३८. ४. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ।

३९. तथा योगद्वारे जघन्यस्थितिकत्वेनापर्याप्तकत्वान्न
वाग्योगः प्राक् चासावप्युक्तः ४ ।
(वृ० प० ८२९)
४०. ५. ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं
तथा स्थितिरिहान्तर्मुहूर्त्तमेव प्राक् च
संवत्सरद्वादशकमपि ५ । (वृ० प० ८२९)
४१. ६. अज्झवसाणा अपसत्था ।

४२. तथाऽध्यवसानानीहाप्रशस्तान्येव प्राक् चोभयरूपाणि
६ । (वृ० प० ८२९)
४३. ७. अणुबंधो जहा ठिती ।

- ४४-४६. संवेहो तहेव आदिल्लेसु दोसु गमएसु,
संवेधस्तु द्वितीयत्रयस्याद्ययोर्द्वयोर्गमयोस्तर्कतो
संख्येयभवलक्षणः कालादेशेन च संख्येयकाललक्षणः
भवादेशेन ७ । (वृ० प० ८२९)

४५. तुर्यं अनं पंचम गमे जी, भव आश्रयी आख्यात ।
जघन्य थी बे भव ग्रहण छै जी, उत्कृष्टा संख्यात ॥
४६. काल आश्रयी जघन्य थी जी, अंतर्मुहूर्त्त दौय ।
उत्कृष्ट काल संखेज छै जी, संख भवां नों सोय ॥

बा०—इहां जघन्य बे अंतर्मुहूर्त्त कहा । बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति माटे उत्कृष्ट संख्याता भव कहा । हिवै बिचला तीनू गमा में तीजा गमा नों संवेध भव आश्रयी तो ओधिक नां तीजा गमा नों कह्यो तिमहिज जघन्य २ भव, उत्कृष्ट ८ भव कहिवा । ते गाथाइ करी कहै छै—

४७. बिचला तीजा गमा मभे जी, तीजे गमे इम इष्ट ।
भव आश्रयी तिमहीज छै जी, जघन्य बे अठ उत्कृष्ट ॥
४८. काल आश्रयी जघन्य थी जी, वर्ष बावीस हजार ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही जी, बे भव अद्धा धार ॥
४९. उत्कृष्ट अद्ध अठ भव तणों जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।
अंतर्मुहूर्त्त चिउं वलि जी, ए षष्ठम गम अधिकार ॥
- हिवै सातमो, आठमो, नवमो गमक कहै छै—
५०. तेहिज बेइंद्रिय हुवो जी, जेष्ठ काल स्थितिमंत ।
तेहनां पिण धुर त्रिण गम जिजा जी, चरम तीन गम हुंत ॥
५१. णवरं चरम त्रिण गम विषे जी, स्थिति जघन्य उत्कृष्ट ।
बार सवंच्छर नीं कही जी, अनुबन्ध पिण इम इष्ट ॥

सोरठा

५२. उत्कृष्ट गमेज संघ, दौय णाणता ए कहा ।
आयुष नै अनुबन्ध, सात कहा जघन्य गमे ॥
५३. *भव आश्रयी जघन्य थी जी, बे भव ग्रहण कराय ।
धुर भव बेइंद्रिय तणों जी, पुढवी नों बीजो पाय ॥
५४. उत्कृष्टा अठ भव कहा जी, बेइंद्रिय भव च्यार ।
पृथ्वी नां भव चिउं वली जी, हिव अद्धा अधिकार ॥
५५. कहिवो कालज आश्रयी जी, उपयोगे करि एह ।
यावत नवमा गम विषे जी, आख्यो सूत्र विषेह ॥

सोरठा

५६. जाव शब्द में जेह, सप्तम अष्टम गम विषे ।
कहियै कायसंवेह, चित्त लगाई सांभलो ॥
५७. सप्तम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
द्वादश वर्षज लेह, पुढवी अंतर्मुहूर्त्त स्थिति ॥
५८. उत्कृष्ट अद्धा तास, वर्ष अठ्यासी सहस्र जे ।
वलि अड़ताली वास, अष्ट भवां नों काल ते ॥

*लय : चतुर नर समझो ज्ञान विचार

९६ भगवती जोड

४७. तइयगमए भवादेसो तहेव अट्ट भवगहणाइं ।

४८. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तं मग्गियाइं ।

४९. उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं चउहि अंतो-
मुहुत्तेहिं अब्भहियाइं । (श० २४।१८७)

५०. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ,
एयस्स वि ओहियगमगरिसा तिण्णि गमगा
भाणियव्वा ।

५१. नवरं—तिसु वि गमएसु ठिती जहण्णेणं बारस
संवच्छराइं, उक्कोसेण वि बारस संवच्छराइं । एवं
अणुबंधो वि ।

५३. भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवगहणाइं,

५४. उक्कोसेणं अट्ट भवगहणाइं ।

५५. कालादेसेणं उवजुंजिऊण भाणियव्वं जाव

५९. अष्टम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।

द्वादश वर्षज तेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

६०. उत्कृष्ट अद्धा धार, अडतालीसज वर्ष जे ।

अंतर्मुहूर्त्त च्यार, अष्ट भवां नों आखियो ॥

६१. *नवमा गमा विषे जघन्य थी जी, बे भव नों अवधार ।

वर्ष सहस्र बावीस छे जी, अधिक सवच्छर बार ॥

सोरठा

६२. द्वादश वर्ष जगीस, बेइंद्रिय उत्कृष्ट स्थिति ।

वर्ष सहस्र बावीस, पुढवी नीं पिण जेष्ठ स्थिति ॥

६३ *उत्कृष्ट अद्धा आखियो जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।

वर्ष अडताली अधिक ही जी, एतलो काल विचार ॥

६४. बेइंद्रिय भव च्यार, वर्ष अष्ट चालीस तसु ।

फुन अठ्यासी हजार, पुढवी चिउं भव नीं स्थिति ॥

पृथ्वीकाय में तेइंद्रिय ऊपजे, तेहनों अधिकार'

६५. *जो तेइंद्रिय थी ऊपजे जी, पृथ्वीकायिक मांय ।

इमहिज पूर्वली परै जी, नव गमका कहिवाय ॥

६६. णवरं धुर त्रिहुं गम विषे जी, तनु अवगाहन जघन्य ।

असंख भाग आंगुल तणों जी, जेष्ठ गाउ त्रिण जन्य ॥

६७. इंद्रिय तीन हुवै तसु जी, फर्श रसन नें घ्राण ।

स्थिति जघन्य तेइंद्रिय तणीं जी, अंतर्मुहूर्त्त जाण ॥

६८. उत्कृष्टी स्थिति तेहनीं जी, जे एगुणपच्चास ।

रात्रि अनै दिन नीं कही जी, वर जिन वचन विमास ॥

६९. तृतीय गमे काल आश्रयी जी, जघन्य थकी संवेह ।

वर्ष सहस्र बावीस नीं जी, अंतर्मुहूर्त्त अधिकेह ॥

सोरठा

७०. अंतर्मुहूर्त्त जगीस, धुर भव तेइंद्रिय स्थिति ।

वर्ष सहस्र बावीस, पुढवी नीं उत्कृष्ट स्थिति ॥

७१. * उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे जी, वर्ष अठ्यासी हजार ।

एकसौ नें छिन्नूं वलि जी, दिवस-रात्रि अवधार ॥

सोरठा

७२. तेइंद्रिय नीं तास, इक भव उत्कृष्टी स्थिति ।

दिन-निशि गुणपच्चास, इकसौ छिन्नूं चिउं भवे ॥

७३. वर्ष बावीस हजार, पुढवी उत्कृष्टी स्थिति ।

चिउं भव करि सुविचार, वर्ष अठ्यासी सहस्र ह्वे ॥

*लय : चतुर नर समझो ज्ञान विचार

१. परि. २, यंत्र ३२

६१. नवमे गमए जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं बारसहिं
संवच्छरेहि अन्भहियाइं ।

६३. उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं अडयालीसाए
संवच्छरेहि अन्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं कालं गतिरार्गतिं करेज्जा ७-९ ।

(श० २४।१८८)

६५. जइ तेइदिएहिंतो उववज्जंति ? एवं चेव नव गमगा
भाणियव्वा ।

६६. नवरं—आदिल्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोमाहणा
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं तिण्णि
गाउयाइं ।

६७. तिण्णि इंदियाइं । ठिती जहण्णेणं अंतोमुहूर्त्तं ।

६८. उक्कोसेणं एगुणपन्नं राइंदियाइं ।

६९. तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं
अंतोमुहूर्त्तमन्भहियाइं ।

७१. उक्कोसेणं अट्टासीति वाससहस्साइं छण्णउयराइंदिय-
सयमन्भहियाइं,

७४. *सेवै कालज एतलो जो, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नैं उत्कृष्ट गमो जो, दाख्यो तृतीय दयाल ॥
७५. बिचला जे तीनों गमा जी, कहिवा तिणहिज रीत ।
छेहला पिण तीनों गमा जी, इमहिज छै सुवदीत ॥
७६. पवरं इतरो विशेष छै जी, जघन्य अनैं उत्कृष्ट ।
गुणपचास दिन-रात्रि नों जी, उत्कृष्ट गम स्थिति इष्ट ॥
७७. मन सं उपयोगे करी जी, जाणवो तास संवेह ।
जुओ-जुओ कहियै तिको जी, सांभलजो गुणगेह ॥

सोरठा

७८. तुर्य गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥
इहां बिहुं भव नां बे अंतर्मुहूर्त्त जघन्य थी कह्या । ते बिहुं पक्ष जघन्य
स्थिति माटे उत्कृष्ट संख्याता भव कह्या ।
७९. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥
इहां पिण चउथा गमा नों परै बिहुं पक्ष जघन्य स्थिति माटे उत्कृष्ट भव
संख्याता कह्या ।
८०. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
इहां एक पक्ष उत्कृष्ट स्थिति माटे ८ भवां नों काल कहै छै—
८१. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों आखियो ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र फुन ॥
८२. सप्तम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
गुणपचास निशि-देह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
इहां एक पक्ष उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट ८ भव । तेहनों काल कहै छै—
८३. उत्कृष्ट अद्धा धार, इक सय छिन्नू दिवस-निशि ।
वर्ष अठ्यासी हजार, अष्ट भवां नों इह विधे ॥
८४. अष्टम गम अवदात, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
गुणपचास दिन-रात, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
८५. उत्कृष्ट अद्धा ख्यात, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
गुणपचास दिन-रात, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
८६. उत्कृष्ट अद्ध विचार, इक सय छिन्नू दिवस-निशि ।
वर्ष अठ्यासी हजार, अष्ट भवां नों आखियो ॥
पृथ्वीकाय में चउरिद्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार^१
८७. *जो चउरिद्रिय थी ऊपजै जी, पृथ्वीकाय विषेह ।
कह्या नव गम तेइंद्री तणां तिम, चउरिंद्री नां पिण लेह ॥

७४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
७५. मज्झिमा तिण्णि गमगा तहेव, पच्छिमा वि तिण्णि
गमगा तहेव ।
७६. नवरं—ठिती जहण्णेणं एगुणपन्नं राइंदियाइं,
उक्कोसेण वि एगुणपन्नं राइंदियाइं ।
७७. संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो १-९ ।
(श० २४।१८९)

*लय : चतुर नर समज्ञो ज्ञान विचार

१. परि. २, यंत्र ३३

९८ भगवती जोड़

८७. जइ चउरिदिएहितो उववज्जंति ? एवं चेव चउरि-
दियाण वि नव गमगा भाणियव्वा ।

८८. णवरं इता स्थानक विषे जी, नानात्व भेद भणेह ।
अवगाहना स्थिति इन्द्रिये जी, अनुबंध मांहि कहेह ॥
८९. तनु अवगाहन जघन्य थी जी, आंगल नों अवधार ।
असंख्यातमों भाग छै जी, उत्कृष्ट गाऊ च्यार ॥
९०. स्थिति जघन्य थी जाणवी जी, अंतर्मुहूर्त्त जास ।
उत्कृष्टी षट मास नीं जी, अनुबन्ध पिण इम तास ॥
९१. श्रोत विना चिउं इन्द्रियां जी, शेष तिमज अवदात ।
यावत नवमा गमा विषे जी, संवेध सूत्रे ख्यात ॥

सोरठा

९२. जाव शब्द में जेह, अष्ट गमां नों इह विधे ।
कहिवो जे संवेह, आखूं उपयोगे करी ।
९३. प्रथम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥
९४. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥

इहां प्रथम, बीजे गमे चउरिंद्री नीं अनै पृथ्वी नीं ए बिहुं पक्षे जघन्य स्थिति माटे उत्कृष्ट संख्याता भव कह्या ।

९५. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

इहां एक पक्ष पृथ्वी नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट अष्ट भव । तेहनों काल कहै छै—

९६. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
चउरिंद्रिय बे वास, वर्ष अठघासी सहस्र फुन ॥
९७. तुर्य गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥
९८. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥

इहां चउथे, पंचमे गमे बिहुं पक्षे चउरिंद्री अनै पृथ्वी नीं जघन्य स्थिति माटे उत्कृष्ट संख्याता भव कह्या ।

९९. षष्ठम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त तेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

इहां एक पक्ष पृथ्वी नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट आठ भव । तेहनों काल कहै छै—

१००. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष अठघासी सहस्र फुन ॥
१०१. सप्तम गम सुविमास, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
चउरिंद्रिय षट मास, पुढवी अंतर्मुहूर्त्त फुन ॥

इहां एक पक्षे उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट ८ भव । तेहनों काल कहै छै—

८८. नवरं—एतेसु चैव ठाणेषु नाणत्ता जाणियव्वा ।

८९. सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइभागं,
उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं ।

९०. ठिती जहण्णेणं अंतोमुहूर्त्तं, उक्कोसेणं य छम्मासा ।
एवं अणुबधो वि ।

९१. चत्तारि इंदियाइं । सेसं तहेव जाव नवमगमए—

१०२. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
चउरिद्रिय बे वास, वर्ष अठ्यासी सहस्र महि ॥
१०३. अष्टम गमके जास, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
चउरिद्रिय षट मास, पुढवी अंतर्मुहूर्त्त फुन ॥
इहां एक पक्षे चउरिद्रिय नीं उत्कृष्ट स्थिति माटे उत्कृष्ट न भव । तेहनों काल कहै छै—

१०४. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
चउरिद्रिय बे वास, अंतर्मुहूर्त्त चिउं महि ॥
१०५. सूत्रे नवम जगीस, काल आश्रयी जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, षट मासे करि अधिक फुन ॥
इहां चउरिद्रिय नीं अनै पृथ्वी नीं ए बे पक्ष उत्कृष्टी स्थिति माटे उत्कृष्ट
भाठ भव । तेहनों काल—

१०६. उत्कृष्ट अद्धा तास, वर्ष अठ्यासी सहस्र जे ।
फुन चउवीसज मास, अष्ट भवां नों आखियो ॥
१०७. *सेवै कालज एतलो, करै गति-आगति इतो काल ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमो जी, दाख्यो नवम दयाल ॥

सोरठा

१०८. इण ढाले इम ख्यात, जेह णाणत्ता नै विषे ।
पृथ्वी विषे संजात, ऊपजता विकलेंद्री नै ॥
१०९. जघन्य गमे सुजाण, सात णाणत्ता तेहनां ।
घुर अवगाहण माण, दृष्टि मिथ्या नै ज्ञान नहीं ॥
११०. काय जोग इक संघ, आयु अंतर्मुहूर्त्त नों ।
इतरोइज अनुबन्ध, खोटा अध्यवसाय तसु ॥
१११. उत्कृष्ट गमे प्रबन्ध, स्थिति उत्कृष्टी तेहनीं ।
आयु सम अनुबन्ध, आख्या ए बे णाणत्ता ॥
११२. जेह ठिकाणे जोय, ऊपजता विकलेंद्रिय नै ।
एह णाणत्ता होय, जघन्य फुन उत्कृष्ट गम ॥
११३. *देश चउबीसम बारमो जी, चिउंसौ इकवीसमीं ढाल ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी, 'जय-जश' मंगलमाल ॥

१०५. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साइं छहि
मासेहि अब्भहियाइं ।

१०६. उक्कोसेणं अट्ठासीति वाससहस्साइं चउवीसाए
मासेहि अब्भहियाइं ।

१०७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १-९ । (श० २४।१९०)

*लय : चतुर नर समक्षो ज्ञान विचार

१०० भगवती जोड

इहल

१. ऑ ऑऑंदुरल थकी, पृथुवी में ऊपऑंत ।
सुं सनुनी पं. तलरल थकी, कै असनुनी थी हुंत ?
 २. ऑन कहै सनुनी पं. तलरल, असनुनी पं. तलरल ऑलण ।
एह उभल थी ऊपऑं, पृथुवी वलषे पहललुलण ॥
 ३. ऑ असनुनी पं. तलरल थकी, सुं ऑलऑर थी हुंत ।
ऑलत परलत थकी, कै अपऑऑत थी हुंत ?
 - ॡ. ऑन भलखै परलत थी, पुढुवी में ऊपऑेह ।
अपऑऑत थी पलण ऊपऑं, वल ऑुऑड पूखेह ॥
- पृथुवीकलड में असनुनी तलरलऑ पंऑंदुरल ऊपऑं, तेहनुं अधलकर'—

ओधलक नं ओधलक (१)

*सुणऑे ऑरडुदेशक डही तणुं रे ललल ॥ (धुपंद)

- ॡ. प्रभु ! असनुनी पंऑंदुरल तलरल ऑको रे,
पुढुवीकलड वलषेह हो । ऑनंदुर देव !
ऑे ऊपऑल ऑुऑे छै रे ललल,
ते कलतै कलल सुथलतलक उपऑेह हो ? ऑनंदुर देव !
- ॢ. श्री ऑन भलखै ऑघनुड थी रे,
अंतडुहुतुत वलषेह रे । ऑुऑड गुणवंतल !
ऑेऑुत ऑलवीस सहसुर वरुषं नुं रे ललल,
सुथलतलक वलषे उपऑेह रे ॥ ऑुऑड गुणवंतल !
- ॣ. प्रभु ! एक सडड कलतल ऊपऑं रे ?
इड ऑलड डेइनुदुरल नल तलड रे ।
लडुध ओधलक गडल वलषे रे ललल,
दलखी तलडऑ कहलड रे ॥
- ।. नवरं तनु अवगलहनल रे, ऑघनुड थकी अवधलर रे ।
असंख डलग आंगुल तणुं रे ललल,
उतुकुषुऑ डुऑन हऑलर रे ॥
- ॥. सुथलतल अनुडनुध पं. तलरल तणुं रे, ऑघनुड अंतडुहुतुत हुुड रे ।
कुडु डुवं उतुकुषुऑ थी रे ललल, शेष तलडऑ अवलुड रे ॥
१०. डवलदेश डव आशुरडुी रे, ऑघनुड थकी इड वदुरे ।
डे डव डुरहण करै तलको रे ललल, उतुकुषुऑल डव अदुरे ॥

१. ऑइ पंऑंदुरलतलरलकखऑुणलएहलतुे उववऑऑंतल—कल
सणुणपंऑंदुरलतलरलकखऑुणलएहलतुे उववऑऑंतल ?
असणुणपंऑंदुरलतलरलकखऑुणलएहलतुे उववऑऑंतल ?
२. ऑुडडल ! सणुणपंऑंदुरल, असणुणपंऑंदुरल ।
(श. २ॡ११११)
३. ऑइ असणुणपंऑंदुरलतलरलकखऑुणलएहलतुे उववऑऑंतल
—कल ऑलऑरेहलतुे उववऑऑंतल ऑलव कल पऑऑतुए-
हलतुे उववऑऑंतल ? अपऑऑतुएहलतुे उववऑऑंतल ?
- ॡ. ऑुडडल ! पऑऑतुएहलतुे वल उववऑऑंतल, अपऑऑतु-
एहलतुे वल उववऑऑंतल । (श० २ॡ१११२)

- ॡ. असणुणपंऑंदुरलतलरलकखऑुणलए णं डते ! ऑे डवलए
पुढुवलककलइएसु उववऑऑंतुए, से णं डते !
केवलतलकललदुतुीएसु उववऑऑेऑऑल ?
- ॢ. ऑुडडल ! ऑहणुणेणं अंतुेडुहुतुतदुतुीएसु, उककोसेणं
डलवीसवलससहसुरदुतुीएसु । (श० २ॡ१११३)
- ॣ. ते णं डते ! ऑुवल एगसडणुं केवलतलडल
उववऑऑंतल ? एवं ऑेहव डेइदुडलसु ओहलडगडणुं
लदुी तहेव,
- ।. नवरं—सरुीरुगलहणल ऑहणुणेणं अंगुलसुस
असंखेऑऑडडलगं, उककोसेणं ऑुडणुणसहसुरं ।
- ॥. ठलतुी अनुडडुंधुे ड ऑहणुणेणं अंतुेडुहुतुतं, उककोसेणं
पुवुकुडी । सेसं तं ऑेव ।
१०. डवलदेशेणं ऑहणुणेणं दुे डवलगुहणलइं, उककोसेणं अदुरे
डवलगुहणलइं ।

*सुड : धुऑ करं सीतल सतुी रे ललल

१. परल. २, डंऑ ३ॡ

सोरठा

११. उत्कृष्टा भव अट्ट, इण वचने इम जाणियै ।
ते पंचेंद्रिय प्रगट्ट, करै निरंतर अष्ट भव ॥
१२. इमज सरीखा ख्यात, भव अंतरिता पिण जिके ।
भव अंतरित संघात, अष्ट इज भव इम वृत्तौ ॥

वा०—जिम उत्तराध्ययन अध्ययन १० में तिर्यंच पंचेंद्रिय नां निरन्तर भव करै तो उत्कृष्टा ८ कह्या, तिम अष्ट भव—एक भव तिर्यंच पंचेंद्रिय नों, दूजो पृथ्वीकाय नों । तीजो तिर्यंच पंचेंद्रिय नों, चउथो पृथ्वीकाय नों । पांचमों तिर्यंच पंचेद्री नों, छठो पृथ्वीकाय नों । सातमों पंचेंद्रिय नों, आठमों पृथ्वीकाय नों—
इम भवांतरित पिण अष्ट भव जाणवूं । इम न्याय वृत्तिकार कह्यूं । इहां सूत्र में उत्कृष्ट आठ भव कह्या ते माटै ।

१३. *काल आश्रयी जघन्य थी रे, अंतर्मुहूर्त्त बे धार रे ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं रे लाल, वर्ष अठ्यासी हजार रे ॥
१४. सेवै कालज एतलो रे, करै गति-आगति इतो काल रे ।
ओधिक नैं ओधिक गमो रे लाल, दाख्यो प्रथम दयाल रे ॥
१५. नव ही गमक विषे तमु रे, कायसंवेध सुघट्ट रे ।
जघन्य थकी भव दोय छै रे लाल, उत्कृष्टा भव अट्ट रे ॥
१६. काल आश्रयी जेहनों रे, मन नैं उपयोगेह रे ।
कहिवो सर्व विचार नैं रे लाल, गवरं विशेष छै एह रे ॥
१७. बिचला तीन गमा विषे रे, बेइंद्रिय नां जेम रे ।
जघन्य गम सत्त णाणत्ता रे लाल, दाख्या कहिवा तेम रे ॥
१८. छेहला तीन गमा विषे रे, जिम एहनांज विचार रे ।
प्रथम गमा नैं विषे कह्यो रे लाल, कहिवूं तिमज प्रकार रे ॥
१९. गवरं इतरा विशेष छै रे, स्थिति अनैं अनुबंध रे ।
जघन्य अनैं उत्कृष्ट थी रे लाल, पूर्व कोड़ज सध रे ॥
२०. शेष तिमज कहिवो सह रे, यावत नवमे गमेह रे ।
काल थकी सूत्रे कह्यो रे लाल, आगल कहिस्यै जेह रे ॥

इति प्रथम गमा नों कायसंवेध तो सूत्रे पूर्व कह्युंज छै । अनैं शेष आठ गमा नैं विषे कायसंवेध उपयोगे करी जूओ-जूओ कहिवो, ते लिखियै छै—

सोरठा

२१. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, ए पिण बिहुं भव जघन्य स्थिति ॥
२२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
पूर्व कोड़ज च्यार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं अधिक ॥
२३. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
२४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
पूर्व कोड़ज च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र वली ॥

*लय : धीज करै सीता सीत रे लाल

१०२ भगवती जोड़

- ११, १२. 'उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइ' ति अनेनेदमव-
गम्यते—यथोत्कर्षतः पञ्चेन्द्रियतिरश्चो निरन्तरमष्टौ
भवा भवन्ति एवं समानभवान्तरिता अपि भवान्तरैः
सहाष्टैव भवन्तीति, (वृ० प० ८२९)

१३. कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं
चत्तारि पुव्वकोडीओ अट्टासीतीए वाससहस्सेहि
अब्भहियाओ,
१४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
१५. नवसु वि गमएसु कायसंवेहो—भवादेसेणं जहण्णेणं
दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइ ।
१६. कालादेसेणं उवजुंजिऊण भाणियव्वं, नवरं—
१७. मज्झिमएसु तिसु गमएसु जहेव बेइंदियस्स,
१८. पच्छिल्लएसु तिसु गमएसु जहा एतस्स चैव
पढमगमएसु,
१९. नवरं—ठिती अणुबंधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी,
उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ।
२०. सेसं तं चैव जाव नवमगमएसु—

- २१, २२. द्वितीये तूत्कृष्टोऽसौ चतस्रः पूर्वकोट्यश्चतुर्भि-
रन्तर्मुहूर्त्तरधिकः, (वृ० प० ८२९)
२३, २४. तृतीये तु ता एवाष्टाशीत्या वर्षसहस्रैरधिकाः,
(वृ० प० ८२९)

२५. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, जघन्य स्थिति भव उभय नीं ॥
२६. उत्कृष्टो सुविमास, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
सहस्र अठ्यासी वास, अंतर्मुहूर्त्त चिउं अधिक ॥
२७. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, इक असन्नी तिरि दूजो मही ॥
२८. उत्कृष्टो इम वट्ट, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
अंतर्मुहूर्त्त अट्ट, चिउं असन्नी तिरि चिउं मही ॥
२९. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अन्तर्मुहूर्त्त जेह, वर्ष सहस्र बावीस जे ॥
३०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
अन्तर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र फुन ॥
३१. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पूर्व कोड़ कहेह, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
३२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
पूर्व कोड़ज च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र वली ॥
३३. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पूर्व कोड़ज लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक वली ॥
३४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
पूर्व कोड़ज च्यार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं अधिक ॥
३५. नवमां सूत्र विषेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पूर्व कोड़ कहेह, वर्ष सहस्र बावीस जे ॥
३६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
पूर्व कोड़ज च्यार, वर्ष अठ्यासी सहस्र वली ॥
३७. *सेवै कालज एतलो रे, करै गति-आगति इतो काल रे ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमो रे लाल, दाख्यो नवम दयाल रे ॥

पृथ्वीकाय में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार'—

३८. जो सन्नी पंचेद्री तिर्यच थी रे, पृथ्वी विषे उपजंत रे ।
तो संख्यात वर्षायुष थकी रे लाल,
कै असंख वर्षायु थी हुंत रे ?
३९. जिन कहै वर्ष संख्यात नां रे, स्थितिक सन्नी तिरि जोय रे ।
पृथ्वी विषे ते ऊपजै रे लाल, असंख वर्षायु न होय रे ॥
४०. जो संख वर्षायु सन्नी तिरि हुवै रे,
तो स्युं जलचर थी थाय रे ?
शेष जेम असन्नी भणी रे लाल, आख्यो तिम कहिवाय रे ॥

ओघिक नै ओघिक (१)

४१. यावत ते प्रभु ! जीवड़ा रे, एक समय रै मांय रे ।
केतला आवी ऊपजै रे लाल, इत्यादि कहिवाय रे ?

*लय : धोज करं सीता सती रे लाल

१. देखे परि. २, यत्र ३५

- ३५, ३६. जहण्णेणं पुव्वकोडी बावीसाए वाससहस्सेहि
अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ
अट्ठासीतीए वाससहस्सेहि अब्भहियाओ,
३७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १-९ । (श० २४।१९४)

३८. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति
—किं संखेज्जवासाउय ? असंखेज्जवासाउय ?
३९. गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो असंखेज्जवासाउय ।
(श० २४।१९५)
४०. जइ संखेज्जवासाउय० किं जलयरेहितो० ? सेसं जहा
असण्णीणं,

४१. जाव— (श० २४।१९६)
ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?

४२. इम जिम रत्नप्रभा विषे रे, सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच रे ।
ऊपजता नें आखियो रे लाल, तेम इहां पिण संच ॥
४३. यावत अद्धा आश्रयी रे, जघन्य थकी अवलोय रे ।
अंतर्मूर्त्त बे कह्या रे लाल, जघन्यायु भव दोग रे ॥
४४. उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे रे, पूर्वं कोड़ज च्यार रे ।
सहस्र अठघासी वर्ष वली रे लाल,
इतो काल गतागति धार रे ॥
४५. संवेध इम नव गम विषे रे, जिम असन्नी नें ख्यात रे ।
तेम इहां पिण सर्व ही रे लाल, कहिवूं जे अवदात रे ॥
४६. परिमाण संघयणादिक तणीं रे, लब्धि प्राप्ति छै तेह रे ।
ए प्रथम तीनू गम नें विषे रे लाल,
जिम रत्नप्रभा मे ऊपजेह रे ॥

सोरठा

४७. पृथ्वीकाय विषेह, सन्नी पं. तिर्यंच जे ।
ऊपजता नें लेह, पहिला तीन गमा विषे ॥
४८. रत्नप्रभा रे मांहि, सन्नी पं. तिर्यंच जे ।
ऊपजता नें ताहि, लब्धि कही तेहिज इहां ॥
४९. *बिचला पिण त्रिहुं गम विषे रे, एहिज लब्धि कहाय रे ।
णवरं इतलो विशेष छै रे लाल, ए नव णाणत्ता पाय रे ॥
५०. तनु अवगाहना तेहनीं रे, जघन्य अनें उत्कृष्ट रे ।
असंख्यातमो भाग छै रे लाल, आंगुल नों तसु इष्ट रे ॥
५१. लेश्या तीन माठी कही रे, मिथ्यादृष्टी होय रे ।
दोग अज्ञान हुवें तसु रे लाल, काय जोगी इक जोय रे ॥
५२. समुदघात घुर त्रिण हुवें रे, स्थिति जघन्य उत्कृष्ट रे ।
अंतर्मूर्त्त जाणवी रे लाल, अपर्याप्तो ए इष्ट रे ॥
५३. अध्यवसाय माठा हुवें रे, स्थिति जितो अनुबंध रे ।
शेष तिमज कहिवो सहु रे लाल, ओघिक गम जिम संघ रे ॥
५४. छेहला तीन गमा विषे रे, प्रथम गमे जिम लेख रे ।
कहिवो तिणहिज रीत सूं रे लाल, णवरं इतरो विशेष रे ॥
५५. स्थिति अनुबन्ध बे णाणत्ता रे, जघन्य अनें उत्कृष्ट रे ।
पूर्वं कोड़ तणां कह्या रे लाल, शेष तिमज सहु इष्ट रे ॥
पृथ्वीकाय में मनुष्य ऊपजै—
५६. मनुष्य थकी जो ऊपजै रे, पृथ्वीकाय विषेह रे ।
तो सन्नी मनुष्य थी उपजै रे लाल,
कं असन्नी मनु थी लेह रे ?
५७. जिन भाखें सुण गोयमा ! रे, सन्नी मनुष्य थी थाय रे ।
असन्नी मनु थी पिण हुवें रे लाल, पृथ्वीकायिक मांय रे ॥

*लय : घीज करे सीता सती रे लाल

१०४. भगवती जोड़

४२. एवं जहा रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स सण्णिस्स
तहेव इह वि,
४३. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता,
४४. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ अट्टासीतीए
वाससहस्सेहि अब्भहियाओ, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ।
४५. एवं संवेहो नवसु वि गमएसु जहा असण्णीणं तहेव
निरवसेसो ।
४६. लद्धी से आदिल्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव,
'लब्धिः' परिमाणसंहननादिप्राप्तिः,
(वृ० प० ८२९)

४७. 'से' तस्य पृथिवीकायिकेषूपत्पत्सोः सञ्जिन आद्ये
गमत्रये, (वृ० प० ८२९)
४८. 'एस चेव' त्ति या रत्नप्रभायामुत्पत्सोस्तस्यैव
मध्यमेऽपि गमत्रये एषैव लब्धिः, (वृ० प० ८२९)
४९. मज्झिल्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव, नवरं—
इमाइं नव णाणत्ताइं—
५०. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं,
उक्कोसेणं अंगुलस्स असंखेज्जतिभागं ।
५१. तिण्णि लेसाओ । मिच्छादिट्ठी । दो अण्णाणा ।
कायजोगी ।
५२. तिण्णि समुग्घाया । ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं,
उक्कोसेणं वि अंतोमुहुत्तं ।
५३. अप्पसत्था अज्जभवसाणा । अणुबंधो जहा ठिती ।
सेसं तं चेव ।
५४. पच्चिल्लएसु तिसु वि गमएसु जहेव पढमगमए,
नवरं—
५५. ठिती अणुबंधो य—जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेणं
वि पुव्वकोडी । सेसं तं चेव १-९ ।
(श० २४।१९७)
५६. जइ मणुस्सेहितो उववज्जति—किं सण्णिमणुस्सेहितो
उववज्जति ? असण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ?
५७. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, असण्णि-
मणुस्सेहितो वि उववज्जति । (श० २४।१९८)

पृथ्वीकाय में असन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'—

५८. असन्नी मनुष्य भगवंत जी ! रे, पृथ्वीकाय विषेह रे ।
ऊपजवा नै जोग्य छै रे लाल,

कितै काल स्थितिक उपजेह रे ?

५९. इम जिम असन्नी पं. तिर्यंच नां रे,
गम जघन्य स्थितिक नां तीन रे ।

तिम असन्नी मनुष्य नां ओहिया रे लाल,
भणवा त्रिण गम चीन रे ॥

६०. तिमज सर्व कहिवो इहां रे, षट गम शेष न होय रे ।
ते माटे इहां षट गमा रे लाल, तूटे छै अवलोय रे ॥

वा०—इहां वृत्तिकार कहाँ—अजघन्योत्कृष्ट स्थितिकपणां यकी
संमूर्च्छिम मनुष्य नां शेष ६ गमा न हुवै ।

पृथ्वीकाय में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'—

६१. जो सन्नी मनुष्य थी ऊपजै रे, पृथ्वीकायिक मांय हो ।
स्यूं संख्यात वर्षायु थकी रे लाल,
कै असंख वर्षायु थी थाय हो ?

६२. जिन भाखै सुण गोयमा ! रे, संख्यात वर्षायु थी हुंत रे ।
असंख्यात वर्षायु थकी रे लाल, पृथ्वी में नहि उपजंत रे ॥

६३. जो संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य थी रे,
पृथ्वी विषे उपजंत रे ।
तो पर्याप्त थी स्यूं ऊपजै रे लाल, कै अपजत्त थी हुंत रे ?

६४. जिन कहै पजत्त संख्यायु सन्नी रे, मनुष्य थकी उपजंत रे ।
अपजत्त संख वर्षायु सन्नी रे लाल, मनुष्य थकी पिण हुंत रे ।

ओघिक नै ओघिक (१)

६५. सन्नी मनुष्य भगवंत जी ! रे, पृथ्वीकाय विषेह रे ।
ऊपजवा जे जोग्य छै रे लाल,
ते किती स्थितिके ऊपजेह रे ?

६६. श्री जिन भाखै जघन्य थी रे, अंतर्मुहूर्त्त विषेह रे ॥
वर्ष सहस्र बावीस नीं रे लाल, उत्कृष्टी स्थिति लेह रे ।

६७. ते एक समय किता ऊपजै रे ?
इम जिम रत्नप्रभा नै विषेह रे ।
ऊपजतां सन्नी मनुष्य नां रे लाल, तीन गमा कहाँ जेह रे ॥

६८. तिमहिज तीनुई गमा विषे रे, लब्धि कहतां परिमाण रे ।
संघयणादिक बोल नीं रे लाल, प्राप्ति कहेवी जाण रे ॥

६९. णवरं इहां अवगाहणा रे, जघन्य आंगुल नां इष्ट रे ।
असंख्यातमां भाग छै रे लाल, पांचसौ धनु उत्कृष्ट रे ॥

५८. असण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु
उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु
उववज्जेज्जा ?

५९. एवं जहा असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणियस्स
जहण्णकालद्वितीयस्स तिण्णि गमगा तथा एयस्स वि
ओहिया तिण्णि गमगा भाणियव्वा,

६०. तहेव निरवसेसं १-३ । सेसा छ न भण्णंति ।
(श० २४।१९९)

वा०—अजघन्योत्कृष्टस्थितिकत्वात्, संमूर्च्छिम-
मनुष्याणां न शेषगमषट्कसम्भव इति ।
(वृ० प० ८३२)

६१. जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति—किं संखेज्ज-
वासाउय० ? असंखेज्जवासाउय० ?

६२. गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो असंखेज्जवासाउय ।
(श० २४।२००)

६३. जइ संखेज्जवासाउय० किं पज्जत्तासंखेज्जवासाउय० ?
अपज्जत्तासंखेज्जवासाउय० ?

६४. गोयमा ! पज्जत्तासंखेज्जवासाउय, अपज्जत्ता-
संखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति ।
(श० २४।२०१)

६५. सण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पुढविकाइएसु
उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु
उववज्जंति ?

६६. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं
बावीसवाससहस्सद्वितीएसु । (श० २४।२०२)

६७. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
एवं जहेव रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स,

६८. तहेव तिसु वि गमएसु लद्धी,

६९. नवरं—ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइ-
भागं, उक्कोसेणं पंचधणुसयाइं ।

१. परि० २, यंत्र ३६

२. परि० २, यंत्र ३७

श० २४, उ० १२, दा० ४२२ १०५

सोरठा

७०. रत्नप्रभा रै मांह, ऊपजतो सन्नी मनुष्य ।
जघन्य तास अवगाह, पृथक आंगुल नीं कही ॥
७१. इहां पृथ्वीकाय रै मांह, ऊपजतां सन्नी मनुष्य ।
जघन्य तास अवगाह, असंख भाग आंगुल तर्णों ॥
७२. *स्थिति जघन्य थी तेहनीं रे, अंतर्मुहूर्त्त संघ रे ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नीं रे लाल, इमहिज छै अनुबंध रे ॥

सोरठा

७३. रत्नप्रभा रै मांहि, ऊपजतां सन्नी मनुष्य ।
जघन्य स्थिति कही ताहि, पृथक मास तर्णीं तिहां ॥
७४. पृथ्वीकाय रै मांय, ऊपजतां सन्नी मनुष्य ।
जघन्य स्थिति कहिवाय, अंतर्मुहूर्त्त नीं इहां ॥
७५. उत्कृष्टी स्थिति तास, पूर्व कोड़ तर्णीं कही ।
एवं अनुबंध जास, इतरो विशेषज आखियो ॥
७६. *संवेध नवूं ही गमा विषे रे, जिम पृथ्वी रै मांय रे ।
ऊपजतां सन्नी तिरि रे लाल, आख्यो तिमज कहाय रे ॥

सोरठा

७७. सन्नी मनुष्य तिर्यंच, पृथ्वीकायिक नें विषे ।
ऊपजतां नें संच, ओधिक त्रिण गम ए स्थिति ॥
७८. जघन्य थकी स्थिति जाण, अंतर्मुहूर्त्त नीं कही ।
उत्कृष्टी पहिछाण, पूर्व कोड़ प्रमाण छै ॥
७९. *बिचला तीन गमा विषे रे, लब्धि परिमाणादि जेह रे ।
जिम सन्नी तिरि मभ्रम त्रिहुं गमे रे लाल,
आखी तिका जाणेह रे ॥

सोरठा

८०. सन्नी पं. तिर्यंच, जघन्य स्थितिक छै जे विषे ।
लब्धि पूर्व कही संच, तेहिज सूत्र करी इहां कथन ॥
८१. *शेष तिमज कहिवो सहू रे, कायसंवेध सुजोय रे ।
सन्नी तिर्यंच पृथ्वी नें विषे रे लाल,
ऊपजै तिम ए होय रे ॥
८२. छेहला तीन गमा विषे रे, जिम एहनांज विचार रे ।
ओधिक त्रिण गमका कहाय रे लाल,
कहिवूं तिमज प्रकार रे ॥

सोरठा

८३. ओधिक गमा विषेह, असंख भाग आंगुल तर्णों ।
अवगाहन जघन्येह, अंतर्मुहूर्त्त जघन्य स्थिति ॥

*लय : धीज करं सीता सती रे लाल

१०६ भगवती जोड़

- ७०,७१. रत्नप्रभायामुत्पित्सोर्हि मनुष्यस्यावगाहना
जघन्येनाङ्गुलपृथक्त्वमुक्तमिह त्वङ्गुलासङ्घेय-
भागः, (वृ० प० ८३२)

७२. ठिती जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो ।

- ७३,७४. स्थितिश्च जघन्येन मासपृथक्त्वं प्रागुक्तमिह
त्वन्तर्मुहूर्त्तमिति, (वृ० प० ८३२)

७६. संवेहो नवसु गमएसु जहेव सण्णिपंचिदियस्स ।

- ७७,७८. सञ्जिनो मनुष्यस्य तिरश्चश्च पृथिवीकायिकेषु
समुत्पित्सोर्जघन्यायाः स्थितेरन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणत्वा-
दुत्कृष्टायास्तु पूर्वकोटीप्रमाणत्वादिति,
(वृ० प० ८३२)

७९. मञ्जिल्लएसु तिसु गमएसु लद्धी जहेव सण्णि-
पंचिदियस्स मञ्जिल्लएसु तिसु ।

८०. जघन्यस्थितिकसम्बन्धिनि गमत्रये लब्धिस्तथेह
वाच्या यथा तत्रैव गमत्रये सञ्जिपञ्चेन्द्रियतिरश्च
उक्ता सा च तत्सूत्रादेवेहावसेया, ((वृ० प० ८३२)

८१. सेसं तं चेव निरवसेसं ।

८२. पञ्चिल्ला तिण्णि गमगा जहा एयस्स चेव ओहिया
गमगा,

- ८३,८४. ओधिकगमेषु हि अंगुलासंख्येयभागरूपाऽप्य-
वगाहनाऽन्तर्मुहूर्त्तरूपाऽपि स्थितिरुक्ता सा चेह न
वाच्या अत एवाह— (वृ० प० ८३२)

८४. ते इहां कहिवी नांय, तिण कारण आगल हिवै ।
णवरं पाठ कहाय, चित्त लगाई सांभलो ॥

८५. *णवरं इतरो विशेष छै रे, तनु अवगाहन जाण रे ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट थी रे लाल, पांचसौ धनुष्य प्रमाण रे ॥

८६. स्थिति तथा अनुबन्ध वली रे, जघन्य अनै उत्कृष्ट रे ।
कहिवो पूर्व कोड़ नों रे लाल, शेष तिमज सह इष्ट रे ॥
पृथ्वीकाय में देव ऊपजै—

८७. देव थकी जो ऊपजै रे, स्यू भवणवासी थी उपजंत हो ।
व्यंतर नै ज्योतिषी थको रे लाल, वैमानिक थी हुंत हो ?

८८. जिन भाखै सुण गोयमा ! रे, भवणवासी सुर ताहि रे ।
जाव विमानिक सुर थकी रे लाल, ऊपजै पुढवी मांहि रे ॥

८९. जो भवणवासी सुर थी हुवै रे, तो स्यू असुर थी हुंत रे ।
यावत थणियकुमार थी रे लाल, पृथ्वी विषे उपजंत रे ?

९०. जिन भाखै सुण गोयमा ! रे, असुरकुमार थी हुंत रे ।
यावत थणियकुमार थी रे लाल, पुढवी में ऊपजंत रे ॥

पृथ्वीकाय में असुरकुमार ऊपजै, तेहनों अधिकार'—

ओधिक नै ओधिक (१)

९१. असुरकुमार भगवंत जी ! रे, पृथ्वीकाय विषेह रे ।
जे ऊपजवा जोग्य छै रे लाल,
ते कितै काल स्थितिके उपजेह रे ?

९२. श्री जिन भाखै जघन्य थी रे, अंतर्मुहूर्त विषेह रे ।
वर्ष सहस्र बावीस नीं रे लाल, उत्कृष्टी स्थिति लेह रे ॥

९३. ते एक समय कित्ता ऊपजै ? जिन कहै जघन्य सुइष्ट रे ।
एक दोय त्रिण ऊपजै रे लाल, संख असंख उत्कृष्ट रे ॥

९४. हे प्रभुजी ! ते जीव नै रे, शरीर तणों सुविचार रे ।
स्यू संघयण परूपियो रे लाल, तव भाखै जगतार रे ॥

९५. छ संघयणज मांहिलो रे, इक ही नहि संघयण रे ।
जाव परिणमै तेहनें रे लाल, वारू ए जिन वयण रे ॥

९६. हे प्रभु ! ते जीवां तणों रे, कितली मोटी माण रे ।
शरीर तणी अवगाहना रे लाल, वारू प्रश्न विनाण रे ॥

९७. जिन कहै तनु अवगाहना रे, दाखी दोय प्रकार रे ।
मूलगी ते भवधारणी रे लाल, उत्तरवैक्रिय सार रे ॥

९८. तिहां जिका भवधारणी रे, जघन्य थकी आख्यात रे ।
असंख भाग आंगुल तणों रे लाल, उत्कृष्टी कर सात रे ॥

*लय : धीज करे सीता सती रे लाल

१. परि. २, यन्त्र ३८

८५. नवरं—ओगाहणा जहण्णेणं पंच धणुसयाइं,
उक्कोसेण वि पंच धणुसयाइं ।

८६. ठिती अणुबंधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण
वि पुव्वकोडी । सेसं तहेव १-९ । (श० २४।२०३)

८७. जइ देवेहिंतो उववज्जंति—किं भवणवासिदेवेहिंतो
उववज्जंति ? वाणमंतरदेवेहिंतो, जोइसियदेवेहिंतो,
वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ?

८८. गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति जाव
वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति ।

(श० २४।२०४)

८९. जइ भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति—किं असुर-
कुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति जाव थणिय-
कुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति ?

९०. गोयमा ! असुरकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति
जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति ।

(श० २४।२०५)

९१. असुरकुमारेणं भंते ! जे भविए पुढविककाइएसु
उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु
उववज्जेज्जा ?

९२. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं
बावीसवाससहस्सट्टितीएसु । (श० २४।२०६)

९३. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा वा असंखेज्जा वा उववज्जंति ।

(श० २४।२०७)

९४. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंघयणी
पण्णत्ता ?

९५. गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी जाव
परिणमंति । (श० २४।२०८)

९६. तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा ?

९७. गोयमा ! दुविहा सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा—
भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्विया य ।

९८. तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं
अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीओ ।

१९. तिहां उत्तरवैक्रिय तिका रे, जघन्य थकी इम इष्ट रे ।
संख्यातमों भाग आंगुल तणों रे लाल,
लक्ष योजन उत्कृष्ट रे ॥
१००. हे प्रभु ! ते जीवां तणां रे, तनु नों स्यूं संठाण रे ?
संठाण ते आकार नों रे लाल, पूछ्यो प्रश्न सुजाण रे ॥
१०१. श्री जिन भाखै द्विविधा रे, तनु नों छै संठाण रे ।
भवधारणी तनु मूलगो रे लाल, उत्तर वैक्रिय जाण रे ॥
१०२. तत्र जिहां भवधारणी रे, समचउरंस संठाण रे ।
उत्तरवैक्रिय जे तिहां रे लाल, अनेक संठाणे जाण रे ॥
१०३. प्रथम चिउं लेश्या हुवै रे, दृष्टि त्रिविध पिण होय रे ।
ज्ञानी में निश्चै करी रे लाल, तीन ज्ञान अवलोय रे ॥
१०४. भजना तीन अज्ञान नीं रे, असन्नी असुर में आय रे ।
अपज्जत्त अंतर्मुहूर्त्त लगे रे लाल, दोय अज्ञानज पाय रे ॥
१०५. त्रिविध जोग पिण असुर में रे, द्विविध पिण उपयोग रे ।
च्यार संज्ञा हुवै तेहमें रे लाल, च्यार कषाय संयोग रे ॥
१०६. इंद्रिय पंच हुवै वली रे, समुद्घात धुर पंच रे ।
द्विविध पिण हुवै वेदना रे लाल, सात असातज संच रे ॥
१०७. इत्थि पुरिस वेद बे हुवै रे, वेद नपुंसक न होय रे ।
इण न्याय असुरकुमार में रे लाल, वेद सन्नी रा दोय रे ॥
१०८. स्थिति जघन्य थी असुर नीं रे, वर्ष सहस्र दश होय रे ।
उत्कृष्टी छै एतली रे लाल, साधिक सागर सोय रे ॥
१०९. अद्यवसायज जेहनां रे, असंख्यात संजात रे ।
भला नै भूंडा पिण हुवै रे लाल,
अनुबंध जिम स्थिति ख्यात रे ॥
११०. भव आश्रयी बे भव कह्या रे, इक भव असुरकुमार रे ।
बीजो भव पृथ्वी तणों रे लाल, हिव तमु काल विचार रे ॥
१११. काल आश्रयी जघन्य थी रे, वर्ष सहस्र दश देव रे ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही रे लाल, पुढवी भव स्थिति भेव रे ॥
११२. उत्कृष्ट साधिक उदधि नीं रे, वलि सामानिक आदि रे ।
वर्ष बावीस सहस्र अधिक ही रे लाल,
पुढवी स्थिति संवादि रे ॥
११३. सेवै कालज एतलो रे, ए धुर गम नों लेख रे ।
इम नव पिण गम जाणवा रे लाल,
णवरं इतरो विशेष रे ॥
११४. बिचला तीन गमा विषे रे, वलि छेहलै गम तीन रे ।
जाणवूं असुरकुमार नीं रे लाल, स्थिति विशेष सुचीन रे ॥

१०६ भगवती जोड़

१९. तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं
अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ।
(श० २४।२०९)
१००. तेसि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया
पण्णत्ता ?
१०१. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा — भवधारणिज्जा
य उत्तरवेउव्विया य ।
१०२. तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते समचउरंससंठिया
पण्णत्ता । तत्थ णं जे ते उत्तरवेउव्विया ते नाणा-
संठिया पण्णत्ता ।
१०३. लेस्साओ चत्तारि । दिट्ठी तिविहा वि । तिण्णि
नाणा नियमं,
१०४. तिण्णि अण्णाणा भयणाए ।
'तिन्नि अन्नाणा भयणाए' त्ति येऽसुरकुमारा
असञ्जिण्ण्य आगत्योत्पन्नन्ते तेषामपर्याप्तकावस्थायां
विभंगस्याभावात् शेषाणां तु तद्भावादज्ञानेषु
भजनोक्ता, (वृ० प० ८३२)
१०५. जोगो तिविहो वि । उवओगो दुविहो वि । चत्तारि
सण्णाओ । चत्तारि कसया ।
१०६. पंच इंदिया । पंच समुघाया । वेयणा दुविहा वि ।
१०७. इत्थिवेदगा वि, पुरिसवेदगा वि, नो नपुंसगवेदगा ।
१०८. ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं सातिरेगं
सागरोवमं ।
१०९. अज्झवसाणा असंखेज्जा पसत्था वि अप्पसत्था वि ।
अणुबंधो जहा ठिती ।
११०. भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं,
१११. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं, तत्र दशवर्षसहस्राण्यसुरेषु अन्तर्मुहूर्त्तं
पृथिवीकायिकेष्विति, (वृ० प० ८३२)
११२. उक्कोसेणं सातिरेगं सागरोवमं बावीसाए
वास सहस्सेहि अब्भहियं,
११३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा । एवं नव वि गमा नेयव्वा, नवरं—
११४. मज्झिल्लएसु पच्छिल्लएसु तिसु गमएसु असुर-
कुमाराणं ठिइविसेसो जाणियव्वो,

सोरठा

११५. मज्झम गमे सुइष्ट, असुरकुमार तणीं कही ।
स्थिति जघन्य उत्कृष्ट, वर्षं सहस्र जे दश तणीं ॥

११६. चरम गमे फुन तीन, असुर स्थिति जघन्योत्कृष्ट ।
साधिक सागर चीन, इतरो विशेष जाणवो ॥

११७. *शेष ओधिक गमा नीं परै रे, परिमाण संघयणादि जेह रे ।
कहिबो छै तेहनीं लद्धी रे लाल,
वलि जाणवू कायसंवेह रे ॥

वा०—'लेशद्वारे—भवनपति पृथ्वीकाय में ऊपजै, तिणरा ओधिक गमा में तो लेश्या ४ कही । अनै तिणरो जघन्य गमो ठिति, अनुबंध विना ओधिक नै भलायो । तिण भलावण मे तो लेश्या ४ हुवै ।

उत्तराध्येन अध्येन ३४।४८-५१ मे भवनपति में लेश्या री स्थिति कही ते कहै छै—

कृष्ण लेश्या री स्थिति जघन्य दश हजार वर्ष, उत्कृष्ट पत्य नों असंख्यातमो भाग । अनै जेतली कृष्ण लेश्या री उत्कृष्ट स्थिति, ते ऊपरै एक समय अधिक नील लेश्या री जघन्य स्थिति अनै उत्कृष्ट पत्य रो असंख्यातमों भाग अधिक । ओधिक अनै उत्कृष्ट नील लेश्या री स्थिति सूं एक समय अधिक कापोत री जघन्य स्थिति अनै उत्कृष्ट पत्य रो असंख्यातमों भाग अधिक । तिण उपरंत आउखावाला में एक तेजु पावै । तेजु री स्थिति भवनपति में जघन्य १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट एक सागर जाभी कही । इण वचने जघन्य १० हजार वर्ष आयु में लेश्या दो—कृष्ण अनै तेजु संभवै । उत्कृष्ट आयुवाला में एक तेजु संभवै ।

इहां असुरकुमार पृथ्वी में प्रथम गमे ४ लेश्या कही । जघन्य उत्कृष्ट गमे ठिति, अनुबंध विना ओधिक नै भलाया । तिण लेखै ४ लेश्या हुवै । पिण नवरं कही जघन्य गमे १० हजार वर्ष आउखा वाला में लेश्या २, उत्कृष्ट आयु वाला मे लेश्या १—इम न कह्यो । लेश्या रो णाणत्तो नथी । तेहनों न्याय—एक-एक देव में लेश्या एक-एक हीज पावै । तिण कारण लेश्या रो नाणत्तो नथी कह्यो दीसै । पिण उत्तराध्येन [३४।४८, ५३] मे कृष्ण अनै तेजु नीं जघन्य १० हजार वर्ष नीं स्थिति कही । किणहिक में कृष्ण, किणहिक में तेजु, अनै उत्कृष्ट आउखा बाला में १ तेजु कही । इण वचन सूं जघन्य गमे २ लेश्या, उत्कृष्ट गमे लेश्या १ ईज संभवै । वलि बहुश्रुत कहै ते सत्य । व्यंतर पृथ्वी में ऊपजै, १० भवनपति अनै व्यंतर अप में, वनस्पति में, तिर्यंच पंचेंद्रिय में, मनुष्य मे ऊपजतां लेश्याद्वार में एहिज न्याय जाणवो ।

ज्ञानद्वारे—असुरकुमार पृथ्वीकाय में ऊपजै तिणमें प्रथम गमे तीन ज्ञान नीं नियमा अनै ३ अज्ञान नीं भजना कही । तिणमें असत्री मरि नै जाय तिवारे अंतर्मुहत्तं विभंग अज्ञान न हुवै, ते माटे तीन अज्ञान नीं भजना कही । अनै उत्कृष्ट गमे लब्धि ओधिक नै भलाई । पिण उत्कृष्ट गमे तो आयु सागर जाभी । अनै असत्री असुरकुमार में जघन्य १० हजार वर्ष आऊखे ऊपजै । पत्य नै असंख्यातमे भाग आयु पावै तिण में तो ३ अज्ञान नीं भजना । पिण साधिक १ सागर उत्कृष्ट आयु विषे तो असन्नी न ऊपजै, ते माटे उत्कृष्ट गमे ३ अज्ञान

*लय : धीज करे सीता सती रे लाल

११५, ११६. 'मज्झल्लएसु पच्छिल्लएसु' इत्यादि, अयं चेह स्थितिविशेषो मध्यमगमेषु जघन्यासुरकुमाराणां दशवर्षसहस्राणि स्थितिः अन्त्यगमेषु च साधिकं सागरोपममिति । (वृ० प० ८३२)

११७. सेसा ओहिया चेव लद्धी कायसंवेहं च जाणेज्जा ।

नीं नियमा संभवै । ते भणी भलावण में लाभै ते लेणा । किञ्चित फर्क जाणी सूत्रे न कह्यो एहवो जणाय छै ।

तथा असन्नी भवणपति में जाय, तेहनों आउखो उत्कृष्ट पत्य नै असंख्या-तमे भाग कह्यो । सन्नी मरिमें जाय, तेहनों आउखो उत्कृष्ट १ सागर जाभो कह्यो । तिहां असन्नी मरि नै जाय, ते असन्नी नीं अपेक्षया उत्कृष्ट आयु, सन्नी मरि नै जाय ते सन्नी नीं अपेक्षया उत्कृष्ट आयु । ए बेहुं उत्कृष्ट गमां में लेखव्या ह्वै तो ते पिण ज्ञानी जाणै । वलि बहुश्रुत कहै ते सत्य । नव निकाय अनै व्यंतर पृथ्वी में ऊपजै । १० भवनपति अनै व्यंतर अप में, वनस्पति में, तिर्यंच पंचेंद्री में, मनुष्य में ऊपजतां ज्ञानद्वार में एहिज न्याय जाणवो ।

बेद द्वारे—असुरकुमार पृथ्वी में ऊपजै तिणमें प्रथम ओधिक गमे वेद २ कह्यो—स्त्री, पुरुष । अनै उत्कृष्ट गमे ओधिक नै भलायो । ते भलावण में तो २ वेद आया । अनै देवी नों आउखो उत्कृष्ट ४॥ पत्य नों हुवै । अनै उत्कृष्ट गमे तो आयु जघन्य उत्कृष्ट सागर जाभो कह्यो । इण वचन सूं तो उत्कृष्ट गमे एक वेद संभवै तो ओधिक नै भलायो ते किम ? इति प्रश्न । उत्तर—इहां वेद द्वार में उत्कृष्ट आयु स्त्री वेद में तो देवी नों उत्कृष्ट आयु लियो हुवै, पुरुष वेद में उत्कृष्ट वेद नों आयु लियो हुवै, इण न्याय तो उत्कृष्ट गमे २ वेद हुवै अनै उत्कृष्ट सागर जाभो ईज लेवै तो १ पुरुष वेद ईज हुवै । नवनिकाय, व्यंतर, ज्योतिषी अनै पहिला-दूजा देवलोक रा देवता पृथ्वी में ऊपजै, १० भवनपति अनै व्यंतर अप में, वनस्पति में, तिर्यंच पंचेंद्रिय में अनै मनुष्य में ऊपजतां वेद द्वार में एहिज न्याय जाणवो ।' (ज० स०) ।

११८. वले सगलाइ गमा नै विषे रे, बे भव ग्रहण करेह रे ।

जाव नवमा गमा नै विषे रे लाल, साख्यात सूत्रे लेह रे ॥

असुरकुमार पृथ्वी नै विषे ऊपजै, तेहनां ९ गमा जुदा-जुदा कहै छै—

११८. सव्वत्थ दो भवग्गहणाइं जाव नवमगमए,

सोरठा

११९. धुर गम कायसंवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।

वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१२०. उत्कृष्ट काल जगीस, साधिक सागर असुर स्थिति ।

वर्ष सहस्र बावीस, पुढवी पिण उत्कृष्ट स्थिति ॥

१२१. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।

वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१२२. उत्कृष्ट अद्धा जाण, ए पिण दोय भवां तणों ।

साधिक सागर माण, अंतर्मुहूर्त्त अधिक मही ॥

१२३. तीन गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।

वर्ष सहस्र बत्तीस, जघन्य असुर महि जेठ स्थिति ॥

१२४. उत्कृष्ट अद्धा जगीस, साधिक सागर असुर में ।

वर्ष सहस्र बावीस, बिहुं भव नीं उत्कृष्ट स्थिति ॥

१२५. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।

वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१२६. उत्कृष्ट अद्धा तास, वर्ष सहस्र बत्तीस नीं ।

असुर सहस्र दश वास, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥

११० भगवती जोड

१२७. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
१२८. षष्ठम गमे संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र बत्तीस, जघन्य असुर उत्कृष्ट महि ॥
१२९. सप्तम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
साधिक सागर लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
१३०. उत्कृष्ट अद्धा जोय, ए पिण दोय भवां तर्णों ।
साधिक सागर होय, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
१३१. अष्टम गमे संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
साधिक सागर तेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
१३२. नवम गमक सूत्रेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
साधिक सागर लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
१३३. *सेवै कालज एतलो रे, करै गति-आगति इतो काल रे ।
असुर पृथ्वी में ऊपजै रे लाल, तसु नव गम ए न्हाल रे ॥
१३४. देश चउवीसम बारम तर्णों रे,
चिउं सौ बावीसमीं ढाल रे । सुगुणनर !
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे लाल,
'जय-जश' हरष विशाल रे ॥ सुगुणनर !

१३२. कालादेसेणं जहण्णेणं सातिरेणं सागरोवमं
बावीसाए वाससहस्सेहि अब्भहियं, उक्कोसेण वि
सातिरेणं सागरोवमं बावीसाए वाससहस्सेहि
अब्भहियं,
१३३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १-९ । (श० २४।२।१०)

ढाल : ४२३

दूहा

पृथ्वीकाय में नवनिकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार'

१. नागकुमारादिक हिवै, पुढवी में उपजंत ।
नवे गमे अधिकार तसु, सांभलजो धर खंत ॥

†अर्थ द्वादशम उद्देश नों ॥ (ध्रुपद)

२. नागकुमारा हे प्रभु ! पृथ्वीकाय विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, इत्यादिक इम लेहो जी ॥
३. एहिज वक्तव्यता तसु, असुर ऊपजतां नें लहियै जी ।
परिमाण्णादिक बोल जे, नाग विषे तिम कहियै जी ॥
४. यावत भव आश्रयी लगै, णवरं इतरो विशेषो जी ।
स्थिति अनै अनुबन्ध नै, कहिवो इम सपेखो जी ।

२. नागकुमारेणं भंते ! जे भविए पुढविककाइएसु ?

३. एस चेव वक्तव्यया

- ४,५. जाव भवादेसो ति, नवरं—ठिती जहण्णेणं
दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं देसुणाइं दो
पलिओवमाइं । एवं अणुबंधो वि ।

*लय : धीज करै सीता सती रे लाल

†लय : कर जोड़ी आगल रही

१. देखें परि. २, यंत्र ३९

श० २४, उ० १२, ढा० ४२२, ४२३ १११

५. स्थिति अने अनुबन्ध जे, जघन्य सहस्र दश वासो जी ।
उत्कृष्टी देसूण जे, दोग पल्योपम तासो जी ॥
६. काल आश्रयी जघन्य था, प्रथम गमे संवेहो जी ।
जघन्य सहस्र दश वर्ष नीं, अंतर्मुहूर्त्त अधिकेहो जी ॥
७. उत्कृष्ट अद्धा एतलो, देश ऊण पल्य दोगो जी ।
वर्ष सहस्र बावोस ही, अधिकेरी अवलोयो जी ॥
८. एवं एहनां नव गमा, असुर गमक सम भणवा जी ।
णवरं स्थिति काल आश्रयी, उपयोगे करि थुणवा जी ॥

दूहा

९. घुर त्रिहुं गम स्थिति नाग नीं, जघन्य सहस्र दश वास ।
उत्कृष्टी देसूण जे, बे पल्योपम तास ॥
१०. मभ्रम तीन गमे स्थिति, जघन्य उत्कृष्ट कहाय ।
वर्ष सहस्र दश स्थितिक सुर, ऊपजै पृथ्वी मांय ॥
११. छेहले तीन गमे स्थिति, जघन्य अनें उत्कृष्ट ।
देसूण बे पल्य स्थितिक, ऊपजवो तसु इष्ट ॥

सोरठा

१२. कायसंवेध विख्यात, काल आश्रयी हिव तसु ।
कहियै छै अवदात, प्रथम गमो पूर्वे कह्यु ॥
१३. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
१४. उत्कृष्टो अवलोय, अद्धा उभय भवां तणों ।
देश ऊण पल्य दोग, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
१५. तृतीय गमे संवेह, जघन्य सहस्र बत्तीस वर्ष ।
नाग सहस्र दश लेह, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥
१६. उत्कृष्ट अद्धा जोय, ए पिण दोग भवां तणों ।
देश ऊण पल्य दोग, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
१७. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
१८. उत्कृष्ट अद्धा तास, वर्ष सहस्र बत्तीस जे ।
नाग सहस्र दश वास, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥
१९. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
२०. षष्ठम जघन्योत्कृष्ट, वर्ष सहस्र बत्तीस जे ।
नाग सहस्र दश इष्ट, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥
२१. सप्तम गमे सुजोय, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
देश ऊण पल्य दोग, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
२२. उत्कृष्ट अद्धा सोय, ए पिण दोग भवां तणों ।
देश ऊण पल्य दोग, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
२३. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
देश ऊण पल्य बेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
- ११२ भगवती जोड़

६. कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मभहियाइं,
७. उक्कोसेणं देसूणाइं दो पलिओवमाइं बावीसाए
वाससहस्सेहिं अबहियाइं ।
८. एवं नव वि गमगा असुरकुमारगमगरिसा, नवरं—
ठिति कालादेसं च जाणेज्जा १-९ ।

२४. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
देश ऊण पत्य बेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

२५. *एवं यावत जाणवो, थणियकुमार लगेहो जी ।
प्रश्न हिवे व्यंतर तणों, सांभलजो चित देहो जी ॥

२६. व्यंतर थी जो ऊपजै, पृथ्वीकाय विषेहो जी ।
स्युं पिशाच व्यंतर थकी, जाव गंधर्व थी लेहो जी ॥

२७. श्रीजिन भाखे पिशाच जे, व्यंतर थी उपजेहो जी ।
जाव गंधर्व व्यंतर थकी, ऊपजै पृथ्वी विषेहो जी ॥

ओघिक नै ओघिक (१)

२८. हे प्रभु ! व्यंतर देवता, पृथ्वीकाय विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, इत्यादिक पूछेहो जी ?

२९. एह तणां पिण नव गमा, असुरकुमार नां जेहो जी ।
नव गम आख्या ते सारिखा, वार रीत जाणेहो जी ॥

३०. णवरं इतरो विशेष छै, स्थिति अरु कालादेशो जी ।
तेह विषे जे फेर छै, जाणेवो सुविशेषो जी ॥

३१. स्थिति जघन्य थी तेहनीं, वर्ष सहस्र दश जाणी जी ।
उत्कृष्टी इक पत्य नीं, शेष तिमज पहिछाणी जी ॥

पृथ्वीकाय में व्यंतर ऊपजै, तेहनों अधिकार'

सोरठा

३२. धुर गम कायसंवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

३३. उत्कृष्ट अद्धा ताय, ते पिण दोग्य भवां तणों ।
एक पत्य कहिवाय, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

३४. बीजे गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

३५. उत्कृष्ट अद्धा तास, ते पिण दोग्य भवां तणों ॥
एक पत्योपम जास, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

३६. तृतीय गमे संवेह, जघन्य सहस्र बत्तीस जे ।
वर्ष सहस्र दश लेह, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥

३७. उत्कृष्ट अद्धा होय, दोग्य भवां नों इह विधे ।
एक पत्योपम जोय, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

३८. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

३९. उत्कृष्ट अद्धा जेह, वर्ष सहस्र बत्तीस जे ।
व्यंतर सहस्र दशेह, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥

४०. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र दश लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

*लय : कर जोड़ी आगल रहै

१. देखें परि. २, यंत्र ४०

२५. एवं जाव थणियकुमाराणं । (श० २४।२११)

२६. जइ वाणमंतरेहितो उववज्जति—किं पिसायवाण-
मंतरदेवेहितो जाव गंधव्ववाणमंतरदेवेहितो ?

२७. गोयमा ! पिसायवाणमंतरदेवेहितो जाव गंधव्ववाण-
मंतरदेवेहितो । (श० २४।२१२)

२८. वाणमंतरदेवे णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु
उववज्जित्तए ?

२९. एतेसिं पि असुरकुमारगमसरिसा नव गमगा
भाणियव्वा

३०. नवरं—ठिंति कालादेसं च जाणेज्जा ।

३१. ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं पलि-
ओवमं । सेसं तहेव १-९ ।

(श० २४।२१३)

४१. षष्ठम गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
वर्ष सहस्र बत्तीस, व्यंतर पुढवी भव स्थिति ॥
४२. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पल्योपम लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
४३. उत्कृष्ट अद्धा जाण, ए पिण दौय भवां तणों ।
एक पल्योपम माण, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
४४. अष्टम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
एक पल्योपम लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
४५. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
एक पल्योपम लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
पृथ्वीकाय में ज्योतिषी ऊपजै, तेहनों अधिकार^१
४६. *जो जोतिषी सुर थकी, ऊपजै पुढवी मांही जी ।
तो स्यूं चंद्र विमाण थी, जाव तारा थी आयो जी ?
४७. जिन कहै चंद्र विमाण थी, यावत तार विमाणो जी ।
जोतिषी सुर थी ऊपजै, पुढवी में पहिछाणो जी ॥
४८. जोतिषी देवा हे प्रभु ! पुढवीकाय विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, ते कितै काल स्थितिके ऊपजेहो जी ?
४९. परिमाणादिक जे लद्धी, जिम कही असुर नें लेखो जी ।
कहिंवी तिणहिज रीत सूं, णवरं इतरो विशेषो जी ॥
५०. लेश्या एक तेजू हुवै, तीन ज्ञान नीं ज्यांही जी ।
नियमा तास कहीजियै, समदृष्टी रै मांही जी ॥
५१. नियमा तीन अज्ञान नीं, सुर मिथ्यातो मांही जी ।
असन्नी मर नहिं ऊपजै, ते माटै कहिवाई जी ॥

सोरठा

५२. सन्नी मनु तिर्यंच, उत्पत्ति-समय ईज ते ।
समदृष्टि रै संच, नियमा तसु छै अवधि नीं ॥
५३. सन्नी मनु तिर्यंच, उत्पत्ति-समय ईज ते ।
मिथ्याती रै संच, नियमा तसु छै विभंग नीं ॥
५४. *स्थिति जघन्य पल्योपम तणों, भाग अष्टमो संधो जी ।
उत्कृष्ट पल्य लक्ष वर्ष नीं, इतरोइज अनुबंधो जी ॥

सोरठा

५५. भाग अष्टमो ईज, समुदायज उपचार थी ।
अवयव विषे कहीज, तारक सुर सुरी आश्रयी ॥

*लय : कर जोड़ी आगल रह

१. देखें परि. २, यंत्र ४१

११४ भगवती जोड़

४६. जइ जोइसियदेवेहितो उववज्जंति—कि चंद्रविमाण-
जोइसियदेवेहितो उववज्जंति जाव ताराविमाण-
जोइसियदेवेहितो ?
४७. गोयमा ! चंद्रविमाण जाव ताराविमाण ।
(श० २४।२१४)
४८. जोइसियदेवे णं भंते ! जे भविए पुढविककाइएसु
उववज्जित्तए ?
४९. लद्धी जहा असुरकुमारारणं, नवरं—
५०. एगा तेउलेस्सा पणत्ता । तिण्णि नाणा,
५१. तिण्णि अण्णाणा नियमं ।

५२, ५३. 'तिन्नि नाणा तिन्नि अण्णाणा नियमं' ति इहा-
सन्नी नोत्पद्यते सञ्ज्ञानस्तूत्पत्तिसमय एव सम्यग्-
दृष्टेस्त्रीणि ज्ञानानि मत्यादीनि इतरस्य त्वज्ञानानि
मत्यज्ञानादीनि भवन्तीति, (वृ० प० ८३२)

५४. ठिती जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं
पलिओवमं वाससयसहस्समन्भहियं । एवं अणुबंधो
वि ।

५५. 'अट्टभागपलिओवमं' ति अष्टमो भागोऽष्टभागः स
एवावयवे समुदायोपचारादष्टभागपल्योपमं, इदं च
तारकदेवदेवीराश्रित्योक्तम्, 'उक्कोसेणं पलिओवमं
वाससयसहस्समन्भहियं' ति इदं च चन्द्रविमान-
देवानाश्रित्योक्तमिति, । (वृ० प० ८३२)

कायसंवेद्य विषे ओघिक नं ओघिक

५६. *काल आश्रयी जघन्य थी, पल्य नों अष्टम भागो जी ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बे भव अद्धा मागो जी ॥
५७. उत्कृष्ट पल्य लक्ष वर्ष ही, चंद्र विमाण नां देवो जी ।
सहस्र वर्ष बावीस महि, इतरो काल सेवेवो जी ॥
५८. इमहिज शेष पिण अठ गमा, भणवा णवरं विशेषो जी ।
सुर स्थिति नें काल आश्रयी, ते कहिवूं करि लेखो जी ॥

सोरठा

५९. द्वितीय तृतीय गमकेह, जघन्य पल्योपम भाग अठ ।
उत्कृष्टो इम लेह, पल्य लक्ष वर्षाधिक ॥

आठ गमा रो कायसंवेद्य

६०. द्वितीये गमे जघन्य, भाग अष्टमो पल्य तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त जन्य, बिहुं भव अद्धा जघन्य स्थिति ॥
६१. उत्कृष्ट अद्धा ताय, पल्योपम लख वर्ष जे ।
चंद्र तणीं अपेक्षाय, अंतर्मुहूर्त्त अधिक महि ॥
६२. तृतीय गमे संवेह, जघन्य अद्धा जे पल्य नों ।
भाग अष्टमो लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
६३. उत्कृष्ट अद्ध जगीस, पल्योपम लख वर्ष जे ।
वर्ष सहस्र बावीस, बिहुं भव नों उत्कृष्ट स्थिति ॥
६४. चउथे गमे संवेह, जघन्य अद्धा जे पल्य नों ।
भाग अष्टमो लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
६५. उत्कृष्ट काल जगीस, भाग अष्टमो पल्य नों ।
वर्ष सहस्र बावीस, ए पुढवी उत्कृष्ट स्थिति ॥
६६. पंचम गमे संवेह, जघन्योत्कृष्टज पल्य नों ।
भाग अष्टमो लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
६७. षष्ठम गम इम माग, जघन्य अनें उत्कृष्ट अद्ध ।
पल्य नों अष्टम भाग, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
६८. सप्तम गमे विमास, जघन्य थकी अद्धा इतो ।
एक पल्य लक्ष वास, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
६९. उत्कृष्ट अद्ध जगीस, एक पल्य नें वर्ष लख ।
वर्ष सहस्र बावीस, अद्धा ए बिहुं भव तणुं ॥
७०. अष्टम गमेज तास, जघन्य अनें उत्कृष्ट अद्ध ।
पल्योपम लख वास, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
७१. नवमे गमे प्रकाश, जघन्य अनें उत्कृष्ट अद्ध ।
एक पल्य लक्ष वास, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥

पृथ्वीकाय में वैमानिक ऊपज

७२. *जो वैमानिक देव थी, पुढवी में उपजंतो जी ।
तो स्युं कल्पवासी थकी, कै कल्पातीत थी हुंतो जी ?

५६. कालादेसेणं जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियं.
५७. उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्सेणं [बावीसाए
वाससहस्सेहि अब्भहियं, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ।
५८. एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियव्वा, नवरं—ठिति
कालादेसं च जाणेज्जा १-९ ।

(श० २४।२।५)

७२. जइ वेमाणियदेवेहितो उववज्जति—कि कप्पोवा-
वेमाणियदेवेहितो ? कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो ?

*लय : कर जोड़ी आगल रहै

७३. जिन कहै कल्पवासी सुरा, वैमानिक उपजंतो जी ।
कल्पातीत विमाणिया, यावत ते नहिं हुंतो जी ॥
७४. जो कल्पवासी सुर ऊपजै, तो स्युं सौधर्म नां वासी जी ।
वैमानिक जाव ऊपजै, कै अच्युत नां विमासी जी ?
७५. जिन कहै वासी सौधर्म नां, वलि ईशाण नां हुंतो जी ।
पिण नहिं सनतकुमार नां, जाव अच्युत नां न उपजंतो जी ।

पृथ्वीकाय में सौधर्मवासी देव ऊपजै, तेहनों अधिकार'

ओधिक नैं ओधिक (१)

७६. सुर सौधर्मक हे प्रभुजी ! पृथ्वीकाय विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, ते कितै काल स्थितिक ऊपजेहो जी ?
७७. इम जिम जोतिषी नों गमो,
दाख्यो तिम कहिवायो जी ।
णवरं सुर स्थिति नैं वली, अनुबन्ध इह विधि थायो जी ॥
७८. सुर स्थिति नैं अनुबन्ध जे, जघन्य थकी अवलोयो जी ।
सोहम्म सुर इक पत्य स्थिति, उत्कृष्ट सागर दोयो जी ॥
७९. काल आश्रयी जघन्य थी, इक पत्य सुर स्थिति माणी जी ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, ए पुढवी स्थिति जाणी जी ॥
८०. उत्कृष्टो अद्धा तसु, सोहम्म सागर दोयो जी ।
वर्ष सहस्र बावीस ही, पुढवी स्थिति अवलोयो जी ॥
८१. सेवै कालज एतलो, करै गति-आगति इतो कालो जी ।
ओधिक न ओधिक गमो, दाख्यो प्रथम दयालो जी ॥
८२. इमज शेष पिण अठ गमा, भणवा णवरं विशेखो जी ।
स्थिति अनै कालादेश छै, ते कहिवूं करि लेखो जी ॥

वा०—इहां स्थिति ते सौधर्म देव नीं जाणवी ते प्रथम तीन गमे जघन्य
एक पत्य उत्कृष्टो बे सागर । अनै विचलै तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट १ पत्य ।
अनै छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २ सागर ।

हिवै काल आश्रयी प्रथम गमो तो पूर्वे कह्योहीज छै, शेष आठ गमा
कहै छै—

सोरठा

८३. द्वितीय गमे संवेह, काल आश्रयी जघन्य थी ।
एक पत्योपम लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
८४. उत्कृष्ट अद्धा जोय, ते पिण बे भव नों तसु ।
सोहम्म सागर दोय, अंतर्मुहूर्त्त अधिक महि ॥
८५. तृतीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥

*लय : कर जोड़ी आगल रहै

देखे परि. २, यंत्र ४२

११६ भगवती जोड़

७३. गोयमा ! कप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो, नो कप्पातीता-
वेमाणियदेवेहिंतो । (श० २४।२१६)
७४. जइ कप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो उववज्जति—कि
सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो जाव अच्चुयकप्पो-
वावेमाणियदेवेहिंतो ?
७५. गोयमा ! सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो ईशाण-
कप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो, नो सणकुमार जाव नो
अच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवेहिंतो । (श० २४।२१७)

७६. सोहम्मदेवे णं भंते ! जे भविए पुढविक्काइएसु
उववज्जत्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु
उववज्जेज्जा ?
७७. एवं जहा जोइसियस्स गमगो, नवरं—

७८. ठिती अणुबंधो य जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं
दो सागरोवमाइं ।
७९. कालादेशेणं जहण्णेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तमब्भहियं,
८०. उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं बावीसाए वाससहस्सेहिं
अब्भहियाइं,
८१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं
करेज्ज्जा ।
८२. एवं सेसा वि अट्ट गमगा भाणियव्वा, नवरं—ठिंति
कालादेसं च जाणेज्जा । (श० २४।२१८)

८६. उत्कृष्ट अद्धा सोय, ते पिण दोग भवां तणीं ।
सोहम्म सागर दोग, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥
८७. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पल्योपम लेह, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
८८. उत्कृष्ट अद्धा लेख, ए पिण दोग भवां तणीं ।
एक पल्योपम पेख, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
८९. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
एक पल्योपम लेह, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
९०. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
एक पल्योपम लेह, वर्ष सहस्र बावीस फुन ॥
९१. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कहिये सागर बेह, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
९२. उत्कृष्ट अद्धा सोय, ए पिण बे भव नों तसु ।
सोहम्म सागर दोग, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥
९३. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्योत्कृष्ट ।
बे सागर तसु लेह, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक महि ॥
९४. नवम गमे संवेह, बे भव अद्ध जघन्योत्कृष्ट ।
सोहम्म सागर बेह, वर्ष सहस्र बावीस महि ॥

पृथ्वीकाय में ईशानवासी देव ऊपजं, तेहनों अधिकार^१—

९५. हे प्रभु ! देव ईशाण जे, पुढवीकाय विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, इत्यादिक इम लेहो जी ॥
९६. सुर ईशाण नां पिण बली, इमहिज नव गम भणवा जी ।
णवरं सुर स्थिति नें बली, अनुबन्ध इम थुणवा जी ॥
९७. जघन्य पल्य जाभी कही, उत्कृष्ट स्थिति अनुबन्धो जी ।
साधिक बे सागर तणीं, शेष तिमज सह संघो जी ॥
- पृथ्वीकाय में पांच स्थावर ऊपजं, तेह में नाणत्ता

सोरठा

९८. पृथ्वी पृथ्वी मांय, जावै तसु जघन्य गमे ।
च्यार णाणत्ता पाय, प्रथम तीन लेश्या हुईं ॥
९९. जघन्य स्थिति अनुबन्ध, माठा अद्यवसाय तसु ।
उत्कृष्ट गमेज संघ, स्थिति अनुबन्ध बे णाणत्ता ॥
१००. अप पुढवी में आय, तेहनां पिण जघन्ये गमे ।
च्यार णाणत्ता पाय, उत्कृष्ट गम बे णाणत्ता ॥
१०१. तेऊ पृथ्वी मांय, आवै तसु जघन्ये गमे ।
तीन णाणत्ता पाय, लेश्या नों कहिये नथी ॥
१०२. वायु पृथ्वी मांय, आवै तसु जघन्ये गमे ।
च्यार णाणत्ता पाय, समुद्घात वैक्रिय बध्यो ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ४३

*लय : कर जोड़ी आगल रही

९५. ईसाणदेवे णं भंते ! जे भविए ?

९६. एवं ईसाणदेवेण वि नव गमगा भाणियव्वा, नवरं—

९७. ठिती अणुबंधो जहण्णेणं सातिरेणं पलिओवमं,
उक्कोसेणं सातिरेगाई दो सागरोवमाईं । सेसं तं
चेव १-९ । (श० २४।२।१९)

१०३. वलि पृथ्वी रै मांय, वनस्पति आवै तसु ।
पंच णाणत्ता पाय, अवगाहन नों पंचमो ॥

पृथ्वीकाय में विकलेन्द्रिय ऊपजै, तेहमें नाणत्ता

१०४. वलि पृथ्वी रै मांय, विकलेन्द्रिय आवै तसु ।
जघन्य गमे कहाय, सात णाणत्ता तेहनां ॥

१०५. जघन्योत्कृष्ट अवगाह, असंख भाग आंगुल तणों ।
मिथ्यादृष्टिज पाय, ज्ञान नथी ए तीसरो ॥

१०६. जोग काया नों एक, आयु नै अनुबन्ध फुन ।
अन्तर्मुहूर्त्तज पेख, माठा अध्यवसाय ह्वै ॥

पृथ्वीकाय में तिर्यंच पंचेन्द्रिय ऊपजै, तेहमें नाणत्ता

१०७. वलि पृथ्वी में आय, असन्नी पंचेन्द्रिय तिरि ।
सात णाणत्ता पाय, जघन्य गम विकलेन्द्रीवत ॥

१०८. पृथ्वी मांहै पेख, सन्नी तिरि आवै तसु ।
जघन्य गमे विशेष, कहिये छै नव णाणत्ता ॥

१०९. अवगाहना जघन्य, लेश तीन पहलीज ह्वै ।
मिथ्यादृष्टिज जन्य, ज्ञान तास पावै नहीं ॥

११०. समुद्घात त्रिण संघ, योग एक काया तणों ।
जघन्यायु अनुबन्ध, माठा अध्यवसाय ह्वै ॥

१११. सहु पृथ्वी रै मांय, आवै तसु उत्कृष्ट गम ।
दोय णाणत्ता पाय, आयु नै अनुबन्ध नां ॥

पृथ्वीकाय में मनुष्य ऊपजै, तेहमें नाणत्ता

११२. वलि पृथ्वी में जात, असन्नी मनु षट भंगा नथी ।
ओधिक त्रिण गम ख्यात, नत्थि णाणत्ता तेहनां ॥

११३. वलि पृथ्वी रै मांय, सन्नी मनु जावै तसु ।
जघन्य गमे कहाय, कहिये छै नव णाणत्ता ॥

११४. जघन्योत्कृष्ट अवगाह, असंख भाग आंगुल तणों ।
प्रथम लेश त्रिहुं पाह, दृष्टि मिथ्या त्रिहुं ज्ञान नहीं ॥

११५. काय योग इक संघ, समुद्घात धुर त्रिहुं हुवै ।
जघन्य स्थिति अनुबन्ध, माठा अध्यवसाय तसु ॥

११६. उत्कृष्ट गमे कहाय, तीन णाणत्ता तेहनां ।
अवगाहन नों पाय, जेष्ठ स्थिति अनुबन्ध फुन ॥

पृथ्वीकाय में देव ऊपजै, तेहमें नाणत्ता

११७. भवनपति दश देख, सोल जाति नां व्यंतरा ।
पंच जोतिषी पेख, सुर सोहम्म ईशाण नां ॥

११८. ए पुढवी में आय, जघन्य गमे बे णाणत्ता ।
स्थिति अनुबन्ध कहाय, उत्कृष्ट गम तेहीज बे ॥

पृथ्वीकाय में पांच स्थावर ऊपजै, तेहनां भव

११९. पृथ्वी पृथ्वी मांहि, अप तेऊ वाऊ वली ।
वनस्पति वली ताहि, एह ठिकाणा पंच नों ॥

११८ भगवती जोड़

१२०. आवे पृथ्वी मांय, प्रथम द्वितीय तुर्यं पंचमे ।
जघन्य दोग भव थाय, उत्कृष्ट भव अद्धा असंख ॥
१२१. ए चिउं गमे विचार, समय-समय जे ऊपजै ।
असंख्यात अवधार, शेष गमा हिव पंच कहूं ॥
१२२. तीजे छठे जोय, सप्तम अष्टम नवम गम ।
जघन्य थकी भव दोग, उत्कृष्ट भव अष्ट तसु ॥
१२३. ए गम पंच कथीन, ऊपजतो पृथ्वी विषे ।
जघन्य एक बे तीन, उत्कृष्ट असंख्याता ह्वै ॥

पृथ्वीकाय में तीन विकलेंद्रिय ऊपजै, तेहनां भव

१२४. त्रिण विकलेंद्रिय ताहि, एह ठिकाणा तीन रो ।
ऊपजै पृथ्वी मांहि, तसु भव लेखो सांभलो ॥
१२५. प्रथम द्वितीय गम जोय, फुन गम चउथे पंचमे ।
जघन्य थकी भव दोग, उत्कृष्ट भव अद्धा संख्या ॥
१२६. तीजे षष्ठम तेह, सप्तम अष्टम नवम गम ।
भव गम पंच विषेह, जघन्य दोग उत्कृष्ट अठ ॥

पृथ्वीकाय में तिर्यंच पंचेंद्रिय अने मनुष्य ऊपजै, तेहनां भव

१२७. फुन असन्नी तिर्यंच, सन्नी तिरि सन्नी मनुष्य ।
तीन स्थान नों संच, उपजै पृथ्वी नें विषे ॥
१२८. गमे नवू ही इष्ट, जघन्य थकी भव दोग तसु ।
हुवै अष्ट उत्कृष्ट, किणही गम नहिं ह्वै अधिक ॥
१२९. पुढवी में उपजंत, असन्नी मनु षट गम नथी ।
ओधिक त्रिण गम हुंत, जघन्य दोग भव जेष्ठ अठ ॥

पृथ्वीकाय में देव ऊपजै, तेहनां भव

१३०. भवणपति दश जाण, व्यंतर नें वलि जोतिषी ।
सोहम्म नें ईशाण, ए सुर चवद ठिकाण रा ॥
१३१. पृथ्वी में उपजेह, तेह नवू ही गम विषे ।
जघन्य थकी भव बेह, उत्कृष्ट पिण भव दोग ह्वै ॥
१३२. स्थावर पंच सुपेख, विकलेंद्रिय असन्नी तिरि ।
सन्नी तिर्यंच देख, असन्नी मनु सन्नी मनुष्य ॥
१३३. भवणपति दश जाण, वाणव्यंतर नें जोतिषी ।
सोहम्म नें ईशाण, ए षटवीस ठिकाण रा ॥
१३४. पृथ्वी में उपजेह, कह्या णाणत्ता भव तसु ।
नव गम कायसंवेह, ते पूर्वे आख्याज छे ॥

१३५. *सेवं भंते ! इम कही, जाव गोयम विचरंता जी ।
संजम तप करि स्वाम जी, आतम प्रति भावंता जी ॥
१३६. चउवीसम नों बारमों, ढाल च्यार सय तेवीसो जी ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी,
'जय-जश' हरष जगीसो जी ॥

१३५. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ।

(श० २४।२२०)

चतुर्विंशतितमशते द्वादशोद्देशकार्थः ॥२४॥१२॥

*सय : कर जोडी आगल रहो

ढूहा

१. नडस्कार श्रुत देव नैं, श्रुतकर्ता सुखदाय ।
गणधर धुर चारित्र गुणी, नडण तास सिर नाय ॥
अपकाय में पृथ्वीकाय ऀपजैं, तेहनों अधिकार'
२. अपकायिक डगवंत जी ! किहां थकी ऀपजेह ।
इड जिड पृथ्वीकाय नों, कह्यो उद्देशक तेह ॥
३. तिण विधि कहिवो छैं इहां, यावत पृथ्वीकाय ।
ते ऀपजवा जोग्य प्रभु ! अपकायिक रैं मांय ॥
४. ते प्रभु ! कितरा काल नों, स्थितिक विषे ऀपजेह ?
प्रश्न एड पूछे थके, जिन उत्तर इड देह ॥
५. अंतर्डूहर्त जघन्य थी, फुन उत्कृष्ठी लेह ।
सप्त सहस्र जे वर्ष नों, स्थितिक विषे उपजेह ॥
६. इड डहि उद्देशक सदृश, डणवो णवरं स्थित ।
फुन संवेधज जाणवो, शेष तिमज कथित ॥
७. स्थिति अनैं संवेध फुन, नव ही गडा विषेह ।
यथायोग्य ते जाणवूं, उपयोगे करि लेह ॥
नवूं ही गडे पृथ्वी अप में ऀपजैं, तेहनों कायसंवेध
८. प्रथड द्वितीय तुर्य पंचडे, ए चिउं गड डव दोय ।
अद्धा अंतर्डूहर्त डे, जघन्य थकी अवलोय ॥
९. ए चिउं गड उत्कृष्ट थो, असंख्यात डव ख्यात ।
अद्धा काल असंख ही, गति-आगति सजात ॥

सोरठा

१०. तृतीय गडे संवेह, डे डव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्डूहर्त लेह, सप्त सहस्र वर्ष अप स्थिति ॥
११. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट डवां नों इह विघे ।
सहस्र अठचासी वास, वर्ष सहस्र अठवीस अप ॥
१२. षष्ठड गड संवेह, डे डव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्डूहर्त लेह, सप्त सहस्र वर्ष अप स्थिति ॥
१३. उत्कृष्ट अद्धा धार, अष्ट डवां नों आखियो ।
अंतर्डूहर्त च्यार, वर्ष सहस्र अठवीस अप ॥
१४. सप्तड गडे जगीस, डे डव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, अंतर्डूहर्त अप स्थिति ॥
१५. उत्कृष्ट अद्ध विडडड, अष्ट डवां नों आखियो ।
सहस्र अठचासी वास, वर्ष सहस्र अठवीस अप ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ४४-६१

१२० डगवती जोड़

२. आउक्काइया णं डंते ! कओहितो उववज्जति ?
एवं जहेव पुढविककाइयउद्देसए
३. जाव— (श० २४।२२१)
पुढविककाइए णं डंते ! जे डविए आउक्काइएसु
उववज्जित्तए,
४. से णं डंते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
५. गीयडा ! जहण्णेणं अंतोडुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं
सत्तवाससहस्रद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।
६. एवं पुढविककाइयउद्देसगसरिसो डणियव्वो, नवरं—
ठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तहेव ।
(श० २४।२२२)

१६. अष्टम गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, अंतर्मुहूर्त्त अप स्थिति ॥
१७. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
सहस्र अठघासी वास, अंतर्मुहूर्त्त च्यार अप ॥
१८. नवमे गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, सप्त सहस्र अप भव स्थिति ॥
१९. उत्कृष्ट अद्ध विमास, ए पिण अष्ट भवां तणों ।
सहस्र अठघासी वास, वर्ष सहस्र अठवीस अप ॥

वा०—शेष विस्तार जिम पृथ्वी नें विषे २६ ठिकानां नां ऊपजै तेहनां
णाणत्ता लब्धि प्रमुखा कह्या, तिमहिज अप नें विषे २६ ठिकाणां नां ऊपजै,
तेह में परिमाणदिक लद्धी णाणत्ता कहिवा । अनें कायसंवेध सर्वं नों विचारी
कहिवा ।

दूहा

२०. सेवं भंते ! हे प्रभु ! इम कही गोतम स्वाम ।
शत चउवीसम नों अर्थ, त्रयोदशम अभिराम ॥
चतुर्विंशतितमशते त्रयोदशोद्देशकार्थः ॥२४॥२३॥
तेउकाय में १२ ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

*जय जय ज्ञान जिनेंद्र नों ॥ (ध्रुपदं)

२१. तेऊकाइया हे प्रभु ! किहां थकी ऊपजंतो जी ?
प्रश्न इत्यादिक पूछिया, भाख्या श्री भगवंतो जी ॥
२२. इम जे पृथ्वीकाय नों, दाख्यो प्रवर उद्देशो जी ।
तेह सरिखो उद्देशको, भणवो ए सुविशेषो जी ॥
२३. णवरं स्थिति तथा वली, संवेध प्रति जाणेहो जी ।
देव तेऊ में न ऊपजै, तिमहिज शेष कहेहो जी ॥

वा०—इहां स्थिति तेऊकाय नीं १,४,७ गमे जघन्य अंतर्मुहूर्त्त, उत्कृष्टा
तीन अहोरात्रि । २,५,८ गमे जघन्य-उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त्त । ३,६,९ गमे जघन्य-
उत्कृष्ट ३ अहोरात्रि । भव, स्थिति अनें कायसंवेध उपयोगे करी विचारी
कहिवा ।

सोरठा

२४. तेऊ मांहै ताहि, आवै बार ठिकाण नां ।
सुरवर आवै नांहि, तेह तणां चवदै टल्या ॥
२५. आवै स्थावर पंच, फुन विकलेंद्रिय तीन जे ।
असन्नी सन्नी तिर्यंच, असन्नी मनु सन्नी मनुष्य ॥
२६. तेऊ मांहै ताम, पृथ्वी आवै तेहनां ।
च्यार णाणत्ता पाम, मध्यम जघन्य त्रिहुं गमे ॥
२७. अप तेऊ में आय, तेहनां पिण चिउ णाणत्ता ।
तेऊ तेऊ मांय, आवै तसु त्रिण णाणत्ता ॥

*लय : धर्म बलाली चित्त करं

१. देखे परि., यंत्र ४४-५५

२०. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४॥२३)

२१. तेउक्काइया णं भंते ! कओंहितो उववज्जंति ?

२२. एवं पुढविककाइयउद्देशगसरिसो उद्देशो भाणियब्बो,
२३. नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा । देवेहितो न
उववज्जंति । सैसं तं चेव । (श० १२४)

२४. देवेभ्य उद्वृत्तास्तेजस्कायिकेषु नोत्पद्यन्ते
(वृ० प० ८३३)

२८. वलि तेऊ रै मांय, वायू आवै तेहनां ।
च्यार णाणत्ता पाय, वनस्पति नां पंच फुन ॥
२९. फुन तेऊ रै मांय, विकलेंद्रिय आवै तसु ।
सात-सात कहिवाय, पूर्ववत ते णाणत्ता ॥
३०. वलि तेऊ रै मांय, असन्नी तिरि आवै तसु ।
सात णाणत्ता पाय, ते पिण पूर्वली परै ॥
३१. फुन तेऊ में ताम, सन्नी तिरि सन्नी मनुष्य ।
आवै तेहनां पाम, पूर्ववत नव णाणत्ता ॥
३२. उत्कृष्ट गम अवलोय, सप्तम अष्टम नवम गम ।
पृथ्वी नीं पर जोय, कहियै एहनां णाणत्ता ॥
३३. वलि तेऊ रै मांहि, आवै छै असन्नी मनुष्य ।
तास णाणत्ता नांहि, जघन्य गमेज ते भणी ॥
३४. तेऊ मांहै ताम, पंच स्थावर आवै तसु ।
प्रथम द्वितीय गम आम, फुन चउथे नैं पांचमे ॥
३५. जघन्य थकी भव दोय, असंख्यात उत्कृष्ट भव ।
समय-समय अवलोय, असंख्यात ते ऊपजै ॥
३६. शेष पंच गम पेख, जघन्य थकी भव दोय ह्वै ।
उत्कृष्टा अठ लेख, पंच स्थावर उपजै तसु ॥
३७. जघन्य एक बे तीन, उत्कृष्ट असंख्या ऊपजै ।
एक समय में चीन, शेष पंच गम नैं विषे ।
३८. वलि तेऊ रै ताम, त्रिण विकलेंद्रिय जावै तसु ।
प्रथम द्वितीय गम आम, वलि चउथे नैं पांचमे ॥
३९. जघन्य थकी भव दोय, उत्कृष्टा संख्यात भव ।
शेष पंच गम जोय, जघन्य दोय उत्कृष्ट अठ ॥
४०. वलि तेऊ रै मांहि, असन्नी पं. तिरि ऊपजै ।
सन्नी पं. तिरि ताहि, उपजै तेऊ नैं विषे ॥
४१. नव ही गमे निहाल, जघन्य थकी भव दोय ह्वै ।
उत्कृष्टा अठ भाल, अधिक नहीं किणही गमे ॥
४२. जुओ-जुओ संवेह, कहिवो तेह विचार नैं ।
संघयणादिक जेह, लाभै तेहिज लीजियै ॥
४३. वलि तेऊ रै मांहि, असन्नी मनुष्यज ऊपजै ।
ओधिक त्रिण गम ताहि, भव बे पिण अधिका नथी ॥
४४. असन्नी मनु नीं जाण, ओधिक त्रिण गम में स्थिति ।
अंतर्मुहूर्त्ता माण, कायसंवेध हिवै कहूं ॥
४५. प्रथम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य स्थिति ।
अंतर्मुहूर्त्ता बेह, तेऊ मरि न हुवै मनुष्य ॥
४६. उत्कृष्ट अद्धा ख्यात, दोय भवां नों इह विधे ।
तीन दिवस नैं रात, अंतर्मुहूर्त्ता अधिक ही ॥
४७. द्वितीय गमे संवेह, जघन्य अनैं उत्कृष्ट अद्ध ।
अंतर्मुहूर्त्ता बेह, दोय भवां नों जाणवो ॥

४८. तीजे गमे संवेह, तीन दिवस नें रात्रि फुन ।
अंतर्मुहूर्त्ता जेह, जघन्योत्कृष्ट बे भव अद्धा ॥
४९. वलि तेऊ में इष्ट, सन्नी मनुष्यज ऊपजै ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट, बे भव पिण अधिका नथी ॥
५०. स्थिति मनुष्य नीं जाण, धुर त्रिण गमके जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्ता माण, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नीं ॥
५१. मभ्रम त्रिण गम मांय, अंतर्मुहूर्त्ता जघन्य जिट्ट ।
अंतिम त्रिण गम पाय, पूर्व कोड़ जघन्योत्कृष्ट ॥
५२. नव ही गम उपजेह, संख्याता उत्कृष्ट थी ।
पिण तसु कायसंवेह, कहिवो सर्वं विचार नें ॥
५३. सूत्रे तेऊ हेर, पृथ्वी नीं पर आखियो ।
स्थिति संवेधे फेर, फुन सुर नहिं उपजै कह्यो ॥
५४. पिण पृथ्वी में जोय, मनुष्य ऊपजै तेहनां ।
जघन्य थकी भव दौय, उत्कृष्टा भव अठ कह्या ॥
५५. इहां तेऊ रै मांय, मनुष्य ऊपजै तेहनां ।
बे भव ईज कहाय, पिण अधिका हुवै नथी ॥
५६. तेउ वाउ में ताम, मनुष्य विषे ऊपजै नथी ।
सूत्र विषे बहु ठाम, तिणसू तेहनां दौय भव ॥
५७. मनु तेऊ में आय, मनु पुढवी जिम आखियो ।
लद्धी आश्री ताय, पिण भव आश्री न संभवै ॥

५८. *सेवं भंते ! स्वामजी, जाव गोयम विचरंतो जी ।
चउवीसम नों चवदमो, अर्थ थकी ए तंतो जी ॥
चतुर्विंशतितमशते चतुर्दशोद्देशकार्थः ॥२४।१४॥

वायुकाय में १२ ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

५९. *वाउकाइया हे प्रभु ! किहां थकी ऊपजेहो जी ?
इम जिम तेऊ नों कह्यो, प्रवर उद्देशो तेहो जी ॥
६०. तिमहिज कहिवो वायु तणों, णवरं स्थिति संवेहो जी ।
उपयोगे करि जाणवो, सेवं भंते ! सत्य एहो जी ॥

सोरठा

६१. आवं तेऊ मांय, तेहिज वायु नें विषे ।
फुन भव णाणत्ता पाय, तेऊ नीं पर जाणवा ॥

चतुर्विंशतितमशते पंचदशोद्देशकार्थः ॥२४।१५॥

वनस्पतिकाय में २६ ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनों अधिकार^२

६२. *प्रभु ! वनस्पतिकाइया, किहां थकी ऊपजेहो जी ?
एवं पृथ्वी सारिखो, उद्देशक पभणेहो जी ॥

*ज्ञय : धर्म दलाली चित्त करे

१. देखें परि. २, यंत्र ४४-५५

२. देखें परि. २, यंत्र ४४-६१

५८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ।

(श० २४।२२५)

५९. वाउकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ? एवं
जहेव तेउक्काइयउद्देशओ,

६०. तहेव, नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।

(श० २३।२२६)

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।२२७)

६२. वणस्सइकाइया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति ?
एवं पुढविकाइयसरिसो उद्देशो,

६३. णवरं इतरो विशेष छै, वणस्सइ जीव जिवारै जी ।
वनस्पतिकायिक विषे, उपजै तेह तिवारै जी ॥
६४. प्रथम द्वितीय तुर्य पंचमे, ए च्चिउं गमक विषेहो जी ।
एक समय मांहि ऊपजै, तसु परिमाण कहेहो जी ॥
६५. समय-समय प्रति च्चिउं गमे, विरह-रहित विसरालो जी ।
जीव अनंता ऊपजै, ए स्वकाय थी न्हालो जी ॥

सोरठा

६६. वनस्पति थी जोय, नीकलवो छै अनंत नों ।
अन्य काय थी सोय, अनंत जीव नहि नीकलै ॥
६७. शेष काय जे पंच, पृथ्वी अप तेऊ पवन ।
वलि त्रस विषेज संच, सर्व असंख्याताज छै ॥
६८. वनस्पति रै मांहि, ऊपजवो छै अनंत नों ।
अन्य काय में ताहि, जीव अनंत न ऊपजै ॥
६९. पृथ्वी अप रै मांय, तेऊ वाऊ त्रस विषे ।
जीव अनंत न पाय, तिणसू अनंत न ऊपजै ॥
७०. प्रथम द्वितीय गम मांय, तुर्य पंचमा गम विषे ।
उत्कृष्ट स्थिति न पाय, एहवू आख्यू वृत्ति में ॥
७१. तिण कारण उत्कृष्ट, भवादेश करि अनंत भव ।
भव काल आश्रयी इष्ट, काल उत्कृष्ट अनंत थी ॥
७२. *भवादेश करि जघन्य थी, बे भव ग्रहण करेहो जी ।
उत्कृष्टा भव अनंत ही, च्यारू गमक विषेहो जी ॥
७३. काल आश्रयी जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त्त दोयो जी ।
उत्कृष्ट काल अनंत ही, एह गतागति होयो जी ॥
७४. शेष तीजो छठो सातमो, अष्टम नवम गमेहो जी ।
तिमहिज अठ भव ग्रहण छै, उत्कृष्ट स्थितिकपणेहो जी ॥
७५. णवरं इतरो विशेष छै, स्थिति अनं संवेहो जी ।
उपयोगे करि जाणवो, तास न्याय इम लेहो जी ॥

सोरठा

७६. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट, सहु गम विषे प्रसिद्ध छै ।
फुन संवेधज इष्ट, ते इम पंच गमा विषे ॥
७७. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, वर्ष सहस्र दश स्थिति वली ॥
७८. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
सहस्र असी जे वास, इक-इक भव दश सहस्र वर्ष ॥
७९. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, वर्ष सहस्र दश जाणवू ॥
८०. उत्कृष्ट अद्ध प्रकार, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, वर्ष सहस्र चालीस फुन ॥

६३. नवरं—जाहे वणस्सइकाइओ वणस्सइकाइएसु
उववज्जति ताहे
६४. पढम-बितिय-चउत्थ-पंचमेसु गमएसु परिमाण
६५. अणुसमयं अविरहियं अणंता उववज्जंति

६६. अनेन वनस्पतेरेवानन्तानामुद्वृत्तिरस्ति नान्यत
इत्यावेदितं, (वृ० प० ८३३)
६७. शेषाणां हि समस्तानामप्यसङ्घातत्वात्,
(वृ० प० ८३३)
- ६८, ६९. तथाऽनन्तानामुत्पादो वनस्पतिष्वेव कायान्तर-
स्यानन्तानामभाजनत्वादित्यप्यावेदितं, (वृ० प० ८३३)
- ७०, ७१. इह च प्रथमद्वितीयचतुर्थपञ्चमगमेष्वनुत्कृष्ट-
स्थितिभावादनन्ता उत्पद्यन्त इत्यभिधीयते,
(वृ० प० ८३३)
७२. भवादेशेण जहण्णेणं दो भवगगहणाइं, उक्कोसेणं
अणंताइं भवगगहणाइं ।
७३. कालादेशेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं अणंतं
कालं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
७४. सेसा पंच गमा अट्टभवगगहणिया तहेव,
७५. नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा । (श० २४।२२८)

७६. तत्र स्थितिर्जघन्योत्कृष्टा च सर्वेष्वपि गमेषु प्रतीतिव,
(वृ० प० ८३३)
७७. संवेधस्तु तृतीयसप्तमयोर्जघन्येन दशवर्षसहस्राण्यन्त-
र्मुहूर्त्ताधिकानि (वृ० प० ८३३)
७८. उत्कर्षतस्त्वष्टासु भवग्रहणेषु दशसाहस्र्याः प्रत्येकं
भावादशीतिवर्षसहस्राणि, (वृ० प० ८३३)
७९. षष्ठाष्टमयोस्तु जघन्येन दशवर्षसहस्राण्यन्तर्मुहूर्त्ताधि-
कानि, (वृ० प० ८३३)
८०. उत्कृष्टतस्तु चत्वारिंशद्वर्षसहस्राण्यन्तर्मुहूर्त्तचतुष्टया-
भ्यधिकानि, (वृ० प० ८३३)

*लय : धर्म दलाली चित्त करे

१२४ भगवती जोड़

८१. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
८२. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
असी हजारज वास, ए तृतीय गमा तुल्य सप्तमो ॥
८३. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
८४. उत्कृष्ट अठ भव धार, वर्ष सहस्र चालीस जे ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, षष्ठम तुल्य सम अष्टमो ॥
८५. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वीस सहस्र बरसेह, बिहुं भव नों उत्कृष्ट स्थिति ॥
८६. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवे उत्कृष्ट स्थिति ।
असी सहस्र जे वास, इक-इक भव दश सहस्र वर्ष ॥
८७. जे षटवीस ठिकाण, तेहथी वनस्पति विषे ।
ऊपजता नें जाण, पुढवी नीं पर णाणत्ता ॥
८८. *सेवं भंते ! स्वाम जी, शत चउवीसम जाणी जी ।
सोलम उद्देशक तणों, वारु रीत बखाणी जी ॥

चतुर्विंशतितमशते षोडशोद्देशकार्थः ॥२४॥१६॥

सोरठा

८९. अप्प वणस्सइ मभार, उपजै स्थान छवीस नों ।
तास णाणत्ता धार, पृथ्वी नीं पर जाणजो ॥
९०. तेऊ वाऊ मांय, उपजै द्वादश स्थान नों ।
तास णाणत्ता पाय, पुढवी नीं पर जाणवा ॥

बेइन्द्रिय में १२ ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनों अधिकार'

९१. *बेइन्द्रिया भगवंत जी ! किहां थकी ऊपजंतो जी ?
इत्यादिक यावत वलि, पूछै गोयम संतो जी ॥
९२. पुढवीकायिक हे प्रभु ! बेइन्द्रिय नें विषेहो जी ।
जे ऊपजवा जोग्य छै, ते कितै काल स्थितिक ऊपजेहो जी ?

वा०—'बेइन्द्रिया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? जाव पुढवीकाइए णं भंते ! जे भविए बेइन्द्रिएसु उववज्जित्तए इत्यादिक इहां पूछथो—बेइन्द्रिय भगवान ! किहां थकी ऊपजै ? पछै जाव पुढवीकाइए णं भंते ! जे भविए इति । इहां जाव शब्द में किसा पाठ आया ? उत्तर—जे पृथ्वीकाय नें विषे ऊपजै तेहनों पूछा । उत्तर नां पाठ कहिवा ।

जब कोई पूछै पृथ्वी नें विषे देवता पिण ऊपजै छै अनं बेइन्द्रिय नें विषे देवता ऊपजता नथी तो ए पृथ्वी में ऊपजै जे पाठ जाव शब्द में इहां किम आवै ? तेहनों उत्तर—पृथ्वीकाय नां प्रश्नोत्तर में इम कह्यो—पृथ्वीकाय भगवान किहां थकी ऊपजै ? स्थूं नारकी थकी ऊपजै, कै तिर्यंच, मनुष्य, देव थकी ऊपजै ? गोतम ! नारक थकी न ऊपजै । तिर्यंच, मनुष्य, देव थकी ऊपजै,

*लय : धर्म दलाली चित करं

१. देखें परि. २, यन्त्र ६२-७३

८५, ८६. नवमे तु जघन्यतो विंशतिवर्षसहस्राणि
उत्कर्षतस्त्वशीतिरिति । (वृ० प० ८३३)

८८. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।२२९)

९१. बेइन्द्रिया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ? जाव—
(श० २४।२३०)

९२. पुढविकाइए णं भंते ! जे भविए बेइन्द्रिएसु उव-
वज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उव-
वज्जेज्जा ?

जो तिर्यच थकी ऊपजै तो स्पूं एकेंद्रिय तिर्यच थकी ऊपजै ? 'एवं जहा वक्कंतीए' इम जिम पन्नवणा नां व्युत्क्रांत छठा पद (सू० ८२-८५) नै विषे उपपात कह्युं तिम कहिवूं ।

पृथ्वीकाय नै विषे उपपात पन्नवणा नां छठा पद नै विषे कह्यो ते भलायो । तिम इहां पिण बेइन्द्रिय विषे उपपात छठा पद (सू० ८६) नै विषे कह्यो ते जाणवो । छठा पद नै विषे पृथ्वी में देवता ऊपजै इम कह्युं । अनै बेइन्द्रिय नै विषे देव न ऊपजै इम छठे पद कह्युं । ते माटे इहां जाव शब्द में विरोध नथी ।' (ज०स०)

९३. पृथ्वीकायिक जीव नै, पृथ्वीकाय विषेहो जी ।
ऊपजता नै लब्धि जे, पूर्वे भाखी जेहो जी ॥
९४. बेइन्द्रिय नै विषे जिका, पृथ्वीकायिक ताह्यो जी ।
ऊपजता नै बोल नीं, लब्धि सर्व ही पायो जी ॥
९५. यावत घुर गम काल थी, जघन्य अंतर्मुहूर्त दियो जी ।
उत्कृष्ट अद्धा भव संख्या, इतो काल गतागति होयो जी ॥
९६. इम घुर द्वितीय गमा विषे, तुर्य पंचमे संवेहो जी ।
जघन्य बे अंतर्मुहूर्त ही, उत्कृष्ट काल संखेहो जी ॥
९७. शेष तीजो छठो सातमो, अष्टम नवम संवेहो जी ।
तिमज जघन्य भव दियो छै, उत्कृष्ट भव अठ लेहो जी ॥

सोरठा

९८. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त जेह, बार वर्ष बेइन्द्रिय ॥
९९. उत्कृष्ट काल विमास, आठ भवां नों इह विधे ।
सहस्र अठचासी वास, वर्ष अष्ट चालीस फुन ॥
१००. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त जेह, द्वादश वर्षज द्वीन्द्रिये ॥
१०१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त च्यार, वर्ष अष्टचालीस फुन ॥
१०२. सप्तम गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, अंतर्मुहूर्त अधिक फुन ॥
१०३. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
सहस्र अठचासी वास, वर्ष अष्ट चालीस फुन ॥
१०४. अष्टम गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, अंतर्मुहूर्त अधिक ही ॥
१०५. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
सहस्र अठचासी वास, अंतर्मुहूर्त अधिक चिहुं ॥
१०६. नवमे गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, वर्ष बारै अधिक वली ॥

*लय : धर्म बलाली चित्त करे

१२६ भगवती जोड़

९३. सच्चेव पुढविकाइयस्स लद्धी

९५. जाव कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहत्ता, उक्कोसेणं संखेज्जाइं भवग्गहणाइं—एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ।

९६. एवं तेसु चैव चउसु गमएसु संवेहो,

९७. सेसेसु, पंचसु तहेव अट्ट भवा ।

१०७. उत्कृष्ट अद्वा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
सहस्र अठ्यासी वास, वर्ष अष्ट चालीस फुन ॥

१०८. *इम जाव चउरिद्री संघात ही, चिउं गम भव संखेहो जी ।
शेष पांचूइ गमा विषे, उत्कृष्ट अठ भव लेहो जी ॥

सोरठा

१०९. पृथ्वी सात संवेह, आख्यो बेइन्द्रिय तणों ।
इम अप साथ कहेह, तेज संघाते पिण इमज ॥

११०. वायु वणस्सइ साष, बे ते चउरिद्री तणें ।
कहिवो एह संघात, संवेध बेइन्द्रिय तणों ॥

१११. चिउं गम विषेज लेह, उत्कृष्टा संख्यात भव ।
फुन गम पंच विषेह, भव उत्कृष्ट थकीज अठ ॥

११२. काल आश्रयी जेह, जिका स्थिति छे जेहनी ।
संयोजवै करि तेह, कायसंवेधज जाणवो ॥

११३. *पंचेंद्रिय तिरियोनिका, फुन मनु योनि संघातो जी ।
बेइन्द्रिय में जातो थको, तिमज अष्ट भव ख्यातो जी ॥

सोरठा

११४. तिरि पं. मनु कहेह, जातो बेइन्द्रिय विषे ।
नवू ही गमा विषेह, उत्कृष्टा भव अष्ट ह्वै ॥

११५. *स्थिति अनें संवेध जे, नवू ही गमक विषेहो जी ।
उपयोगे करि जाणवो, वारु विधि करि जेहो जी ॥

११६. सेवं भंते ! स्वाम जी, शत चउवीसम केरो जी ।
सतरम उद्देशक तणों, आख्यो अर्थ सुमेरो जी ॥

चतुर्विंशतितमशते सप्तदशोद्देशकार्थः ॥२४॥१७॥

तेइन्द्रिय में १२ ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनों अधिकार'

११७. प्रभु ! तेइन्द्रिया किहां थी उपजै, ?
इम तेइन्द्रिय नें जेहो जी ।

जिमज उद्देशो बेंद्री नों, तिम तेइन्द्रिय नों लेहो जी ॥

११८. णवरं इतरो विशेष छे, स्थिति अनें संवेहो जी ।
उपयोगे करि जाणवू, इहां वृत्तिकार कहेहो जी ॥

सोरठा

११९. तेइन्द्रिय रै मांहि, ऊपजवा वाला जिके ।
पुढवी प्रमुख ताहि, तसु आयु नें स्थिति कही ॥

१२०. पृथिव्यादिक नीं स्थित, स्थिति फुन तेइन्द्रिय तणीं ।
तास संयोग कथित्त, संवेध कहियै इम वृत्तौ ॥

१०८. एवं जाव चउरिदिणं समं चउसु संखेज्जा भवा,
पंचसु अट्ट भवा ।

११३. पंचिदियतिरिक्खजोणियमणुस्सेसु समं तहेव अट्ट
भवा ।

११५. ठिति संवेहं च जाणेज्जा । (श० २४।२३१)

११६. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।२३२)

११७. तेइदिया णं भंते ! कओहिंतो उववज्जति ? एवं
तेइदियाणं जहेव बेइदियाणं उद्देशो,

११८. नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।

११९. 'स्थिति' त्रीन्द्रियेषूत्पत्सूनां पृथिव्यादीनामायुः
(वृ० प० ८३४)

१२०. 'संवेधं च' त्रीन्द्रियोत्पत्सुपृथिव्यादीनां त्रीन्द्रियाणां
च स्थितेः संयोगं जानीयात् (वृ० प० ८३४)

*लय : धर्म दलाली चित्त करं

१. देखें परि. २, यंत्र ६२-७३

श० २४, उ० १८, ढा० ४२४ १२७

१२१. तेहिज कायसंवेह, किहांइक देखाइ अछै ।
आख्यो सूत्र विषेह, तृतीय गमो इण रीत सूं ॥
१२२. *तेऊ स्थिति संग मेलवै, तेंद्रिय नीं स्थिति सोई जी ।
तेह संवेध तीजे गमे, कहियै छै अवलोई जी ॥
१२३. तृतीय गमे संवेध जे, उत्कृष्टो इम जाणी जी ।
दोय सौ अष्ट दिवस निशा, तास न्याय पहिछाणी जी ॥

सोरठा

१२४. ओघिक तेजसकाय, उत्कृष्ट स्थिति त्रिण दिन-निशा ।
ते चिउं भव जे आय, अहो-रात्रि द्वादश थया ॥
१२५. जेष्ठ तेइन्द्रिय स्थित, गुणपचास दिन नें निशा ।
चिउं भव करी कथित, हुवै एक सय नें छिनुं ॥
१२६. बिहुं मेलावियां एह, दोय सौ नें अठ रात्रि-दिन ।
तेऊ साथ संवेह, तृतीय गमे तेइन्द्रिय ।
१२७. *वलि बेइन्द्रिय ऊपजै, तेइन्द्रिय नें मांह्यो जी ।
तीजा गमा नें विषे हिवै, कायसंवेध कहायो जी ॥
१२८. तृतीय गमे उत्कृष्ट थी; अष्टचालीस वासो जी ।
एक सौ छिनुं दिवस-निशा, एह अधिक सुविमासो जी ॥

सोरठा

१२९. वर्ष अइताली धार, बेइन्द्रिय चिहुं भव स्थिति ।
तेइन्द्रिय भव च्यार, इक सय छिनुं दिवस-निशि ॥
१३०. *तेइन्द्रिय तेइन्द्री में ऊपजै, तृतीय गमे संवेहो जी ।
तीन सौ बाणू दिवस-निशा, उत्कृष्ट अद्धा एहो जी ॥

सोरठा

१३१. तेइन्द्रिय भव एक, गुणपचास दिन-रात्रि नों ।
अष्ट भवे इम लेख, त्रिण सय बाणू दिवस-निशि ॥
१३२. *एवं सर्वत्र जाणवा, चउरिन्द्रियादिक जेहो जी ।
जाव सन्नी मनु साथ ही, कहिवो तास संवेहो जी ॥

सोरठा

१३३. चउरिन्द्रिय सुविचार, असन्नी सन्नी तिरि मनु ।
तसु स्थिति सह अवधार, तेइन्द्रिय नीं जे स्थिति ॥
१३४. तृतीय गमे संवेह, देखाइवै करिनै वली ।
षष्ठम आदि गमेह, ते संवेध पिण जाणवा ॥

*सय : धर्म दलाली चित करं

१२८ भगवती जोइ

१२१. तदेव क्वचिद्दर्शयति— (व० प० ८३४)

१२२, १२३. तेउक्काइएसु समं ततियगमे उक्कोसेणं
अटुत्तराई बेराइदियसयाइं,

१२४. ओघिकस्य तेजसकायिकस्य चतुर्षु भवेषूत्कर्षेण
व्यहोरात्रमानत्वाद् भवस्य द्वादशाहोरात्राणि उत्कृष्ट-
स्थितेश्च (व० प० ८३४)

१२५. त्रीन्द्रियस्योत्कर्षतश्चतुर्षु भवेव्वेकोनपञ्चाशन्मान-
त्वेन भवस्य शतं षण्णवत्यधिकं भवति
(व० प० ८३४)

१२६. राशिद्वयमीलने चाष्टोत्तरे द्वे रात्रिन्दिवशते
स्यातामिति । (व० प० ८३४)

१२७, १२८. बेइदिर्हि समं ततियगमे उक्कोसेणं
अडयालीसं संवच्छराइं छन्नउयराइंदियसत-
मभहियाइं,

१२९. द्वीन्द्रियस्योत्कर्षतो द्वादशवर्षप्रमाणेषु चतुर्षु भवेव्व-
ष्टचत्वारिंशत्संवत्सराश्चतुर्ष्वेव त्रीन्द्रियभवग्रहणेषु
त्कर्षेणैकोनपञ्चाशदहोरात्रमानेषु षण्णवत्यधिकं
दिनशतं भवतीति । (व० प० ८३४)

१३०. तेइदिर्हि समं ततियगमे उक्कोसेणं बाणउयाइं
तिणिण राइंदियसयाइं ।

१३१. 'बाणउयाइं तिनिण राइंदियसयाइं' ति अष्टासु
त्रीन्द्रियभवेषूत्कर्षेणैकोनपञ्चाशदहोरात्रमानेषु त्रीणि
शतानि द्विनवत्यधिकानि भवन्तीति, (व० प० ८३४)

१३२. एवं संवत्थ जाणेज्जा जाव सणिमणुस्स ति ।
(श० २४।२३३)

१३३-१३५. चतुरिन्द्रियसंज्ञयसञ्ज्ञितिर्यग्मनुष्यैः सह
त्रीन्द्रियाणां तृतीयगमसंवेधः कार्य इति सूचितं, अनेन
च तृतीयगमसंवेधदर्शनेन षष्ठादिगमसंवेधा अपि
सूचिता द्रष्टव्याः, तेषामप्यष्टभक्तिवात्,
(व० प० ८३४)

१३५. ए गम पंच विषेह, अठ भव आख्या ते भणो ।
वर उपयोग करेह, तसु संवेध विचारिवो ॥
१३६. शेष गमक त्रिहुं ख्यात, गमन पंचेंद्रिय अष्ट भव ।
विकलेंद्रिय संख्यात, स्थावर साथे संख भव ॥
१३७. *सेवं भंते ! स्वामजी, शत चउवीसम सारो जी ।
अष्टदशम उद्देश नों, आख्यो अर्थ उदारो जी ॥

चतुर्विंशतितमशते अष्टादशोद्देशकाथः ॥२४११८॥

चउरिन्द्रिय में १२ ठिकाणां नां ऊपजं, तेहनों अधिकार'

१३८. चउरिन्द्रिया भगवंतजी ! किहां थकी उपजेहो जी ?
जिम तेइंद्री उद्देश छै, तिम चउरिन्द्रिया लेहो जी ॥
१३९. णवरं स्थिति तथा वली, संवेध प्रति जाणेहो जी ।
सेवं भंते ! स्वाम जी, एगुणवीसमो लेहो जी ।

१३७. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ।

(श० २४१२३४)

१३८. चउरिन्द्रिया णं भंते ! कओहितो उववज्जति ? जहा
तेइन्द्रियाणं उद्देशओ तहेव चउरिन्द्रियाणं वि,

१३९. नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा । (श० २४१२३५)
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४१२३६)

सोरठा

१४०. पंच स्थावर पहिछाण. बे. ते. चउरिन्द्रिय वली ।
असन्नी तिरि मनु जाण, फुन सन्नी तिर्यच मनु ॥
१४१. विकलेंद्रिय रै मांय, आवै बार ठिकाण नों ।
जघन्य गमेज पाय, गमा णाणत्ता पृथ्वीवत ॥
१४२. उत्कृष्ट गमेज पाय, ते पिण पृथ्वी नीं परै ।
असन्नी मनु जे आय, तेह विषे नहिं णाणत्तो ॥
१४३. विकलेंद्रिय में आय, पंच स्थावर विकलेंद्रिय ।
चिहुं गम उत्कृष्ट पाय, संख्याता भव नें अद्धा ॥
१४४. तीजे छट्ठे जाण, सप्तम अष्टम नवम गम ।
जघन्य दोग्य भव आण, उत्कृष्टा भव अष्ट फुन ॥
१४५. विकलेंद्रिय में आय, असन्नी तिरि पंचेंद्रिय ।
सन्नी तिरि मनु ताय, नव गम उत्कृष्ट अठ भव ॥
१४६. विकलेंद्रिय रै मांय, असन्नी मनु आवै तसु ।
मध्यम त्रिण गम पाय, उत्कृष्टा भव अष्ट जे ॥
१४७. *च्यारसो नें चउवीसमीं, आखी ढाल अमंदो जी ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थो, 'जय-जश' हरष आणंदो जी' ॥

चतुर्विंशतितमशते एकोनविंशोद्देशकाथः ॥२४११९॥

*लय : धर्म दलाली चित करं

१. देखें परि. २, यंत्र ६२-७३

२. भगवती जोड़ की मूल प्रति में ४२४वीं ढाल की सम्पूर्ति के बाद निम्नलिखित
नोंध और एक सोरठा उपलब्ध है— पांच स्थावर ५ तीन विकलेन्द्रिय ८
असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ९ सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय १० असन्नी मनुष्य ११ और
सन्नी मनुष्य १२—एव १२ ठिकाणां नां विकलेंद्रिय में ऊपजं ।

त्रिण विकलेंद्रिय मांय, उपजै द्वादश स्थान नों ।

तास णाणत्ता पाय. ते पिण पृथ्वी नीं परै ॥

ढाल पूरी होने के बाद यह क्यों दिया गया ? इस सम्बन्ध में रचनाकर द्वारा
कोई संकेत न देने के कारण इसे पाद टिप्पण में दिया गया है ।

दूहल

तलरुंढ ढंढेंदुरल ढें ढुरथढ नरक नलं नेरइडलं ँढऐं, तेहनूं अधलकरुं

१. ढंढेंदुरल तलरुंढडुनलकल, ढुरडु ! कलहलं थकुं ँढऐं त ।
सुं नलरकल थुं ँढऐं, कें तलरुं ढनु सुर थुं हुंत ?
- ॢ. जलन डलखें सुण गुडडल ! नलरकल थुं ढलण ऐह ।
तलरुं ढनु सुर थुं ढलण तलके, ँढऐं करुं वसेह ॥
- ॣ. कुं नलरकल थुं ँढऐं, तुं सुं रतुनढुरडलह ।
ढृथुवुं धुर नलरकल थकुं, ँढऐं सुवलडुनलह !
- ॡ. ङलव अधुसेढतुड ढहुं, नलरकल थुं ँढऐं ?
जलन कहैं सलतुंई थकुं, ँढऐं तलरुंढडुनलकेह ॥

डुधलक नें डुधलक (१)

*ङड-ङड ङुन जलनेंदुर नुं ॥ (धुरुढदं)

- ॡ. ढुरडु ! रतुनढुरडल ढहुं नलरकुं,
ढंढेंदुरल तलरुंढ वलडेह ललल रे ।
ऐ ँढऐवल डुगुड छ,
ते कलतैं कलल सुथतलक ँढऐह ललल रे ?
- ॢ. शुुरी जलन डलखें ङधनुड थुं, अंतढुंहुंतं सुथतलकेह ललल रे ।
उतुकृषुत ढुवं कुंङ ऐं, वढुढडुवंत वलडेह ललल रे ॥

सुरठल

- ॣ. नलरकल ढरल नें सुडुड, नलहुं हुं तलरुंढ डुगललडु ।
ते ढलुटे ँ कुडुड, ढुवं कुंङ वलडे कहुं ॥
- ॡ. *ढुरडु ! ँक सडुड कलतल ँढऐं ?
इड जलड ढृथुवुं ढलंहुल ललल रे ।
असुरकुडुडलरुंङ ँढऐं, वतुकुवुडल कलहु तलहुल ललल रे ॥
- ॢ. इडङ ढंढेंदुरल तलरुंढ ढें, रतुनढुरडल नलं ङलण ललल रे ।
नलरकल ँढऐतल तणुं, ढरलडलणलदल ढलदुडलण ललल रे ॥
- ॣ. ढवरं वलशेषङ ँतलु, नलरकल संघुडण वलडेह ललल रे ।
ढुदुगल अनलषुत अकलंत हुं, ङलव तलके ढरलणढेह ललल रे ॥
- ॡ. अवगलहुनल नलरकल तणुं, दलखुं दुडुड ढुरकलर ललल रे ।
ढुरथड अछैं डलवधलरणुं, उतुतर वैकुरलड धलर ललल रे ॥

* लडु : डुंडुं रे डुख अडलवणुं

१. देखें ढरलु ॢ, डुंढु ॣॡ

१ॢ० डुरगवतुं कुंङ

१. ढंढलदलडतलरुंढडुनलकुणलडल णं डुंते ! कडुुलहुतुं
उववङुङतल—कल नेरइऐहुतुं उववङुङतल ?
तलरुंढडुनलकुणलऐहुतुं उववङुङतल ? ढणुसुसेहुतुं
देवेहुतुं उववङुङतल ?
- ॢ. गुडडल ! नेरइऐहुतुं उववङुङतल, तलरुंढडुनलकुणलऐ-
हुतुं, ढणुसुसेहुतुं वल, देवेहुतुं वल उववङुङतल ।
(शुं ॢॡ।ॢॣॣ)
- ॣ. ङइ नेरइऐहुतुं उववङुङतल—कल रडुणढुढढुदुडव-
नेरइऐहुतुं उववङुङतल,
- ॡ. ङलव अहेसतुतढुदुडवलनेरइऐहुतुं उववङुङतल ?
गुडडल ! रडुणढुढढुदुडवलनेरइऐहुतुं उववङुङतल
ङलव अहेसतुतढुदुडवलनेरइऐहुतुं उववङुङतल ।
(शुं ॢॡ।ॢॣॡ)

- ॡ. रडुणढुढढुदुडवलनेरइऐ णं डुंते ! ऐ डलवलऐ ढंढलदलड-
तलरुंढडुनलकुणलऐसु उववङुङतलऐ, से णं डुंते !
केवतलकललदुतलतुंऐसु उववङुङऐङुङल ?
- ॢ. गुडडल ! ङहणुणेणं अंतुडुहुतुतदुतलतुंऐसु, उकुकुसेणं
ढुवुवकुंङलडलअऐसु उववङुङऐङुङल । (शुं ॢॡ।ॢॣॢ)

- ॣ. ते णं डुंते ! ङलवल ँगसडलऐणं केवडुडल
उववङुङतल ? ँवं ङहल असुरकुडुडलरुंङ वतुकुवुडल,
- ॡ. नवरं—संघुडणे ढुगलल अणलदुडल अकलंतल ङलव
ढरलणडुंतल ।
- ॢ. डुगलहुनल दुवलहल ढणुणतुतल, तं ङहल—डलवधलरलणङुङल
उतुतरवेउवुवलडुडल थ ।

१२. तिहां तिका भवधारणा, जघन्य आंगुल नों ताय लाल रे ।
असंख्यातमे भाग छै, उत्पत्ति समये पाय लाल रे ॥
१३. उत्कृष्टी धनु सप्त नीं, तीन हस्त नीं वलि ताय लाल रे ।
षट आंगुल अधिकी कही, तेरम प्रतर पेक्षाय लाल रे ॥

सोरठा

१४. वृत्ति विषे इम ख्यात, रत्नप्रभाइं धुर प्रतर ।
ऊंचपणें त्रिण हाथ, पभणी देह नारकि तणीं ॥
१५. साढा छप्पन्न सोय, आंगुल नीं करवीज वृद्धि ।
प्रतर-प्रतर अवलोय, तेरम प्रतर यथोक्त ह्वै ॥
१६. *उत्तर वैक्रिय छै तिहां. जघन्य थकी ते जाण लाल रे ।
आंगुल नौज कहीजियै, भाग संख्यातमुं माण लाल रे ॥
१७. उत्कृष्ट धनुष्य पनर तणीं, अधिक अढाई हाथ लाल रे ।
भवधारणी काया थकी, ए दुगुणीज आख्यात लाल रे ॥
१८. हे भगवंत ! ते जीव नें, शरीर तणों सुविचार लाल रे ।
स्युं संठाण परूपियो ? कहियै स्युं आकार लाल रे ॥
१९. श्री जिन भाखें गोयमा ! दाख्या दोय प्रकार लाल रे ।
प्रथम कही भवधारणी, उत्तरवैक्रिय धार लाल रे ॥
२०. जेह तिहां भवधारणी, हुंड संठाणे जाण लाल रे ।
उत्तरवैक्रिय जे तिहां, ते पिण हुंड संठाण लाल रे ॥
२१. एक कापोत लेश्या कही, समुद्घात धुर च्यार लाल रे ।
स्त्री पुं. वेद म नारकी, वेद नपुंसक धार लाल रे ॥
२२. स्थिति जघन्य दश सहस्र नीं, उत्कृष्ट सागर एक लाल रे ।
अनुबंध पिण इम जाणवो, शेष असुरवत पेख लाल रे ॥
२३. भवादेश करि जघन्य थो, बे भव ग्रहण करेह लाल रे ।
उत्कृष्टा अठ भव करै, हिवै तसु काल कहेह लाल रे ॥
२४. काल आश्रयी जघन्य थी, वर्ष सहस्र दश जन्य लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बे भव स्थिति जघन्य लाल रे ॥
२५. उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे, नारक सागर च्यार लाल रे ।
पूर्व कोड़ चिउं अधिक ही,
उत्कृष्ट तिरि स्थिति धार लाल रे ॥
२६. सेवै कालज एतलो, करै गतागति इतो काल लाल रे ।
ओधिक नें ओधिक गमो, दाख्यो प्रथम दयाल लाल रे ॥

१२. तत्थ णं जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं अंगुलस्स
असंखेज्जइभागं,
१३. उक्कोसेणं सत्त धणूइं तिण्णि रयणीओ छच्चंगुलाइं ।
इदं च त्रयोदशप्रस्तटापेक्षं । (वृ० प० ८३९)

- १४, १५. प्रथमप्रस्तटादिषु पुनरेवम्—
रयणाइ पढमपयरे हत्थतियं देहउस्सयं भणियं ।
छप्पन्नंगुलसड्ढा पयरे पयरे य वुड्ढीओ ॥१॥
(वृ० प० ८३९)
१६. तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहण्णेणं
अंगुलस्स संखेज्जइभागं,
१७. उक्कोसेणं पण्णरस धणूइ अड्ढाइज्जाओ रयणीओ ।
(श० २४१२४०)
इय च भवधारणीयाऽवगाहनाया द्विगुणेति ।
(वृ० प० ८४०)
१८. तेषि णं भंते ! जीवाणं सरीरगा किसंठिया
पण्णत्ता ?
१९. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—भवधारणिज्जा
य, उत्तरवेउव्विया य ।
२०. तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा ते हुंडसंठिया पण्णत्ता ।
तत्थ णं जे ते उत्तरवेउव्विया ते वि हुंडसंठिया
पण्णत्ता ।
२१. एगा काउलेस्सा पण्णत्ता । समुग्घाया चत्तारि ।
नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसंगवेदगा ।
२२. ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, उक्कोसेणं सागरो-
वमं । एवं अणुबंधो वि । सेसं तहेव ।
'सेसं तहेव' ति शेष—दाट्यादिकं तथैव यथाऽसुर-
कुमाराणां । (वृ० प० ८४०)
२३. भवादेशेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ठ
भवग्गहणाइं ।
२४. कालादेशेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्त-
मव्वहियाइं,
२५. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि
अव्वहियाइं,
२६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १। (श० २४१४१)

*लय : झंडी रे भूख अभावणी

जघन्य नै ओधिक [२]

२७. तेहिज धुर मही नारकी, द्वितीय गमे कहिवाय लाल रे ।
जघन्य काल स्थितिक विषे, ऊपनों पं० तिरि मांय लाल रे ॥
२८. जघन्य अनें उत्कृष्ट थी, अंतर्मुहूर्त्त जाण लाल रे ।
आयुवंत विषे ऊपजै, इम भाखे जगभाण लाल रे ॥
२९. शेष तिमज कहिवो सहु, ओधिक धुर गम जेम लाल रे ।
णवरं इतरो विशेष छै, सांभलजो धर प्रेम लाल रे ॥

३०. काल आश्रयो जघन्य थी, तिमहिज धुर गम जेम लाल रे ।
वर्ष सहस्र दश नारकी, अंतर्मुहूर्त्त तेम लाल रे ॥
३१. द्वितीय गमे उत्कृष्ट अद्धा, नारकि सागर च्यार लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त्त चिहुं वलि, इतो काल गतागति धार लाल रे ॥
३२. धुर बे गम ए दाखिया, अनुक्रमे करि जाण लाल रे ।
इम शेष गमा पिण सप्त हि, भणवा न्याय पिछाण लाल रे ॥

सोरठा

३३. जेहवी स्थितिज जाण, जघन्योत्कृष्टज भेद थी ।
बिहुं धुर गमे पिछाण, आखी जे नारकी तणीं ॥
३४. स्थिति तेहवीज सुजोय, मध्यम अंतिम त्रिहुं गमे ।
ते लाभे नहिं कोय, तसु उत्तर कहियै हिवै ॥

३५. *जिमहिज नारकी उद्देशके,
एहिज शतक नां जाण लाल रे ।
प्रथम उद्देशक नें विषे, आख्यो ते पहिछाण लाल रे ॥
३६. तिरि सन्नी पंचेंद्रि संघात ही, नारकी नें जे चीन लाल रे ।
मध्यम तीन गमा विषे रे, अंतिम गमके तीन लाल रे ॥
- वा०— तिम इहां पिण कहिवो, एहवू पाठ में नथी कह्यो । ते इति वाक्य
शेष ए वचन शेष रह्यो जे ।

सोरठा

३७. त्रिण गम मध्यमकेह, रत्नप्रभा नारकि तणीं ।
वर्ष सहस्र दश जेह, स्थिति कही ते जाणवी ॥
३८. अंतिम तीन गमेह, जघन्य अनें उत्कृष्ट थी ।
स्थिति इक सागर जेह, ए स्थिति नों नानापणीं ॥
३९. *शेष तिमज कहिवो सहु, सर्वत्र सगलै स्थान लाल रे ।
स्थिति अनें संवेध जे, उपयोगे करि जान लाल रे ॥

वा०— प्रथम नरक सूं नीसरी बीसमा दंडक में ऊपजै, तिणरा ओधिक
गमे अवगाहण जघन्य आंगुल रो असंख्यातमे भाग, उत्कृष्ट ७ धनुष्य ३ हाथ
६ आंगुल कही । जघन्य ३ गमे अवगाहणा द्वारे ओधिक नें भलायो । इम
भलावण कै लेखै जघन्य १० हजार वर्ष नां नेरइया नीं अवगाहणा जघन्य आंगुल

*लय : झूडी रे झूख असावणी

१३२ भगवती जोड़

२७. सो चैव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो,

२८. जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेण वि
अंतोमुहुत्तट्टितीएसु ।
२९. अवसेसं तहेव, नवरं—
'अवसेसं तहेव' त्ति यथोधिकगमे प्रथमे ।
(वृ० प० ८४०)

३०. कालादेसेणं जहण्णेणं तहेव,

३१. उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं अंतोमुहुत्तेहि
अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं
गतिरागतिं करेज्जा ।
३२. एवं सेसा वि सत्त गमगा भाणियव्वा
एवं—इत्यनन्तरोक्तगमद्वयक्रमेण शेषा अपि सप्त
गमा भणितव्याः, (वृ० प० ८४०)

- ३३, ३४. नन्वत्रैवंकरणाद् यादृशी स्थितिर्जघन्योत्कृष्ट-
भेदादाद्ययोगमयोर्नारकाणामुक्ता तादृश्येव मध्यमेऽ-
न्तिमे च गमत्रये प्राप्नोति ? इति, (वृ० प० ८४०)

- ३५, ३६. जहेव नेरइयउद्देशए सण्णिपंचिदिएहिं समं ।
नेरइयाणं मज्झिमएसु तिसु गमएसु पच्छिमएसु य
तिसु गमएसु ठितिनानाणत्तं भवति ।

वा०—तथैवेहापीतिवाक्यशेषः । (वृ० प० ८४०)

३९. सेसं तं चैव । सव्वत्थं ठितिं संवेहं च जाणेज्जा २-९ ।
(श० २४:२४२)

रै असंख्यातमे भाग, उत्कृष्ट ७ घनुष्य ३ हाथ ६ आंगुल ह्यै । अनै संघयणी तथा अन्य ग्रन्थे पहिले पाथरै उत्कृष्ट ३ हाथ नीं कही । ते सूत्र नों वचन तो निसंदेह अनै प्रकीर्ण की बात सूत्र सू मिलै ते प्रमाणे । अनै पाथरै पाथरै स्थिति परमाणे अवगाहणा हुवै तो पन्नवणा पद (२१ सूत्र ७०) में पहिले, दूजे देवलोके ७ हाथ नीं अवगाहणा कही । तीजे, चौथे देवलोके ६ हाथ नीं कही । पांचमे छठे ५ हाथ नीं कही । ७ में, ८ में देवलोके ४ हाथ नीं कही । ९ में, १० में, ११ में, १२ में देवलोके ३ हाथ नीं कही । नव ग्रीवियक में २ हाथ नीं कही । पांच अनुत्तर विमान में १ हाथ नीं । पांचमा, छठा देवलोक रै बीच में असंख्याता जोजन नों आंतरो अनै अवगाहणा में फरक न कह्यो । अनै स्थिति पांचमे जघन्य ७ सागर, उत्कृष्ट १० सागर । छठे जघन्य १० सागर, उत्कृष्ट १४ सागर । स्थिति में एतलो फरक । अनै अवगाहणा पंचम कल्प नां देव नीं ५ हाथ नीं षष्ठम कल्प नां देव नीं ५ हाथ नीं । अनै संघयणी में प्रतर-प्रतर दीठ अवगाहणा में अंतर कह्यु, ते माटे प्रकीर्ण की बात बहुश्रुत विचारी लीजो ।

इहां स्थिति ते नारकी नीं प्रथम ३ गमे जघन्य १० सहस्र वर्ष, उत्कृष्टी १ सागर । मध्यम तीन गमे जघन्य अनै उत्कृष्ट थी १० सहस्र वर्ष । छेहलै तीन गमे जघन्य अनै उत्कृष्ट थी १ सागर स्थिति नों घणी नेरइयो पंचेन्द्रिय तिर्यच में ऊपजै । हिवै कायसवेध जूओ-जूओ कहै छै । तिण में दोय गमे कायसवेध पूर्वे कह्योज छै ।

सोरठा

४०. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व तिरि पं. स्थिति ॥
४१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
नारकि सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक तिरि ॥
४२. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
४३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, तिरि भव पूर्व कोड़ चिउं ॥
४४. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
४५. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार फुन ॥
४६. छठे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व तिरि भव स्थिति ॥
४७. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, पूर्व कोड़ चिउं तिरि भवे ॥
४८. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सागर एक कहेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
४९. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
नारकि सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं तिरि भवे ॥
५०. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सागर एक कहेह, अंतर्मुहूर्त्त तिरि भवे ॥

५१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं अधिक ॥
५२. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सागर एकज तेह, पूर्व कोडज अधिक फुन ॥
५३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, पूर्व कोडज चिउं तिरि ॥
- तिर्यंच पंचेंद्रिय में दूसरी स्थू छट्टी नरक नां नेरइया ऊपजं, तेहनों अधिकार^१
५४. *प्रभु ! सक्करप्रभा नां नारका, तिर्यंच पंचेंद्री विषेह लाल रे ।
ऊपजवा नें योग्य छै, इत्यादिक पूछेह लाल रे ॥
५५. इम जिम रत्नप्रभा तणां, नव गम भाख्या ताय लाल रे ।
सक्करप्रभा विषे अपि, तिमहिज नव गम पाय लाल रे ॥
५६. णवरं तनु अवगाहना, जिम ओगाहण संठाण लाल रे ।
पन्नवण पद इक्वीसमे, ते सामान्य थी इम जाण लाल रे ॥

सोरठा

५७. सप्त धनुष्य त्रिण हाथ, षट आंगुल उत्कृष्ट घुर ।
शेष नरक षट ख्यात, दुगुण-दुगुण भवधारणी ॥
५८. भवधारणी थकीज, दुगुणी उत्तरवैक्रिय ।
सातूं मही कहीज, सहस्र धनुष्य है तमतमा ॥
५९. *नियमा तीनज ज्ञान नीं, समदृष्टि में होय लाल रे ।
नियमा तीन अज्ञान नीं, मिथ्याती में जोय लाल रे ॥

सोरठा

६०. द्वितीयादि नरकेह, सन्नी थकीज ऊपजं ।
ते माटे इम लेह, नियमा तीन अज्ञान नीं ॥
- ६१ *स्थिति तथा अनुबंध जे, पूर्वे भाख्यो चीन लाल रे ।
जघन्य एक सागर तणों, उत्कृष्ट सागर तीन लाल रे ॥
६२. एवं जे नव ही गमा, कहिवा उपयोगेह लाल रे ।
इम यावत छठी मही, णवरं विशेष एह लाल रे ॥
६३. अवगाहना लेश्या स्थिति, अनुबंध नें संवेह लाल रे ।
द्वितीयादिक छठी विषे, जे छै ते जाणेह लाल रे ॥
- तिर्यंच पंचेंद्रिय में सातवीं नरक नां नेरइया ऊपजं, तेहनों अधिकार^१
६४. तल सप्तम पृथ्वी तणां, नारक प्रभुजी ! जेह लाल रे ।
ऊपजवा नें योग्य जे, इत्यादिक पूछेह लाल रे ॥
६५. इमहिज निश्चै नव गमा, कहिवा णवरं एह लाल रे ।
अवगाहना लेश्या स्थिति, अनुबंध प्रति जाणेह लाल रे ॥

५४. सक्करप्पभापुढविनेरइए णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए ?
५५. एवं जहा रयणप्पभाए नव गमगा तहेव सक्करपभाए वि,
५६. नवरं - सरीरोगाहणा जहा ओगाहणसंठाणे ।

५७. सत्त धणु तिन्नि रयणी छच्चेव य अंगुलाइं उच्चत्तं ।
पढमाए पुढवीए बिउणा बिउणं च सेसामु ।
(वृ० प० ८४०)

५९. तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणा नियमं ।

६०. 'तिन्नि णाणा तिन्नि अन्नाणा नियमं' ति द्वितीया-
दिषु सञ्जिभ्य एवोत्पद्यन्ते ते च त्रिज्ञानास्त्वज्ञाना
वा नियमाद् भवन्ति, (वृ० प० ८४०)
६१. ठिती अणुबंधा पुव्वभणिया ।
६२. एवं नव वि गमगा उवजुंजिऊण भाणियव्वा १-९ ।
एवं जाव छट्टुपुढवी,
६३. नवरं—ओगाहणा-लेस्सा-ठिति-अणुबंधा संवेहो य
जाणियव्वा । (श० २४।२४३)

६४. अहेसत्तमपुढवीनेरइए णं भंते ! जे भविए पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए ?
६५. एवं चेव नव गमगा, नवरं—ओगाहणा-लेस्सा-
ठिति-अणुबंधा जाणियव्वा ।

*लय : भूडी रे भूख अभावणी

१. देखें परि. २, यंत्र ७५-७९

१३४ भगवती जोड़

६६. कायसंवेद्य भव आश्रयी, जघन्य थकी भव दोग लाल रे ।
प्रथम भव नारक तणों, बीजो तिरि पं. होय लाल रे ॥
६७. उत्कृष्टा षट भव हुवै, नारक नां भव तीन लाल रे ।
पंचेंद्रिय तिर्यच नां, ए पिण तीन कथीन लाल रे ।
६८. काल आश्रयी जघन्य थी, बावीस सागर होय लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त अधिक ही, जघन्यायू भव दोग लाल रे ॥
६९. उत्कृष्ट षट भव आश्रयी, छासठ सागर जोय लाल रे ।
पूर्व कोड़ज त्रिण वली, अधिक हुवै अवलोय लाल रे ॥

सोरठा

७०. छासठ सागर ख्यात, इहां त्रिण भव नां काल नों ।
बहुलपणों आख्यात, तेहिज वांछ्यो छै इहां ॥
७१. पिण भव नों जे स्थित, उत्कृष्टी वांछी नथी ।
बहु भव काल कथित, जघन्य स्थिति करिकै इहां ॥
७२. नरक सप्तमी मांय, जघन्य स्थिति प्रति भोगवी ।
मरि तिर्यचज थाय, पूर्व कोड़ नें आउखै ॥
७३. इम त्रिण वार करेह, छासठ सागर नरक स्थिति ।
फुन तिर्यच भवेह, पूर्व कोड़ज तीन ह्वै ॥
७४. जो उत्कृष्ट स्थिति ताय, तेतीस सागर भोगवी ।
तिरि पंचेंद्रिय थाय, पूर्व कोड़ नें आउखै ॥
७५. तो उपजै बे वार, इम छासठ सागर हुवै ।
पूर्व कोड़ि बे धार, तृतीय पूर्व कोड़ी न ह्वै ॥
७६. उत्कृष्ट स्थिति करि एम, काल अनै भव अल्प ह्वै ।
तिणसू आख्यो तेम, घुर स्थिति करि बहु भव अद्धा ॥
७७. *सेवै कालज एतलो, करे गति-आगत इतो काल लाल रे ।
ओधिक नें ओधिक गमो, दाख्यो प्रथम दयाल लाल रे ॥
७८. पहिला षट गम नें विषे, जघन्य थकी भव दोग लाल रे ।
उत्कृष्टा षट भव हुवै, न्याय विचारी जोय लाल रे ॥
७९. छेहला तीन गमा विषे, जघन्य करे भव दोग लाल रे ।
उत्कृष्टा चिउं भव करे, उत्कृष्ट गमके सोय लाल रे ॥
८०. लब्धि नवू ही गमा विषे, प्रथम गमे जिम पेख लाल रे ।
आख्यो जिम कहिवो इहां,
णवरं स्थिति नों विशेष लाल रे ॥

सोरठा

८१. त्रिण ओधिक गम इष्ट, फुन मध्यम त्रिण गम स्थिति ।
जघन्य अनै उत्कृष्ट, बावीस सागर नों कही ॥
८२. अंतिम त्रिण गम दीस, जघन्य अनै उत्कृष्ट फुन ।
स्थिति सागर तेतीस, ते पं. तिरि में ऊपजै ॥

*लय : भूंडी रे भूख अभावणी

६६. संवेहो भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,

६७. उक्कोसेणं छ्भवग्गहणाइं ।

६८. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं
अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं,

६९. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं तिहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

७०,७१. 'उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं' इत्यादि, इह
भवानां कालस्य च बहुत्वं विवक्षितं, तच्च जघन्य-
स्थितिकत्वे नारकस्य लभ्यत इति, (वृ० प० ८४०)

७२,७३. द्वाविणतिसागरोपमायुनारको भूत्वा पञ्चेन्द्रिय-
तिर्यक्षु पूर्वकोट्यायुर्जातः एवं वारत्रये षट्षष्टिः
सागरोपमाणि पूर्वकोटीत्रयं च स्यात् ।
(वृ० प० ८४०)

७४-७६. यदि चोत्कृष्टस्थितिस्त्रयस्त्रिगत्सागरोपमायु-
नारको भूत्वा पूर्वकोट्यायुः पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षुत्पद्यते
तदा वारद्वयमेवैवमुत्पत्तिः स्यात् ततश्च षट्षष्टिः
सागरोपमाणि पूर्वकोटीद्वयं च स्यात्, तृतीया
तिर्यग्भवसम्बन्धिपूर्वकोटी न लभ्यत इति नोत्कृष्टता
भवानां कालस्य च स्यादिति । (वृ० प० ८४०)

७७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतं
करेज्जा ।

७८. आदिल्लएसु छसु वि गमएसु जहण्णेणं दो
भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं छ् भवग्गहणाइं ।

७९. पच्छिल्लएसु तिसु गमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उक्कोसेणं चत्तारि भवग्गहणाइं ।

८०. लद्धी नवसु वि गमएसु जहा पढमगमए, नवरं —
ठितीविसेसो ।

८३. *द्वितीय गमे काल आश्रयी, जघन्य थी कहिवाय लाल रे ।
बावीस सागर नारकी, अंतर्मुहूर्त्त अधिकाय लाल रे ।
८४. उत्कृष्ट छासठ उदधि ही, नारक नां भव तीन लाल रे ।
त्रिण अंतर्मुहूर्त्त तिरि, इतो काल गतागति चीन लाल रे ॥
८५. तृतीय गमा विषे जघन्य थी, बावीस सागर जोय लाल रे ।
पूर्व कोड़ज अधिक ही, बे भव अद्धा होय लाल रे ।
८६. उत्कृष्ट छासठ उदधि ही, पूर्व कोड़ज तीन लाल रे ।
त्रिण भव नारक भव स्थिति,
तिरि भव तीन कथीन लाल रे ॥
८७. तुर्य गमा विषे जघन्य थी, बे भव अद्धा ताय लाल रे ।
बावीस सागर जाणवो, अंतर्मुहूर्त्त अधिकाय लाल रे ॥
८८. उत्कृष्ट षट भव आश्रयी, छासठ सागर ताय लाल रे ।
पूर्व कोड़ज त्रिण बली, काल वांछ्यो अधिकाय लाल रे ॥
८९. पंचम गमा विषे जघन्य थी, बावीस सागर जन्य लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, बे भव स्थिति जघन्य लाल रे ॥
९०. उत्कृष्ट अद्धा एतलो. षट भव नों इम चीन लाल रे ।
छासठ सागर जाणवो, अंतर्मुहूर्त्त तीन लाल रे ॥
९१. छठा गमा विषे जघन्य थी, नारक उदधि बावीस लाल रे ।
पूर्व कोड़ज तिरि भवे, बे भव अद्धा जगीस लाज रे ॥
९२. उत्कृष्ट छासठ उदधि हो, पूर्व कोड़ त्रिण इष्ट लाल रे ।
त्रिण भव नारक जघन्य स्थिति, तिरि भव त्रिण उत्कृष्ट लाल रे ॥
९३. सप्तम गमके जघन्य थी, नारक उदधि तेतीस लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त्त तिरि भवे, बे भव काल जगीस लाल रे ॥
९४. उत्कृष्ट छासठ उदधि ही, कोड़ पूर्व बे होय लाल रे ।
नारक नां भव बे करै, तिर्यंच भव पिण दोय लाल रे ॥
९५. अष्टम गमके जघन्य थी, नारक उदधि तेतीस लाल रे ।
अंतर्मुहूर्त्त तिरि भवे, बे भव काल जगीस लाल रे ॥
९६. उत्कृष्ट छासठ उदधि ही, अंतर्मुहूर्त्त बे जन्य लाल रे ।
जेष्ठागु बे भव नारकि, तिरि भव दोय जघन्य लाल रे ॥
९७. नवमे गमे जघन्य थी, तेतीस सागर इष्ट लाल रे ।
पूर्व कोड़ज अधिक ही, बे भव स्थिति उत्कृष्ट लाल रे ॥
९८. उत्कृष्ट छासठ उदधि ही, कोड़ पूर्व बे इष्ट लाल रे ।
उत्कृष्ट बे भव नारकी, तिरि बे भव उत्कृष्ट लाल रे ॥
९९. सेवै कालज एतलो, करै गति-आगति इतो काल लाल रे ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमो, दाख्यो नवम दयाल लाल रे ॥
१००. चउवीसम देश बीसमो, चिउं सौ पचीसमीं ढाल लाल रे ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी,
'जय-जश' मंगलमाल लाल रे ॥

८३. कालादेसो य वितियगमएसु जहण्णेणं बावीसं
सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइं:
८४. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं अंतोमुहुत्तेहिं
अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं
गतिरागतिं करेज्जा ।
८५. तइयगमए जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए
अब्भहियाइं,
८६. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।
८७. चउत्थगमए जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं,
८८. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।
८९. पंचमगमए जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं,
९०. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं अंतोमुहुत्तेहिं
अब्भहियाइं ।
९१. छट्ठगमए जहण्णेणं बावीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।
९२. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।
९३. सत्तमगमए जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं,
९४. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं ।
९५. अट्ठमगमए जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्त-
मब्भहियाइं,
९६. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं
अब्भहियाइं ।
९७. नवमगमए जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं,
९८. उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं,
९९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं
करेज्जा १।९ । (श० २४।२४४)

*लय : झूडी रे झूख अमावणी

१३६ भगवती जोड़

दुहल

१. जदु तलरलकखडुनलक थकु, ऊडकु तलरल-डु. डलडु ।
तु सुडु ँकुदुवलरु तलरल-डुनलक थु डुडुडलडु ?
२. कहुवलु इड डुडुडलत कु, कुड डुथुवु डुदुसु ।
तुहु वलषु आखुडु तलडकु, वलरु वलधु सुवलषुषु ॥

तलरुडु डुडुदुवलरु डुडु डुथुवुकलडु ऊडकु, तुहुनुु अधलकलरु'

*गुडडु नल डुरशुन डुलल ॥ (धुडुडु)

३. कुलव डुथुवुकलडुक डुरडु ! हु, तलरल डुडुदुवु वलषुहु ।
कु ऊडकुवल कुगुडु कु हु, तु कलतु कलल सुथलतलकु डुडुकुहु ?
- ॡ. शुु कुन डुलखु कुघनुडु थु हु, अंतडुहुतु सुथलतलकुहु ।
उतुकुषुत डुडु कुरु नु हु, आडु वलषु डुडुकुहु ॥
- ॡ. हु डुरडुकु ! तु कुव रल हु, इतुडलदलक इड कुलण ।
डुरलडलण आदल दुई कुरु हु, अनुडुंध डुरुवडुसलण ॥
- ॢ. डुथुवुकलडुक डुडुतल तणल हु, सुव सुथलनु डुडुडलत ।
डुथुवु वलषु डुडुडुतल तणु हु, वतुकुवुडुतल आखुडलत ॥
- ॣ. तुहुलकु डुडुदुवु तलरुडुडु डुडु डु, डुथुवुकलडु डुडुषुख ।
ऊडकुडुतल नु आखुडुडु हु, णवरु इतरु वलषुषुख ॥
- ।. ँ नव हु गडुल नु वलषु हु, डुरलडलण कुघनुडु सुइषुत ।
ँक दुडुडु तुरलण ऊडकु हु, डुसुख असुख उतुकुषुत ॥

सुुुरतल

१. डुथुवु डुथुवु डुलहु, डुरलडलण दुवलरु तुहुल ।
सडुडु-सडुडु डुरतल तुलहु, असुख ऊडकु इड कहुलु ॥
१०. इहुल कु डुथुवुकलडु, ऊडकु डु. तलरल नु वलषु ।
कुघनुडु थकु कहुवलडु, ँक दुडुडु तुरलण ऊडकु ॥
११. *वलल नवु हु गडुल नु वलषु हु, कलडुसुवुध दुवलरुहु ।
कुघनुडु थकु डुडु डु कुरु हु, उतुकुषुतल अठ लुहु ॥

सुुुरतल

१२. डुथुवु डुथुवु डुलडु, ऊडकुतु सुवुध कु ।
डुरथडु दुवलतुडुडु गडु डुलडु, डुन गडु कुडुथु डुडुडु ॥
१३. ँ कुडुडु गडुडु डुसुडु, उतुकुषुतल असुखुडलत डुडु ।
षुषु गडुडु कु डुसुडु, उतुकुषुतल अठ डुडु कहुलु ॥

*लडु : रलडु कु सुकुशु घणु

१. दुखु डुरल. २, डुतु ।१

१. कुइ तलरलकखकुणलणुहुतु उववकुकुतल—कु
ँगलदुडुतलरलकखकुणलणुहुतु ?
२. ँवु उववलडु कुहु डुडुवलकलइडुडुडुसु

३. कुलव— (शु० २ॡ१२ॡॡ)
डुडुवलकलइणु डुडु डुडुतु ! कु डुडुवलणु डुडुडुदुडुतलरलकख-
कुणलणुसु उववकुकुतलणु, सुडु डुडुतु ! कुवलतलकलल-
दुवलतुलणुसु उववकुकुतलणु ?

ॡ. गुडडुडु ! कुहुणुणुडु अंतुडुहुतुदुवलतुलणुसु, उवकुसुणु
डुववकुकुडु-आडुणुसु उववकुकुतलणु ।
(शु० २ॡ१२ॡॢ)

ॡ. तु डुडु डुडुतु ! कुवल ँगसडुणु कुवलतुडुल उव-
वकुकुतल ? ँवु डुरलडुलणलदुलणु अणुडुंधडुडुडुडुसलणल
ॢ. कुकुडुव अडुडुणु सुदुडुलणु वतुकुवुडुल

ॣ. सकुडुव डुडुडुदुडुतलरलकखकुणलणुसु वल उववकुकु-
डुलणुसु डुलणुडुडुवल, नवरु—
।. नवसु वल गडुणुसु डुरलडुलणु कुहुणुणुडु ँककु वल दु
वल तुलणुणु वल, उवकुसुणुडु सुखुडुडु वल असुखुडुडु वल
उववकुकुतल ।

१,१०. कुवल तुरल डुरलडुलणुदुवलरु डुरतलसडुडुडुसुखुडुडुडुल
उतुडुडुनुत इतुडुकुत इहु तुवलकलदलरलतल,
(वु० डु० ।ॡ०)

११. डुवलदुसुणु वल नवसु वल गडुणुसु कुहुणुणुडु दु
डुवगुहुणलइ, उवकुसुणुडु अदु डुवगुहुणलइ ।

१२-१ॡ. तथल डुथुवुकलडुकुडुडु: डुथुवुकलडुकुडुसुतुडुडु-
डुलणुसु सुवुधदुवलरु डुरथडुदुवलतुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडुडु-
तुकुषुतुडुडुसुखुडुडुतलणु डुवडुरहुणलणुडुतलणु षुषुषु तुवषुतु
डुवडुरहुणलणु इहु डुनरषुतलवुव नवसुवडुडुतल ।
(वु० डु० ।ॡ०)

१४. इहां नवूं गम ताय, संवेध द्वार विषे वली ।
उत्कृष्टा कहिवाय, अठ भव ग्रहणज आखिये ॥
१५. शेष संघयण संठाण, प्रमुख बोल अनुबंध लग ।
पृथ्वी पृथ्वी में जाण, ऊपजता नें तिम इहां ॥
१६. *संवेधे काल आश्रयी हो, पृथ्वीकायिक जेह ।
वलि सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच नें हो, कहिवूं स्व स्थिति करेह ॥

सोरठा

१७. प्रथम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, इक महि बीजो पं. तिरि ॥
१८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष अठ्यासी हजार, पूर्व कोड़ज च्यार फुन ॥
१९. बीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, पृथ्वी पं. तिरि जघन्य स्थिति ॥
२०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष अठ्यासी हजार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार फुन ॥
२१. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, कोड़ पूर्व तिरि जेष्ठ स्थिति ॥
२२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष अठ्यासी हजार, पूर्व कोड़ज च्यार फुन ॥
२३. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, पृथ्वी पं. तिरि जघन्य स्थिति ॥
२४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, पूर्व कोड़ज चिउं तिरि ॥
२५. पांचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त बेह, जघन्य स्थिति बिहुं भव तणों ॥
२६. उत्कृष्ट काल प्रगट, अष्ट भवां नों इह विधे ।
अंतर्मुहूर्त्त अठ, चिउं भव पृथ्वी चिउं तिरि ॥
२७. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, कोड़ पूर्व तिरि जेष्ठ स्थिति ॥
२८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, पूर्व कोड़ज च्यार तिरि ॥
२९. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सहस्र बावीस वर्षेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥
३०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष अठ्यासी हजार, पूर्व कोड़ज च्यार फुन ॥
३१. अष्टम गमे जगीस, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र बावीस, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१५. सेसं तं चैव ।

१६. कालादेसेणं उभयो ठितीए करेज्जा १-९ ।

(श० २४।२४७)

१७. प्रथमे गमे 'कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ताइं'
ति पृथिवीसत्कं पञ्चेन्द्रियसत्कं चेति,
(वृ० प० ८४०)

१८. उत्कृष्टतोऽष्टाशीतिवर्षंसहस्राणि पृथिवीसत्कानि
चतस्रश्च पूर्वकोट्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यक्सत्काः,
(वृ० प० ८४०)

*सय : राम को सुजश घणो

१३८ भगवती जोड

३२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
वर्ष अठ्यासी हजार, अंतर्मुहूर्त्त च्यार तिरि ॥
३३. नवमे गमे विचार, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष बावीस हजार, कोड़ पूर्व तिरि जेष्ठ स्थिति ॥
३४. उत्कृष्टो सुविमास, अद्धा अष्ट भवां तर्णों ।
सहस्र अठ्यासी वास, पूर्व कोड़ज च्यार तिरि ॥
- तिर्यंच पंचेंद्रिय में अपकाय स्युं चउरिद्रिय तक ऊपजे, तेहनों अधिकार^१

३५. *जो ऊरजे अपकायिक थकी हो, पंचेंद्री तिर्यंच विषेह ।
इत्यादिक प्रश्नोत्तर तर्णों हो, आगल बात कहेह ॥

३६. इम अपकाइया पिण जाणवा हो,
इम जाव चउरिद्रिया जाण ।
ऊपजे पं. तिरि नें विषे हो, ते कहिवा सर्व पिच्छाण ॥

वा०—जिम पृथ्वीकाय नां जीव मरी पंचेंद्रिय तिर्यंच नें विषे ऊपजे ते
कह्या, तिम अपकायिक थकी जाव चउरिद्रिय थकी पंचेंद्रिय नें विषे ऊपजे ते
कहिवा ।

३७. णवरं इतरो विशेष छं हो, सर्वत्र सगलै स्थान ।
भणवी लब्धिज आपणी हो, पूर्वली पर जान ॥

सोरठा

३८. सर्वत्र कहितां जेह, अप जावत चउरिद्री थी ।
पं. तिर्यंच विषेह, तिण में ऊपजतां तर्णें ॥
३९. अपणो कहितां एह, अपकायादिक नीं लद्धी ।
परिमाणादिक जेह, भणवी जेहनीं छं तिका ॥
४०. तिका लब्धि सुविचार, पूर्व सूत्र समूह थी ।
दिल मांहे अवधार, वारू विधि करि जाणवी ॥
४१. *नव ही पिण गमा नें विषे हो, जे भव आश्रयो जाण ।
जघन्य थकी भव दाय छे हो, उत्कृष्ट अष्ट पिच्छाण ॥
४२. काल आश्रयो इह विषे हो, अप प्रमुख नें माण ।
वलि पंचेंद्री तिर्यंच नें हो, विहुं नीं स्थिति करि जाण ॥

सोरठा

४३. अथ हिव आगल जेह, वाक्य उक्त तेहिज अर्थ ।
अतिही प्रगटपणेह, कहिये छे ते सांभलो ॥
४४. *जिम पृथ्वीकायिक थकी हो, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
ऊपजता नें कही लद्धी हो, सगलै गमा विषे जेह ॥
४५. तिमहिज अपकायिक थकी हो, जाव चउरिद्री थी ताय ।
तिरि पंचेंद्रिय नें विषे हो, लब्धि ऊपजतां नें पाय ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ८२-८८

*लय : राम को सुजश घणो

३५. जइ आउक्काइएहिंतो उववज्जंति ?

३६. एवं आउक्काइयाण वि । एवं जाव चउरिद्रिया
उववाएयव्वा,

वा०—यथा पृथिवीकायिकेभ्यः पंचेन्द्रियतियांक्षुत्पद्य-
मानानां जीवानां लब्धिरुक्ता तथैवाप्कायादिभ्यश्चतु-
रिन्द्रियान्तेभ्य उत्पद्यमानानां सा वाच्येति ।

३७. नवरं—सव्वत्थ अप्पणो लद्धी भाणियव्वा ।

३८. सर्वत्राप्कायिकादिभ्यश्चतुरिन्द्रियान्तेभ्य उद्वृत्तानां
पंचेन्द्रियतिर्यक्षुत्पादे (वृ० प० ८४०)

३९. 'अप्पणो' ति अप्कायादेः सत्का लब्धिः परिमाणा-
दिका भणितव्या, (वृ० प० ८४०)

४०. सा च प्राक्तनसूत्रेभ्योऽवगन्तव्या,
(वृ०. प. ८४०)

४१. नवसु वि गमएसु भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवगह-
णाइं, उक्कोसेणं अट्ट भवगहणाइं ।

४२. कालादेसेणं उभओ ठिति करेज्जा सव्वेसिं सव्व-
गमएसु ।

४३. अथानन्तरोक्तमेवार्थं स्फुटतरमाह—
(वृ० प० ८४०)

४४. जहेव पुढविककाइएसु उववज्जमाणानं लद्धी

४५. तहेव सव्वत्थ

४६. स्थिति अने संवेध नें हो, नवूँई गमा विषेह ।
उपयोगे करि जाणवूं हो, वारू जिन वचनेह ॥
४७. जो तिरि पंचेंद्रिय थी ऊपजे हो, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
स्यूं सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच थी हो,
कै असन्नी पं. तिरि थी जेह ॥
४८. जिन कहै सन्नी पं. तिरि थीकी हो,
असन्नी पं. तिरि थी सोय ।
तिरि पंचेंद्री में ऊपजे हो, तास भेद इम जोय ॥
४९. जिम पृथ्वीकायिक विषे हो, तिरि पंचेंद्री संवेद ।
भेद कह्या ऊपजतां थकां हो, तिमहिज कहिवा भेद ॥
तिर्यंच पंचेंद्रिय में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ऊपजे, तेहनों अधिकार'
५०. जाव असन्नी पंचेंद्री तिरि हो, हे भगवंत जी ! तेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै हो, तिरि पंचेंद्री विषेह ॥
५१. ते प्रभु ! केतला काल नीं हो, स्थितिक विषे उपजेह ?
थी जिन भाखै जघन्य थी हो, अंतर्मुहूर्त लेह ॥
५२. उत्कृष्ट पत्योपम तणें हो, असंख्यातमे भाग ।
आयुवंत विषे ऊपजे हो, एह युगलिया माग ॥

सोरठा

५३. इह वचने करि जोय, असन्नी पं. तिर्यंच जे ।
काल करीनें सोय, युगल तिर्यंच हुवै जिके ॥
५४. *ते प्रभु ! असन्नी पं. तिरि हो, इत्यादि अवशेख ।
परिमाणादिक द्वार नीं हो, वक्तव्यता इम लेख ॥
५५. जिमहिज पृथ्वी नें विषे हो, असन्नी पंचेंद्री ताहि ।
ऊपजता नें जे कह्यो हो, पृथ्वी उद्देसक मांहि ॥
५६. तिमहिज असन्नी पं. तिरि हो, पं. तिर्यंच रै मांहि ।
ऊपजता नें आखियै हो, निरविशेष सहू ताहि ॥
५७. यावत भव आश्रयी लगै हो, काल आश्रयी जघन्य ।
अंतर्मुहूर्त दिय छै हो, जघन्यायु बिहुं भव जन्य ॥
५८. उत्कृष्ट पत्योपम तणों हो, असंख्यातमों भाग ।
पृथक पूर्व कोड़ अधिक ही हो, धुर गम अद्दा माग ॥

सोरठा

५९. उत्कृष्ट पत्य नों पेख, असंख्यातमो भाग जे ।
अधिक वलि सुविशेष, पृथक पूर्व कोड़ किम ॥

देखें परि. २, यत्र ८९

*लय : राम को सुजश घणो

१४० भगमती जोड़

४६. ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-९ ।

४७. जइ पंचिदितिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति—
कि सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?
असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति ?
४८. गोयमा ! सण्णिपंचिदिय, असण्णिपंचिदिय, भेओ

४९. जहेव पुढविककाइएसु उववज्जमाणस्स

५०. जाव— (श० २४।२४९)
असण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए
पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए,
५१. से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्ठितीएसु,
५२. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागट्ठितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।२५०)

५३. अनेनासंजिपंचेन्द्रियाणामसंख्यातवर्षायुष्केषु पंचे-
न्द्रियतिर्यक्षूत्पत्तिरुक्ता (वृ० प० ८४०)

- ५४, ५५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जंति ? अवसेसं जहेव पुढविककाइएसु उववज्ज-
माणस्स असण्णिस्स
'अवसेसं जहेवे' त्यादि, अवशेष—परिमाणादिद्वार-
जातं यथा पृथिवीकायिकेषूत्पद्यमानस्यासञ्जिनः
पृथिवीकायिकोद्देशकेऽभिहितं तथैवासञ्जिनः पंचे-
न्द्रियतिर्यक्षूत्पद्यमानस्य वाच्यमिति ।
(वृ० प० ८४०. ८४१)

५६. तहेव निरवसेसं

५७. जाव भवादेमो त्ति । कालादेसेणं जहण्णेणं दो
अंतोमुहुत्ता,
५८. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडि-
पुहत्तमव्वहियं,

५९. 'उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडि-
पुहत्तमव्वहियं' ति, कथम् ? (वृ० प० ८४१)

६०. पूर्व कोड़ स्थितिवंत, असन्नी पंचेंद्री मरी ।
पंचेंद्री तिरि हुंत, कोड़ पूर्व आयू विषे ॥
६१. इम भव ग्रहणज सात, अष्टम भव तिरि युगल ह्वै ।
पल्य तणों विख्यात, असंख्यातमें भाग स्थिति ॥
६२. *सेवै कालज एतलो हो, करै गति-आगति इतो काल ।
ओघिक नें ओघिक गमो हो, दाख्यो प्रथम दयाल ॥
६३. द्वितीय गमा नें विषे लद्धी हो, परिमाणादिक नीं एहीज ।
णवरं इतरो विशेष छै हो, आगल तेह कहीज ॥
६४. काल आश्रयी जघन्य थी हो, अंतर्मुहूर्त्त दोय ।
बिहुं भव पं. तिर्यच नां हो, जघन्य आउखो होय ॥
६५. उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं हो, अंतर्मुहूर्त्त च्यार ।
अठ भव आश्रयी आखियो हो, ए गति-आगति धार ॥
६६. तेहिज असन्नी पंचेंद्री तिरि हो, उत्कृष्ट काल नीं जेह ।
स्थितिक नें विषे ऊपनो हों, ते केतलो आयू पावेह ?
६७. जघन्य अनें उत्कृष्ट थी हो, पल्योपम नों तेह ।
असंख्यातमा भाग नें हो, स्थितिक में ऊपजेह ॥
६८. हे प्रभु ! ते असन्नी तिरि हो, जिम रत्नप्रभा रै मांहि ।
ऊपजतां असन्नी तणें हो, दाख्यो तिम सहु ताहि ॥
६९. जाव काल आश्रयी लगै हो, णवरं इतरो विशेष ।
परिमाण द्वार विषे तसु हो, कहिवू इण विधि पेख ॥
७०. जघन्य एक बे त्रिण हुवै हो, उत्कृष्टा अवलोय ।
संख्याता हिज ऊपजै हो, शेष तिमज सहु जोय ॥

सोरठा

७१. असंख वर्षायू जोय, पंचेंद्रिय तिर्यच जे ।
असंख्याता नहिं होय, तिणसू संख्याता ऊपजै ॥
७२. *तेहिज असन्नी पंचेंद्री तिरि हो, आपणपै इज तेह ।
जघन्य काल स्थितिक थयो हो, कितै काल स्थितिके ऊपजेह ?
७३. जघन्य थकी अंतर्मुहूर्त्त नीं हो, स्थितिक विषे ऊपजेह ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व तणां हो, ऊपजै आयु विषेह ॥

सोरठा

७४. असन्नी पं. तिर्यच, जघन्यायु मरि युगलियो ।
हुवै नहीं इम संच, साधिक पूर्व कोड़ नहीं ॥
७५. *ते प्रभु ! असन्नी पं. तिरि हो, इत्यादिक अवधार ।
परिमाणादिक पूछियो हो, भाखै जिन जगतार ॥

*लय : राम को मुजश घणों

६०. असंज्ञी—पूर्वकोटघायुष्कः पूर्वकोटघायुष्केष्वेव
पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षुत्पन्नः (वृ० प० ८४१)
६१. इत्येवं सप्तसु भवग्रहणेषु सप्त पूर्वकोटघः अष्टम-
भवग्रहणे तु मिथुनकतिर्यक्षु पल्योपमासंख्येयभाग-
प्रमाणायुष्केषूत्पन्न इति, (वृ० प० ८४१)
६२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।
६३. वितियगमए एस चैव लद्धी, नवरं—
६४. कालादेसेण जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता,
६५. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहु-
त्तेहि अब्भहियाओ, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं
कालं गतिरागति करेज्जा १,२ । (श० २४।२५१)
६६. सो चैव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो
६७. जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएसु,
उक्कोसेण वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्वितीएसु
उववज्जेज्जा । (श० २४।२५२)
६८. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
एवं जहा रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स असण्णस्स
तहेव निरवसेसं
६९. जाव कालादेसो त्ति, नवरं—परिमाणे
७०. जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं
संखेज्जा उववज्जंति । सेसं तं चैव ३ ।
(श० २४।२५३)

७१. 'उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति' त्ति असंख्यात-
वषायुषां पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षामसंख्यातामामभावा-
दिति, (वृ० प० ८४१)
७२. सो चैव अप्पणा जहण्णकालद्वितीओ जाओ
७३. जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पुव्व-
कोडिआउएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।२५४)
७४. जघन्यायुरसंज्ञी सङ्ख्यातायुष्केष्वेव पञ्चेन्द्रियतिर्य-
क्षुत्पद्यत इति कृत्वा पूर्वकोटघायुष्केष्वित्युक्तम्,
(वृ० प० ८४१)
७५. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ?

७६. शेष परिमाणादिक जिके हो, जिम एहिज कह्युं ताहि ।
असन्नी पंचेंद्री तिरि हो, ऊपजतो पृथ्वी मांहि ॥
७७. मध्यम तीन गमा विषे हो, जाव अनुबंध लगेह ।
जिम तिहां आख्यो तिम इहां हो, मध्यम तीन गमेह ॥
७८. भव आदेश करी इहां हो, जघन्य थकी इम जोय ।
बे भव ग्रहण करै तिको हो, उत्कृष्टा अठ होय ॥
७९. काल आश्रयी जघन्य थी हो, अंतर्मुहूर्त्त दोय ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं हो, अंतर्मुहूर्त्त चिउं होय ॥
८०. तेहिज जघन्य काल स्थिति नों धणी हो,
असन्नी पं. तिर्यच ।
जघन्य स्थितिक पं. तिरि विषे हो, ऊपनों कर्म विरंच ॥
८१. एहिज वक्तव्यता तसु हो, णवरं इतरो विशेष ।
काल आश्रयी फेर छै हो, सांभलजो तसु लेख ॥
८२. जघन्य अद्धा बे भव तणों हो, अंतर्मुहूर्त्त दोय ।
उत्कृष्ट अद्ध अठ भव तणों हो, अंतर्मुहूर्त्त अठ होय ॥
८३. सेवै कालज एतलो हो, ए गति-आगति काल ।
जघन्य अनें जघन्य गमो हो, दाख्यो पंचम दयाल ॥
८४. तेहिज असन्नी पं. तिरि हो, जघन्य आयुवंत जेह ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे हो, ऊपनों कर्म वसेह ॥
८५. जघन्य कोड़ पूर्व विषे हो, उत्कृष्ट थी पिण जेह ।
कोड़ पूर्व विषे ऊपनों हो, षष्ठम गमक विषेह ॥
८६. एहिज वक्तव्यता तसु हो, णवरं इतरो विशेष ।
काल आश्रयी जाणवो हो, ते कहिवू करि लेख ॥

सोरठा

८७. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, कोड़ पूर्व तिर्यच-पं. ॥
८८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, कोड़ पूर्व चिउं पं. तिरि ॥
८९. *तेहिज असन्नी पं. तिरि हो, आपणपी अवलोय ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक थयो हो, सप्तम गमके सोय ॥
९०. तेहिज असन्नी पं. तिरि तणां हो, प्रथम गमक नीं पेख ।
वक्तव्यता कहिवी इहां हो, णवरं इतरो विशेष ॥
९१. स्थिति जघन्य पुव्व कोड़ नीं हो, उत्कृष्ट पिण पुव्व कोड़ ।
असन्नी पं. तिर्यच नीं हो, शेष तिमज सह जोड़ ॥
९२. काल आश्रयी जघन्य थी हो, पूर्व कोड़ कहेह ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही हो, बे भव अद्धा एह ॥
९३. उत्कृष्ट पत्योपम तणों हो, असंख्यातमों भाग ।
पूर्व कोड़ पृथक वली हो, इतो काल गतागति माग ॥

७६. अवसेसं जहा एयस्स पुढविककाइएसु उववज्जमाणस्स
७७. मज्झिमेसु तिसु गमएसु तहा इह वि मज्झिमेसु तिसु
गमएसु जाव अनुबंधो त्ति ।
७८. भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं अट्ट
भवग्गहणाइं ।
७९. कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं
चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भ-
हियाओ ४ । (श० २४।२५५)
८०. सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो
८१. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—कालादेसेणं
८२. जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं अट्ट अंतोमुहुत्ता,
८३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ५ । (श० २४।२५६)
८४. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववण्णो
८५. जहण्णेणं पुव्वकोडिआउएसु, उक्कोसेणं वि पुव्व-
कोडिआउएसु उववज्जेज्जा,
८६. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—कालादेसेणं जाणेज्जा ६ ।
(श० २४।२५७)

८९. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ
९०. सच्चेव पढमगमगवत्तव्वया, नवरं
९१. ठिनी जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेणं त्रि पुव्वकोडी ।
सेसं तं चेव ।
९२. कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमब्भहिया,
९३. उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडि-
पुहुत्तमब्भहियं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं
कालं गतिरागति करेज्जा ७ । (श० २४।२५८)

*लय : राम को सुजश घणो

१४. तेहिज असन्नी पं. तिरि हो, उत्कृष्ट आयुवंत ।
जघन्य काल स्थितिक विषे हो, ऊपनों तास उदंत ॥
१५. एहिज वक्तव्यता तसु हो, जिम सप्तम गम मांय ।
दाखी तिम कहिवी इहां हो, णवरं विशेष कहाय ॥
१६. काल आश्रयी जघन्य थी हो, घुर भव पूर्व कोड़ ।
अंतर्मुहूर्त्त दूजे भवे हो, बे भव अद्धा जोड़ ॥
१७. उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे हो, पूर्व कोड़ज च्यार ।
अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली हो, इतो काल गतागतिकार ॥
१८. तेहिज असन्नी पं. तिरि हो, उत्कृष्ट आयुवंत ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे हो, ऊपनों तास वृंतंत ॥
१९. जघन्य अनें उत्कृष्ट थी हो, पल्योपम नों पेख ।
असंख्यातमे भाग में हो, ऊपजवो तसु देख ॥
१००. इम जिम रत्नप्रभा विषे हो, असन्नी पं. तिर्यंच ।
ऊपजता नें नवम गमे हो, तिमहिज सर्व विरंच ॥

सोरठा

१०१. रत्नप्रभा रै मांहि, असन्नी पंचेंद्रिय तिरि ।
ऊपजता नें ताहि, नवम गमा विषे कह्यो ॥
१०२. संघयण अवगाहनादि, कायसंवेध लगै इहां ।
तिमहिज सर्व संवादि, यावत कालादेश इम ॥
१०३. *णवरं परिमाणे करी हो, जिम एहनां इज ताथ ।
तीजा गमक विषे कह्यो हो, तिम इहां पिण कहिवाय ॥

सोरठा

१०४. जघन्य एक बे तीन, उत्कृष्टा संख्यात जे ।
ऊपजवूज कथीन, इम तीजा गम सम कह्यो ॥
१०५. *शेष संघयणादिक सहु हो, रत्नप्रभा में ताम ।
असन्नी ऊपजता नें कह्यो हो, तिमहिज कहिवू आम ॥
१०६. शत चउवीसम देश बीसम तणों हो,
चिउं सौ छवीसमीं ढाल ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी हो, 'जय-जश' हरष विशाल ॥

१४. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो;

१५. एस चेव वत्तव्वया जहा सत्तमगमे, नवरं—

१६. कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमग्गहिया,

१७. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहुत्तेहि
अग्गहियाओ, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं
गतिरागतिं करेज्जा न । (श० २४।२५९)

१८. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो

१९. जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं उक्कोसेण
वि पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं ।

१००. एवं जहा रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स असण्णिस्स
नवमगमए तहेव निरवसेसं

१०२. जाव कालादेसो त्ति;

१०३. नवरं—परिमाणं जहा एयस्सेव तत्तियगमे ।

१०५. सेसं तं चेव ९ ।

(श० २४।२६०)

तिर्यंच पंचेंद्रिय में सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच ऊपजै, तेहनों अधिकार'—

इहल

१. जो सन्नी पंचेंद्रिय, तिरियोनिक थी जेह ।
ऊपजै कर्म प्रभाव थी, तिरि पंचेंद्री विषेह ॥
 २. तो स्यूं संख्यातल वर्ष, आयुष थी उपजेह ।
कै असंख्यातल वर्षायु थी ऊपजै ? इम पूछेह ॥
 ३. जिन भलखै संख्यातल वर्ष, आयुष थी उपजंत ।
असंख्यातल वर्षायु थी, ऊपजवो नहि हुंत ॥
- बल०—इहल असंख्यातल वर्ष आयुषवंत ते युगलिया मरि देवतल हुवै ते मलटै तिर्यंच पंचेंद्री नै विषे न ऊपजै ।
- ॡ. जो संख्यातल वर्षायु थी, यलवत ते उपजंत ।
तो स्यूं पर्याप्त थीकी, कै अपज्जत्त थी हुंत ?
 - ॡ. जिन भलखै दोन थीकी, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
ऊपजै छै सन्नी तिरि, वलि गीयम पूछेह ॥
- *जय-जय जलन जिनेंद्र नों ॥ [ध्रुपदं]
६. संख्यातल वर्षायु सन्नी तिरि, ऊपजवल योग्य एह ।
तिरि पंचेंद्रिय नै विषे, ते कितै कल स्थितिक उपजेह ?
 ७. श्री जिन भलखै जघन्य थी, अंतर्महुर्त्त विषेह ।
उत्कृष्ट त्रिण पल्योपम, स्थितिक विषे ऊपजेह ॥
 ८. हे प्रभु ! ते सन्नी तिरि, इत्यादिक पूछेह ।
परिमाणलदिक शेष जे, तेहनु उत्तर एह ॥
 ९. जिम एहिज सन्नी तिर्यंच नै, रतनप्रभल नै विषेह ।
ऊपजतल नै आखियो, प्रथम गमक विषे जेह ॥
 १०. तिमज इहल पिण जलणवो, णवरं इतरो विशेष ।
अवगलहणल में फेर छै, ते कहिवूं इम लेख ॥
 ११. जघन्य थीकी अवगलहणल, आंगुल नों अवधलर ।
असंख्यातलमें भलग छै, उत्कृष्ट योजन हजर ॥
- बल०—'सन्नी तिर्यंच तिर्यंच-पंचेंद्रिय में ऊपजै, तेहनै प्रथम गमे सन्नी तिर्यंच रतनप्रभल में ऊपजै तेहणल प्रथम गमल नी परै कहलू । णवरं अवगलहणल जघन्य आंगुल नों असंख्यातलमें भलग, उत्कृष्ट सहस्र योजन । शेष तिमहिज

१. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिणएहंतो उव-
वज्जति—
२. कि संखेज्जवलसलउय ? असंखेज्जवलसलउय ?
३. गीयमल ! संखेज्जवलसलउय, नो असंखेज्जवलसलउय ।
(श० २ॡ१२६१)
- ॡ. जइ संखेज्जवलसलउय जलव कि पज्जत्तसंखेज्जवलसल-
उय ? अपज्जत्तसंखेज्जवलसलउय ?
- ॡ. दोसु वि । (श० २ॡ१२६२)
६. संखेज्जवलसलउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिण ए णं
भंते ! जे भविण पंचिदियतिरिक्खजोणिणेषु उव-
वज्जित्तणं, से णं भते ! केवतिकललद्वितीणेषु उव-
वज्जेज्जल ?
७. गीयमल ! जहण्णेण अंतोमुहुत्तद्वितीणेषु, उवकोसेण
तिपलिभोवमद्वितीणेषु उववज्जेज्जल ।
(श० २ॡ१२६३)
८. ते ण भंते ! जीवल एगसमणं केवतियल उव-
वज्जति ? अवसेसं
- ९,१०. जहल एयस्स चेव सण्णिस्स रयणपभलणं उववज्ज-
मलणस्स पढमगमणं, नवरं—ओगलहणल
११. जहण्णेण अंगुलस्स अमखेज्जइभलगं, उवकोसेण
जीयणसहरसं ।

*लय : वेग पधलरो महल

१. देखै परि. २, यंत्र ९०

१ॡॡ भगवती जोइ

कह्यो भवादेश लगै । तिहां सन्नी तिर्यंच रत्नप्रभा में जाय तेहनीं अवगाहना असन्नी तिर्यंच रत्नप्रभा में जावै तेहनी परै भलावण में आई । तिण ठामें पिण जघन्य आंगुल रो असंख्यातमो भाग, उत्कृष्ट हजार योजन कही । अनै इहां पिण सन्नी तिर्यंच तिर्यंच-पंचेंद्रिय नै विषे ऊपजै, तेहनी अवगाहना नवरं कही नै एतलीज कही । तो णवरं कहिवा रो कारण स्यू ?

उत्तर—असन्नी पंचेंद्रिय तथा सन्नी पंचेंद्रिय रत्नप्रभा में ऊपजै ते तो पर्याप्तो इज ऊपजै पिण अपर्याप्तो ऊपजै नथी । ते रत्नप्रभा में जाय ते पर्याप्ता री खवाहना जघन्य आंगुल नों असंख्यातमों भाग बड़ो छै पर्याप्ता माटे । अनै इहां सन्नी तिर्यंच तिर्यंच-पंचेंद्रिय में ऊपजै ते अपर्याप्तो पिण ऊपजै छै । ते अपर्याप्ता नीं अवगाहना जघन्य आंगुल रा असंख्यातमा भाग नीं छै, पिण ए असंख्यातमों भाग छोटो छै अपर्याप्ता माटे । णवरं कहिण में एहवू न्याय जणाय छै । वलि बहुश्रुत न्याय कहै ते सत्य । (ज. स.)

इहां हजार योजन री अवगाहनां कही ते मत्स्यादिक नीं जाणवी ।

१२. शेष संघयणादिक तिके, तिमहिज कहिवूं ताय । यावत भव आश्रयी लगै, हिव तसु अद्धा आय ॥
१३. काल आश्रयी जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त्त बे जोड़ । उत्कृष्ट त्रिण पत्य नै वली पृथक पूर्व कोड़ ॥
१४. सेवै कालज एतलो, ए गति-आगति काल । ओधिक नै ओधिक गमो, दाखयो प्रथम दयाल ॥
१५. ते संख वर्षायु सन्नी तिरि, जघन्य काल स्थितिकेह । उपनों वक्तव्यता तसु, एहिज रीत कहेह ॥
१६. णवरं इतरो विशेष छै, काल आश्रयी जोय । जघन्य अद्धा बे भव तणों, अंतर्मुहूर्त्त दोय ॥
१७. उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं, ए सन्नी तिरि संच । अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली, ए पंचेंद्री तिर्यंच ॥
१८. तेहिज संख वर्षायु सन्नी तिरि, उत्कृष्ट काल नीं जेह । स्थितिक नै विषे ऊपनों, तिरि पंचेंद्री विषेह ॥
१९. जघन्य अनै उत्कृष्ट थी, तीन पत्य नीं जाण । स्थितिक नै विषे ऊपनों, तीजे गमे पिच्छाण ।
२०. एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं परिमाण जाण । जघन्य एक बे त्रिण तथा, ऊपजवूं पहिछाण ॥
२१. उत्कृष्टा ते ऊपजै, संख्याता थी जोय । मिथुनक असंख हुवै नहीं, अदल न्याय अवलोय ॥
२२. अवगाहना सन्नी तिरि तणीं, जघन्य आंगुल नों धार । असंख्यातमों भाग छै, उत्कृष्ट योजन हजार ॥

बा०—इहां हजार योजन रो मत्स्यादिक मरी उत्कृष्ट आउखै युगलियापण ऊपजै ।

२३. शेष संघयणादिक सहु, तिमहिज कहिवा ताय । यावत अनुबंध लग जिके, हिव संवेधज आय ॥

बा०—इह तूत्कर्षतो योजनसहस्रमाना, सा च मत्स्यादीनाश्रित्यावसेयेति, (व० प० ८४१)

१२. सेसं तं चैव जाव भवादेशो त्ति ।
१३. कालादेशेण जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडी पुहत्तमम्भहियाइं,
१४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा १ । (श० २४।२६४)
१५. सो चैव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो, एस चैव वत्तव्वया ।
१६. नवरं—कालादेशेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता,
१७. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहुत्तेहि अम्भहियाओ २ । (श० २४।२६५)
१८. सो चैव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो
१९. जहण्णेणं तिपलिओवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं वि तिपलिओवमट्ठितीएसु उववज्जेज्जा,
२०. एस चैव वत्तव्वया, नवरं—परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
२१. उक्कोसेणं सखेज्जा उववज्जति ।
२२. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असखेज्जइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहसं ।

२३. सेसं तं चैव जाव—अणुबंधो त्ति ।

२४. भवादेश भव आश्रयी, तस भव दोग विरंच ।
एक भव सन्नी तिर्यंच नों, बीजो युगल तिर्यंच ॥
२५. काल आश्रयी जघन्य थी, पत्योपम त्रिण जोय ।
अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही, जघन्य स्थितिक भव दोग ॥
२६. उत्कृष्टो अद्धा तसु, पत्य तीन संवेह ।
पूर्व कोडज अधिक ही, जेष्ठ स्थितिक भव बेह ॥
२७. तेहिज संख वर्षायु सन्नी-तिरि आपणपे जेह ।
जघन्य काल स्थितिक थई, उपनों तिरि पं. विषेह ॥
२८. जघन्य अंतर्मुहूर्त्त आउखे, उत्कृष्ट पूर्व कोड ।
आयुवंत विषे ऊपनों, चउथे गमके जोड ॥
२९. लब्धि परिमाणादिक तणीं, जिम एहनैज कहाय ।
सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच नें, ऊपजतां पृथ्वी मांय ॥
३०. मध्यम तीन गमा विषे, सर्वहीज लद्धी तेह ।
इहां पिण बिचले त्रिण गमे, कहिवी लेखो करेह ॥
३१. संवेध जिमहिज जाणवो, एहिज निश्चै सुजोय ।
पंचेंद्रिय तिर्यंच नां, उद्देशक विषे सोय ॥
३२. असन्नी पं. तिर्यंच ते, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
ऊपजतां नें लद्धी कही, बिचले तीन गमेह ॥
३३. तिमज संख वर्षायु सन्नी-पंचेंद्रिय तिर्यंच ।
ऊपजतां पं. तिरि विषे, मध्यम त्रिण गम संच ॥

सोरठा

३४. चउथा गमा विषेह, भवादेश करि जघन्य थी ।
बे भव ग्रहण करेह, उत्कृष्ट भव ग्रहण अठ ॥
३५. काल आश्रयी सोय, जघन्य थकी अद्धा तसु ।
अंतर्मुहूर्त्त दोग, बिहुं भव नों ए जघन्य स्थिति ॥
३६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणीं ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, पूर्व कोडज च्यार फुन ॥
३७. पंचम गमे सुजोय, भवादेश करि जघन्य थी ।
बे भव ग्रहणज होय, उत्कृष्टा भव ग्रहण अठ ॥
३८. काल आश्रयी सोय, जघन्य अद्धा बे भव तसु ।
अंतर्मुहूर्त्त दोग, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त्त अठ ॥
३९. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
पूर्व कोडज लेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक तिरि ॥
४०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणीं ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, पूर्व कोडज च्यार वलि ॥
४१. *तेहिज संख वर्षायु सन्नी-तिरि पं. आपणपेह ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक थई, उपनों तिरि पं. विषेह ॥

*लय : वेग पधारो महल

१४६ भगवती जोड

२४. भवादेशेण दो भवग्रहणाइं ।
२५. कालादेशेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं अंतो-
मुहुत्तमब्भहियाइं,
२६. उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडीए अन्भ-
हियाइं ३ । (श० २४।२६६)
२७. सो चैव अप्पणा जहणकालट्ठितीओ जातो
२८. जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्ठितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडी-
आउएसु उववज्जेज्जा ।
२९. लद्धी से जहा एयस्स चैव सण्णिपंचिदियस्स पुढवि-
क्काइएसु उववज्जमाणस्स
३०. मज्झिल्लएसु तिसु गमएसु सच्चेव इह वि मज्झिमेसु
तिसु गमएसु कायव्वा ।
३१. संवेहो जहेव एत्थ चैव
'एत्थ चैव' ति अत्रैव पञ्चेन्द्रियतिर्यंगुद्देशके,
(वृ० प० ८४१)
- ३२, ३३. असण्णिस्स मज्झिमेसु तिसु गमएसु ४-६ ।
(श० २४।२६७)

३४. स चैवं—भवादेशेण जघन्यतो द्वौ भवौ उत्कृष्टतस्त्वष्ट
भवाः, (वृ० प० ८४१)
३५. कालादेशेण जघन्येन द्वे अंतर्मुहूर्त्ते (वृ० प० ८४१)
३६. उत्कर्षतश्चतस्रः पूर्वकोटयोऽन्तर्मुहूर्त्तचतुष्काधिकाः,
(वृ० प० ८४१)

४१. सो चैव अप्पणा उक्कोसकालट्ठितीओ जाओ

४२. जिम प्रथम गमक कह्यु एहनों, कहिवू तिमहिज हेर ।
णवरं इतरो विशेष छे, स्थिति अनुबन्ध में फेर ॥
४३. स्थिति अनं अनुबन्ध जे, जघन्य अनं उत्कृष्ट ।
पूर्व कोड़ज जाणवो, हिव संवेधज इष्ट ॥
४४. काल आश्रयी जघन्य थी, धुर भव पूर्व कोड़ ।
अंतर्मुहूर्त्त दूजे भवे, बिहुं भव अद्धा जोड़ ॥
४५. उत्कृष्ट अद्धा अष्ट भवे, पृथक पूर्व कोड़ ।
तीन पत्य भव आठमे, वारू न्याय सुजोड़ ॥

वा०—इहां पृथक पूर्व कोड़ कहा, ते सात पूर्व कोड़ जाणवा । ते उत्कृष्टा
आउखा नां ७ भव संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यच नां करी आठमें भव तीन
पत्योपम आउखे युगलियो तिर्यच थयो ।

४६. तेहिज पंचेंद्री सन्नी तिरि, उत्कृष्ट आयुवंत ।
जघन्य काल स्थितिक पं.-तिरि, तेह विषे उपजंत ॥
४७. एहिज वक्तव्यता तसु, पूर्वली पर पेख ।
णवरं इतरो विशेष छे, सांभलजो तसु लेख ॥
४८. काल आश्रयी जघन्य थी, धुर भव पूर्व कोड़ ।
अंतर्मुहूर्त्त दूजे भवे, बे भव अद्धा जोड़ ॥
४९. उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं, तिरि सन्नी भव च्यार ।
अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली, तिरि पंचेंद्रिय धार ॥
५०. तेहिज पंचेंद्री सन्नी तिरि, उत्कृष्ट आयुवंत ।
जिष्ठ काल स्थितिक पं.-तिरि, तेह विषे उपजंत ॥
५१. जघन्य अनं उत्कृष्ट थी, तीन पत्योपम देख ।
स्थितिक नं विषे ऊपजै, शेष तिमज संपेख ॥
५२. णवरं परिमाण अवगाहना, जिम एहनांज आख्यात ।
तीजा गमक विषे जिके, कहिवू तिम अवदात ॥

सोरठा

५३. तसु परिमाण जघन्य, एक दोय त्रिण ऊपजै ।
एक समय में जन्य, उत्कृष्ट संख्याता हुवै ॥
५४. अवगाहना उत्कृष्ट, योजन सहस्र तणीं हुवै ।
ए तीजे गम इष्ट, तेम इहां पिण जाणवू ॥
५५. *भवादेश करि तेहनों, बे भव ग्रहण करेह ।
धुर भव सन्नी तिर्यच नों, द्वितीय युगल तिरि लेह ॥
५६. काल आश्रयी बिहुं भवे, जघन्य अनं उत्कृष्ट ।
पूर्व कोड़ सन्नी तिरि, युगल पत्य त्रिण इष्ट ॥
५७. सेवै कालज एतलो, ए गति-आगति काल ।
उत्कृष्ट नं उत्कृष्ट गमो, दाख्यो नवम दयाल ॥

इति तिर्यच पंचेंद्रिय नं विषे संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यच ऊपजै तेहनां नव
गमा कहा । हिवै मनुष्य थकी तिर्यच पंचेंद्रिय नं विषे ऊपजै, तेहनों अधिकार
कहै छे—

*लय : वेग पधारो महल

४२. जहा पढमगमओ नवरं—

४३. ठिती अणुबंधो जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि
पुव्वकोडी ।
४४. कालादेसेण जहण्णेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमम्भहिया,
उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाइ पुव्वकोडीपुहत्त-
मम्भहियाइ ७ । (श० २४।२६८)

४६. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो,

४७. एस चेव वत्तव्वया नवरं

४८. कालादेसेण जहण्णेण पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमम्भहिया,

४९. उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहुत्तेहि
अम्भहियाओ ८ । (श० २४।२६९)

५०. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो

५१. जहण्णेण तिपलिओवमट्ठितीएसु, उक्कोसेण वि
तिपलिओवमट्ठितीएसु । अवसेसं तं चेव,

५२. नवरं—परिमाणं ओगाहणा य जहा एयस्सेव
तइयगमए ।

५३. 'नवरं परिमाण' मित्यादि, तत्र परिमाणमुत्कर्षतः
सङ्ख्याता उत्पद्यन्ते, (वृ० ह० ८४१)

५४. अवगाहना चोत्कर्षतो योजनसहस्रमिति ।
(वृ० प० ८४१)

५५. भवादेसेण दो भवगहणाइं,

५६. कालादेसेण जहण्णेण तिण्णि पलिओवमाइ पुव्व-
कोडीए अम्भहियाइं, उक्कोसेण तिण्णि पलिओवमाइं
पुव्वकोडीए अम्भहियाइं,

५७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ । (श० २४।२७०)

५८. मनुष्य थकी जो ऊपजै, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
तो स्यूं सन्नी मनुष्य थी, कै असन्नी मनु थी लेह ?
५९. जिन कहै सन्नी मनुष्य थकी, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
असन्नी मनुष्य थकी अपि, ऊपजै कर्म वसेह ॥

तिर्यंच पंचेंद्रिय में असन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

६०. असन्नी मनुष्य भदंतजी ! तिरि पंचेंद्री विषेह ।
जे ऊपजवा योग्य ते, कितै काल स्थितिक उपजेह ?

६१. श्री जिन भाखै जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त्त लेह ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व तणां, आयु विषे ऊपजेह ॥

६२. परिमाणादिक नीं जिंका, लब्धि प्राप्ति तेह ।
असन्नी मनुष्य नें धुर त्रिहुं गमक विषेज कहेह ॥

सोरठा

६३. नव् गमा रै मांहि, आदि ईज त्रिण गम इहां ।
एह संभवै ताहि, वृत्तिकार इम आखियो ॥

६४. जघन्य थकी पहिछाण, उत्कृष्टी पिण वलि तमु ।
अंतर्मुहूर्त्त जाण, एक स्थितिक थी आदि गम ॥

६५. *जिमहिज पृथ्वीकाय में, असन्नी मनुष्य सुजोय ।
ऊपजता नें लद्धी कही, तिमहिज कहिवी सोय ॥

६६. कायसवेधज इह विधे, जिम एहिज कहेह ।
पंचेंद्रिय तिर्यंच नां, उद्देशक नें विषेह ॥

६७. असन्नी पंचेंद्री तिर्यंच थी, तिरि पंचेंद्रिय मांहि ।
उत्पत्ति नां अधिकार थी, मध्यम त्रिण गम ताहि ॥

६८. तेह तीनुंई गमा विषे, आख्यो छै तिमहीज ।
समस्त कायसवेध ते, असन्नी मनु नों कहीज ॥

तिर्यंच पंचेंद्रिय में सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

६९. जो सन्नी मनुष्य थी ऊपजै, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
तो स्यूं संख वर्षायु थी, कै असंख वर्षायु थी जेह ?

७०. जिन कहै संख वर्षायु थी, ऊपजै तिरि-पं. विषेह ।
असंख्यात वर्षायु थी, ऊपजवू न कहेह ॥

७१. जो संख वर्षायु थी ऊपजै, तो स्यूं पजत्त संखेह ।
वर्षायु थकी ऊपजै, कै अपजत्त थी कहेह ?

७२. जिन कहै पजत्त संख्यात जे, वर्षायुष थी हुंत ।
अपजत्त संख वर्ष तणां, आयुष थी उपजंत ॥

७३. सन्नी मनुष्य भगवंत जी !, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
ऊपजवा नें योग्य ते, कितै काल स्थितिक उपजेह ?

*लय : वेग पधारो महल

१. देखें परि. २, यंत्र ९१

२. देखें परि. २, यंत्र ९२

१४८ भगवती जोड़

५८. जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति—किं सण्णिमणुस्से-
हितो ? असण्णिमणुस्सेहितो ?

५९. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो वि, असण्णिमणुस्सेहितो
वि उववज्जंति । (श० २४।२७१)

६०. असण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जित्तए, से णं भंते !
केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?

६१. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्ठितीएसु, उक्कोसेणं
पुव्वकोडिआउएसु उववज्जेज्जा ।

६२. लद्धी से तिसु वि गमएसु
लब्धिः—परिमाणादिका (वृ० प० ८४१)

६३. 'से' तस्यासञ्जिमनुष्यस्य त्रिष्वपि गमेष्वाद्येषु यतो
नवानां गमानां मध्ये आद्या एवेह त्रयो गमाः
संभवन्ति, (वृ० प० ८४१)

६४. जघन्यतोऽप्युत्कर्षतोऽपि चान्तर्मुहूर्त्तस्थितिकत्वेनैक-
स्थितिकत्वात्तस्येति, (वृ० प० ८४१)

६५. जहेव पुढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स ।

६६-६८. संवेहो जहा एत्थ चेव असण्णिपंचिदियस्स
मज्झिमेसु तिसु गमएसु तहेव निरवसेसो भाणियव्वो
१-३ । (श० २४।२७२)

'एत्थ चेव' त्ति अत्रैव पञ्चेन्द्रियतिर्यंगुद्देशकेऽसञ्जि-
पञ्चेन्द्रियतिर्यंगभ्यः पञ्चेन्द्रियतिर्यंगुत्पादाधिकारे,
(वृ० प० ८४१)

६९. जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति—किं संखेज्ज-
वासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ? असंखेज्जवासाउयसण्णि-
मणुस्सेहितो ?

७०. गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो असंखेज्जवासाउय ।
(श० २४।२७३)

७१. जइ संखेज्जवासाउय किं पज्जत्त ? अपज्जत्त ?

७२. गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, अपज्जत्तसंखेज्ज-
वासाउय । (श० २४।२७४)

७३. सण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकाल-
ट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?

७४. श्री जिन भाखे जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त विषेह ।
उत्कृष्ट तीन पल्योपम, स्थितिक में उपजेह ॥

७५. हे प्रभु ! ते सन्नी मनुष्य नें, लब्धि प्राप्ति कहिवाय ।
परिमाणादिक नीं जिंका, इह विधि कहियै ताय ॥

७६. जिम एहिज सन्नी मनुष्य नें, पृथ्वीकायिक मांय ।
ऊपजता नें प्रथम गमे, दाखी तिम कहिवाय ॥

सोरठा

७७. तिका लब्धि इम चीन, जे परिमाण थकीज कहुँ ।
जघन्य एक बे तीन, उत्कृष्ट संखेज्ज ऊपजै ॥

७८. स्वभाव थी पिण जेह, सन्नी मनुष्य संख्यात छै ।
तिणसूँ इक समयेह, संख्याता इज ऊपजै ॥

७९. षट संघयणज जाण, जघन्य थकी अवगाहना ।
आंगुल तणों पिछ्छाण, असंख्यातमा भाग नीं ॥

८०. उत्कृष्टी पहिछ्छाण, धनुष्य पंच सय नीं हुवै ।
वलि षटविध संठाण, षट लेख्या नें दृष्टि त्रिण ॥

८१. ज्ञान च्यार अवलोय, फुन अज्ञानज तीन जे ।
भजनाई करि जोय, जोग तीन उपयोग बे ॥

८२. संज्ञा च्यारज होय, कषाय च्यार कहीजियै ।
इंद्रिय पंच सुजोय, समुद्धात षट ह्वै वली ॥

८३. वेदन सात असात, त्रिविध वेद स्थिति जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त ख्यात, उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नीं ॥

८४. पसत्थ अपसत्थ संघ, अद्यवसायज उभय ह्वै ।
आयु सम अनुबंध, कहुँ कायसंवेध फुन ॥

८५. भवादेश करि इष्ट, बे भव ग्रहणज जघन्य थी ।
ह्वै अठ भव उत्कृष्ट, सूत्रे काल लिख्योज छै ॥

८६. *काल आश्रयी जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त बे जोड़ ।
उत्कृष्ट तीन पल्योपमे, पृथक पूर्व कोड़ ॥

सोरठा

८७. पूर्व कोड़ज सात, एकांतर भव मनु तिरिक्ख ।
अष्टम भव आख्यात, युगल हुवै पल्य तीन स्थिति ॥

८८. *तेहिज सन्नी मनुष्य ही, जघन्य काल नीं लेह ।
स्थितिक नें विषे ऊपनों, तिरि पंचेंद्री विषेह ॥

८९. वक्तव्यता तसु सर्व ही, प्रथम गमक जिम ख्यात ।
णवरं कायसंवेध नीं, अद्धा इहविध आत ॥

९०. काल आश्रयी जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त बे धार ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं, अंतर्मुहूर्त च्यार ॥

*लय : वेग पधारो महल

७४. गौयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं
तिपलिओवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।

(श० २४।२७५)

७५,७६. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ? लद्धी से जहा एयस्सेव सण्णिमणुस्सस्स
पुढविककाइएसु उववज्जमाणस्स पढमगमए

‘लद्धी से’ इत्यादि, लब्धिः परिमाणादिप्राप्तिः

(वृ० प० ८४१)

७७. सा चैवं—परिमाणतो जघन्येनैको द्वो वा उत्कर्षेण
तु सङ्ख्याता एवोत्पद्यन्ते (वृ० प० ८४१)

७८. स्वभावतोऽपि सङ्ख्यातत्वात् सञ्ज्ञमनुष्याणां,
(वृ० प० ८४१)

७९-८१. तथा षड्विधसंहनानिन उत्कर्षतः पञ्चधनुः
शतावगाहनाः षड्विधसंस्थानिनः षड्लेख्यास्रिविध-
दृष्टयो भजनया चतुर्ज्ञानास्वज्ञानाश्च त्रियोगा
द्विविधोपयोगाः (वृ० प० ८४१)

८२. चतुः सञ्ज्ञाश्चतुष्कषायाः पञ्चेन्द्रियाः षट्समुद्-
घाताः (वृ० प० ८४१)

८३. सातासातवेदनास्रिविधवेदा जघन्येनान्तर्मुहूर्तस्थितय
उत्कर्षेण तु पूर्वकोट्यायुषः (वृ० प० ८४१)

८४,८५. जाव—भवादेशो त्ति ।

प्रशस्तेतराध्यवसानाः स्थितिसमानानुबन्धाः काय-
संवेधस्तु भवादेशेन जघन्यतो द्वो भवो उत्कर्षतोऽष्टौ
भवाः कालादेशेन तु लिखित एवास्ते ।

(वृ० प० ८४१)

८६. कालादेशेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं
तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाइं ।

(श० २४।२७६)

८८. सो चैव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो,

८९. एस चैव वत्तव्वया, नवरं—

९०. कालादेशेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उक्कोसेणं
चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भ-
हियाओ २ । (श० २४।२७७)

९१. तेहिज सन्नी मनुष्य ही, उत्कृष्ट काल नीं तेह ।
स्थितिक नें विषे ऊपनों, तिरि पंचेंद्री विषेह ॥
९२. जघन्य अनें उत्कृष्ट थी, तीन पल्योपम ताय ।
आयुवंत विषे ऊपजै, तृतीये गमक कहाय ॥
९३. वक्तव्यता तसु सर्व ही, पूर्ववत कहिवाय ।
णवरं इतरो विशेष छै, सांभलजो चित ल्याय ॥
९४. जघन्य थकी अवगाहना, पृथक आंगुल पेख ।
उत्कृष्टी धनु पांचसौ, वारू न्याय अवेख ॥

सोरठा

९५. इह वचनेज कहेह, आंगुल पृथक आदि मनु ।
काल करी उपजेह, उत्कृष्ट स्थितिक नें विषे ॥
९६. *स्थिति जघन्य जे मनुष्य नीं, पृथक मासज पेख ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नीं, अनुबंध पिण इम लेख ।

सोरठा

९७. इह वचनेज कहेह, पृथक मासज आदि मनु ।
काल करी उपजेह, उत्कृष्ट स्थितिक तिरि विषे ॥
९८. *भवादेश करि नें तिको, बे भव ग्रहण करेह ।
धुर भव सन्नी मनुष्य नीं, द्वितीय युगल तिरि लेह ॥
९९. काल आश्रयी जघन्य थी, मनु स्थिति पृथक मास ।
तीन पल्योपम नीं वली, युगल तिरि भव तास ॥
१००. उत्कृष्ट अद्धा बिहुं भवे, मनु भव पूर्व कोड़ ।
तीन पल्योपम तिरि भवे, युगल तणीं स्थिति जोड़ ॥
१०१. सेवै कालज एतलो, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नें उत्कृष्ट गमो, दाख्यो तृतीय दयाल ॥
१०२. तेहिज सन्नी मनुष्य ही, आपणपैज कहेह ।
जघन्य काल स्थितिक थई, ऊपनों तिरि-पं. विषेह ॥
१०३. जिमज सन्नी पं.-तिरि तणां, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
ऊपजता नें लद्धी कही, मध्यम त्रिण गमकेह ॥
१०४. वक्तव्यता सहु जे कही, तेह सर्व ही जोय ।
एहनै पिण मध्यम त्रिण गमे, सगली भणवी सोय ॥
१०५. णवरं इतरो विशेष छै, जे परिमाणज ताय ।
उत्कृष्ट संखेज ऊपजै, शेष तिमज कहिवाय ॥

सोरठा

१०६. तिरि पंचेंद्री मांय, ऊपजतां सन्नी तिरि ॥
तिहां परिमाण कहाय, उत्कृष्ट असंख ऊपजै ॥

*लय : वेग पधारो महल

१५० भगवती जोड़

९१. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववण्णो

९२. जहण्णेणं तिपलिओवमट्टितीएसु, उक्कोसेण वि
तिपलिओवमट्टितीएसु,
९३. सच्चेव वत्तव्वया, नवरं—
९४. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलपुहत्तं, उक्कोसेणं पंच
धणुसयाइं ।

९५. अनेनेदमवसितम् — अंगुलपृथक्त्वाद्धीनतरशरीरो
मनुष्यो नोत्कृष्टायुष्केषु तिर्यक्षूपद्यते,
(वृ० प० ८४१, ८४२)
९६. ठिती जहण्णेणं मासपुहत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी ।
एवं अणुबंधो वि ।

९७. अनेनापि मासपृथक्त्वाद्धीनतरायुष्को मनुष्यो
नोत्कृष्टस्थितिषु तिर्यक्षूपद्यत इत्युक्तं,
(वृ० प० ८४२)

९८. भवादेशेणं दो भवग्गहणाइं,

९९. कालादेशेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं मास-
पुहत्तमम्भहियाइं,
१००. उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडीए अम्भ-
हियाइं,
१०१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । (श० २४।२७८)
१०२. सो चेव अप्पणा कालट्टितीओ जाओ,

१०३. जहा सण्णपंचिदियतिरिक्खजोणियस्स पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिएसु उववज्जमाणस्स मज्झिमेसु तिसु
गमएसु
१०४. वत्तव्वया भणिया एस चेव एयस्स वि मज्झिमेसु
तिसु गमएसु निरवसेसा भाणियव्वा,
१०५. नवरं—परिमाणं उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जति ।
सेसं तं चेव ४-६ । (श० २४।२७९)

१०६. तत्र परिमाणद्वारे उत्कर्षतोऽसङ्ख्येयास्ते उत्पद्यन्ते
इत्युक्तं (वृ० प० ८४२)

१०७. इहां वलि इम वाय, संख्याता सन्नी मनुष्य ।
तिणसूं तिरि-पं. मांय, संख्याता हिज ऊाजे ॥
१०८. संघयणादिक द्वार, फुन जिम आख्या छै तिहां ।
तिमज इहां अधिकार, कहिवूं ते कहियै अछे ॥
१०९. षट संघयणज तास, जघन्य अनै उत्कृष्ट फुन ।
अवगाहना विमास, असंख भाग आंगुल तणों ॥
११०. फुन ह्वै षट संठाण, लेश तीन दृष्टि मिथ्या ।
बे अज्ञान पित्छाण, जोग एक उपयोग बे ॥
१११. संज्ञा हुवैज च्यार, कषाय च्यार हुवै वलि ।
इन्द्रिय पांचज धार, समुद्घात हुवै आदि त्रिण ॥
११२. वेदन सात असात, वेद तीन नै आउखो ।
अंतर्मुहूर्त थात, जघन्य अनै उत्कृष्ट करि ॥
११३. अपसत्थ अध्यवसाय, आयु सम अनुबन्ध फुन ।
कायसंवेध कहाय, जघन्य थकी भव ग्रहण बे ॥
११४. ह्वै अठ भव उत्कृष्ट, काल आश्रयी मनु सन्नी ।
तिरि पांचेंद्रिय इष्ट, बिहुं नीं स्थिति करि जाणवूं ॥
११५. *तेहिज सन्नी मनुष्य जिको, आपणपैज कहेह ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक हुओ, पं.-तिरि में उपजेह ॥
११६. तेहिज प्रथम गमे करी, वक्तव्यता इहां जाण ।
णवरं पांचसौ धनुष्य नीं, जघन्योत्कृष्ट अवगाण ॥
११७. स्थिति अनै अनुबन्ध वलि, जघन्य अनै उत्कृष्ट ।
पूर्व कोड़ पिछाणिये, शेष तिमज सहु इष्ट ॥
११८. यावत भव आश्रयी लगै, काल आश्रयी कहाय ।
जघन्य कोड़ पूर्व कह्यो, अंतर्मुहूर्त अधिकाय ॥
११९. उत्कृष्ट तीन पत्योपमे, पृथक पूर्व कोड़ ।
एतलो काल सेवै तिको, ए गम सप्तम जोड़ ॥
१२०. तेहिज सन्नी मनुष्य तिको, उत्कृष्टज स्थितिवंत ।
जघन्य काल स्थितिक पं.-तिरि, तेह विषे उपजंत ॥

१,२. पन्नवणा पद ५ में जघन्य स्थितिक मनुष्य, तिर्यंच में बे अज्ञान हीज कह्या ।
ते माटे सास्वादन नों धणी जे मनुष्य, तिर्यंच नीं जघन्य स्थिति छै, तेहनै
विषे न ऊपजै, ते माटे इहां मिथ्या दृष्टि अनै बे अज्ञान हीज कह्या । ए
जघन्य स्थितिक ते २५६ आवलिका नों एक भव अपर्याप्त अवस्था में मरै
तेहनै विषे सास्वादन न पावै । बीजूं सौधर्म देवलोके सन्नी तिर्यंच जघन्य गमा
वालो ऊपजै, तेहनै विषे बे ज्ञान कह्या छै । ए पर्याप्त अवस्था छै तेहनीं जघन्य
स्थिति मोटो अंतर्मुहूर्त छै । पिण २५६ आवलिका नूं ए भव नथी ते माटे ।
वलि सौधर्म सन्नी मनुष्य जघन्य गमे ऊपजै, तेहनी स्थिति जघन्य पृथक मास नीं
कही छै, तिण में ज्ञान पावै छै । तिम सौधर्म सन्नी तिर्यंच ऊपजै, तेहनै जघन्य
गमे मोटा अंतर्मुहूर्त नीं स्थिति जाणवी ।

*लय : वेग पधारो महल

१०७. इह तु सञ्जिमनुष्याणां सङ्ख्येयत्वेन सङ्ख्येया
उत्पद्यन्त इति वाच्यं, (वृ० प० ८४२)
१०८. संहननादिद्वाराणि तु यथा तत्रोक्तानि तथेहावगन्त-
व्यानि, (वृ० प० ८४२)
१०९. तेषां षट् संहननानि जघन्योत्कर्षाभ्यामङ्गुला-
सङ्ख्येयभागमात्राऽवगाहना (वृ० प० ८४२)
११०. षट् संस्थानानि तिस्रो लेष्या मिथ्या दृष्टिः द्वे अज्ञाने
कार्यरूपो योगो द्वौ उपयोगौ (वृ० प० ८४२)
१११. चतस्रः सञ्ज्ञाश्चत्वारः कषायाः पञ्चेन्द्रियाणि त्रयः
समुद्घाताः (वृ० प० ८४२)
११२. द्वे वेदने त्रयो वेदा जघन्योत्कर्षाभ्यामन्तर्मुहूर्तप्रमाण-
मायुः (वृ० प० ८४२)
११३. अप्रशस्तान्यध्यवसायस्थानानि आयुः समानोऽनुबन्धः
कायसंवेधस्तु भवादेशेन जघन्येन द्वे भवग्रहणे
(वृ० प० ८४२)
११४. उत्कर्षतस्त्वष्टी भवग्रहणानि कालादेशेन तु सञ्जि-
मनुष्यपञ्चेन्द्रियतिर्यक्स्थित्यनुसारतोऽवसेय इति ।
(वृ० प० ८४२)
११५. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जातो,
११६. सञ्चेव पढमगमगवत्तव्वया, नवरं --ओगाहणा
जहण्णेणं पांच धणुसयाइं, उक्कोसेण वि पांच
धणुसयाइं ।
११७. ठिती अणुबंधो जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि
पुव्वकोडी । सेसं तहेव
११८. जाव भवादेसो त्ति कालादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी
अंतोमुहूर्तमभहिया,
११९. उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्वकोडिपुहत्तमभ-
हियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं
गतिरागतिं करेज्जा ७ । (श० २४१२८०)
१२०. सो चेव जहण्णकालट्टितिएसु उववण्णो,

१२१. एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं काल आदेश ।
जघन्य थी कोड़ पूर्व वली, अंतर्मुहूर्त विशेष ॥
१२२. उत्कृष्ट कोड़ पूर्व चिउं, अंतर्मुहूर्त च्यार ।
सेवै कालज एतलो, ए गम अष्टम धार ॥
१२३. तेहिज सन्नी मनुष्य जिको, उत्कृष्टज स्थितिवंत ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक तिरि, पंचेंद्री में उपजंत ॥
१२४. जघन्य अनै उत्कृष्ट थी, तीन पत्योपम ताय ।
आउवंत विषे ऊपनों, लब्धि हिवै कहिवाय ॥
१२५. एहिज लब्धि कहीजियै, जिम सप्तम गम मांय ।
दाख्यो तिणहिज रीत सूं, हिव संवेधज आय ॥
१२६. भवादेश करि तेहनां, बे भव ग्रहण करेह ।
धुर भव सन्नी मनुष्य तणों, द्वितीय युगल तिरि लेह ॥
१२७. काल आश्रयी तसु अद्धा, जघन्य अनै उत्कृष्ट ।
तीन पत्योपम जाणवूं, पूर्व कोड़ज इष्ट ॥
१२८. सेवै कालज एतलो, ए गति-आगति काल ।
उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट गमो, दाख्यो नवम दयाल ॥
१२९. संख वर्षायु सन्नी मनु, तिरि-पं. में उपजेह ।
चउवीसम शत नै विषे, वीसम देश कहेह ॥
१३०. ढाल च्यारसौ ऊपरे, सतावीसमीं न्हाल ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी, 'जय-जश' मंगलमाल ॥

१२१. एस चेव वक्तव्यता, नवरं—कालादेसेणं जहण्णेणं
पुव्वकोडी अंतोमुहूर्तमब्धिया,
१२२. उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहि अंतोमुहूर्तेहि
अब्धियाओ ८ । (श० २४।२८१)
१२३. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो,
१२४. जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं, उक्कोसेण वि तिण्णि
पलिओवमाइं,
१२५. एस चेव लद्धी जहेव सत्तमगमे ।
१२६. भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं ।
१२७. कालादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं पुव्व-
कोडीए अब्धियाइं, उक्कोसेण वि तिण्णि पलि-
ओवमाइं पुव्वकोडीए अब्धियाइं,
१२८. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ९ । (श० २४।२८२)

ढाल : ४२८

तिर्यंच पंचेंद्रिय में देव ऊपजै—

इहा

१. देव थकी जो ऊपजै, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
तो स्यूं भवनपति थकी, कै व्यंतर थी जेह ?
२. कै अमर ज्योतिषी थी हुवै, कै वैमानिक जेह ।
तेह देव चव ऊपजै, तिरि पंचेंद्री विषेह ?
३. जिन भाखै सुण गोयमा ! भवनपति थी होय ।
यावत वैमानिक थकी, ऊपजवूं अवलोय ॥
४. जो सुर भवनपति थकी, ऊपजै तिरि-पं. मांय ।
तो स्यूं असुरकुमार थी, जाव थणित थी थाय ॥
५. जिन भाखै पं.-तिरि विषे, असुर थकी उपजेह ।
यावत थणियकुमार थी, ऊपजै कर्म वसेह ॥

१. जइ देवेहितो उववज्जति—किं भवणवासिदेवेहितो
उववज्जति ? वाणमंतर-
२. जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो ?
३. गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो जाव वेमाणियदेवेहितो
वि । (श० २४।२८३)
४. जइ भवणवासिदेवेहितो—किं असुरकुमारभवण-
वासिदेवेहितो जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ?
५. गोयमा ! असुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासि-
देवेहितो । (श० २४।२८४)

१५२ भगवती जोड़

तिर्यंच पंचेंद्रिय में असुरकुमार ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

*प्रवर ज्ञान प्रभुजी तणों ॥ (ध्रुपद)

६. हे प्रभु ! असुरकुमार ते, तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
जे ऊपजवा जोग्य ते, कितै काल स्थितिक उपजेहो जी कांइ ?

७. श्री जिन भाखै जघन्य थी, अंतर्मुहूर्त्त विषेहो जी कांइ ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ जे, स्थितिक में उपजेहो जी कांइ ॥
८. परिमाणादिक नीं जिका, लब्धि प्राप्ति जे पायो जी कांइ ।
असुरकुमार विषे हुवै, ते इह विध कहिवायो जी कांइ ॥
९. जिम पृथ्वीकायिक विषे, असुर उपजता नैं आखीजी कांइ ।
एवं जाव ईशाण नैं, तिमहिज लद्धी दाखी जी कांइ ॥

सोरठा

१०. जिम जे पुथ्वी मांहि, अमर ऊपजै तसु लद्धी ।
असुर थकी ले ताहि, ईशाण पर्यंत इम करी ॥
११. पंचेंद्री तिरि मांहि, असुरादिक ईशाण लग ।
ऊपजतां नैं ताहि, लब्धि प्राप्ति कहिवी तिमज ॥
१२. पंचेंद्रिय तिरि मांय, असुरकुमारज सुर तणें ।
ऊपजता नैं पाय, लब्धि प्राप्ति कहियै तिका ॥
१३. जघन्य एक बे तीन, उत्कृष्ट संख असंख नों ।
समये ऊपजवो चीन, तिरि पंचेंद्रिय नैं विषे ॥
१४. तथा संघयण न होय, षट संघयणज मांहिलो ।
असंघयणी सोय, हिव कहियै अवगाहना ॥
१५. भवधारणी जघन्य, असंख भाग आंगुल तणों ।
फुन उत्कृष्टी जन्य, सप्त हस्त देह असुर नीं ॥
१६. जघन्य आंगुल नों इष्ट, कह्यु भाग संख्यात नों ।
लक्ष योजन उत्कृष्ट, उत्तर वैक्रिय तनु तणी ॥
१७. समचउरंस पिछाण, भवधारणी तणु कह्यु ।
नानाविध संठाण, उत्तर वैक्रिय नों वली ॥
१८. चिउं लेश्या त्रिण दृष्ट, नियमा तीनज ज्ञान नीं ।
तीन अज्ञानज इष्ट, भजनाइं करि असुर में ॥
१९. जोग त्रिविध पिण होय, हुवै द्विविध उपयोग पिण ।
संज्ञा च्यारज जोय, फुन चिउं कषाय असुर में ॥
२०. इन्द्रिय पंच पिछाण, समुद्घात धुर पंच फुन ।
द्विविध वेदना जाण, वेद नपुंसक रहित बे ॥
२१. स्थिति जघन्य थी तास, वर्ष सहस्र दश असुर नीं ।
वलि उत्कृष्ट विमास, साधिक सागर नीं कही ॥
२२. अध्यवसाय असंख, प्रशस्त नैं अपसत्थ पिण ।
अनुबंध स्थिति सम अंक, कायसंवेध कह्यु हिवै ॥

६. असुरकुमारे णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकाल-
द्वितीएसु उववज्जेज्जा ?

७. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं
पुव्वकोडिआउएसु उववज्जेज्जा ।
८. असुरकुमाराणं लद्धी नवसु वि गमएसु
९. जहा पुढविककाइएसु उववज्जमाणस्स । एवं जाव
ईसाणदेवस्स तहेव लद्धी ।

- १०, ११. यथा पृथिवीकायिकेषु देवस्योत्पत्तिरुक्ता असुर-
कुमारमादावीशानकदेवं चान्ते कृत्वा एवं तस्य
पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षु सा वाच्या, (वृ० प० ८४२)
१२. असुरकुमाराणां चैवं लब्धिः— (वृ० प० ८४२)
१३. एकाद्यसङ्ख्येयान्तानां तेषां पञ्चेन्द्रियतिर्यक्षु
समयेनोत्पादः, (वृ० प० ८४२)
१४. तथा संहननाभावः (वृ० प० ८४२)
१५. जघन्यतोऽङ्गुलासङ्ख्येयभागमाना उत्कर्षतः सप्त-
हस्तमाना भवधारणीयावगाहना (वृ० प० ८४२)
१६. इतरा तु जघन्यतोऽङ्गुलसङ्ख्येयभागमाना उत्कर्ष-
तस्तु योजनलक्षमाना (वृ० प० ८४२)
१७. संस्थानं समचतुरस्रं उत्तरवैक्रियापेक्षया तु नानाविधं
(वृ० प० ८४२)
१८. चतस्रो लेश्यास्त्रिविधा दृष्टिः त्रीणि ज्ञानान्यवश्यं
अज्ञानानि च भजनया (वृ० प० ८४२)
१९, २०. योगादीनि पञ्च पदानि प्रतीतानि समुद्घाता
आद्याः पञ्च वेदना द्विविधा वेदो नपुंसकवर्जः
(वृ० प० ८४२)
२१. स्थितिर्दश वर्षसहस्राणि जघन्या इतरा तु सातिरेकं
सागरोपमं (वृ० प० ८४२)
२२. शेषद्वारद्वयं तु प्रतीतं संवेधं तु सामान्यत आह—
(वृ० प० ८४२)

*लय : कुशल देश सुहामणों

१. देखें परि. २, यंत्र ९३

२३. *भवादेश करि सहू गमे, ह्वै अठ भव उत्कृष्टो जी कांइ ।
जघन्य थकी भव बे करै,
श्री जिन वचन विशिष्टो जी कांइ ॥
२४. स्थिति अनै संवेध नै, गमा-गमा विषे जाणी जी कांइ ।
कहिंवू सर्व विचार नै, वर उपयोगज आणी जी कांइ ॥

२३. भवादेशेण सव्वत्थ अट्ट भवगहणाइं, उक्कोसेणं
जहण्णेणं दोण्णि भवगहणाइं ।

२४. ठिति संवेहं च सव्वत्थ जाणेज्जा १-९ ।

(श० २४।२८५)

सोरठा

२५. स्थिति असुर नीं जास, ओधिक धुर त्रिण गम विषे ।
जघन्य सहस्र दश वास, उत्कृष्ट साधिक उदधि नीं ॥
२६. तेहिज असुरकुमार, जघन्य काल स्थितिक थयो ।
वर्ष सहस्र दश सार, मध्यम त्रिण गम नै विषे ॥
२७. तेहिज असुरकुमार, जेष्ठ काल स्थितिक थयो ।
साधिक सागर सार, अंतिम त्रिण गम नै विषे ॥
२८. प्रथम गमक संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
२९. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, कोइ पूर्व चिउं अधिक फुन ॥
३०. दूजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
३१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली ॥
३२. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोइ पूर्व तिरि-पं. भवे ॥
३३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, कोइ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
३४. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
३५. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोइ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
३६. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
३७. उत्कृष्ट काल जगीस, अष्ट भवां नों जाणवो ।
वर्ष सहस्र चालीस, अंतर्मुहूर्त्त च्यार तिरि ॥
३८. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोइ पूर्व तिरि-पं. भवे ॥
३९. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोइ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
४०. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
साधिक सागर जेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥

*लय : कुशल देश सुहामणों

१५४ भगवती जोइ

४१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥
४२. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
साधिक सागर जेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
४३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
४४. नवमे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
साधिक सागर जेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
४५. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
साधिक सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥

तिर्यच पंचेंद्रिय में नवनिकाय ऊपजं, तेहनों अधिकार^१

४६. *नागकुमार नां हे प्रभु ! तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
जे ऊपजवा योग्य छै, तास प्रश्न पूछेहो जी कांइ ॥
४७. एहिज वक्तव्यता तसु, स्व बुद्धि करिनें भणियै जी कांइ ।
णवरं इतरो विशेष छै, तेहिज आगल थुणियै जी कांइ ॥
४८. स्थिति तथा संवेध नें, उपयोगे करि जाणेवो जी कांइ ।
एवं यावत थणित नें, न्याय विचारी लेवो जी कांइ ॥

४६. नागकुमारे णं भंते ! जे भविए ?

४७. एस चेव वक्तव्यया, नवरं—

४८. ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-९ । एवं जाव थणिय-
कुमारे । (श० २४।२८६)

वा०—प्रथम त्रिण ओधिक गमे नागकुमार नीं स्थिति जघन्य १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट देसूण २ पत्योपम । मध्यम त्रिण गमे नाग नीं स्थिति जघन्य-उत्कृष्ट १० हजार वर्ष । छेहले तीन गमे नाग नीं स्थिति जघन्य-उत्कृष्ट देसूण २ पत्योपम ।

सोरठा

४९. पहिले गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
५०. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
५१. दूजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
५२. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
५३. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
५४. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
५५. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
५६. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ९४

*लय : कुशल देश सुहामणों

५७. पांचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
५८. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
५९. षष्ठम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
६०. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
६१. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
देश ऊण पत्य बेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
६२. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
६३. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
देश ऊण पत्य बेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
६४. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
६५. नवमे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
देश ऊण पत्य बेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
६६. उत्कृष्टो सुप्रगट, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
देश ऊण पत्य अठ, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥

वा०—इम यावत धणित नै स्थिति अनै कायसंवेध कहिवो ।

तिर्यंच पंचेंद्रिय में व्यंतर ऊपजै, तेहनों अधिकार'

६७. *जो व्यंतर थी ऊपजै, तिरि पंचेंद्रिय मांह्यो जी कांइ ।
तो स्यू पिशाच थी हुवै, तिमहिज कहिवूं ताह्यो जी कांइ ॥
६८. जाव व्यंतर भगवंत जी ! तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
जे ऊपजवा योग्य ते, एवं चेव कहेहो जी कांइ ।
६९. णवरं इतरो विशेष छै, स्थिति अनै संवेहो जी कांइ ।
उपयोगे करि जाणवूं, नव ही गमक विषेहो जी कांइ ॥

सोरठा

७०. प्रथम तीन गमकेह, जघन्य स्थिति व्यंतर तणीं ।
वर्ष सहस्र दश जेह, उत्कृष्टी इक पत्य तणीं ॥
७१. तेहिज व्यंतर देव, जघन्य काल स्थितिक थयो ।
वर्ष सहस्र दश हेव, मध्यम त्रिण गम नै विषे ॥
७२. तेहिज व्यंतर देव, जेष्ठ काल स्थितिक थयो ।
एक पत्योपम हेव, अन्तिम त्रिण गम नै विषे ॥
७३. पहिले गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ९५

*लय : कुशल देश सुहामणों

१५६ भगवती जोड़

६७. जइ वाणमंतरेहितो कि पिसाय तहेव

६८. जाव— (श० २४।२८७)

वाणमंतरे णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिबख-
जोगिएसु उववज्जित्तए ? एवं चेव,

६९. नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-९ ।

(श० २४।२८८)

७४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
७५. दूजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
७६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
७७. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
७८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
७९. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
८०. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
८१. पांचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥
८२. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
८३. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
८४. उत्कृष्टो सुजगीस, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष सहस्र चालीस, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
८५. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
इक पल्य व्यंतर लेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
८६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
८७. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
इक पल्य व्यंतर लेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥
८८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं तिरि ॥
८९. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
इक पल्य व्यंतर लेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ॥
९०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
च्यार पल्योपम सार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
९१. *जो देव जोतिषी थी वली, कहियै ते उपपातो जी कांइ ।
तिमहिज पूर्व रीत स्यूं, भेद करी आख्यातो जी कांइ ॥
तिर्यंच पंचेंद्रिय में ज्योतिषी ऊपजै, तेहनों अधिकार'
९२. जाव जोतिषी हे प्रभु ! तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
जे ऊपजवा योग्य ते, इत्यादिक पूछेहो जी कांइ ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ९६

*लय : कुशल देश सुहामणों

९१. जइ जोतिसिय ? उववाओ तहेव

९२. जाव— (श० २४।२८९)
जोतिसिए णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएसु उववज्जित्तए ?

९३. एहिज वक्तव्यता तसु, जिम पृथ्वी नें उहेसो जी कांइ ।
पृथ्वी विषे जे ज्योतिषी, ऊपजता नें कहेसो जी कांइ ॥
९४. तिमहिज कहिवूं छै इहां, नव ही गमा विषेहो जी कांइ ।
उत्कृष्टा अठ भव करै, यावत काल कहेहो जी कांइ ॥
९५. काल आश्रयी जघन्य थी, बे भव आश्रयी ताह्यो जी कांइ ।
भाग अष्टमो पत्य तर्णों, अन्तर्मुहूर्त अधिकायो जी कांइ ॥

सोरठा

९६. पत्य नों अष्टम भाग, तेह जोतिषी आश्रयी ।
अंतर्मुहूर्त माग, तिरि पंचेंद्रिय आश्रयी ॥
९७. *उत्कृष्ट अद्धा पत्य चिउं, पूर्व कोड़ज च्यारो जी कांइ ।
वर्ष लक्ष चिउं अधिक ही, ए गति-आगतिकारो जी कांइ ॥

सोरठा

९८. चिउं पत्य चिउं लक्ष वास,
शशी चिउं भव में जेष्ठ स्थिति ॥
कोड़ पूर्व चिउं जास, तिरि पंचेंद्रिय चिउं भवे ॥
९९. *इम नव ही गमका विषे, णवरं स्थिति में फेरो जी कांइ ।
फेर संवेध विषे वली, उपयोगे करि हेरो जी कांइ ।

बा०—प्रथम तीन गमे जोतिषी नीं स्थिति जघन्य पत्य नों आठमों भाग,
उत्कृष्ट १ पत्योपम लक्ष वर्ष अधिक । ए अधिक मध्यम तीन गमे जोतिषी नीं
स्थिति जघन्यईज कहिवी । ते पत्य नों आठमों भाग छेहले तीन गमे जोतिषी
नीं स्थिति उत्कृष्टहीज कहिवी—ते एक पत्य नें लक्ष वर्ष ।

सोरठा

१००. दूजे गमे संवेह, भाग अष्टमों पत्य तर्णों ।
अंतर्मुहूर्त लेह, जघन्य अद्धा बे भव तर्णों ॥
१०१. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
चिउं पत्य चिउं लक्ष वास, अंतर्मुहूर्त चिउं वली ॥
१०२. तीजे गमे संवेह, भाग अष्टमों पत्य तर्णों ।
पूर्व कोड़ स्थिति लेह, जघन्य अद्धा बे भव तर्णों ॥
१०३. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवे उत्कृष्ट अद्ध ।
चिउं पत्य चिउं लक्ष वास, च्यार कोड़ पूर्व वली ॥
१०४. तुर्य गमे संवेह, भाग अष्टमों पत्य तर्णों ।
अंतर्मुहूर्त लेह, बे भव आश्रयी जघन्य अद्ध ॥
१०५. उत्कृष्ट अद्धा धार, अद्ध पत्य चिउं भव जोतिषी ।
पूर्व कोड़ज च्यार, उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे ॥
१०६. पंचम गम संवेह, भाग अष्टमों पत्य तर्णों ।
अंतर्मुहूर्त लेह, जघन्य अद्धा बे भव तर्णों ॥

९३. एस चेव वक्तव्यता जहा पुढविककाइयउहेसए

९४. भवग्गहणाइं नवसु वि गमएसु अट्ट जाव

९५. कालादेसेणं जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं अंतोमुहूर्त-
मग्गहियं,

९७. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं चउहि पुव्वकोडीहि
चउहि य वाससयसहस्सेहि अग्गहियाइं, एवतियं
कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ।

९९. एवं नवसु वि गमएसु, नवरं—ठिति संवेहं च
जाणेज्जा १-९ । (श० २४।२९०)

*ल्य : कुशल देश देश सुहामणों

१५८ भगवती जोड़

१०७. उत्कृष्ट अद्धा धार, अद्धं पल्य चिउं भव जोतिषी ।
अंतर्मुहूर्त्तं च्यार, अष्ट भवां नों काल ए ॥
१०८. षष्ठम गम संवेह, भाग अष्टमों पल्य तणों ।
कोड़ पूर्व स्थिति लेह, जघन्य अद्धा बे भव तणों ॥
१०९. उत्कृष्ट अद्धा धार, अद्धं पल्य चिउं भव जोतिषी ।
कोड़ पूर्व फुन च्यार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
११०. सप्तम गम संवेह, एक पल्य नें वर्ष लक्ष ।
अंतर्मुहूर्त्तं लेह, बे भव आश्रयी जघन्य अद्ध ॥
१११. उत्कृष्टो अवधार, चिउं पल्य वर्षज लक्ष चिउं ।
पूर्व कोड़ज च्यार, उत्कृष्ट अद्धा अठ भवे ॥
११२. अष्टम गम संवेह, एक पल्य नें वर्ष लक्ष ।
अंतर्मुहूर्त्तं लेह, बे भव आश्रयी जघन्य अद्ध ।
११३. उत्कृष्ट अद्धा तास, आखयो अष्ट भवां तणों ।
चिउं पल्य चिउं लक्ष वास, अंतर्मुहूर्त्तं च्यार फुन ॥
११४. नवम गमे संवेह, एक पल्य नें वर्ष लक्ष ।
कोड़ पूर्व फुन लेह, बे भव आश्रयी जघन्य अद्धा ॥
११५. उत्कृष्ट अद्धा तास, अष्ट भवां नों इह विधे ।
चिउं पल्य चिउं लक्ष वास, पूर्व कोड़ज च्यार फुन ॥
ए जोतिषी थकी पंचेंद्रिय तिर्यंच नें विषे ऊपजै, तेहनां ९ गमा कह्या ।

पंचेंद्रिय तिर्यंच में वैमानिक ऊपजै —

११६. *जो वैमानिक थी ऊपजै, तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
तो स्यूं बारै कल्प थी, कै कल्पातीत थी लेहो जी कांइ ?
११७. श्री जिन भाखै कल्प थी, तिरि पंचेंद्रिय मांही जी कांइ ।
ऊपजै वैमानिक सुरा, कल्पातीत थी नांही जी कांइ ।
११८. कल्प थकी जो ऊपजै, जाव कल्प सहसारो जी कांइ ।
तसु वासी सुर ऊपजै, तिरि पंचेंद्री मभारो जी कांइ ॥
११९. आणत जाव अच्युत नां कल्प-वासी ते देवा जी कांइ ।
तिरि पंचेंद्री नें विषे, ऊपजै नहीं स्वयमेवा जी कांइ ॥
तिर्यंच पंचेंद्रिय में सौधर्मवासी देव ऊपजै, तेहनों अधिकार'
१२०. सोहम्म सुर भगवंत जी ! तिरि पंचेंद्री विषेहो जी कांइ ।
जे ऊपजवा योग्य ते, कितै काल स्थितिक उपजेहो जी कांइ ?
१२१. श्री जिन भाखै जघन्य थी,
अंतर्मुहूर्त्तं स्थितिके हो जी कांइ ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नां, आयु विषे उपजेहो जी कांइ ॥
१२२. शेष सर्व जिमहीज जे, पृथ्वीकाय उद्देसे जी कांइ ।
नव ही गमक विषे कह्युं, तिम कहिवूं सुविशेषे जी कांइ ॥

११६. जइ वेमाणियदेवेहिं तो कि कप्पोवावेमाणिय ?
कप्पातीतावेमाणिय ?
११७. गोयमा ! कप्पोवावेमाणिय, नो कप्पातीतावेमाणिय ।
(श० २४।२९१)
११८. जइ कप्पोवा जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणिय-
देवेहिं तो वि उववज्जंति,
११९. नो आणय जाव नो अच्युयकप्पोवावेमाणिय ।
(श० २४।२९२)
१२०. सोहम्मदेवे णं भंते ! जे भविए पंचिदियतिरिक्ख-
जोणिएसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकाल-
ट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
१२१. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहूर्त्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं
पुव्वकोडीआउएसु ।
१२२. सेसं जहेव पुढविककाइयउद्देसए नवसु वि गमएसु,

१. देखें परि. २, यत्र ९७

*लय : कुशल देश सुहामणों

सोरठा

१२३. पृथ्वीकायिक मांय, सोहम नां सुर ऊपजे ।
लद्धी तिहां कहाय, तिमहिज कहिवू छे इहां ॥

१२४. *जघन्य थकी भव बे करै, उत्कृष्टा अठ लेहो जी कांइ ।
स्थिति फुन कालादेश नै, उपयोगे जाणेहो जी कांइ ॥

१२४. नवरं—नवसु वि गमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं,
उवकोसेणं अट्टु भवग्गहणाइं । ठित्ति कालादेशं च
जाणेज्जा १-९ ।

वा०—स्थिति ते प्रथम तीन गमे सौधर्म देव जघन्य एक पत्य, उत्कृष्ट २
सागर स्थिति ओधिक कहियै । मध्यम तीन गमे सौधर्म सुर जघन्य काल स्थितिक
थयो ते १ पत्योपम स्थितिवंत कहियै । छेहले तीन गमे सौधर्म सुर उत्कृष्ट काल
स्थितिक थयो ते २ सागर स्थितिवंत कहियै ।

सोरठा

१२५. पहिले गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१२६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
सागर अष्ट उदार, पूर्वं कोइ चिउं तिरि भवे ॥

१२७. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥

१२८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
सागर अष्ट उदार, अंतर्मुहूर्त्त चिउं वली ॥

१२९. तृतीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, पूर्वं कोइ कहा वली ॥

१३०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
सागर अष्ट उदार, पूर्वं कोइज चिउं तिरि ॥

१३१. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक फुन ॥

१३२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
प्रवर पत्योपम च्यार, कोइ पूर्वं चिउं अधिक ही ॥

१३३. पंचम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, अंतर्मुहूर्त्त अधिक ही ॥

१३४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
चिउं पत्य सुर भव च्यार, चिउं अंतर्मुहूर्त्त तिरि ॥

१३५. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पत्योपम जेह, कोइ पूर्वं फुन अधिक ही ॥

१३६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
प्रवर पत्योपम च्यार, कोइ पूर्वं चिउं अधिक फुन ॥

१३७. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सुर भव सागर बेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥

१३८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
सागर अष्ट उदार, च्यार कोइ पूर्वं वली ।

१३९. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सुर भव सागर बेह, अंतर्मुहूर्त्त पं.-तिरि ॥

१६० भगवती जोइ

१४०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णो ।
सागर अष्ट उदार, अंतर्मूर्त्त चिउं वली ॥
१४१. नवमे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सुर भव सागर बेह, कोड़ पूर्व पं.-तिरि भवे ।
१४२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तर्णो ।
सागर अष्ट उदार, कोड़ पूर्व चिउं पं.-तिरि ॥
- सौधर्म कल्प नां सुर पंचेंद्रिय तिर्यंच नै विषे ऊपजै, तेहनां ९ गमा
कहा ।

तिर्यंच पंचेंद्रिय में दूसरें देवलोक स्यूं आठवें देवलोक तक नां देव ऊपजै,
तेहनों अधिकार'

१४३. *इम ईशाण सुर नै विषे, इम इण अनुक्रमेहो जी कांइ ।
शेष जाव अष्टम सुरे, उपजाविबो कहेहो जी कांइ ॥
१४४. गवरं जे अवगाहना, इकवीसम पद मांह्यो जी कांइ ।
नाम ओगाहण संठाण में, आख्यो तिम कहिवायो जी कांइ ॥

सोरठा

१४५. भवण व्यंतरा जेह, फुन सोहम्म ईशाण सुर ।
सप्त हस्त नीं देह, उत्कृष्टी अवगाहना ॥
१४६. तृतीय तुर्य षट हाथ, ब्रह्म लंतके पंच कर ।
सप्तम अष्टम ख्यात, चिउं कर नीं अवगाहना ॥
१४७. चिउं कल्पे कर तीन, ग्रैवेयक कर दौय फुन ।
पंच अणुत्तर चीन, एक हस्त अवगाहना ॥
१४८. *लेष्या कहियै छै हिवै, सनतकुमार मांहिदो जी कांइ ।
ब्रह्म विषे इक पद्य छै, ऊपर शुक्ल कथिदो जी कांइ ॥
१४९. वेद हिवै कहियै अछै, तृतीय कल्प थी ताह्यो जी कांइ ।
पुरिस वेद एकज हुवै, इत्थि नपुंस न थायो जी कांइ ॥
१५०. आयु नै अनुबंध ही, जिम पन्नवणा मांह्यो जी कांइ ।
स्थिति पद चउथा नै विषे,
आख्यो तिम कहिवायो जी कांइ ॥
१५१. शेष ईशाणक देव नै, जिमहिज ए अधिकारो जी कांइ ।
कायसंवेध फुन जाणवो, सेवं भंते ! सारो जी कांइ ॥

सोरठा

१५२. तिरि पंचेंद्रिय मांय, गुणचालीसज स्थान नों ।
आवै ते कहिवाय, पृथ्वीवत षटवीस जे ॥
१५३. सात नारकी सोय, तीजा सूं अष्टम लगे ।
एह कल्प षट होय, एगुणचाली इम हुइं ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ९८-१०४

*लघु : कुशल देश सुहामणों

१४३. एवं ईसाणदेवे वि । एवं एणं कमेणं अवसेसा वि
जाव सहस्सारदेवेसु उववाएयव्वा,

१४४. नवरं—ओगाहणा जहा ओगाहणसंठाणे (सू० ७०)
अवगाहना यथाऽवगाहनासंस्थाने प्रज्ञापनाया
एकविंशतितमे पदे ((वृ० प० ८४२)

१४५-१४७. भवणवणजोईसोहम्मीसाणे सत्त हंति रयणीओ ।
एककेकहाणि सेसे दुदुगे य दुगे चउक्के य ॥
(वृ० प० ८४२)

१४८. लेस्सा सणकुमार-मांहिद-बंधलोएसु एगा पम्हलेस्सा,
सेसाणं एगा सुक्कलेस्सा ।

१४९. वेदे नो इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नो नपुंसकवेदगा ।

१५०. आउ-अणुबंधा जहा ठितपदे ।
'जहा ठितपए' ति प्रज्ञापनायाश्चतुर्थपदे स्थितिश्च
प्रतीतैवेति । (वृ० प० ८४२)

१५१. सेसं जहेव ईसाणगाणं कायसंवेहं च जाणेज्जा ।
(श० २४२९३)
सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति । (श० २४२९४)

नाणत्ता

सोरठा

१५४. षट नारकि नां ताय, ऊपजतां पं.-तिरि विषे ।
जघन्य दोग्य भव थाय, उत्कृष्टा भव अष्ट फुन ॥
१५५. तिरि पंचेंद्रिय मांय, उपजै सप्तम नरक नों ।
नव ही गमे कहाय, जघन्य थकी भव दोग्य तसु ॥
१५६. धुर षट गमे पिछाण, उत्कृष्टा भव षट करै ।
छेहले त्रिण गम जाण, उत्कृष्टा भव च्यार ह्वै ॥
१५७. इम आगल उत्कृष्ट, सर्व विषे भव अष्ट ह्वै ।
जसु ओछा भव इष्ट, ते कहिसै नामे करी ।
१५८. तिरि पंचेंद्रिय मांय, उपजै सातू नरक नां ।
जघन्य गमे कहाय, दोग्य णाणत्ता तेहनां ॥
१५९. उत्कृष्ट गम पिण जोय, सप्तम अष्टम नवम गम ।
दोग्य णाणत्ता होय, आयु नें अनुबंध नों ॥
१६०. भवनपती थी लेह, अष्टम कल्प तणां सुरा ।
तिरि पंचेंद्री विषेह, उपजै तेहनां वारता ॥
१६१. जघन्य गमे सुजोय, आयु नें अनुबंध नां ।
दोग्य णाणत्ता होय, एहिज बे उत्कृष्ट गम ॥
१६२. तिरि पंचेंद्रिय मांय, पांच स्थावर विकलेंद्रिय ।
ऊपजता नें पाय, पूर्व उक्त जे णाणत्ता ॥
१६३. जघन्य गमे कथीन, पृथ्वी अप नां चिउं-चिउं ।
तेऊ नां फुन तीन, च्यार णाणत्ता वायु नां ॥
१६४. वनस्पति नां पंच, विकलेंद्रिय नां सप्त वलि ।
ए सहुनांज विरंच, इकतालीस है नाणत्ता ॥
१६५. असन्नो पं.-तिर्यंच, जाय पंचेंद्रिय तिरि विषे ।
जघन्य गमे विरंच, सात णाणत्ता तेहनां ॥
१६६. उत्कृष्ट गमे कहाय, आयु नें अनुबंध नों ।
दोग्य णाणत्ता पाय, पिण तीजे नवमे गमे ॥
१६७. तृतीय गमे कहेह, पांच बोल नों फेर छै ।
संख्याता उपजेह, ज्ञान नहीं दृष्टि मिथ्या ॥
१६८. भव ते दोग्य करेह, पर्याप्ताज ऊपजै ।
ए तीजा गमक विषेह, पांच बोल नों फेर छै ॥
१६९. फुन नवमे गमकेह, तीन बोल नों फेर छै ।
संख्याता उपजेह, पर्याप्ता उपजै वली ॥
१७०. भव फुन दोग्य करेह, फेर बोल ए त्रिहुं तणो ।
युगल विषे उपजेह, उत्कृष्ट आयु नों धणो ॥
१७१. फुन सन्नी तिर्यंच, ऊपजतां पं.-तिरि विषे ।
जघन्ये गमेज संच, पूर्व उक्त नव णाणत्ता ॥
१७२. उत्कृष्ट गमेज संघ, दोग्य णाणत्ता तेहनां ।
आयु नें अनुबंध, न्याय विचारी लीजियै ॥
१७३. तृतीय नवम गमकेह, संख्याता हिज ऊपजै ।
पर्याप्ता उपजेह, जघन्योत्कृष्टज दोग्य भव ॥

१६२ भगवती जोड़

१७४. बाकी सात गमेह, जघन्य थकी भव बे करे ।
उत्कृष्ट अठ भव लेह, कायसंवेधज जू-जुओ ॥
१७५. तिरि पंचेंद्रिय मांही, ऊपजतां असन्नी मनुष्य ।
नथी णाणत्ता ताहि, तीन गमा छै ते भणी ॥
१७६. पंचेंद्रिय तिरि मांय, ऊपजतां सन्नी मनुष्य ।
जघन्य गम नव पाय, उत्कृष्ट गम त्रिण णाणत्ता ॥
१७७. तीजे गमे कहाय, अवगाहना तसु जघन्य थी ।
पृथक आंगुल पाय, उत्कृष्टी धनु पंच सय ।
१७८. जघन्य थकी स्थिति जोड़, आयू पृथक मास नों ।
उत्कृष्ट पूर्वं कोड़, संख्याता हिज ऊपजै ॥
१७९. पर्याप्ता उपजंत, जघन्योत्कृष्टज दोग भव ।
तीजे गमके हुंत, एह बोल नों फेर छै ॥
१८०. नवम गमे अवदात, संख्याता हिज ऊपजै ।
पर्याप्त उपपात, जघन्योत्कृष्टज दोग भव ॥

बा—७ नारकी ७, १० भवनपति १७, पंच स्थावर २२, ३ विकलेंद्रिय २५, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय २६, संख्यात वर्ष नां सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय २७, संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य २८, असन्नी मनुष्य २९, व्यंतर ३०, जोतिषी ३१, आठ पहिला देवलोक ३९—एबं ३९ ठिकाणा नों तिर्यंच पंचेंद्रिय में ऊपजै ।

१८१. तिरि पंचेंद्रिय मांय, गुणचाली स्थानक तणों ।
तास णाणत्ता पाय, कहियै छै ते सांभलो ॥
१८२. तिरि पंचेंद्रिय मांय, उपजै सातूं नरक नों ।
जघन्य गमे बे पाय, आयू नैं अनुबन्ध नों ॥
१८३. उत्कृष्ट गमके जोय, कहियै बे-बे णाणत्ता ।
आयू तणोंज होय, फुन अनुबन्ध तणों कह्यो ॥
१८४. भवनपती दश भेव, व्यंतर थी सहस्सार लग ।
ए बीस स्थानक नां देव, ऊपजै पं.-तिर्यंच में ॥
१८५. जघन्य गमे बे जोय, उत्कृष्ट गमके पिण बिहुं ।
आयू तणोंज होय, फुन अनुबन्ध नों णाणत्तं ॥
१८६. पृथव्यादि चउरिद, तिरि मनु असन्नी नैं सन्नी ।
ए बार स्थान नों संघ, ऊपजतां पं.-तिरि विषे ॥
१८७. ए बारै ही स्थान, ऊपजतां पृथ्वी विषे ।
कह्या णाणत्ता जान, तिमज इहां जघन्योत्कृष्ट ॥
१८८. *शत चउवीसम नों बीसमो,
च्यारसौ अठवीसमों ढालो जी कांइ ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी,
'जय-जश' हरष विशालो जी कांइ ॥

चतुर्विंशतितमशते विशोद्देशकार्थः ॥२४॥२०॥

*लय : कुशल देश सुहामणों

इहल

१. ढनुषुड अहू डगवंतकी ! कलहलं थकी उडऑंत । सुडू नलरक थी ऀडऑे, तलरल ढनु सुर थी हुंत !
२. इड ऀडऑवू डलड कहुडू, तलरल डंऑेदुरी वलषेह । तलडहलऑ कलहलवू ऑलव ते, तडल थकी उडऑेह ॥
३. अधू सडुतडू डहल तणलं, नलरक थकी नलहलल । ढनुषुड वलषे नलहल ऀडऑे, वलल डूऑे गुणडलल ।

ढनुषुड डें डुरथड नरक नलं नेरइडल ऀडऑे, तेहनू अधलकलर'

*ढनुषुड वलषे ऑे ऀडऑे ऑी कलंइ, तसु डुरशुनूतुतर ऑलण ॥ (धुडुडं)

- ॡ. रतुनडुरडल नलं नलरकल ऑी डुरडु ! ढनुषुड वलषे आखुडलत । ऑे ऀडऑवल डूगुड ऑे ऑी कलतै कलल सुथतलके उडडलत ऑी कलंइ ?
- ॣ. शुुरी ऑलन डलखे ऑघनुड थी ऑी कलंइ, डलस डुरथक सुथतलकेह । उतुकुषुऑ डूरुवं कूड नलं ऑी कलंइ, आडु वलषे उडऑेह ऑी कलंइ ॥

सूूरठल

- ॡ. रतुनडुरडल नलं ऑलण, नलरक डलंघे ऑघनुड थी । ढनुषुड आडु डलहलऑलण, डुरथक डलस तणूऑ ते ॥
- ॣ. डुरथक डलस थी डेख, अतलहल हूीन डंघे नथी । तथलवलधल सुवलशेख, ऑीव डुरलरणलड अडलव थी ॥
- ॡ. एड अनुड डलण सुथलन, कलरलण कलहलवू नलडुण ऑन । ऑलन डुरणूत डलहलऑलण, वऑन तणलंऑ डुरडलण थी ॥
- ॣ. *अवशेस वतुतवुडतल तसु ऑी कलंइ, ऑलड डंऑेदुरलड तलरुथऑ । तेह वलषे ऑे ऀडऑे ऑी कलंइ, तलडहलऑ एह वलरंऑ ऑी कलंइ ॥
- ॡ०. णवरं दुरलर डुरलडलण डें ऑी कलंइ, ऑघनुड एक डे तीन । उतुकुषुऑल डुन ऀडऑे ऑी कलंइ, संखुडलतलऑ कथूीन ऑी कलंइ ।

सूूरठल

११. नलरक नूँ उडडलत, संडुूऑलड ढनु डें नथी । गडुडऑ वलषेऑ थलत, ते तू संखुडलतलऑ ऑे ॥

*लड : डुहलंरी सलसूऑी रे डलंऑ डुरतुर कलंइ अथवल वूीरडती तरु अंऑ नें ऑी कलंइ

१. देखें डुरलर. २, डंन १०ॡ

१ॡॡ डगवती ऑूड

१. डणुसुसल णं डुते ! कडुूहलतू उववऑऑंतल—कल नेरइएँहलतू उववऑऑंतल ऑलव देवेँहलतू उववऑऑंतल ?
२. गूीडडल ! णेरइएँहलतू वल उववऑऑंतल ऑलव देवेँहलतू वल उववऑऑंतल । एवं उववलडू ऑहल डंऑलदलड तलरलकखऑूीणलउहेसए ऑलव तडलडुऑवलनेरइएँहलतू वल उववऑऑंतल,
३. नू अहेसतुतडडुऑवलनेरइएँहलतू उववऑऑंतल । (श० २ॡ१२१ॡ)

- ॡ. रडणडुडडडुऑवलनेरइएँ णं डुते ! से डलवलए डणुसुसेसु उववऑऑंतलए, से णं डुते ! केवलतलकललदुवलतीएसु उववऑऑेऑल ?
- ॣ. गूीडडल ! ऑहणुणेणं डलसडुहुतदुवलतीएसु, उवकूीसेणं डुवुवकूीडलडलउएसु ।

- ॡ,ॣ. रतुनडुरडलनलरकल ऑघनुडं ढनुषुडलडुडंघनुतू डलसडुडुरथकतुवलदुवलतीनतरं न डुघनुतल तथलवलधडुरलरणलडलडलडलवलदलतल, (वू० ड० ॡॡॡ)
- ॡ. एवडनुडतुरलडल कलरलणं वलऑुडं, (वू० ड० ॡॡॡ)
- ॣ. अवसेसल वतुतवुडतल ऑहल डंऑलदलडतलरलकखऑूीणलएसु उववऑऑंतसु तहेव,
- ॡ०. नवरं—डुरलडलणे ऑहणुणेणं एकूी वल दू वल तलणल वल, उवकूीसेणं संखेऑल उववऑऑंतल ।

११. नलरकलणलं संडुूऑलडेषु ढनुषुडेडुतुडलदलडलडलदु गडुडऑलनलं ऑ सहुुऑलततुवलसहुुऑलतल एव ते उतुडघनुत इतल, (वू० ड० ॡॡॡ)

१२. *जिम तिहां अंतर्मुहूर्त्त करी जी कांड, तेम इहां कहिवेह ।
मास पृथक करिनै वली जी कांड,
करिवूं कायसंवेह जी कांड ॥

सोरठा

१३. रत्नप्रभा थी जेह, ऊपजता पं.-तिरि विषे ।
अंतर्मुहूर्त्त करेह, जिम कीधो संवेध त्यां ॥

१४. तिम इहां मनुष्य विषेह, ऊपजता घुर नारकी ।
पृथक मास करेह, करिवो कायसंवेध प्रति ॥

वा०—जिम तिहां पंचेन्द्रिय तिर्यंच उद्देशक नै विषे रत्नप्रभा नारकी
ऊपजतां पंचेन्द्रिय तिर्यंच नै जघन्य अंतर्मुहूर्त्त स्थितिकपणां थकी अंतर्मुहूर्त्त
करिकै संवेध कीधो । तिम इहां मनुष्य उद्देशक नै विषे मनुष्य नै जघन्य स्थिति
प्रति आश्रयी पृथक मास करिकै संवेध करिवो इसो भाव ।^१

१५. फुन कालादेशेन, घुर गम अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश येन, मास पृथक फुन अधिक ही ।

१६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥

१७. बीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, मास पृथक फुन अधिक ही ॥

१८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, पृथक मास चिउं अधिक फुन ॥

१९. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व फुन अधिक ही ॥

२०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ।

२१. चउथे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, पृथक मास फुन अधिक ही ।

२२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥

२३. पांचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, पृथक मास फुन अधिक ही ।

२४. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, पृथक मास चिउं अधिक ही ॥

२५. षष्ठम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
वर्ष सहस्र दश जेह, कोड़ पूर्व फुन अधिक ही ॥

२६. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
वर्ष चालीस हजार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥

*सय : म्हारी सासूजी रं पांच पुत्र कांड

१. वृत्ति के जिस अंश के आधार पर वार्तिका लिखी गई है, वह सोरठों के सामने आ गई ।

१२. जहा तहि अंतोमुहुत्तेहि तहा इहं मासपुहुत्तेहि संवेहं
करेज्जा ।

१३. यथा तत्र पञ्चेन्द्रियतिर्यंगुद्देशके रत्नप्रभानारकेभ्य
उत्पद्यमानानां पञ्चेन्द्रियतिरश्चां जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्त्त-
स्थितिकत्वादन्तर्मुहूर्त्तः संवेधः कृतः (वृ० प० ८४५)

१४. तथेह मनुष्योद्देशके मनुष्याणां जघन्यस्थितिमाश्रित्य
मासपृथक्त्वैः संवेधः कार्य इति भाव (वृ०प० ८४५)

१५. 'कालादेशेणं जहन्नेणं दस वाससहस्साइं मासपुहुत्त-
मभहियाइं' इत्यादि । (वृ० प० ८४५)

२७. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थो ।
सागर एक कहेह, पृथक मास फुन अधिक ही ॥
२८. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥
२९. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
सागर एक कहेह, मास पृथक फुन अधिक ही ॥
३०. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, मास पृथक चिउं अधिक ही ॥
३१. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थो ।
सागर एक कहेह, कोड़ पूर्व फुन अधिक ही ॥
३२. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कहियै सागर च्यार, कोड़ पूर्व चिउं अधिक ही ॥

३३. *शेष संघयणादिक सहू जी कांड, तिरि पंचेंद्री विषेह ।
रत्नप्रभा नां नारका जी कांड, ऊपजता तिम एह जी कांड ॥

मनुष्य में दूसरी स्यू छट्टी नरक नां नेरइयां ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

३४. जिम रत्नप्रभा नैं विषे कही जी कांड, वक्तव्यता अवलोय ।
तिमहिज कहिवी वारता जो कांड, सक्करप्रभा में सोय जी कांड ॥
३५. णवरं जघन्य थी जाणवो जी कांड, पृथक वर्ष स्थितिकेह ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नैं जी कांड, आयु विषे उपजेह जी कांड ॥
३६. अवगाहना लेश्या वली जी कांड, ज्ञान स्थिति पहिछाण ।
अनुबंध फुन संवेध नैं जी कांड, भेद नानापणुं जाण जी कांड ॥
३७. जिमहिज तिरि उद्देशके जी कांड, आख्यो तिम कहिवाय ।
एवं जाव तमा मही जी कांड,
नारक लग वर न्याय जी कांड ॥

बा०— जो रत्नप्रभा थकी मनुष्य में ऊपजै तो कितै काल स्थितिक नैं विषे ऊपजै ? हे गोतम ! जघन्य पृथक मास उत्कृष्ट कोड़ पूर्व आयु विषे ऊपजै । शेष वक्तव्यता जिम तिर्यंच पंचेंद्रिय में ऊपजतां नैं कही तिमज । पिण एतलो विशेष जाणवो—परिमाण जघन्य १, २, ३, उत्कृष्ट संख्याता ऊपजै । जिम तिहां अंतर्मुहूर्त्त कह्यो, तिम इहां पृथक मास सूं संवेध करिवो । हिवै सक्कर-प्रभादिक जाव छठी तांड रो विस्तार कहै छै—

इहां पाठ में इम कह्यो—जिम रत्नप्रभा नीं वक्तव्यता तिम सक्करप्रभा नीं, पिण एतलो विशेष—जघन्य पृथक वर्ष नीं स्थितिक नैं विषे उत्कृष्ट पूर्व कोड़ आयु नैं विषे ऊपजै । अवगाहणा १, लेश्या २, ज्ञान ३, ठिति ४, अनुबंध ५, संवेध ६— ए छह बोल नैं विषे नानापणुं वलि जाणवूं । जिम तिर्यंच पंचेंद्रिय नैं उद्देशे कह्यो इम यावत तमा पृथ्वी नां नारका इति शब्दार्थः ।

हिवै भावार्थ कहै छै—जिम रत्नप्रभा नीं वक्तव्यता कही तिम सक्कर-प्रभा आदि नैं विषे पिण, णवरं एतलो विशेष—रत्नप्रभा थकी नीकली जघन्य पृथक मास स्थितिक नैं विषे ऊपजै । अनै सक्करप्रभादिक जाव छठी थी नीकली

३३. सेसं तं चैव १-९ ।

३४. जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाए वि वक्तव्यया,
३५. नवरं—जहण्णेणं वासपुहुत्तट्टितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडीआउएसु ।
३६. भोगाहणा-लेस्सा-नाण-ट्टिती-अणुबंध - संवेह-नाणत्तं च जाणेज्जा
३७. जहेव तिरिक्खजोणियउद्देशए । एवं जाव तमापुढवि-नेरइए । (श० २४।२९६)

१. देखें परि. २, यंत्र १०६-११०

*लय : म्हारी सासूजी रै पांच पुत्र कांड

जघन्य पृथक् वर्ष स्थितिक नै विषे ऊपजै, उत्कृष्ट कोइ पूर्व आयु नै विषे ऊपजै । अनै अवगाहणा, लेश्या, ज्ञान, ठिति, अनुबंध अनै संवेध—एहनै विषे नानापणुं जाणवूं । जिम तिर्यंच उद्देशे कह्यूं, तिम कहिवूं । इम जाव छठी लगै जाणवूं । सक्करप्रभा थी लेई छठी नां नेरइया तिर्यंच पंचेंद्री में ऊपजता नै अवगाहणा, लेश्या, ज्ञानद्वार में अज्ञान पिण ग्रहिवा । स्थिति, अनुबंध, संवेधे एहनूं नानापणुं तिर्यंच पंचेंद्रिय उद्देशे कह्यूं, तिम इहां सक्करप्रभादिक छठी थी निकली मनुष्य नै विषे ऊपजता नै अवगाहणा, लेश्या, ज्ञान, ठिति, अनुबंध अनै संवेध—एहनै विषे नानापणुं जाणवूं । इहां लेश्या नां नानापणुं कह्यूं, ते पहिली में कापोत लेश्या, दूजी में ही कापोत लेश्या । एहनूं नानापणुं न हुवै ते भणी निकेवल दूजी नरक रा नेरइया आश्री न जणाय । दूजी प्रमुख जाव छठी तांइ रा नेरइया संभवै तथा तिर्यंच उद्देशे पाठ कह्यूं ते कहै छै—

इहां कह्यो—रत्नप्रभा रै विषे ९ गमा कह्या, तिम सक्करप्रभा नै विषे पिण कहिवा । एतलो विशेष—शरीर, अवगाहणा इकवीसमा पद में कह्यूं तिम । ३ ज्ञान, ३ अज्ञान की नियमा । स्थिति, अनुबंध पूर्व कह्यूं तिम । इहां निकेवल सक्करप्रभा आश्री वारता कही ते रत्नप्रभा नै भलाई, पिण णवरं पाठ में लेश्या नथी कही ते किम ? रत्नप्रभा में लेश्या छै तिकाईज सक्करप्रभा में छै ते माटै णवरं पाठ कही लेश्या नां फरक नथी पाड़्यो । इम नव गमा उपयोगे करि कहिवा ।

इम यावत छठी पृथ्वी तांइ । एतलो विशेष—अवगाहणा, लेश्या, स्थिति, अनुबंध, संवेध जाणवा । इहां दूजी सूं लेई छठी मिलायां णवरं पाठ में लेश्या नां फरक पाड़्यो, लेश्या जुदी-जुदी ते माटै । अनै ज्ञान नां फरक नथी पाड़्यो । सक्करप्रभा कही नै जाव छठी पुढवी कहिवी, इम कही णवरं पाठ कह्यो जिण में ज्ञान नां फरक नथी पाड़्यो । तिहां दूजी सूं छठी नै विषे ३ ज्ञान, ३ अज्ञान नां नियमा छै ते माटै ज्ञानद्वार में फरक नथी पाड़्यो । ए तिर्यंच उद्देशा नां वारता कही ते माटै इण मनुष्य उद्देशा नै विषे रत्नप्रभा नां वक्तव्यता कही तिम सक्करप्रभा नां पिण कहिवी । णवरं जघन्य पृथक् वर्ष अनै उत्कृष्ट कोइ पूर्व आयु नै विषे ऊपजै । णवरं में सक्करप्रभा में विशेष जाणवूं । अनै अवगाहणा, लेश्या, ज्ञान, ठिति, अनुबंध अनै संवेध—एहनै विषे नानापणुं जाणवूं । जिम तिर्यंच उद्देशे कह्यूं, तिम कहिवूं । एतलै अवगाहणा, लेश्यादिक संवेध नै विषे नानापणुं जाणवूं । जिम तिर्यंच उद्देशे कह्यूं, तिम कहिवो । इम जाव छठी तांइ एहवूं कह्यूं । इण वचने करी रत्नप्रभा सूं लेई छठी तांइ तिर्यंच उद्देशा नै विषे ए छ बोल कह्या तिम कहिवा ।

तिहां तिर्यंच उद्देशे कह्युं—रत्नप्रभा नै विषे कह्युं तिम सक्करप्रभा नै विषे कहिवूं । णवरं पाठ में लेश्या नां फरक नथी पाड़्यो तिम मनुष्य उद्देशा नै विषे पिण रत्नप्रभा में कह्यो तिम सक्करप्रभा में कहिवूं, पिण तिम में लेश्या नां फरक न करिवो । अनै तिर्यंच उद्देशा नै विषे सक्करप्रभा नै विषे वारता कही—एवं जाव छठी इम कही । णवरं शब्द में ज्ञान नां फरक नथी पाड़्यो, तिम मनुष्य उद्देशा नै विषे पिण सक्करप्रभा नै विषे कह्युं ; इम जाव छठी लगै कहिवूं । णवरं शब्द में ज्ञान नां फरक नथी कहिवो ते माटै पहिली सूं जाव छठी रा नेरइया में अवगाहणा, लेश्या, ज्ञानादिक रो फरक पड़ै ते बोल एवं जाव तमा पुढवीए इण पाठ पहिलां कह्या छै । तिर्यंच उद्देशे तो रत्नप्रभा कही तिम सक्कर । पछै णवरं में लेश्या नां फरक नथी पाड़्यो अनै ज्ञानद्वारे फरक

कह्यो अनै सक्कर तिम जाव छठी कही । णवरं पाठ में लेश्या नों फरक पाड़्यो,
ज्ञान नों फरक नथी पाड़्यो । इम दोग ठिकाणे णवरं पाठ कही जूओ-जूओ
फरक कह्यो । अनै इहां मनुष्य उद्देशे पहिली सू एवं जाव तमापुढवीनेरइया—
ए पाठ थी पहिला अवगाहणा, लेश्या, जानादिक नों नानापणुं जिम तिर्यंच उद्देशे
कह्यो तिम कहिवो, इम कह्यो ते भणी रत्नप्रभा थी जाव तमा नै विषे ए अव-
गाहणादिक नै विषे नानापणुं विचारी कहिवू ।

मनुष्य में तिर्यंच ऊपजै—

३८. *जो तिर्यंचयोनिक थकी जी कांड, मनुष्य विषे उपजेह ।
तो स्युं एकेंद्रिय तिरि थकी जी कांड,
जाव पं.-तिर्यंच थी लेह जी कांड ?

३९. जिन कहै एकेंद्रिय थकी जी कांड, इत्यादिक जे भेद ।
जिम पं.-तिरि उद्देश में जी कांड,
दाख्यो तिम संवेद जी कांड ॥

४०. णवरं तेउ वाउ थकी जी कांड, नीकल मनुष्य न थाय ।
शेष तिमज कहिवो सहु जी कांड,
भेद पूर्ववत ताय जी कांड ॥

मनुष्य में पृथ्वीकाय ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

४१. जाव पृथ्वीकायिक प्रभुजी ! कांड, मनुष्य विषेज कहेह ।
ए ऊपजवा योग्य छै जी कांड,
कितै काल स्थितिके उपजेह जी कांड ?

४२. जिन भाखे जघन्य थी जी कांड, अंतर्मुहूर्त्त स्थितिकेह ।
उत्कृष्ट पूर्व कोड़ नै जी कांड, आयुष्के उपजेह जी कांड ॥

४३. हे प्रभुजी ! ते जोवड़ो जी कांड, इम जिम पृथ्वीकाय ।
ऊपजता पं. तिरि विषे जी कांड, वक्तव्यता कहिवाय जी कांड ॥

४४. वक्तव्यता ते सहु इहां जी कांड, पृथ्वीकायिक जेह ।
ऊपजतो जे मनुष्य में जी कांड, कहिवू नव ही गमेह जी कांड ॥

४५. णवरं इतरो विशेष छै जी कांड, तृतीय छठे नवमेह ।
ए तीनुई गम विषे जी कांड, इम परिमाण कहेह जी कांड ॥

४६. परिमाण जघन्य थकी कह्यो जी कांड, इक बे अथवा तीन ।
संख्याता उत्कृष्ट थी जी कांड,
उपजै एम कथीन जी कांड ॥

वा०— तीजे गमे ओधिक पृथ्वीकायिक थकी उत्कृष्ट स्थिति वाला मनुष्य
नै विषे जे ऊपजै, ते उत्कृष्ट थकी संख्याताइज हुवै । जदपि मनुष्य समूच्छिम
सग्रह थकी असंख्याता हुवै तो पिण उत्कृष्ट स्थिति नां धणी पूर्व कोड़ आउखा
वाला संख्याताइज जाणवा । अनै तीजे गमे ओधिक पृथ्वीकायिक थकी पंचेंद्रिय
तिर्यंच नै विषे जे ऊपजै, ते असंख्याता पिण हुवै । इम छठे अनै नवमे गमे पिण
संख्याता ऊपजै, इति ।

*लय : म्हारी सासुजी रं पांच पुत्र कांड

१. देखें परि. २, यंत्र १११

१६८ भगवती जोड़

३८. जइ तिरिक्खजोणिर्णहितो उववज्जंति—कि एगिदिय-
तिरिक्खजोणिर्णहितो उववज्जंति जाव पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिर्णहितो उववज्जंति ?

३९. गोयमा ! एगिदियतिरिक्खजोणिर्णहितो भेदो जहा
पंचिदियतिरिक्खजोणियउद्देशे,

४०. नवरं—तेउ-वाऊ पडिसेहेयव्वा । सेसं तं चेव ।

४१. जाव— (श० २४।२९७)
पुढविककाइए णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उव-
वज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उव-
वज्जेज्जा ?

४२. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तट्टितीएसु उक्कोसेणं
पुव्वकोडीआउएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।२९८)

४३. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उव-
वज्जंति ? एवं जहेव पंचिदियतिरिक्खजोणिएसु
उववज्जमाणस्स पुढविककाइयस्स वक्तव्वया

४४. सा चेव इह वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वा नवसु
वि गमएसु,

४५. नवरं—ततिय-छट्ट-नवमेसु गमएसु

४६. परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति ।

वा०—तत्र तृतीये ओधिकेभ्यः पृथिवीकायिकेभ्यः
उत्कृष्टस्थितिषु मनुष्येषु ये उत्पद्यन्ते ते उत्कृष्टतः
सङ्ख्याता एव भवन्ति, यद्यपि मनुष्याः समूच्छिम-
संग्रहादसङ्ख्याता भवन्ति तथाऽप्युत्कृष्टस्थितयः
पूर्वकोट्यायुषः सङ्ख्याता एव पञ्चेन्द्रियतिर्यंच-
स्त्वसङ्ख्याता अपि भवन्तीति, एवं षष्ठे नवमे चेति ।
(वृ० प० ८४५)

४७. आपणपैज पृथ्वी जदा जी कांड, जघन्य स्थितिक जो होय ।
मध्यम त्रिहुं गम जघनिया जी कांड,
तसु लेखो ए जोय जी कांड ॥
४८. प्रथम जघन्य गमे जदा जी कांड, पुढवी नां अवलोय ।
अध्यवसाय हुवै भला जी कांड,
भूंडा पिण तसु होय जी कांड ।

सोरठा

४९. महि जघन्यायुवंत, जघन्यायु मनु नैं विषे ।
ऊपजतां तसु हुंत, अपसत्थ अध्यवसाय जे ॥
५०. महि जघन्यायुवंत, उत्कृष्टाय मनु विषे ।
ऊपजतांज कहंत, अध्यवसाय भलाज तसु ॥
५१. तुर्य गमो छै एह, जघन्य अनें ओधिक तणों ।
जघन्य स्थितिक महि जेह, ओधिक मनु में ऊपजै ॥
५२. *द्वितीय जघनिया गमा विषे जी कांड, पृथ्वी न पहिछाण ।
अध्यवसाय हुवै बुरा जी कांड,
वर जिनवर नों वाण जी कांड ॥

सोरठा

५३. पंचम गम ए हुंत, जघन्य अनें घलि जघन्य ए ।
जघन्यायु महि जंत, जघन्य स्थितिक मनु नैं विषे ॥
५४. प्रशस्त अध्यवसाय, तेहथी जघन्य स्थितिक विषे ।
ऊपजवूं नहिं थाय, वृत्ति विषे पिण इम कह्युं ॥
५५. 'माठा अध्यवसाय, तिण करि बांध्यो आउखो ।
जघन्य स्थितिक मनु थाय, ए आयू प्रकृति पाप नों ॥
५६. असुभज अध्यवसाय, तिणसूं पुन्य बंधै नहीं ।
पाप कर्म बंधाय, प्रवर न्याय ए पाधरो ॥
५७. प्रकीर्ण मांहि पिछाण, तिर्यंच मनु नों आउखो ।
एकंत पुन्य नों जाण, प्रकृति स्थापै विरुद्ध ते ॥' [ज०स०]

वा० —इहां जघन्य स्थिति वालो पृथ्वीकाइयो जघन्य स्थितिक मनुष्य नैं विषे जे ऊपजै, तेहनां अध्यवसाय माठा कह्या । इण वचने करि जे जघन्य स्थितिक सन्नी मनुष्य नैं विषे तथा असन्नी मनुष्य नैं विषे जघन्य स्थितिक पृथ्वीकाइयो माठा अध्यवसाय सू ए आउखो बांधै, ते भणी जघन्य स्थितिक सन्नी मनुष्य नों आउखो तथा असन्नी मनुष्य नों आउखो पाप री प्रकृति संभवै ।

५८. *तीजा जघनिया गमा विषे जी कांड, पृथ्वीकाय नां पेख ।
अध्यवसाय हुवै भला जी कांड,
जिन वच विमल विशेष जी कांड ॥

४७. जाहे अप्पणा जहणकालद्वितीओ भवति ताहे

४८. पढमगमए अज्झवसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि

४९, ५०. मध्यमगमानां प्रथमगमे औधिकेषूत्पद्यमानताया-
मित्यर्थः अध्यवसानानि प्रशस्तानि उत्कृष्टस्थिति-
कत्वेनोत्पत्तौ अप्रशस्तानि च जघन्यस्थितिकत्वे-
नोत्पत्तौ; (वृ० प० ८४५)

५२. बितियगमए अप्पसत्था,

५३, ५४. 'बीयगमए' त्ति जघन्यस्थितिकस्य जघन्यस्थिति-
षूत्पत्तावप्रशस्तानि, प्रशस्ताध्यवसानेभ्यो जघन्य-
स्थितिकत्वेनानुत्पत्तेरिति, (वृ० प० ८४५)

५८. ततियगमए पसत्था भवति ।

*लय : म्हारी सासुजी रं पांच पुत्र कांड

सोरठा

५९. 'षष्ठम गमके ताहि, जघन्य स्थितिक महि ऊपजे ।
जेष्ठ स्थितिक मनु मांहि, अद्यवसाय भलाज तसुं ॥
६०. प्रशस्त अद्यवसाय, तिण करि बांध्यो आउखो ।
जेष्ठ स्थितिक मनु थाय, ए आयू पुन्य प्रकृति छै ॥
६१. पंचम षष्ठम पेख, ए बिहुं गम नैं न्याय करि ।
मनुष्यायु सुविशेख, प्रकृति पाप फुन पुन्य री ॥
६२. जेह मनुष्य नों जोय, जघन्य आउखो पाप छै ।
उत्कृष्ट आयू होय, तेह पुन्य नीं प्रकृति छै ॥' [ज०स०]
६३. शेष संघयणादिक सहु जी कांइ, महि पं. तिरि नैं मांय ।
ऊपजतां नैं आखिया जी कांइ
तिमज इहां कहिवाय जी कांइ ॥

वा०—'पृथ्वी, पाणी, वनस्पति, तीन विकलेंद्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य—
ए ९ मनुष्य में ऊपजतां नैं छठे गमे प्रथम ३ लेश्या अनैं अद्यवसाय भला कहा ।
ते भला अद्यवसाय में माठी लेश्या किम संभवै ? तेहनुं उत्तर—ए ३ माठी लेश्या द्रव्य लेश्या संभवै, पिण अद्यवसाय रूप भाव लेश्या न संभवै ।

अनैं उत्तराध्येन अध्येन ३४।३३ में लेश्या नां अद्यवसाय असंख कहा ।
तिहां अद्यवसाय रूप लेश्या कही, ए भाव लेश्या छै ।

तथा पन्नवणा पद १७ उद्देशे ३ सू० ११२ कृष्ण लेश्या में ४ ज्ञान कहा ।
तिहां टीका में इम कह्यो—कृष्ण लेश्या नां अद्यवसाय नां स्थानक असंख्याता लोकाकाश प्रदेश प्रमाण छै । तिण मांहिलो कोई मंद अद्यवसाय में मनपर्यव पाय जावै ।

इहां पिण अद्यवसाय रूप लेश्या कही, ते भाव लेश्या छै । ते माटै पृथव्यादि ९ मनुष्य में ऊपजतां नैं छठे गमे अद्यवसाय भला कहा, तिण में कृष्णादि ३ लेश्या अद्यवसाय रूप भाव लेश्या न संभवै, द्रव्य लेश्या संभवै ।' (ज० स०)

मनुष्य में अपकाय आदि ९ ठिकाणां नां ऊपजे, तेहनों अधिकार'

६४. इम अप मनु में ऊपजे जी कांइ, इमज वणस्सइकाय ।
एवं जाव चउरिंद्रिया जी कांइ, ऊपजतां मनु मांय जी कांइ ॥
६५. असन्नी पंचेंद्रिय तिरि जी कांइ, फुन सन्नी तिर्यंच ।
असन्नी मनुष्य सन्नी मनु जी कांइ, ए सगलाई संच जी कांइ ॥
६६. जिम पं.-तिरि उद्देशके जी कांइ, तिमहिज भणवो एह ।
ऊपजतां पं.-तिरि विषे जी कांइ,
तिमहिज मनुष्य विषेह जी कांइ ॥
६७. णवरं एहिज निश्चै करी जी कांइ, एह तणों परिमाण ।
अद्यवसाय तणों वलि जी कांइ,
भेद नानापणुं जाण जी कांइ ॥
६८. पृथ्वीकायिक नों कह्यो जी कांइ, मनुष्य विषे उपपात ।
उद्देशक एहिज विषे जी कांइ,
तिम इहां पिण अवदात जी कांइ ॥

१. देखें परि. २, यंत्र ११२-१२०

१७० भगवती जोड़

६३. सेसं तं चैव निरवसेसं १-९ । (श० २४।२९९)

वा०—इह लेश्यानां प्रत्येकासंख्येयलोकाकाशप्रदेश-
प्रमाणान्यद्यवसायस्थानानि, तत्र कानिचित् मन्दानु-
भावान्यद्यवसायस्थानानि प्रमत्तसंयतस्यापि लभ्यन्ते,
अत एव कृष्णनीलकापोतलेश्या अन्यत्र प्रमत्त-
संयतान्ता गीयन्ते. मनः-पर्यवज्ञानं च प्रथमतोऽ-
प्रमत्तसंयतस्योत्पद्यते ततः प्रमत्तसंयतस्यापि लभ्यते
इति सम्भवति कृष्णलेश्याकस्यापि मनःपर्यवज्ञानम् ।
(प्रज्ञा० वृ० प० ३५७)

६४. जइ आउक्काइए ? एवं आउक्काइयाण वि । एवं
वणस्सइकाइयाण वि । एवं जाव चउरिंद्रियाण वि ।
६५. असण्णिपंचिंद्रियतिरिक्खजोणिय-सण्णिपंचिंद्रियतिरि-
जोणिय-असण्णिमणुस्स-सण्णिमणुस्सा य एते सव्वे
वि
६६. जहा पंचिंद्रियतिरिक्खजोणियउद्देशे (२४।२४८-
२८२) तहेव भाणियव्वा,
६७. नवरं—एयाणि चैव परिमाण-अज्झवसाणनाणत्ताणि
जाणिज्जा
६८. पुढविकाइयस्स एत्थ चैव उद्देशे भणियाणि ।

बा०—असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी मनुष्य, सन्नी मनुष्य—ए च्यार ठिकाणां रो सन्नी मनुष्य नै विषे ऊपजै, तेहनां भव अनै नाणत्ता री विधि उद्देशक वीसमा नीं परै जाणवी । जिम वीसमें उद्देशे कहुं तिर्यंच पंचेंद्रिय नै विषे असन्नी-सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी-सन्नी मनुष्य ऊपजतां नै भव अनै नाणत्ता कहुं, तिम असन्नी-सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी-सन्नी मनुष्य मनुष्य में ऊपजता नै भव अनै नाणत्ता । पिण णवरं एतलो विशेष—ए च्यारूं मनुष्य नै विषे ऊपजतां नै परिमाण, अद्यवसाय नों नानापणुं जे पृथ्वीकाय मनुष्य विषे ऊपजता नै परिमाण अद्यवसाय कहुं, तिम कहिवा ।

६९. शेष संघयणादिक सहु जी कांड, जिम पं.-तिर्यंच मांय ।

ए च्चिउं ऊपजतां कहुं जी कांड,

तिमज इहां कहिवाय जी कांड ॥

हिं देव थकी मनुष्य नै विषे ऊपजै—

७०. देव थकी जो ऊपजै जी कांड, तो स्यू भवनपति थी होय ?

व्यंतर नै जोतिषी थकी जी कांड,

वैमानिक थी जोय जी कांड ?

७१. जिन कहै भवनपति थकी पिण, मनुष्य विषे उपजेह ।

जाव वैमानिक सुर चवी जी कांड,

मनुष्य तणों भव लेह जी कांड ॥

मनुष्य में असुरकुमार ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

७२. जो भवनपति सुरवर थकी जी कांड, मनुष्य विषे उपजेह ।

तो स्यू असुरकुमार थी जी कांड,

जाव थणित थी लेह जी कांड ?

७३. जिन कहै असुरकुमार थी जी कांड, यावत थणियकुमार ।

ते पिण सुरवर नीकली जी कांड,

उपजै मनुष्य मभार जी कांड ॥

७४. असुरकुमारज हे प्रभुजी ! कांड, मनुष्य विषेज कहेह ।

जे ऊपजवा जोग्य छै जी कितै

काल स्थितिके उपजेह जी कांड ?

७५. श्री जिन भाखै जघन्य थी जी कांड, मास पृथक स्थितिकेह ।

उत्कृष्ट कोड पूर्व तणें जी कांड,

आयु विषे उपजेह जी कांड ॥

७६. एवं जिकाहिज वारता जी कांड, तिरि पंचेंद्री उद्देश ।

तिरि पंचेंद्रिय नै विषे जी कांड,

असुर ऊपजै शेष जी कांड ॥

७७. तेहिज वक्तव्यता इहां जी कांड, भणवी ए अवधार ।

मनुष्य विषे जे ऊपजै जी कांड, सुरवर असुरकुमार जी कांड ॥

७८. णवरं इतरो विशेष छै जी कांड,

जिम तिहां जघन्य आख्यात ।

अंतर्मुहूर्त्त तिरि स्थितिक में जी कांड,

असुर तणों उपपात जी कांड ॥

६९. सेसं तहेव निरवसेसं १-९ । (श० २४।३००)

७०. जइ देवेहितो उववज्जति—कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ?

७१. गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि जाव वेमाणिय-देवेहितो वि उववज्जति । (श० २४।३०१)

७२. जइ भवणवासिदेवेहितो—कि असुरकुमार जाव थणियकुमार ?

७३. गोयमा ! असुरकुमार जाव थणियकुमार । (श० २४।३०२)

७४. असुरकुमारे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उव-वज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालद्वितीएसु उव-वज्जेज्जा ?

७५. गोयमा ! जहण्णेणं मासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउएसु उववज्जेज्जा ।

७६. एवं जच्चेव पंचिदियतिरिक्खजोणियउद्देशए

७७. वक्तव्या सच्चेव एत्थ वि भाणियव्वा,

७८. नवरं—जहा तहि जहण्णं अंतोमुहूर्त्तद्वितीएसु

७९. तेम इहां पिण जाणवो जी कांइ, जघन्य थकी कहिवाय ।
मास पृथक मनु स्थितिक में जी कांइ, असुर ऊपजै आय जी कांइ ॥

८०. द्वार परिमाण विषे वलि जी कांइ, जघन्य एक बे तीन ।
उपजै फुन उत्कृष्ट थी जी कांइ,

संख्याताज सुचीन जी कांइ ॥

८१. शेष तिमज कहिवो सह जी कांइ, जाव तिरि-पं. मांय ।
ऊपजतां तिम मनु विषे जी कांइ, असुर उपजतां पाय जी कांइ ॥

मनुष्य में नवनिकाय यावत दूसरं देवलोक तक नां देव ऊपजै, तेहनो
अधिकार^१

८२. एवं यावत जाणवो जी कांइ, नागकुमार थी लेह ।
देव ईशान थकी चवी जी कांइ, ऊपजवूज कहेह जी कांइ ॥

८३. जिम तिहां जघन्य स्थितिक तणों जी कांइ,
अथवा वलि परिमाण ।

भेद नानापणुं भाखियो जी कांइ, तेम इहां पिण जाण जी कांइ ॥

८४. सनतकुमार थी आदि दे जी कांइ, यावत सुर सहसार ।
तिरि पंचेंद्री उद्देशके जी कांइ, जिम भाखयो तिम धार जी कांइ ॥

८५. णवरं इतरो विशेष छै जी कांइ, इम परिमाण जघन्य ।
एक दोय त्रिण ऊपजै जी कांइ, उत्कृष्ट संख्या जन्य जी कांइ ॥

८६. फुन उपातज जघन्य थी जी कांइ, पृथक वास स्थितिकेह ।
उत्कृष्ट कोइ पूर्व तणें जी कांइ,

आयु विषे उपजेह जी कांइ ॥

८७. शेष संघयणादिक सह जी कांइ, तिरि पंचेंद्री उद्देश ।
उपजै पं.-तिरि नें विषे जी कांइ,

इमज मनु में कहेस जी कांइ ।

८८. संवेध मास पृथक नों जी कांइ, पूर्व कोइ विषेह ।
करिवो असुरादिक विषे जी कांइ,

देव ईशाण लगेह जी कांइ ।

८९. संवेध वर्ष पृथक नें जी कांइ, पूर्व कोइ विषेह ।
सनतकुमारादिक विषे जी कांइ, उपजै ते मनु लेह जी कांइ ॥

९०. सनतकुमार नीं स्थिति वली जी कांइ, उत्कृष्ट सागर सात ।
चतुर्गुणी कोधां तसु जी कांइ, अठवीस सागर आत जी कांइ ॥

सोरठा

९१. जदा ओधिक थी जेह, फुन उत्कृष्टज स्थितिक थी ।
जे सुरवर उपजेह, ओधिक आदिज मनु विषे ॥

९२. उत्कृष्टी स्थिति इष्ट, तिण काले ह्वै सुर तणीं ।
तिका स्थिती उत्कृष्ट, संवेध वांछा नें विषे ॥

९३. मनु भव च्यार करेह, अनुक्रम अंतरिता करी ।
तेह थकी इम लेह, सनतकुमारादिक तणीं ॥

७९. तहा इहं मासपुहत्तद्वितीएसु ।

८०. परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा,
उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति ।

८१. सेसं तं चेव १-९ ।

८२. एवं जाव ईसाणदेवो त्ति ।

८३. एयाणि चेव नाणत्ताणि ।

८४. सणंकुमारादीया जाव सहस्सारो त्ति जहेव पंचिदिय-
तिरिक्खजोणिउद्देशे,

८५. नवरं—परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि
वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जंति ।

८६. उववाओ जहण्णेणं वासपुहत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं
पुव्वकोडीभाउएसु उववज्जेज्जा ।

८७. सेसं तं चेव ।

८९. संवेहं वासपुहत्तं पुव्वकोडीसु करेज्जा ।

९०. सणंकुमारे ठिती चउगुणिया अट्टावीससागरोवमा
भवति

९१. यदा ओधिकेभ्य उत्कृष्टस्थितिकेभ्यश्च देवेभ्य ओधि-
कादिमनुष्येषूपद्यते (वृ० प० ८४५)

९२. तदोत्कृष्टा स्थितिर्भवति सा चोत्कृष्टसंवेधविवक्षायां
(वृ० प० ८४५)

९३. चतुर्भिर्मनुष्यभवंः क्रमेणान्तरिता क्रियते,
(वृ० प० ८४५)

१. देखें परि. २, यत्र १२२-१२६

मनुष्य में तीसरे स्थं आठवें देवलोक तक नां देव ऊपजं, तेहनों अधिकार^१

१४. सनतकुमार विषेह, सात सागर उत्कृष्ट स्थिति ।
कियां चउगुणी लेह, अष्टवीस सागर हुवै ॥
१५. *माहेंद्र सात जाभी कही जी कांइ, चतुर्गुणी कियां ताय ।
अष्टवीस सागर तिका जी कांइ,
जाभेरी कहिवाय जी कांइ ।
१६. ब्रह्म जेष्ठ दश उदधि नीं जी कांइ, चतुर्गुणी कियां ताय ।
चालीस सागर नीं हुवै जी कांइ,
स्थिति उत्कृष्ट कहाय जी कांइ ॥
१७. लंतक चवद उदधि तणीं जी कांइ, उत्कृष्टी स्थिति एह ।
चतुर्गुणी कीधां हुवै जी कांइ, सागर छप्पन जेह जी कांइ ॥
१८. महाशुक्र सतरोदधि जी कांइ, उत्कृष्ट भव स्थिति थाय ।
चतुर्गुणी कीधां तिका जी कांइ, अडसठ सागर आय जी कांइ ॥
१९. अष्टम कल्प अठार नीं जी कांइ, उत्कृष्टी स्थिति होय ।
चतुर्गुणी कीधां तिका जी कांइ,
उदधि बहोत्तर जोय जी कांइ ॥
१००. ए उत्कृष्टी स्थिति कही जी कांइ, जघन्य स्थिति पिण तास ।
चतुर्गुणी करवी वली जी कांइ,
वर जिन वचन विमास जी कांइ ।

सोरठा

१०१. जदा जघन्य स्थिति जाण, चवी तृतीय कल्पादि थी ।
उपजै तेह पिछाण, ओधिक आदिक मनु विषे ॥
१०२. जघन्य स्थिति अवलोय, हुवै तदा ते सुर तणीं ।
तिका स्थितो फुन जोय, तिमहिज करवी चउगुणी ॥
१०३. सतनकुमारज आदि, जघन्य दोय सागर प्रमुख ।
कियां चउगुणी लाधि, अष्ट आदि सागर हुवै ॥

बा०—जघन्य नै ओधिक, जघन्य नै जघन्य, जघन्य नै उत्कृष्ट—ए बिचले तीन गमे जघन्य स्थिति वाला सनतकुमारादिक ओधिकादिक मनुष्य में ऊपजै । तेहनां जघन्य वे भव, उत्कृष्ट ८ भव करै तिहां सनतकुमारादिक जघन्य स्थिति नां ४ भव । तिहां जघन्य स्थिति नै चउगुणी करणी । प्रथम तीन गमे अनै छेहले तीन गमे ८ भव में सनतकुमारादिक सुर नीं उत्कृष्ट स्थिति नै चउगुणी करवी ।

मनुष्य में नौवें देवलोक नां देव ऊपजं, तेहनों अधिकार^२

१०४. आणत सुरवर हे प्रभु ! कांइ, मनुष्य विषेज कहेह ।
सुर ऊपजवा जोग्य छै जी कांइ,
कितै काल स्थितिक उपजेह जी कांइ ?

*लय : म्हारी सामूजो रे पांच पुत्र कांइ

१. देखें परि. २, यंत्र १२७-१३२
२. देखें परि. २, यंत्र १३३

१४. ततश्च सनत्कुमारदेवानामष्टाविंशत्यादिसागरोपम-
माना भवति सप्तादिसागरोपमप्रमाणत्वात्तस्य इति;
(वृ० प० ८४५)
१५. माहिदे ताणि चैव सातिरेगाणि,
१६. बम्हलोए चत्तालीसं
१७. लंतए छप्पन्नं,
१८. महासुक्के अट्टसट्ठि,
१९. सहस्सारे बावत्तरि सागरोवमाइं ।
१००. एसा उक्कोसा ठिती भणिया । जहण्णट्ठित्ति पि
चउगुणेज्जा । (श० २४।३०३)

१०१. यदा पुनर्जघन्यस्थितिकदेवेभ्य ओधिकादिमनु-
ष्येषूत्पद्यते (वृ० प० ८४५)
१०२. तदा जघन्यस्थितिर्भवति, सा च तथैव चतुर्गुणिता
(वृ० प० ८४५)
१०३. सनत्कुमारादिसागरोपममाना भवति द्वाद्यादिसागरो-
पममानत्वात्तस्या इति । (वृ० प० ८४५)

१०४. आणयदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए,
से णं भंते ! केवतिकालट्ठित्तीएसु उववज्जेजा ?

१०५. श्रीजिन भाखे जघन्य थी जी कांड, वर्ष पृथक स्थितिकेह ।
उत्कृष्ट कोइ पूर्व तर्णे जी कांड,
आयु विषे उपजेह जी कांड ॥
१०६. हे भगवंतजी ! ते सुरा जी कांड, आणत थीज चवेह ।
एक समय किता ऊपजे जी कांड ! इत्यादिक पूछेह जी कांड ॥
१०७. इम जिम आखी वारता जी कांड, सुर सहसार तणेह ।
तिम कहिवी णवरं इतो जी कांड,
विशेष भणवो एह जी कांड ॥
१०८. अवगाहन स्थिति देव नीं जी कांड, फुन अनुबंध में फेर ।
उपयोगे करि जाणवूं जी कांड,
शेष अष्टम जिम हेर जी कांड ॥

सोरठा

१०९. आणत आदिक च्यार, देव तर्णीं अवगाहना ।
उत्कृष्टी अवधार, तीन हस्त भवधारणी ॥
११०. आणत स्थिती जघन्य, अष्टादश सागर तर्णीं ।
उत्कृष्टी तसु जन्य, सागर एगुणवीस नीं ॥
१११. पाणत कल्पे जोय, जघन्य एगुणवीस दधि ।
उत्कृष्टी स्थिति होय, सागर वीस तर्णीं तिहां ॥
मनुष्य में दसवें स्थूं बारहवें देवलोक नां देव ऊपजे, तेहनों अधिकार^१
११२. आरण जघन्य जेह, स्थिती वीस सागर तर्णीं ।
उत्कृष्टी इम लेह, एक वीस जे उदधि नीं ॥
११३. अच्युत सुर स्थिति जाण, एकवीस सागर जघन्य ।
उत्कृष्टी पहिछाण, सागर जे बावीस नीं ॥
११४. आऊ जितो अनुबंध, शेष संघयणादिक जिके ।
सहसार जिम संघ, कायसंवेध हिवै कइं ॥
११५. *भवादेश करि जघन्य थी जी कांड, बे भव ग्रहण करेह ।
उत्कृष्टज षट भव करी जी कांड,
त्रिण सुर त्रिण मनु लेह जी कांड ॥
११६. कालादेश करि जघन्य थी जी कांड, कहियै उदधि अठार ।
वर्ष पृथक अधिका वली जी कांड, बे भव अद्धा धार जी कांड ॥
११७. उत्कृष्टो अद्धा तसु जी कांड, षट भव नूं इम जोइ ।
उदधि सतावन आखिया जी कांड,
फुन त्रिण पूर्व कोइ जी कांड ॥

१०५. गीयमा ! जहण्णेणं वासपुहत्तट्ठितीएसु, उक्कोसेणं
पुव्वकोडीटितीएसु उववज्जेज्जा । (श० २४।३०४)
१०६. ते णं भत्ते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ?
१०७. एवं जहेव सहससारदेवाणं वत्तव्वया, नवरं—
१०८. अओगाहणा-ठिति-अणुबंधे य जाणेज्जा ।
सेसं तं चैव ।

११५. भवादेशेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं छ
भवग्गहणाइं ।
'उक्कोसेणं छभवग्गहणाइं' ति त्रीणि दैविकानि
त्रीण्येव क्रमेण मनुष्यसत्कानीत्येवं षट्,
(वृ० प० ८४५)
११६. कालादेशेणं जहण्णेणं अठारस सागरोवमाइं वास-
पुहत्तमब्भहियाइं,
११७. उक्कोसेणं सत्तावनन्तं सागरोवमाइं तिहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

१. देखे परि. २, यत्र १३४-१३६

*लय : म्हारी सासुजी रं पांच पुत्र कांड

सोरठा

११८. उत्कृष्ट एगुणवीस, सागर तीन गुणां किया ।
सप्त पचास जगीस, उदधि हुवै आणत विषे ॥
११९. *सेवै कालज एतलो जी कांइ, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नै ओधिक गमो जी कांइ,
दाख्यो प्रथम दयाल जी कांइ ॥
१२०. एम नवूं ही गमा प्रतै जी कांइ, कहिवा विचारी जेह ।
णवरं स्थिति अनुबंध नै जी कांइ,
फुन संवेध जाणेह जी कांइ ॥
१२१. इम यावत अच्युत लगै जी कांइ, णवरं स्थिति अनुबंध ।
संवेध प्रति फुन जाणवूं जी कांइ,
उपयोगे करि संध जी कांइ ॥
१२२. पाणत सुर स्थिति जेष्ठ थी जी कांइ, आखी सागर बीस ।
ते त्रिगुणी कीधां हुवै जी कांइ,
सागर साठ जगीस जी कांइ ॥
१२३. आरण स्थिति उत्कृष्ट थी जी कांइ, एक बीस दधि सोय ।
ते त्रिगुणां कीधां थकां जी कांइ, सागर तेसठ होय जी कांइ ॥
१२४. अच्युत स्थिति उत्कृष्ट थी जी कांइ, उदधि बावीस उदार ।
ते त्रिगुणां कीधां हुवै जी कांइ, सागर छासठ सार जी कांइ ॥

वा०—आणत सुर नीं स्थिति अनै अनुबंध जघन्य दूजे, तीजे गमे १८ सागर, उत्कृष्ट १९ सागर । चउथे, पांचमे, षष्ठम गमे जघन्य-उत्कृष्ट १८ सागर । सातमे, आठमे, नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट १९ सागर । पाणत सुर नीं स्थिति अनै अनुबंध प्रथम ३ गमे जघन्य १९ सागर, उत्कृष्ट २० सागर । बिचले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट १९ सागर । छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २० सागर । आरण सुर नीं स्थिति प्रथम ३ गमे जघन्य २० सागर, उत्कृष्ट २१ सागर । बिचले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २० सागर । छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २१ सागर । अच्युत सुर नीं स्थिति प्रथम तीन गमे जघन्य २१ सागर, उत्कृष्ट २२ सागर । बिचले ३ गमे जघन्य-उत्कृष्ट २१ सागर । छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २२ सागर । भव सर्वत्र जघन्य २, उत्कृष्ट ६ । कायसंवेध सर्वं नुं विचारी कहिवो ।

मनुष्य में कल्पातीत देव उपजे—

१२५. कल्पातीतज सुर थकी जी कांइ, मनुष्य विषे उपजेह ।
तो स्यूं ग्रैवेयक थकी जी कांइ,
अनुत्तर विमान थी लेह जी कांइ ?
१२६. जिन कहै ग्रैवेयक थकी जी कांइ, अनुत्तर विमान थी जेह ।
ए बिहुं कल्पातीत सूं जी कांइ,
मनुष्य विषे उपजेह जी कांइ ॥

११८. आनते उत्कृष्टस्थितेरेकोनविंशतिसागरोपमप्रमा-
णाया भवत्रयगुणनेन सप्तपञ्चाशत्सागरोपमाणि
भवन्तीति । (वृ० प० ८४५)
११९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं
करेज्जा ।
१२०. एवं नव वि गमा, नवरं—ठिति अणुबंधं संवेहं च
जाणेज्जा ।
१२१. एवं जाव अच्युयदेवो, नवरं—ठिति अणुबंधं संवेहं
च जाणेज्जा ।
१२२. पाणयदेवस्स ठिती तिगुणिया सट्ठि सागरोवमाइं,
१२३. आरणगस्स तेवट्ठि सागरोवमाइं,
१२४. अच्युयदेवस्स छावट्ठि सागरोवमाइं ।
(श० २४।३०५)

१२५. जइ कप्पातीतावेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति—किं
गेवेज्जाकप्पातीता ? अणुत्तरोववातियकप्पातीता ?
१२६. गोयमा ! गेवेज्जाकप्पातीता, अणुत्तरोववातिय-
कप्पातीता । (श० २४।३०६)

*लय : म्हारी सासूजी रं पाच पुत्र कांइ

१२७. ग्रैवेयक थी जो ऊपजै जी कांड, तो स्यूं हेठिम-हेठिम ।
ग्रैवेयक कल्पातीत थी जी कांड,
जाव उवरिम-उवरिम जी कांड ?

१२८. जिन कहै हेठिम-हेठिम थकी जी कांड,
जाव उवरिम-उवरिम ।
ए नवमा ग्रैवेयक थी जी कांड,
मनुष्य विषे अवगम जी कांड ॥

मनुष्य में ग्रैवेयक देव ऊपजै, तेहनों अधिकार'

१२९. सुर ग्रैवेयक थी प्रभुजी ! कांड, मनुष्य विषेज कहेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै जी कांड,
कितै काल स्थितिक उपजेह जी कांड ?

१३०. श्री जिन भाखै जघन्य थी जी कांड, वर्ष पृथक स्थितिकेह ।
उत्कृष्ट कोड़ पूर्व तणं जी कांड, आयु विषे उपजेह जी कांड ॥

१३१. शेष संघयणादिक सहू जी कांड, वक्तव्यता संपेख ।
दाखी आणत देव नीं जी कांड,
कहिवो तिमज अशेख जी कांड ॥

१३२. णवरं तसु अवगाहना जी कांड, इक भवधारणी माग ।
जघन्य थकी आंगुल तणों जी कांड,
असंख्यातमो भाग जी कांड ॥

१३३. उत्कृष्टी बे कर तणीं जी कांड, फुन तेहनोंज संठाण ।
समचउरंस आकार छै जी कांड,
तिण करि संस्थित जाण जी कांड ।

१३४. समुद्घात पंच वलि कह्या जी कांड, प्रथम वेदना जोय ।
यावत तेजस पंचमी जी कांड,
फुन जिन भाखै सोय जी कांड ॥

१३५. पिण निश्चै करिनैं तिके जी कांड, वैक्रिय तेजस ताहि ।
समुद्घात कीधा नथी जी कांड, न करै करस्यै नाहि जी कांड ॥

सोरठा

१३६. वैक्रिय तेजस दोय, प्रयोजन तणां अभाव थी ।
न कियान करै कोय, आगामिक करिस्यै नथी ॥

वा०—'इहां नव ग्रैवेयक में समुद्घात ५ कही । तिण मांहिली वैक्रिय, तेजस—ए २ समुद्घात कीधी नहीं, करै नहीं, करिस्यै नहीं । अनै जीवाभिगम' में नव ग्रैवेयक अनुत्तर विमान में प्रथम ३ समुद्घात कही । इहां भगवती में ५ कही । ते वैक्रिय, तेजस शक्तिरूप जाणवी । अनै जीवाभिगम में ३ कही ते करिवा रूप । जिम नंदी सूत्रे (सू० २२) कह्यो—अवधिज्ञान थी उत्कृष्ट देखै तो लोक में सर्व रूपी द्रव्य जाणै-देखै अनै लोक जेता असंख खंडवा अलोक में

१. देखें परि. २, यंत्र १३७

२. जैन विश्वभारती द्वारा प्रकाशित 'उवंगसुत्ताणि' भाग १ के अन्तर्गत जीवा-जीवाभिगमप. ३।११३ में नवग्रैवेयक देवों में समुद्घात का पाठ भगवती सूत्र की तरह ही है । संभव है, जयाचार्य को प्राप्त आदर्श में समुद्घात तीन हों ।

१७६ भगवती जोड़

१२७. जइ गवेज्जा—किं हेठिम-हेठिम-गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ?

१२८. गोयमा ! हेठिम-हेठिम-गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा । (श० २४।३०७)

१२९. गेवेज्जगदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उव-वज्जित्तए, से णं भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उव-वज्जेज्जा ?

१३०. गोयमा ! जहण्णेणं वासपुहत्तट्ठितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडीट्ठितीएसु ।

१३१. अवसेसं जहा आणयदेवस्स वत्तव्वया,

१३२. नवरं—ओगाहणा—एगे भवधारणिज्जे सरीरए । से जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं,

१३३. उक्कोसेणं दो रयणीओ । संठाणं—एगे भवधार-णिज्जे सरीरे । से समचउरंससंठिए पण्णत्ते ।

१३४. पंच समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा—वेदणासमुग्घाए जाव तेयगसमुग्घाए,

१३५. नो चेव णं वेउव्वियतेयगसमुग्घाएहिं समोहणिसु वा, समोहणंति वा, समोहणिसंसंति वा ।

वा०—'नो चेव णं वेउव्विए' त्यादि, ग्रैवेयकदेवाना-माद्याः पञ्च समुद्घाताः लब्धयपेक्षया संभवन्ति, केवलं वैक्रियतैजसाभ्यां न ते समुद्घातं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति वा, प्रयोजनाभावादित्यर्थः,

(वृ० प० ८४५, ८४६)

देखें, इम कह्यो ते देखवा री शक्ति छै । तिम नव ग्रैवेयक अनुत्तर विमान में वैक्रिय, तेजू कही ते तो शक्ति रूप अनै जीवाभिगम में ३ कही, ते करिवा रूप ।' (ज० स०)

१३७. स्थिति अनुबंध जघन्य थी जी कांइ, बावीस दधि घुर पाय ।
उत्कृष्ट इकतीस उदधि नीं जी कांइ,
नवम ग्रैवेयक मांय जी कांइ ॥
१३८. शेष संघयणादिक सहू जी कांइ, देव तणों अवदात ।
जिम आणत सुर नीं वारता जी कांइ,
तिमज एह विख्यात जी कांइ ॥

वा०—'नव ग्रैवेयक नां देव मनुष्य में ऊपजतां लद्धि आणत देव नै भलाई । सो आणत देव में दृष्टि ३ कही । इण भलावण लेखै तो नव ग्रैवेयक में ३ दृष्टि हुवै । अनै जीवाभिगमे' नव ग्रैवेयक में २ दृष्टि कही ते किम ? इति प्रश्न । उत्तर—जीवाभिगम में २ दृष्टि कही । बहुलपणै २ दृष्टिईज हुवै । अनै किणही वेला किणहि देव में मिश्र दृष्टि हुवै, तिहां अल्प काल माटै मिश्र दृष्टि न लेखवी हुवै ते पिण केवली जाणै । अनै जो नव ग्रैवेयक में मिश्रदृष्टि नहींज ह्वै तो इहां ओधिक गमे आणत नै भलायो ते बहुल पक्षपणै भलावण हुवै । पिण जे दृष्टि लाभै ते लीजै ।' (ज०स०)

१३९. काल आश्रयी जघन्य थी जी कांइ, बे भव अद्धा ताय ।
बावीस सागर नीं कही जी कांइ,
पृथक वर्ष अधिकाय जी कांइ ॥

सोरठा

१४०. घुर ग्रैवेयक मांय, जघन्य बावीस उदधि स्थिति ।
ते चव नर भव पाय, पृथक वर्ष मनु जघन्य स्थिति ॥
१४१. *उत्कृष्ट अद्धा षट भवे जी कांइ, त्र्याणु सागर ताम ।
कोड़ पूर्व त्रिण अधिक ही जी कांइ,
त्रिण सुर त्रिण नर पाम ॥

सोरठा

१४२. नवम ग्रैवेयक तीन, उत्कृष्ट स्थिति इकतीस दधि ।
त्राणू सुर भव तीन, त्रिण भव पूर्व कोड़ त्रिण ॥
- १४३ *सेवै कालज एतलो जी कांइ, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नै ओधिक गमो जी कांइ,
दाख्यो प्रथम दयाल जी कांइ ॥
१४४. शेष गमा अठ नै विषे जी कांइ, इमहिज कहिवो तेह ।
णवरं स्थिति तथा वली जी कांइ,
संवेध प्रति जाणेह जी कांइ ॥

*लय : म्हारी सासूजी रं पांच पुत्र कांइ

१. जैन विश्वभारती द्वारा प्रकाशित 'उवंगसुत्ताणि' भाग १ के अन्तर्गत जीवाजीवाभिगम पं. ३।११०५ में नव ग्रैवेयक देवों में दृष्टि तीन कही है । प्रस्तुत प्रकरण में दृष्टि दो बताई है । संभव है, जयाचार्य को प्राप्त आदर्श में दो दृष्टि हो ।

१३७. ठिती अणुबंधो जहण्णेणं बावीस सागरोवमाइं,
उवकोसेणं एकतीसं सागरोवमाइं ।

१३८. सेसं तं चेव ।

१३९. कालादेसेणं जहण्णेणं बावीस सागरोवमाइं वास-
पुहत्तमम्भहियाइं,

१४०. प्रथमग्रैवेयके जघन्येन द्वाविंशतिस्तेषां भवति
(वृ० प० ८४६)

१४१, १४२. उवकोसेणं तेणउति सागरोवमाइं तिहि पुव्व-
कोडीहि अब्भहियाइं
इहोत्कर्षतः षड् भवग्रहणानि ततश्च त्रिषु देवभव-
ग्रहणेषूत्कृष्टस्थितिषु तिसृभिः सागरोपमाणामेकत्रिंश-
द्भिस्त्रिनवतिस्तेषां स्यात् त्रिभिश्चोत्कृष्टमनुष्यजन्म-
भिस्त्रिंशः पूर्वकोटयो भवन्तीति । (वृ० प० ८४६)

१४३. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

१४४. एवं सेसेमु वि अट्टगमएमु, नवरं—ठिति संवेहं च
जाणेज्जा १-९ : (श० २४।३०८)

वा०—ऋग्वेदक सुर नीं स्थिति दूजे, तीजे गमे जघन्य २२ सागर, उत्कृष्ट ३१ सागर । बिचले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट २२ सागर । छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट ३१ सागर । भव सर्वत्र जघन्य २, उत्कृष्ट ६ । कायसंवेध सर्वं नुं विचारी कहियो ।

हिवै अनुत्तर विमान थकी मनुष्य नै विषे ऊपजै, तेहनों विस्तार कहै छै—

१४५. अनुत्तरोपपातिक सुरा जी कांइ, चवी मनुष्य में आय ।
तो स्युं विजय वेजयंत थी जी कांइ,
जाव सव्वट्टसिद्ध थी थाय जी कांइ ?
१४६. जिन कहै विजय तणां सुरा जी कांइ, चवी मनुष्य में आय ।
जाव सर्वार्थसिद्ध तणां जो कांइ,
अमर मनुज भव पाय जी कांइ ॥
१४७. हे प्रभु ! विजय अनै वली जो कांइ, वैजयंत सुविचार ।
जयंत तणां सुर शोभता जी कांइ,
अपराजित थी सार जी कांइ ॥
१४८. ए च्यारूं नां देवता जी कांइ, मनुष्य विषेज कहेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै जी कांइ,
कितै काल स्थितिके उपजेह जी कांइ ?
१४९. जिम ऋग्वेदक सुर तणीं जी कांइ, वक्तव्यता संपेख ।
आखी तिम कहिवी इहां जी कांइ,
णवरं इतरो विशेष जी कांइ ॥
१५०. जघन्य थकी अवगाहना जो कांइ, आंगुल नों सुविशेष ।
असंख्यातमो भाग छै जी कांइ, उत्कृष्टी कर एक जी कांइ ॥
१५१. सम्यकदृष्टी ते हुवै जी कांइ, मिथ्यादृष्टी नांहि ।
समामिथ्यादृष्टी नहिं जी कांइ,
चार अनुत्तर मांहि जी कांइ ॥
१५२. ज्ञानी ते सुरवर हुवै जी कांइ, अज्ञानी नहिं होय ।
नियमा तीनज ज्ञान नीं जी कांइ,
मति श्रुत अवधि सुजोय जी कांइ ॥
१५३. स्थिति जघन्य थी जेहनीं जी कांइ, सागर जे इकतीस ।
फुन सागर तेतीस नीं जी कांइ,
उत्कृष्टी सुजगीस जी कांइ ॥
१५४. शेष परिमाणादिक सहू जी कांइ, ऋग्वेदक जिम सार ।
भवादेश धुर बे भवे जी कांइ, उत्कृष्टा भव च्यार जी कांइ ।
१५५. कालादेश करि जघन्य थी जी कांइ, अमर उदधि इकतीस ।
वर्ष पृथक अधिका वली जा कांइ,
नर भव स्थिती जगीस जी कांइ ॥
१५६. उत्कृष्ट छासठ दधि कह्या जी कांइ, पूर्वं कोइज दोय ।
जेष्ठ स्थितिक सुर बे भवे जी कांइ,
फुन बे नर भव होय जा कांइ ॥
१५७. सेवै कालज एतलो जी कांइ, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नै ओधिक गमो जी कांइ,
दाख्यो प्रथम दयाल जी कांइ ॥

१७८ भगवती जोइ

१४५. जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो
उववज्जंति—किं विजयअणुत्तरोववाइय ? वेजयंत-
अणुत्तरोववाइय जाव सव्वट्टसिद्ध ?
१४६. गोयमा ! विजयअणुत्तरोववाइय जाव सव्वट्टसिद्ध-
अणुत्तरोववाइय । (श० २४।३०९)
१४७. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवे णं भंते !
१४८. जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से णं भंते !
केवतिकालद्वितीएमु उववज्जेज्जा ?
१४९. एवं जहेव गेवेज्जगदेवाणं, नवरं—
१५०. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, उक्को-
सेणं एगा रयणी ।
१५१. सम्मदिट्ठी, नो मिच्छदिट्ठी, नो सम्मामिच्छदिट्ठी ।
१५२. नाणी, नो अण्णाणी, नियमं तिण्णाणी, तं जहा—
आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी ।
१५३. ठिती जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं
तेत्तीसं सागरोवमाइं ।
१५४. सेसं तं चेव । भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवगहणाइं,
उक्कोसेणं चत्तारि भवगहणाइं ।
१५५. कालादेसेणं जहण्णेणं एकतीसं सागरोवमाइं वास-
पुहत्तमब्भहियाइं,
१५६. उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडींहि
अब्भहियाइं,
१५७. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

१५८. एम शेष पिण अठ गमा जी कांड, णवरं विशेष एह ।
स्थिति अनै अनुबंध नै जी कांड,
संवेध प्रति जाणेह जी कांड ॥

वा०— च्यार अनुत्तर विमान नां देवता नीं स्थिति अनै अनुबंध दूजे, तीजे
गमे जघन्य ३१ सागर, उत्कृष्ट ३२ सागर । त्रिचले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट ३१
सागर । छेहले तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट ३३ सागर । भव सर्वत्र जघन्य २, उत्कृष्ट
४ । तेहनं कायसंवेध विचारी नै कहिवो ।

मनुष्य में अनुत्तर विमानवासी देव ऊपजे, तेहनों अधिकार'

१५९. शेष परिमाणादिक सहू जी कांड, जिम प्रैवेयक ख्यात ।
च्यार अनुत्तर सुर तर्णो जी कांड,
कहिवूं तिम अवदात जी कांड ॥
१६०. सर्वार्थसिद्धिक देवता जी प्रभु ! मनुष्य विषेज कहेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै जी कांड,
कितं काल स्थितिके उपजेह जी कांड ?
१६१. विजयादिक नीं सर्व ही जी कांड, वक्तव्यता संपेख ।
आखी तिम कहिवी इहां जी कांड,
णवरं इतरो विशेष जी कांड ॥
१६२. स्थिति अजघन्य अनै वली जी कांड, अनुत्कृष्ट तसु संध ।
तेतीस सागर नीं कही जी कांड,
इतरोहिज अनुबंध जी कांड ॥
१६३. शेष तिमज कहिवो सहू जी कांड, भवादेश करि सोय ।
बे भव ग्रहण करै तिके जी कांड,
इक सुर इक नर होय जी कांड ॥
१६४. कालादेश करि जघन्य थी जी कांड, सुर सागर तेतीस ॥
वर्ष पृथक अधिका वली जी कांड,
मनु धुर स्थिती जगीस जी कांड ॥
१६५. उत्कृष्ट अद्धा आखियो जी कांड, सुर सागर तेतीस ।
कोड़ पूर्व अधिका वली जी कांड,
मनु स्थिति जेष्ठ जगीस जी कांड ॥
१६६. सेवै कालज एतलो जी कांड, ए गति-आगति काल ।
धुर त्रिण गम मांहे गमो जी कांड,
दाख्यो प्रथम दयाल जी कांड ॥
१६७. तेहिज जघन्य काल नीं जी कांड, स्थितिक विषे उत्पन्न ।
एहिज वक्तव्यता तसुं जी कांड, णवरं विशेष जन्न जी कांड ॥
१६८. कालादेश करि आखियो जी कांड, जघन्य अनै उत्कृष्ट ।
तेतीस सागर सुर भवे जी कांड,
पृथ ४ वर्ष नर इष्ट जी कांड ॥
१६९. तेहिज उत्कृष्ट काल नीं जी कांड, स्थितिक विषे उत्पन्न ।
एहिज वक्तव्यता तसुं जी कांड, णवरं विशेष जन्न जी कांड ॥
१७०. कालादेश करि आखियो जी कांड, जघन्य अनै उत्कृष्ट ।
तेतीस सागर सुरवरू जी कांड, कोड़ पूर्व नर इष्ट जी कांड ॥

१. देखें परि. २, यंत्र १३८, १३९

१५८. एव सेसा वि अट्ट गमगा भाणियव्वा, नवरं—ठिति
अणुबंधं संवेधं च जाणेज्जा ।

१५९. सेसं एवं चेव १-९ । (श० २४।३१०)
१६०. सव्वट्टसिद्धगदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु
उववज्जित्तए ?
१६१. सा चेव विजयादिदेवत्तव्वया भाणियव्वा, नवरं—
१६२. ठिती अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं एवं
अणुबंधो वि ।
१६३. सेसं तं चेव । भवादेशेणं दो भवग्गहणाइं,
१६४. कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं वास-
पुहत्तमभहियाइं,
१६५. उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अब्भ-
हियाइं,
१६६. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।३११)
१६७. सो चेव जहण्णकालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—
१६८. कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं वास-
पुहत्तमभहियाइं, उक्कोसेणं वि तेत्तीसं सागरोवमाइं
वासपुहत्तमभहियाइं, (श० २४।३१२)
१६९. सो चेव उक्कोसकालट्टितीएसु उववण्णो, एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—
१७०. कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्व-
कोडीए अब्भहियाइं, उक्कोसेणं वि तेत्तीसं सागरोव-
माइं पुव्वकोडीए अब्भहियाइं

श० २४, उ० २१, ढा० ४२९ १७९

१७१. सेवै कालज एतलो जी कांइ, ए गति-आगति काल ।
त्रिण गमा मांहे गमो जी कांइ,
दाख्यो तृतीय दयाल जी कांइ ।
१७२. एहिज तीन गमा हुवै जी कांइ, शेष गमा न कहाय ।
सेवं भंते ! स्वाम जी ! कांइ, सत्य तुम्हारी वाय जी कांइ ॥

सोरठा

१७३. वृत्ति विषे इम वाय, सवार्थसिद्ध नें विषे ।
आदि तीन गम पाय, षट गम शेष नहीं तिहां ॥
१७४. जघन्य स्थिति नहिं थाय, इम मध्यम त्रिण गम नहीं ।
उत्कृष्ट स्थिती पिण नांय, इम त्रिण गम अंतिम नथी ॥

बा०—इहां मनुष्य नें विषे ४३ ठिकाणां नों उपजै ते कहै छै—६ नारकी
३ स्थावर ते पृथ्वी, पाणी, वनस्पति, तीन विकलेंद्रिय, संख्याता वर्षायु सन्नी
तिर्यच पंचेन्द्रिय, असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय, संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य, असन्नी
मनुष्य, दश भवनपति, व्यंतर, जोतिषी, बारै देवलोक, नव श्रैवेयक, च्यार अनुत्तर
विमान रो एक, सर्वार्थ सिद्ध रो एक—एवं ४३ ।

१७५. षट नारकि फुन देव, सव्वट्टसिद्ध विण बीस षट ।
ए बत्तीसज हेव, ऊपजतां मनु दंडके ॥
१७६. जघन्य अनै उत्कृष्ट, गमके बे-बे णाणत्ता ।
आयु तणोंज इष्ट, फुन अनुबन्ध तणों कह्यो ॥
१७७. मही जल वनस्पतीह, विकलद्रिय तिरि-पं. मनु ।
सन्नी असन्नी ईह, ए दश मनु में ऊपजै ॥
१७८. जघन्य गमे कहाय, पृथ्वी में चिहुं णाणत्ता ।
अप में पिण चिहुं पाय, वनस्पती में पंच फुन ॥
१७९. त्रिण विकलेंद्रिय तेह, असन्नी तिरि ए स्थान चिहुं ।
मनुष्य विषे उपजेह, सात-सात तसु णाणत्ता ॥
१८०. सन्नी मनु तिरि तेह, ऊपजतां बे मनु विषे ।
णाणत्त नव-नव लेह, ए सहु आख्या जघन्य गम ॥
१८१. पृथ्व्यादिक दश जाण, ऊपजतां मनु नें विषे ।
तुर्य गमे पहिछाण, अध्यवसाय बिहुं कहाय ॥
१८२. पंचम गम अपसत्थ, पसत्थ छठा गम विषे ।
श्री जिन वच अवितत्थ, मनुष्यायु पुन्य पाप है ॥
१८३. उत्कृष्ट गमे कहाय, पृथ्व्यादिक सन्नी तिरि ।
ए नव मनु में आय, तेहनां बे-बे णाणत्ता ॥
१८४. सन्नी मनुष्य छै जेह, ऊपजतां मनु नें विषे ।
उत्कृष्ट गमे कहेह, तीन णाणत्ता तेहनां ॥
१८५. *चउवीसम इकवीसमों जी कांइ,

च्यार सौ गुणतीसमीं ढाल ।

भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी जी कांइ,

‘जय-जश’ हरष विशाल जी कांइ ॥

चतुर्विंशतितमशते एकविंशोद्देशकार्थः ॥२४२१॥

*लय : म्हारी सासुजी रें पांच पुत्र कांइ

१८० भगवती जोड़

१७१. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ ।

१७२. एते चेव तिण्णि गमगा, सेसा न भण्णंति ।
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।३।१४)

१७३. सर्वार्थसिद्धिकदेवाधिकारे आद्या एव त्रयो गमा
भवन्ति सर्वार्थसिद्धिकदेवानां (वृ० प० ८४६)

१७४. जघन्यस्थितेरभावान्मध्यमं गमत्रयं न भवति उत्कृष्ट-
स्थितेरभावाच्चान्तिममिति । (वृ० प० ८४६)

दूहा

१. वाणमंतरा हे प्रभु !, किहां थकी उपजंत ?
स्यूं नारकि थी उपजै, तिरि मनु सुर थी हुंत ?
व्यंतर में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ऊपजै, तेहनों अधिकार^१
२. इम जिम नागकुमार नां, उद्देशक रै मांहि ।
ऊपजवो असन्नी तर्णों, पूर्वे भाख्यो ताहि ॥
३. तिमज इहां कहिवो सहू, वाणव्यंतरा मांय ।
ऊपजवो असन्नी तर्णों, नाग जेम कहिवाय ॥
४. जो सन्नी पंचेंद्रिय, इत्यादिक पूछेह ।
जाव असंख वर्षायु जे, सन्नी तिरी कहेह ॥
व्यंतर में तिर्यंच युगलियों ऊपजै, तेहनों अधिकार^२

ओधिक नें ओधिक (१)

- *सुगुण जन ! सुणजो व्यंतर विचार ॥ (ध्रुपदं)
५. असंख वर्षायु सन्नी तिरी रे, वाणव्यंतर नें विषेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै रे, कितै काल स्थितिके उपजेह ?
 ६. श्री जिन भाखे जघन्य थी रे, वर्ष सहस्र दशकेह ।
उत्कृष्ट पल्योपम तर्णों रे, स्थितिक में उपजेह ॥
 ७. शेष तिमज कहिवो सहू रे, नागकुमार उद्देश ।
जिह विधि आख्यो छै तिहां रे, तिमहिज कहिवो एस ॥
 ८. यावत अद्धा आश्रयी रे, जघन्य थकी छै तास ।
साधिक कोड़ पूर्व कह्यो रे, अधिक सहस्र दश वास ॥

सोरठा

९. युगल तिर्यंच भवेह, साधिक पूर्व कोड़ स्थिति ।
व्यंतर भवे कहेह, स्थिति सहस्र दश वर्ष नीं ॥
१०. *उत्कृष्ट चिहुं पल्य जाणवी रे, युगल तिरी पल्य तीन ।
इक पल्य व्यंतर नें विषे रे, च्यार पल्य इम चीन ॥

सोरठा

११. त्रि पल्य स्थितिक तिर्यंच, युगल व्यंतर में ऊपनों ।
इक पल्य स्थितिके संच, उत्कृष्ट चिउं पल्य इह विधे ॥
१२. *सेवै कालज एतलो रे, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नें ओधिक गमो रे, दाख्यो प्रथम दयाल ॥

१. वाणमंतरा णं भंते ! कओहितो उववज्जति—कि
नेरइएहितो उववज्जति ? तिरिक्खं ?
२. एवं जहेव नागकुमारउद्देशए असण्णी
३. तहेव निरवसेसं । (श० २४।३१५)
४. जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति
—कि संखेज्जवासाउय ? असंखेज्जवासाउय ?
गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय जाव
उववज्जति । (श० २४।३१६)

५. सण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए
वाणमंतरेसु उववज्जित्तए, से णं भंते ! एवतिकाल-
द्वितीएसु उववज्जेज्जा ?
६. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्ठिनीएसु, उक्को-
सेणं पलिओवमट्ठितीएसु ।
७. सेसं तं चेव जहा नागकुमारउद्देशए
८. जाव कालादेसेणं जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडी
दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिंया,

१०. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं,

११. त्रिपल्योपमायुः सञ्जिपञ्चेन्द्रियतिर्यंक् पल्योपमा-
युव्यन्तरो जात इत्येवं चत्वारि पल्योपमानि,
(वृ० प० ८४६)
१२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।३१७)

१. देखें परि. २, यंत्र १४०

२. देखें परि. २, यंत्र १४१

*सय : कपूर हुवें अति ऊजलो रे

ओधिक नें जघन्य (२)

१३. तेहिज तिर्यंच युगलियो रे, ओधिक आयूवंत ।
जघन्य स्थितिक व्यंतर विषे रे, ऊपनों तास वृतंत ।
१४. जिम नागकुमार नीं वार्त्ता रे, द्वितीय गमक विषेह ॥
आखी तिम कहिवी इहां रे, निपुण विचारी लेह ॥

वा०—इहां वृत्तिकार कह्युं—द्वितीय गमा नें विषे जिम नागकुमार नीं वक्तव्यता बीजा गमा नें विषे कही, तिम कहवी । तिका प्रथम गमा समानइज जाणवी । णवरं जघन्य थकी साधिक पूर्वं कोड़ दश हजार वर्ष अधिक अनै उत्कृष्ट थी तीन पल्योपम दश हजार वर्ष अधिक ।

ओधिक नें उत्कृष्ट (३)

१५. तेहिज तिर्यंच युगलियो रे, ओधिक आयूवंत ।
उत्कृष्ट स्थितिक व्यंतर विषे रे, ऊपनों तास उदंत ॥
१६. जघन्य अनै उत्कृष्ट थी रे, पल्योपम नों जेह ।
व्यंतर नों छै आउखो रे, ऊपनों तास विषेह ॥
१७. एहिज वक्तव्यता कही रे, पूर्वं भाखी जेह ।
णवरं इतरो विशेष छै रे, सांभलजी चित देह ॥
१८. स्थिति युगलिया तिरि तणीं रे, जघन्य पल्योपम एक ।
उत्कृष्टी स्थिति तेहनीं रे, त्रिण पल्योपम पेख ॥

सोरठा

१९. यद्यपि जाफो जाण, पूर्वं कोड़ज जघन्य थी ।
युगल तिरि नीं माण, स्थिती कही छै एतली ॥
२०. तथापि इहां विख्यात, पल्योपम तिरि युगल नीं ।
जघन्य स्थिति आख्यात, तास न्याय कहिये अछै ॥
२१. पल्योपम नों पेख, जे व्यंतर नों आउखो ।
तेह विषे सुविशेष, उपजै ए तीजे गमे ॥
२२. असंख वर्षायू जंत, निज आयू थी सुर तणीं ।
अधिक आउखावंत, तेह विषे नहि ऊपजै ॥
२३. *कायसंवेधज जघन्य थी रे, दोय पल्योपम देख ।
एक पल्योपम तिरि भवे रे, इक पल्य व्यंतर पेख ॥
२४. उत्कृष्टो पल्य च्यार नों रे, युगल तिरि पल्य तीन ।
पल्योपम व्यंतर विषे रे, एम चिउं पल्य चीन ॥
२५. सेवै कालज एतलो रे, ए गति-आगति काल ।
ओधिक नें उत्कृष्ट गमो रे, दाख्यो तृतीय दयाल ॥
२६. विचला तीन ही गमा विषे रे, जिम पूर्वं अधिकार ।
नागकुमार विषे कह्युं रे, कहिवूं तेम उदार ॥
२७. छेहला तीन गमा विषे रे, तिमहिज निश्चै माण ।
नागकुमार उद्देशके रे, जिम भाख्यो तिम जाण ॥
२८. णवरं स्थिति में फेर छै रे, तथा संवेध में फेर ।
उपयोगे करि जाणवा रे, जूआ-जूआ गम हेर ॥

*लय : कपूर हुवै अति ऊजलो रे

१८२ भगवती जोड़

१३. सो चेव जहणकालद्वितीएसु उववणो,

१४. जहेव नागकुमाराणां बितियगमे वत्तव्वया २ ।
(श० २४।३१८)

वा०—द्वितीयगमे 'जहेव नागकुमाराणां बीयगमे वत्त-
व्वय' त्ति सा च प्रथमगमसमानैव नवरं जघन्यत
उत्कर्षतश्च स्थितिर्दशवर्षसहस्राणि,
(वृ० प० ८४६)

१५. सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववणो

१६. जहण्णेणं पलिओवमद्वितीएसु, उक्कोसेण वि पलि-
ओवमद्वितीएसु ।

१७. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—

१८. ठिती से जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तिण्णि
पलिओवमाइं ।

१९. यद्यपि सातिरेका पूर्वकोटी जघन्यतोऽसङ्घातवर्षा-
युषां तिरश्चामायुरस्ति (वृ० प० ८४६)

२०. तथाऽपीह पल्योपममुक्तं (वृ० प० ८४६)

२१. पल्योपमायुष्कव्यन्तरेषूपादयिष्यमाणत्वाद्
(वृ० प० ८४६)

२२. यतोऽसङ्घातवर्षायुः स्वायुषो वृहत्तरायुष्केषु देवेषु
नोत्पद्यते एतच्च प्रागुक्तमेवेति । (वृ० प० ८४७)

२३. संवेहो जहण्णेणं दो पलिओवमाइं,

२४. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं,

२५. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ।

२६. मज्झिमगमगा तिण्णि वि जहेव नागकुमारेसु

२७. पच्छिमेसु तिषु गमएसु तं चेव जहा नागकुमारुद्देशए,

२८. नवरं—ठिंति संवेहं च जाणेज्जा ।

वा०—व्यंतर में विषे युगलियो तिर्यंच ऊपजै तेहनीं सातमे, आठमे, नवमे गमे जघन्य उत्कृष्टी स्थिति ३ पल्य नीं अनै कायसंवेध विचारी कहिवो ।

व्यंतर में संख्याता वर्ष सन्नी तिर्यंच ऊपजै, तेहनों अधिकार^१

२९. संख वर्षायु सन्नी तिरि रे, तिमहिज कहिवूं तेह ।
णवरं इतरो विशेष छै रे, आगल जेह कहेह ॥

वा०—संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच व्यंतर नै विषे ऊपजै, ते संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच नागकुमार नै विषे ऊपजै तिमज कहिवो । णवरं एतलो विशेष कहे छै—

३०. स्थिति अनुबन्ध जघन्य थी रे, वर्ष सहस्र दश लेख ।
एक पल्योपम जाणवो रे, उत्कृष्टो सुविशेष ॥
३१. संवेध फुन बिहुं भव तणीं रे, स्थिती गिणी जाणेह ।
संख वर्षायु सन्नी तिरि तणीं रे, वलि व्यंतर स्थिति लेह ॥
३२. मनुष्य थकी जो ऊपजै रे, तो स्यूं वर्षायु संखेज ।
कै असंख वर्षायु ऊपजै रे ? इत्यादिक सुकहेज ॥

व्यंतर में मनुष्य युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार^२

३३. असंख वर्षायु मनु थकी रे, व्यंतर में उपपात ।
जिमहिज नागकुमार नै रे, उद्देशे आख्यात ॥
३४. तिमहिज वक्तव्यता इहां रे, कहिवी सर्व विचार ।
णवरं इतरो विशेष छै रे, तीजा गमक मभार ॥
३५. स्थिति जघन्य मनु युगल नीं रे, एक पल्योपम ताय ।
उत्कृष्टी त्रिण पल्य नीं रे, ते व्यंतर में जाय ॥
३६. अवगाहना तसु जघन्य थी रे, एक गाऊ नीं थाय ।
त्रिण गाऊ उत्कृष्ट थी रे, शेष तिमज कहिवाय ॥

सोरठा

३७. इक पल्य आयू जास, तेह तणीं अवगाहना ।
गाऊ एक विमास, सुषमदुषमादी युगल ॥
३८. *कायसंवेध कहीजियै रे, ते जिम एहिज उद्देश ।
असंख वर्षायु तिर्यंच नै रे, आख्यो तिमज कहेस ॥
व्यंतर में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^३
३९. संख वर्षायु सन्नी मनुष्य नों रे, हिव कहियै अधिकार ।
नागकुमार उद्देशके रे, जिम आख्यो तिम धार ॥
४०. णवरं वाणव्यंतर तणीं रे, स्थिती विषे जे फेर ।
फुन संवेध में फेर छै रे, उपयोगे करि हेर ॥

*लय : कपूर हुवं अति ऊजलो रे

१. देखें परि. २, यंत्र १४२
२. देखें परि. २, यंत्र १४३
३. देखें परि. २, यंत्र १४४

२९. संखेज्जवासाउय तहेव, नवरं—

३०, ३१. ठिती अणुबंधो संवेहं च उभओ ठितीए जाणेज्जा
३-९ । (श० २४।३१९)

३२. जइ मणुस्सेहितो उववज्जति ?

३३. असंखेज्जवासाउयाणं जहेव नागकुमाराणं उद्देशे

३४. तहेव वक्तव्या, नवरं—तइयगमए

३५. ठिती जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तिण्णि पलि-
ओवमाइं ।

३६. ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं उक्कोसेणं तिण्णि गाउ-
याइं । सेसं तहेव ।

३७. 'ओगाहणा जहन्नेणं गाउयं' ति येषां पल्योपममाना-
युस्तेषामवगाहना गव्यूतं ते च सुषमदुषमायामिति ।
(वृ० प० ८४७)

३८. संवेहो से जहा एत्थ चेव उद्देशए असंखेज्जवासाउय-
सण्णिपंचिदियाणं ।

३९. संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव नागकुमारुद्देशए,

४०. नवरं—वाणमंतरे ठिति संवेहं च जाणेज्जा १-९ ।
(श० २४।३२०)

सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।३२१)

वा०—वाणव्यंतर नै विषे पांच ठिकाणां रो आवै—असन्नी तिर्यंच पंचेद्री, असंख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच पंचेद्री, संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच पंचेद्री, असंख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य, संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य—ए पांच ठिकाणां रो जीव वाणव्यंतर में आवै तेहनों अधिकार—जिम ए ५ ठिकाणां रो नागकुमार में आवै तेहनों अधिकार पूर्वे कहुं छै तिमज जाणवूं । णवरं व्यंतर नीं स्थिति में अनै कायसंवेध में उपयोगे करि कहिवूं ।

सोरठा

४१. पंच स्थान नां पेख, उपजै व्यंतर नै विषे ।
तास णाणत्ता लेख, असुर विषे उपजै तिमज ॥
४२. *एह च्यारसौ तीसमी रे, आखी ढाल उदार ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे, 'जय-जश' संपति सार ॥
चतुर्विंशतितमशते द्वाविंशोद्देशकार्थः ॥२४।२२॥

ढाल : ४३१

इहा

१. किहां थकी प्रभु ! ऊपजै, देव जोतिषी वेद ।
स्यूं नारक थी प्रमुख जे ? कहिवा जेहनां भेद ॥
२. जाव सन्नी पंचेद्विय, तिरिक्ख थकी उपजंत ।
असन्नो पं.-तिर्यंच थी, सुर जोतिषी न हुंत ॥
३. जो सन्नी पं.-तिरि थकी, अमर जोतिषी होय ।
तो स्यूं वर्ष संख्यायु थी, कै असंख्यायु थी जोय ?
४. जिन भाखै संख्यात जे, वर्षायुष थी होय ।
असंख्यात जे वर्ष नां, आयुष थी पिण जोय ?
ज्योतिषी में तिर्यंच युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार'
†चतुर नर ! अमर ज्योतिषी भेव ॥ (ध्रुपदं)
५. असंख वर्षायु सन्नी तिरि रे, जोतिषी देव विषेह ।
जे ऊपजवा योग्य छै रे, कितै काल स्थितिके ऊपजेह ?
६. श्री जिन भाखै जघन्य थी रे, पल्य तणों पहिछाण ।
अष्टम भाग स्थितिक विषे रे, युगल ऊपजै आण ॥

सोरठा

७. तारक विमाण जाण, देव अनै देवी तणीं ।
जघन्य स्थिति पहिछाण, पल्य नां अष्टम भाग नीं ॥

*ल्य : कपूर हुवं अति ऊजलो रे

†ल्य : राम पूछे सुग्रीव नै रे

१. देखें परि. २, यंत्र १४५

१८४ भगवती जोइ

१. जोइसिया णं भंते ! कओहितो उववज्जंति—कि
नेरइएहितो ? भेदो
२. जाव सण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति,
नो असण्णपंचिदियतिरिक्ख । (श० २४।३२२)
३. जइ सण्ण कि संखेज्ज ? असंखेज्ज ?
४. गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंखेज्जवासाउय ।
(श० २४।३२३)
५. असंखेज्जवासाउयसण्णपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं
भंते ! जे भविए जोतिसिएसु उववज्जित्तए, से णं
भंते ! केवतिकालट्ठितीएसु उववज्जेज्जा ?
६. गोयमा ! जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमट्ठितीएसु,

८. *उत्कृष्ट पल्योपम वली रे, लक्ष वर्षं अधिकेह ।
ए चंद्र विमान नां देव नूं रे, आयुष भाख्यो एह ॥
९. शेष असुर उद्देशके रे, भाख्यो छै जिम लेख ।
तिमहिज कहिवूं छै इहां रे, णवरं इतरो विशेष ॥
१०. स्थिति जघन्य तिरि युगल नीं रे, पल्य नों अष्टम भाग ।
उत्कृष्टी पल्य तीन नीं रे, अनुबन्ध पिण इम माग ॥

वा० — स्थिति जघन्य पल्योपम नों आठमों भाग ते विमलवाहन कुलगर थी पूर्व काल युगलिया तिर्यं च इत्यादि लेवा । उत्कृष्टे तीन पल्योपम स्थिति ते देवकुरु आदि युगल अपेक्षाये लेवा ।

११. शेष तिमज कहिवूं सहू रे, णवरं कालादेश ।
जघन्य थकी इक पल्य नां रे, भाग अष्टम बे एस ॥

सोरठा

१२. अष्टम भागज एक, तिर्यं च युगल संबंधियो ।
द्वितीय भाग संपेख, तेह जोतिषी भव स्थिति ॥
१३. *उत्कृष्ट पल्योपम चिउं रे, लक्ष वर्षं फुन तास ।
तिरि युगल पल्य त्रिण वली रे, चंद पल्य लक्ष वास ॥
१४. सेवे कालज एतलो रे, ए गति-आगति काल ।
ओघिक नें ओघिक गमो रे, दाख्यो प्रथम दयाल ॥
१५. तेहिज तिर्यं च युगलियो रे, ओघिक आयुवंत ।
जघन्य स्थितिक जोतिषी विषे रे, उपनों तास वृतंत ।
१६. जघन्य अनें उत्कृष्ट थी रे, पल्योपम नों पेख ।
अष्टम भाग स्थितिक विषे रे, उपनों ते सुविशेख ।
१७. एहिज वक्तव्यता तसुं रे, पूर्वली परमाण ।
णवरं कालादेश नें रे, उपयोगे करि जाण ॥

सोरठा

१८. द्वितीय गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
एक पल्य नां जेह, दोय आठमा भाग है ॥
१९. उत्कृष्टा पल्य तीन, भाग अष्टमों पल तणों ।
त्रिण पल युगल सुचीन, भाग अष्टमों जोतिषी ।
२०. *तेहिज तिर्यं च युगलियो रे, ओघिक आयुवंत ।
उत्कृष्ट स्थितिक नें विषे रे, उपनों तास वृतंत ॥
२१. एहिज वक्तव्यता तसू रे, णवरं विशेष तास ।
स्थिति जघन्य थी युगल नीं रे, पल्योपम लख वास ॥

*लय : राम पूछे सुग्रीव नें रे

८. उक्कोसेणं पलिओवमवाससयसहस्सट्ठितीएसु उव-
वज्जेज्जा,
९. अवसेसं जहा असुरकुमाब्देसए, नवरं—
१०. ठिती जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं तिण्णि-
पलिओवमाइं । एव अणुबंधो वि ।

११. सेसं तहेव, नवरं—कालादेसेणं जहण्णेणं दो अट्टभाग-
पलिओवमाइं,

१२. द्वी पल्योपमाष्टभागावित्यर्थः तत्रैकोऽसह्युच्चातायुष्क-
सम्बन्धी द्वितीयस्तु तारकज्योतिष्कसम्बन्धीति,
(वृ० प० ८४८)

१३. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं वाससयसहस्स-
मब्भहियाइं,

- त्रीण्यसह्युच्चातायुःसत्कानि एकं च सातिरेकं चन्द्र-
विमानज्योतिष्कसत्कमिति, (वृ० प० ८४८)

१४. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा १ । (श० २४।३२४)

१५. सो चेव जहण्णकालट्ठितीएसु उववण्णो

१६. जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं वि
अट्टभागपलिओवमट्ठितीएसु ।

१७. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—कालादेसेणं जाणेज्जा
२ । (श० २४।३२५)

२०. सो चेव उक्कोसकालट्ठितीएसु उववण्णो,

२१. एस चेव वत्तव्वया, नवरं—ठिती जहण्णेणं पलि-
ओवमं वाससयसहस्समब्भहियं,

सोरठा

२२. यद्यपि युगल तिर्यंच, साधिक पुंश्व कोड़ी जघन्य ।
तथापि इहां विरंच, इक पल्योपम लक्ष वर्ष ॥
२३. तृतीय गमे कहेह, ए प्रमाण आयू विषे ॥
जोतिषी में उपजेह, स्थिति समानपणां थकी ॥
२४. वर्षायु असंख्यात, निज आयू थी अधिकतर ।
सुर नों आयू ख्यात, तेह विषे नहि ऊपजै ॥
२५. पूर्वे पिण ए ख्यात, सुखे समभवा वलि कह्यु ।
युगल असुर में जात, सम हीनायुष नें विषे ॥
२६. *उत्कृष्टो त्रिण पल्य तणों रे, आयुवंत तिरि जेह ।
उपजै जोतिषी नें विषे रे, एवं अनुबंध लेह ॥
२७. काल आश्रयी जघन्य थी रे, पल्योपम जे दौय ।
बे लक्ष वर्षज अधिक ही रे, बे भव अद्धा जोय ॥

सोरठा

२८. पल्योपम लख वास, युगल तिर्यंच तणीं कही ।
अमर जोतिषी तास, पल्योपम लक्ष वर्ष फुन ॥
२९. *उत्कृष्ट पल्योपम चिउं रे, लक्ष वर्ष वलि तास ।
युगल तिरिक्ख पल्य त्रिण स्थिती रे, चंद्र पल्य लक्ष वास ॥
३०. तेहिज तिर्यंच युगलियो रे, आपणपै अवधार ।
जघन्य काल स्थितिक थयो रे, उपनों ओधिक मभार ॥
३१. श्री जिन भाखै जघन्य थी रे, पल्योपम नों जाण ।
अष्टम भाग स्थितिक विषे रे, ऊपजवो पहिछाण ॥

सोरठा

३२. चउथे गमे उदंत, जघन्य काल स्थितिक युगल ।
ओधिक जोतिषि मंत, तेह विषे ए ऊपनों ॥
३३. युगल तिरिक्ख नीं चीन, यद्यपि पल्योपम तणां ।
भाग अष्टम थी हीन, आयु जघन्य थकी हुवें ॥
३४. तथापि जोतिषि मांहि, तेह युगल तिर्यंच थी ।
स्थिती हीनतर नांहि, पल्य नां अष्टम भाग थी ॥
३५. जेह युगल तिर्यंच, स्वायू तुल्यायु बंधक ।
जघन्यस्थितिका संच, पल्य नुं अष्टम भाग ह्वें ॥
३६. विमलवाहनादेह, कुलकर काल थकी तिके ।
अतिपूर्वं कालेह, हस्ती प्रमुख जे हुआ ॥
३७. ओधिक जोतिषि मांय, तसु उत्पत्ति नों स्थान ह्वें ।
जघन्य थकी इम पाय, पल्य नों अष्टम भाग जे ॥

*लय । राम पूछे सुग्रीव नै रे

१८६ भगवती जोइ

२२. यद्यप्यसङ्ख्यातवर्षायुषां सातिरेका पूर्वकोटी जघन्यतः
स्थितिर्भवति तथाऽपीह पल्योपमं वर्षलक्षाभ्यधिक-
मुक्तं, (वृ० प० ८४८)
२३. एतत्प्रमाणायुष्केषु ज्योतिष्केषूपत्स्यमानत्वाद्,
(वृ० प० ८४८)
२४. यतोऽसङ्ख्यातवर्षायुः स्वायुषो बृहत्तरायुष्केषु देवेषु
नोत्पद्यते, (वृ० प० ८४८)
२५. एतच्च प्रागुपदर्शितमेव, (वृ० प० ८४८)
२६. उक्कोसेणं तिणिण पलिओवमाइं । एवं अनुबंधो
वि ।
२७. कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं दोहि वास-
सयसहस्सेहि अम्भहियाइं,

२९. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं वाससयसहस्स-
मम्भहियाइं ३ । (श० २४ ३२६)
३०. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओ
३१. जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमट्टितीएसु,
३२. चतुर्थे गमे जघन्यकालस्थितिकोऽसङ्ख्यातवर्षायु-
रौधिकेषु ज्योतिष्केषूपत्स्यः, (वृ० प० ८४८)
३३. तत्र चासङ्ख्यातायुषो यद्यपि पल्योपमाष्टभागाद्धीन-
तरमपि जघन्यत आयुष्कं भवति (वृ० प० ८५८)
३४. तथाऽपि ज्योतिषां ततो हीनतरं नास्ति,
(वृ० प० ८४८)
३५. स्वायुस्तुल्यायुबंधकाश्चोत्कर्षतोऽसङ्ख्यातवर्षायुष
इतीह जघन्यस्थितिकास्ते पल्योपमाष्टभागायुषो
भवन्ति, (वृ० प० ८४८)
३६. ते च विमलवाहनादिकुलकरकालात्पूर्वतरकालभूवो
हस्त्यादयः (वृ० प० ८४८)
३७. ओधिकज्योतिष्का अप्येवंविधा एव तदुत्पत्तिस्थानं
भवन्तीति 'जहन्नेणं अट्टभागपलिओवमट्टितीएसु'
इत्याद्युक्तम्, (वृ० प० ८४८)

३८. *उत्कृष्टो पिण आखियो रे, पत्योपम नों जाण ।
अष्टम भाग स्थितिक विषे रे, तेह ऊपजै आण ॥

सोरठा

३९. जेह युगल तिर्यंच, जघन्य स्थितिक छै ते भणी ।
जोतिषि में उपजंच, अष्टम भाग विषेज ते ॥

४०. *हे प्रभु जी ! ते जीवड़ा रे, एक समय रे मांय ।
किता ऊपजै छै तिके रे ? इत्यादिक पूछाय ॥

४१. एहिज वक्तव्यता तसू रे, कहिवी पूर्व जेम ।
णवरं इतरो विशेष छै रे, सांभलजो धर प्रेम ॥

४२. अवगाहना तसु जघन्य थी रे, पृथक धनुष्य संपेख ।
न्याय कहूं छूं तेहनों रे, सांभलजो सुविशेख ॥

वा०—जघन्य पृथक धनुष्य नीं जे कही ते पत्योपम नों अष्टम भाग मान आउखो ते विमलवाहनादि कुलकर थकी अतिही पूर्व काल भावी हस्त्यादिक टाली अनेरा लघुकाय नां चतुष्पद नीं अपेक्षायै जाणवो । तेहनीं स्थिति पिण पत्य नों अष्टम भाग हुवै ।

४३. उत्कृष्टो अवगाहना रे, जाभेरी इम संघ ।
अष्टादश सौ धनुष्य नीं रे, युगल गजादि प्रबंध ॥

वा०—उत्कृष्ट अठारै सौ धनुष्य जाभेरी ते किम ? ए वलि विमलवाहन कुलकर थी अति ही पूर्वकाल भावी हस्त्यादिक नीं अपेक्षायै कह्यो । जे भणी विमलवाहन नीं नवसौ धनुष्य मान अवगाहना, ते काले हस्त्यादिक नीं ते विमलवाहन थकी दुगुणी अठारै सौ धनुष्य नीं । ते माटै ते विमलवाहन थकी अतिही पूर्व काल थया ते हस्त्यादिक नीं अवगाहना अठारै सौ धनुष्य जाभेरी प्रमाण हुवै, ए वृत्ति थी कह्यो ।

४४. स्थिति ते तिर्यंच युगल नीं रे, जघन्य अनं उत्कृष्ट ।
पत्य नां अष्टम भाग नीं रे, अनुबंध इतोज इष्ट ॥

४५. शेष तिमज कहिवुं सहू रे, पूर्व आखयो जेम ।
काल थकी कहियै हिवै रे, सांभलजो धर प्रेम ॥

४६. काल आश्रयो जघन्य थी रे, उत्कृष्टो पिण जोय ।
एक पत्योपम नां कह्या रे, भाग आठमा दोय ॥

४७. जघन्य काल स्थितिक तणों रे, एहिज गमो एक ।
सूत्र विषे इम आखियो रे, वृत्ति विषे हिव लेख ॥

वा०—पंचम अनं षष्ठम ए—वे गमा नों इहां चउथा गमा नैं विषेईज अतर्भाव थकी एतले पंचमो, छठो—ए वे गमा चउथा गमा नैं विषे आव्या जे भणी पंचमा गमा नैं विषे पिण तिर्यंच युगलिया पत्य नां आठमा भाग मान आउखावंत हुवै । वलि छठा गमा नैं विषे पिण तिर्यंच युगलिया नों आऊखो पत्य नों आठमो भाग मान हीज आयु हुवै, पूर्व इम कह्योज छै ।

४८. तेहिज तिरिक्ख युगल थयो रे, जेष्ठ काल स्थितिवंत ।
ज्योतिषी ओघिक स्थितिक रे, उपनों तास उदंत ॥

*लय : राम पूछे सुग्रीव नैं रे

३८. उक्कोसेण वि अट्टभागपलिओवमट्टितीएसु उव-
वज्जेज्जा । (श० २४।३२७)

४०. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवतिया
उववज्जंति ?

४१. एस चेव वत्तत्रया, नवरं—

४२. ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं,

वा०—‘ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं’ ति यदुक्तं तत्पत्योपमाष्टभागमानायुषो विमलवाहनादिकुलकर-कालात्पूर्वतरकालभाविनो हस्त्यादिव्यतिरिक्तक्षुद्रकाय-चतुष्पदानपेक्ष्यावगन्तव्यं, (वृ० प० ८४८)

४३. उक्कोसेणं सातिरेगाइं अट्टारसघणुसयाइं ।

वा०—‘उक्कोसेणं सातिरेगाइं अट्टारसघणुसयाइं’ ति एतच्च विमलवाहनकुलकरपूर्वतरकालभाविहस्त्या दीनपेक्ष्योक्तं, यतो विमलवाहनो नवधनुःशतमानाव-गाहनः तत्कालहस्त्यादयश्च तद्विगुणाः तत्पूर्वतर-कालभाविनश्च ते सातिरेकतत्प्रमाणा भवन्तीति, (वृ० प० ८४८)

४४. ठिती जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं वि
अट्टभागपलिओवमं । एवं अणुबंधोवि ।

४५. सेसं तहेव ।

४६. कालादेसेणं जहण्णेणं दो अट्टभागपलिओवमाइं,
उक्कोसेणं वि दो अट्टभागपलिओवमाइं,

४७. जहण्णकालट्टितियस्स एस चेव एक्को गमो ४ ।

(श० २४।३२८)

वा०—‘जहण्णकालट्टितियस्स एस चेव एक्को गमो’ त्ति पञ्चमषष्ठगमयोरत्रैवान्तर्भावाद्, यतः पत्यो-पमाष्टभागमानायुषो मिथुनकतिरश्चः पञ्चमगमे षष्ठगमे च पत्योपमाष्टभागमानमेवायुर्भवतीति, प्राग् भावितं चैतदिति, (वृ० प० ८४८)

४८. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ,

४९. सर्वं ही वक्तव्यता तसू रे, ओधिक गम जिम लेख ।
कहिवो तिण्हिज रीत सूं रे, णवरं इतरो विशेष ॥
५०. स्थिती युगल तिर्यंच नीं रे, जघन्य अनं उत्कृष्ट ।
तीन पल्योपम जाणवी रे, अनुबन्ध पिण इम इष्ट ॥
५१. शेष तिमज कहिवो सहू रे एम चरम गम तीन ।
णवरं संवेध जाणवूं रे, उपयोगे करि चीन ॥

वा०—सातमा, आठमा, नवमा गमा नें विषे उत्कृष्ट ईज तीन पल्योपम युगलिया तिर्यंच नीं स्थिति । अनं जोतिषी नें विषे ऊपजै, तिहां जोतिषी नीं स्थिति उत्कृष्ट-ओधिक ए सातमा गमा नें विषे दोय प्रकार नीं प्रसिद्ध ईज । ते जघन्य तो पल्य नां आठमा भाग नीं, उत्कृष्टी एक पल्योपम नें लक्ष वर्ष नींज हुवै । अनं आठमा गमा नें विषे जघन्य-उत्कृष्ट पल्योपम नां अष्टमा भाग नें विषे ऊपजै । अनं नवमा गमा नें विषे जघन्य-उत्कृष्ट पल्योपम लक्ष वर्ष अधिक स्थिति नें विषे ऊपजै ।

अनं कायसंवेध विचारी करिवूं । सातमे गमे संवेध जघन्य थी ३ पल्य नें पल्य नां आठमां भाग, उत्कृष्ट अद्धा ४ पल्य नें लक्ष वर्ष । तीन पल्य तो युगलिया तिर्यंच रो, एक पल्य नें लक्ष वर्ष जोतिषी नां । अष्टमे गमे संवेध जघन्य अनं उत्कृष्ट अद्धा तीन पल्य अनं पल्योपम नां आठमां भाग अनं नवमे गमे संवेध जघन्य-उत्कृष्ट अद्धा ४ पल्य नें लक्ष वर्ष । न्याय पूर्ववत ।

५२. एवं सप्त गमा कह्या रे, पहिला तीन पिछान ।
छेहला तीन गमा कह्या रे, मध्यम इक त्रिण स्थान ।

वा०—प्रथम तीन गमा अनं बिचला तीन गमा रै स्थानके एक गमो छेहला तीन गमा ए जोतिषी नें विषे तिर्यंच युगलियो ऊपजै तेहनां ६ गमा नां अधिकार कह्यो ।

ज्योतिषी में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ऊपजै, तेहनां अधिकार'

५३. जो संख्यात वर्षायु सन्नी रे, पंचेंद्री तिरि ताहि ।
तेह थकी जे ऊपजै रे, देव जोतिषि माहि ॥
५४. संख्यात वर्षायु तिरो रे, जिमहिज असुर विषेह ।
ऊपजता नां आखिया रे, तिमज गमा नव एह ॥
५५. णवरं स्थिति जोतिषि तणीं रे, तथा संवेध पिछाण ।
उपयोगे करि जाणवूं रे, शेष तिमज सहू आण ॥

वा०—संख्याता वर्षायु सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच जोतिषी नें विषे ऊपजतां प्रथमे, चउथे, सातमे गमे जघन्य पल्योपम नां आठमा भाग स्थितिक नें विषे ऊपजै, उत्कृष्ट पल्योपम लक्ष वर्ष अधिक स्थितिक नें विषे ऊपजै । अनं दूजे, पांचमे, आठमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट पल्योपम नां आठमा भाग स्थितिक नें विषे ऊपजै । अनं तीजे, छठे नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट पल्योपम लक्ष वर्ष अधिक स्थितिक नें विषे ऊपजै ।

*लय : राम पूछं सुग्रीव नें रे

१. देखें परि. २, यंत्र १४७

१८८ भगवती जोड

४९. सा चेव ओहिया वक्तव्या, नवरं—

५०. ठिती जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाइं, उक्कोसेण वि
तिण्णि पलिओवमाइं । एवं अणुबंधो वि ।
५१. सेसं तं चेव । एवं पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयव्वा,
नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा ७-९ ।

वा०—सप्तमादिगमेषूत्कृष्टैव त्रिपल्योपमलक्षणा
तिरश्चः स्थितिः, ज्योतिष्कस्य तु सप्तमे द्विविधा
प्रतीतैव, अष्टमे पल्योपमाष्टभागरूपा, नवमे साति-
रेकपल्योपमरूपा,

संवेधश्चैतदनुसारेण कार्यं:

(वृ० प० ८४८)

५२. एते सत्त गमगा ।

(श० २४।३२९)

वा०—'एते सत्त गम' त्ति प्रथमास्त्रयः मध्यमत्रय-
स्थाने एकः पश्चिमास्तु त्रय एवेत्येवं सप्त ।

(वृ० प० ८४८)

५३. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदिय ?

५४. संखेज्जवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेसु उववज्ज-
माणणं तहेव नव वि गमा भाणियव्वा,

५५. नवरं—जोतिसिय-ठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं
तहेव निरवसेसं १-९ । (श० २४।३३०)

सोरठा

५६. पहिले गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, भाग आठमों पल्य नों ।
५७. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
पूर्व कोइज च्यार, चिउं पल्य चिउं लक्ष वर्ष फुन ॥
५८. दूजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, भाग आठमों पल्य नों ॥
५९. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
पूर्व कोइज च्यार, पल्य नां अष्टम भाग चिउं ॥
- वा०—इहां एक पल्योपम नां आठवां भाग नां ज्योतिषी नै विषे च्यार भव करै, ते च्यारुं भवे अर्द्ध पल्योपम हुवै ।
६०. तीजे गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, एक पल्योपम वर्ष लक्ष ॥
६१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
पूर्व कोइज च्यार, चिउं पल्य चिउं लक्ष वर्ष फुन ॥
६२. तुर्य गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, भाग आठमों पल्य नों ॥
६३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, चिउं पल्य चिउं लक्ष वर्ष वलि ॥
६४. पंचम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, भाग आठमों पल्य नों ॥
६५. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्टा भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, पल्य नां अष्टम भाग चिउं ॥
६६. षष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
अंतर्मुहूर्त्त जेह, एक पल्योपम वर्ष लक्ष ॥
६७. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
अंतर्मुहूर्त्त च्यार, चिउं पल्य चिउं लक्ष वर्ष फुन ॥
६८. सप्तम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोइ पूर्व तिरि जेह, भाग आठमों पल्य नों ॥
६९. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कोइ पूर्व जे च्यार, चिहुं पल्य चिहुं लक्ष वर्ष वलि ।
७०. अष्टम गम संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोइ पूर्व तिरि जेह, भाग आठमों पल्य नों ।
७१. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कोइ पूर्व जे च्यार, पल्य नां अष्टम भाग चिउं ॥
७२. नवम गमे संवेह, बे भव अद्धा जघन्य थी ।
कोइ पूर्व तिरि जेह, एक पल्योपम वर्ष लक्ष ॥
७३. उत्कृष्टो अवधार, अद्धा अष्ट भवां तणों ।
कोइ पूर्व जे च्यार, चिहुं पल्य चिहुं लक्ष वर्ष फुन ॥
- ए सत्री पंचेन्द्रिय तिर्यंच जोतिषी नै विषे ऊपजै, तेहनां नव गमा कह्या ।

८२. शेष तिमज कहिवो सहू रे, जाव संवेध लगेह ।
युगल तिरि जोतिषि विषे रे, उपजै तेम कहेह ॥
ए मनुष्य युगलियो जोतिषी नें विषे ऊपजै, तेहनां सात गमा कइया ।
ज्योतिषी में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१
८३. संख वर्षायुषवंत जदि रे, सन्नी मनुष्य छै जेह ।
जोतिषि नें विषे ऊपजै रे, इत्यादिक पूछेह ॥
८४. संख वर्षायू सन्नी मनु रे, जिमहिज असुर विषेह ।
ऊपजतां नें आखिया रे, तिम नव गमा कहेह ॥
८५. णवरं स्थिति जोतिषि तणीं रे, अथवा कायसंवेह ।
उपयोगे करि जाणवूं रे, शेष तिमज सहू जेह ॥

वा०—संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य असुर में ऊपजै, तिहां असुर नों स्थिति प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके जघन्य १० सहस्र वर्ष, उत्कृष्ट १ सागर जाभी । द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट १० सहस्र वर्ष । तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्योत्कृष्ट १ सागर जाभी । तिहां ए असुर नों स्थिति कही अनै इहां संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य जोतिषी नें विषे ऊपजै, तिहां जोतिषी नों स्थिति इम कहिवी—प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके जघन्य पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट १ पत्योपम लक्ष वर्ष । अनै द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट पत्य नों आठमों भाग । अनै तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्योत्कृष्ट १ पत्योपम लक्ष वर्ष स्थिति में ए विशेष जाणवो ।

अनै कायसंवेध भव आश्रयी नवही गमके जघन्य वे, उत्कृष्ट अठ । अनै काल आश्रयी प्रथम गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष १ । द्वितीय गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व पत्य नां आठमों ४ भाग २ । तृतीय गमके जघन्य पृथक मास १ पत्योपम लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ३ । चतुर्थ गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ४ । पंचम गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ पृथक मास पत्य नां आठमा ४ भाग ५ । षष्ठम गमके जघन्य पृथक मास १ पत्योपम १ लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ६ । सप्तम गमके जघन्य कोड़ पूर्व पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ७, अष्टम गमके जघन्य कोड़ पूर्व पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व पत्य नां आठमा ४ भाग ८ । नवम गमके जघन्य १ कोड़ पूर्व १ पत्योपम १ लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ९—ए कायसंवेध जाणवूं । जोतिषी में च्यार ठिकाणां रो ऊपजै—युगलियो तिर्यंच १. संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच २, युगलियो मनुष्य ३, संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य ४ । असन्नी तिर्यंच न जावै ।

सोरठा

८६. देव जोतिषी मांय, युगल तिरिक्ख उपजै तसु ।
सातूं गमे कहाय, जघन्योत्कृष्टज दौय भव ॥

१. देखें परि० २, यंत्र १४७

८२. सेसं तहेव निरवसेसं जाव संवेहो त्ति ।
(श० २४।३३२)

८३. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिहो ?

८४. संखेज्जवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेसु उववज्ज-
माणणं तहेव नव गमगा भाणियध्वा,

८५. नवरं—जोतिसियठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं
चेव निरवसेसं १-९ । (श० २४।३३३)

८२. शेष तिमज कहिवो सहू रे, जाव संवेध लगेह ।
युगल तिरि जोतिषि विषे रे, उपजै तेम कहेह ॥
ए मनुष्य युगलियो जोतिषी नें विषे ऊपजै, तेहनां सात गमा कइया ।
ज्योतिषी में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार^१
८३. संख वर्षायुषवंत जदि रे, सन्नी मनुष्य छै जेह ।
जोतिषि नें विषे ऊपजै रे, इत्यादिक पूछेह ॥
८४. संख वर्षायू सन्नी मनु रे, जिमहिज असुर विषेह ।
ऊपजतां नें आखिया रे, तिम नव गमा कहेह ॥
८५. णवरं स्थिति जोतिषि तणीं रे, अथवा कायसंवेह ।
उपयोगे करि जाणवूं रे, शेष तिमज सहू जेह ॥

वा०—संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य असुर में ऊपजै, तिहां असुर नों स्थिति प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके जघन्य १० सहस्र वर्ष, उत्कृष्ट १ सागर जाभी । द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट १० सहस्र वर्ष । तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्योत्कृष्ट १ सागर जाभी । तिहां ए असुर नों स्थिति कही अनै इहां संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य जोतिषी नें विषे ऊपजै, तिहां जोतिषी नों स्थिति इम कहिवी—प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके जघन्य पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट १ पत्योपम लक्ष वर्ष । अनै द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट पत्य नों आठमों भाग । अनै तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्योत्कृष्ट १ पत्योपम लक्ष वर्ष स्थिति में ए विशेष जाणवो ।

अनै कायसंवेध भव आश्रयी नवही गमके जघन्य वे, उत्कृष्ट अठ । अनै काल आश्रयी प्रथम गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष १ । द्वितीय गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व पत्य नां आठमों ४ भाग २ । तृतीय गमके जघन्य पृथक मास १ पत्योपम लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ३ । चतुर्थ गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ४ । पंचम गमके जघन्य पृथक मास पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ पृथक मास पत्य नां आठमा ४ भाग ५ । षष्ठम गमके जघन्य पृथक मास १ पत्योपम १ लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ६ । सप्तम गमके जघन्य कोड़ पूर्व पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ७, अष्टम गमके जघन्य कोड़ पूर्व पत्य नों आठमों भाग, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व पत्य नां आठमा ४ भाग ८ । नवम गमके जघन्य १ कोड़ पूर्व १ पत्योपम १ लक्ष वर्ष, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्योपम ४ लक्ष वर्ष ९—ए कायसंवेध जाणवूं । जोतिषी में च्यार ठिकाणां रो ऊपजै—युगलियो तिर्यंच १. संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यंच २, युगलियो मनुष्य ३, संख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य ४ । असन्नी तिर्यंच न जावै ।

सोरठा

८६. देव जोतिषी मांय, युगल तिरिक्ख उपजै तसु ।
सातूं गमे कहाय, जघन्योत्कृष्टज दौय भव ॥

१. देखें परि० २, यंत्र १४७

८२. सेसं तहेव निरवसेसं जाव संवेहो ति ।
(श० २४।३३२)
८३. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ?
८४. संखेज्जवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेसु उववज्ज-
माणणं तहेव नव गमगा भाणियध्वा,
८५. नवरं—जोतिसियठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं
चेव निरवसेसं १-९ । (श० २४।३३३)

८७. जघन्य गमे सुजोय, तीन णाणत्ता तेहनां ।
अवगाहन नों होय, आयू नें अनुबंध नों ॥
८८. अवगाहना जघन्य, पृथक धनुष्य नीं पेखियै ।
उत्कृष्टी तसु जन्य, साधिकं धनुष्य अठार सय ॥
८९. आयु जघन्योत्कृष्ट, भाग आठमों पल्य नों ।
आयू जितोज इष्ट, अनुबन्ध कहियै तेहनों ॥
९०. उत्कृष्ट गमे विचार, दोय नाणत्ता दाखिया ।
आयु अनुबंध सार, तीन पल्योपम जाणवूं ॥
९१. उपजै जोतिषि मांय, संख्यायू सन्नी तिरि ।
भव नव गमे कहाय, जघन्य दोय उत्कृष्ट अठ ॥
९२. जघन्ये गमे कहाय, नारकवत अठ णाणत्ता ।
पिण सुभ अध्यवसाय, उत्कृष्ट गम बे णाणत्ता ॥
९३. युगल मनुष्य उपजेह, अमर जोतिषी नें विषे ।
भव सातू गमकेह, जघन्य अनें उत्कृष्ट बे ॥
९४. जघन्य गमे त्रिण इष्ट, धुर अवगाहन नाणत्तो ।
जघन्य अनें उत्कृष्ट, साधिक नवसौ धनुष्य नीं ॥
९५. आयू नें अनुबंध, भाग आठमों पल्य नों ।
तीन गमा नों संघ, एक गमो जघन्यो कह्यो ॥
९६. उत्कृष्ट गम पिण तीन, त्रिण गाऊ अवगाहना ।
आयु अनुबंध चीन, तीन पल्योपम जाणवूं ॥
९७. जोतिषि में उपजेह, संख्यायू सन्नी मनु ।
भव नव गमे कहेह, जघन्य दोय उत्कृष्ट अठ ॥
९८. पंच णाणत्ता पेख, जघन्ये गमे सुजाणजो ।
तसु अवगाहन देख, जघन्योत्कृष्ट अंगुल पृथक ॥
९९. भजनाइं त्रिण ज्ञान, समुद्घात धुर पंच फुन ।
आयु अनुबंध मान, मास पृथक नों प्रभु कह्यु ॥
१००. उत्कृष्ट गमेज तीन, अवगाहन धनु पांचसौ ।
आयु अनुबंध चीन, कोड़ पूर्व नों आखियो ॥
१०१. असन्नी विण चिहुं स्थान, अमर जोतिषी उत्पत्ति ।
तास नाणत्ता जान, असुर विषे उपजै तिमज ॥
१०२. *सेवं भंते ! स्वामजी रे, चउवीसम शतकेह ।
उद्देशक तेवीसमो रे, अर्थ थकी कह्यो एह ॥
१०३. च्यारसौ नें इकतीसमी रे, जोतिषी नीं ए ढाल ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी रे, 'जय-जश' हरष विशाल ॥
चतुर्विंशतितमशते त्रयोविंशोद्देशकार्थः ॥२४॥२३॥

१०२. सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति । (श० २४।३३४)

*लय : राम पूछे सुग्रीव ने रे

१९२ भगवती जोड़

दूहल

१. सौधर्ढ देवल हे प्रभु ! कलहलं थकी उपजंत ?
स्युं नलरक थी ऀपजै ? इतुतलदलक पूछंत ॥
२. भेद जूजुआ एहनां, जलढ जोतलषल उद्देश ।
आखुतु तलढ कहलवु इहलं, हलव धुर तलरल मलथुनेस ॥

पहलं देवलुक में तलरुंऑ युगललतु ऀपजै, तेहनुं अधलकरु

*भलव वैमलणलक नलं सुणु ॥ (ध्रुपदं)

३. प्रभु ! असंख वरुषलतु सनुनी तलरल, सुहम्ढ कलप वलषेह जी ।
जे ऀपजवल तुरुगु ते प्रभु ! कलतै कलल सुथलतलके उपजेह जी ?
- ॡ. जलन कहै गुतुतढ ! जघनुत थी,
इक पलुत सुथलतलक वलषेह जी ।
उत्कृषुत तीन पलुतुतपढ सुथलतलक वलषे उपजेह जी ॥

सुरुतल

- ॡ. जघनुत पलुत आखुतलत, सौधरुं सुथलतल जघनुत थी ।
पलुत थी हीण न थलत, तलण सुं पलुतुतपढ कहल ॥
- ॢ. तीन पलुत उत्कृषुत, तेह वलषे उपजै कहलु ।
तुऑतल इहलं गरलषुत, बहुतर छै बे उदधल लग ॥
- ॣ. तु तलण तुगल तलरुंऑ, तुरलण पलुत आतुतवंत जे ।
नलज आतु थी रंऑ अधलक न तलंधै सुर सुथलतल ॥
- ।. *प्रभु ! इक सढतु ते कलतल ऀपजै ?
शुषे परलढलणलदल सुतु जी ।
जलढ जोतलषल में तलरल तुगललतु, ऀपजतल नं अवलुतु जी ॥
- ॥. तलहलं कहुतु तलढ कहलवु इहलं, णवरं वलषे छै एह जी ।
सढुतकदृषुत तलण ऀपजै, मलच्छदलदुतुी तलण उपजेह जी ॥
१०. मलशुदृषुत तलरल तुगललतु, तेह वैमलणलक मलंहल जी ।
ऀपजवुं नहीं तेहनुं, मलशुदृषुत तुगल में नलंहल जी ॥

सुरुतल

११. तलहलं जोतलषल मलंतु, ऀपजतल तलरल-तुगल में ।
सढुतगदृषुत न तलतु, तलण सुं ए नहल ऀपजै ॥
१२. सढदृषुतुी तलरुंऑ, इक वैमलणलक देव नुं ।
आतु-तंध वलरंऑ, अतलर आतु तलंधै नथल ॥
१३. इहलं तुगल तलरुंऑ, सढदृषुतुी तलण ऀपजै ।
वैमलणलक में संऑ, एह वलशुषज जलणवुं ॥

*लतु : सढ करु कलतल मलतल

१. देखै तलरुं २, तंतुर १ॡ१

१. सुहम्ढदेवल णं भंते ! कओहलतु उवलवजुंतल—कल
नेरइएहलतु उवलवजुंतल ?

२. भेदु जहल जोइसलतु उद्देश । (शुं २ॡ।३३ॡ)

३. असंखेजुतवलसलतुतसणलणतलरुंऑतलरलकखजुणलणल णं
भंते ! जे भवलए सुहम्ढगदेवेसु उवलवजुंतलए, से णं
भंते ! केवलतलकललदुतुीतु उवलवजुंजुतल ?

ॡ. गुतुतल ! जहणुणेण तलणओवलढदुतुीतु उवलकुकुसेणं
तलणतलणओवलढदुतुीतु उवलवजुंजुतल ।

(शुं २ॡ।३३ॢ)

ॡ. 'जहनुनेणं तलणओवलढदुतुीतु' तल सौधरुं जघनुतेनल-
नुतुतुतलतुषुतुसऑवलतु, (वृं पं ॢॡ१)

ॢ,ॣ. 'उवलकुकुसेणं तलणतलणओवलढदुतुीतु' तल तुऑतल
सौधरुं बहुतरढलतुषुकढसुतल तथलसुतुतुकुषुतलणतलण-
तलढलतुषु एव तलरुंऑओ भवनुतल तदनुतलरलकतं ऑ
देवलतुषुतुतुधनुतुीतल, (वृं पं ॢॡ१)

।. ते णं भंते ! जीवल एगसढणं केवलतलतल उवल-
वलजुंतल ? अवसेसं जहल जोइसलतु उवलवजुतलणसुस,

॥. नवलरं—सढढदलदुतुी वल, मलच्छलदलदुतुी वल,

१०. नु सुढढलढलच्छलदलदुतुी ।

४. *ज्ञानी पिण हुवै तिरि युगलियो,
अज्ञानी पिण तिके थाय जी ।
ज्ञान बे दोय अज्ञान ते, नियमा निश्चै करि पाय जी ॥

वा०—तिहां जोतिषी नै विषे तिर्यंच युगलियो ऊपजै, तिण में ज्ञान न पावै । अनै इहां वैमानिक में ऊपजै, तेहनै ज्ञानी पिण कहियै । ए विशेष । अनै अज्ञानी पिण ऊपजै, एहवू कहुं । ते अज्ञानी तो जोतिषी नै विषे पिण ऊपजै छै, ते णवरं पाठ में किम कहुं ? उत्तर—ज्ञानद्वारे संलग्न पाठ माटै अज्ञानी पिण ऊपजै, इम कहुं पिण ए विशेष नथी ।

१५. स्थिति जघन्य इक पल्य नीं, उत्कृष्ट त्रिण पल्य ताय जी ।
अनुबंध पिण कहिवू इतो, शेष तिमहिज कहिवाय जी ॥

१६. काल आदेश करि जघन्य थी, दोय पल्योपम देख जी ।
एक पल्योपम तिरि भवे, सुर भवे इक पल्य शेख जी ॥

१७. उत्कृष्ट षट पल्य नीं कही, त्रिण पल्य तिरि भव न्हाल जी ।
त्रिण पल्य सोहम्म सुर भवे, ए गति-आगति काल जी ॥

१८. तेहिज तिर्यंच युगलियो, ओघिक आयुषवंत जी ।
जघन्य जे काल स्थितिक विषे ऊपनों तास वृत्त जी ॥

१९. एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं विशेष छै एह जी ।
कालसंवेध विषे अछै, आगल तेह कहैह जी ॥

२०. काल आदेश करि जघन्य थी, दोय पल्योपम जोय जी ।
इक पल्य युगल तिरि भव विषे, इक पल्य सुर भव होय जी ।

२१. उत्कृष्ट चिहुं पल्य नीं कहुं, त्रिण पल्य युगल तिर्यंच जी ।
इक पल्य सोहम्म सुर भवे, ए गति-आगति संच जी ॥

२२. तेहिज तिर्यंच युगलियो, ओघिक स्थितिक कहिवाय जी ।
उत्कृष्ट काल स्थितिक विषे, ऊपनों सौधर्म मांय जी ॥

२३. जघन्य त्रिण पल्य स्थितिक विषे,
उत्कृष्ट पिण पल्य तीन जी ।

स्थितिक विषे तिको ऊपजै, सोहम्म सुर स्थिति लीन जी ॥

२४. एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं युगल स्थिति जोय जी ।
जघन्य उत्कृष्ट त्रिण पल्य तणीं, शेष तिमहिज अवलोय जी ॥

२५. काल आदेश करिनै तसु, षट पल्य जघन्य उत्कृष्ट जी ।
त्रिण पल्य युगल तिर्यंच नीं, त्रिण पल्य सोहम्म इष्ट जी ॥

२६. तेहिज तिर्यंच युगलियो, आपणपै कहिवाय जी ।
जघन्य ते काल स्थितिक थयो, ऊपनों वैमानिक मांय जी ॥

२७. ऊपनों जघन्य उत्कृष्ट थी, इक पल्य स्थितिक विषेह जी ।
एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं विशेष छै एह जी ॥

*लय : मम करो काया माया

१९४ भगवती जोड़

१४. नाणी वि, अण्णाणी वि, दो नाणा दो अण्णाणा
नियमं ।

१५. ठिती जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं तिण्णि पलि-
ओवमाइं । एवं अणुबंधो वि । सेसं तहेव ।

१६. कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं,
'दो पलिओवमाइं' ति एकं तिर्यंगभवसत्कमपरं च
देवभवसत्कं, (वृ० प० ८५१)

१७. उक्कोसेणं छप्पलिओवमाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा १ ।

(श० २४।३३७)
'छ पलिओवमाइं' ति त्रीणि पल्योपमानि तिर्यंगभव-
सत्कानि त्रीण्येव देवभवसत्कानीति,
(वृ० प० ८५१)

१८. सो चेव जहण्णकालाट्ठितीएसु उववण्णो,

१९. एस चेव वक्तव्वया, नवरं—

२०. कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं,

२१. उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं, एवतियं कालं
सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं करेज्जा २ ।

(श० २४।३३८)

२२. सो चेव उक्कोसकालाट्ठितीएसु उववण्णो

२३. जहण्णेणं तिपलिओवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं वि
तिपलिओवमट्ठितीएसु,

२४. एस चेव वक्तव्वया, नवरं— ठिती जहण्णेणं तिण्णि
पलिओवमाइं । उक्कोसेणं वि तिण्णि पलिओवमाइं
सेसं तहेव ।^१

२५. कालादेसेणं जहण्णेणं छप्पलिओवमाइं, उक्कोसेणं वि
छप्पलिओवमाइं, (श० २४।३३९)

२६. सो चेव अप्पणा जहण्णकालाट्ठितीओ जाओ

२७. जहण्णेणं पलिओवमट्ठितीएसु, उक्कोसेणं वि पलि-
ओवमट्ठितीएसु, एस चेव वक्तव्वया, नवरं—

२८. अवगाहना तसु जघन्य थी, पृथक धनुष्य नीं पेख जी ।
उत्कृष्ट दौय गाऊ तणीं, युगल गज आदि सुविशेष जी ॥

वा०—ए जघन्य पृथक धनुष्य ते लघु काया नों धणी चतुष्पद युगलिया नीं अपेक्षाए । अनै उत्कृष्ट बे गाऊ नीं ते जे क्षेत्र नै विषे तथा जे काल नै विषे युगलिया मनुष्य नीं एक गाऊ नीं अवगाहना हुवै ते संबंधी हस्त्यादिक प्रतै आश्रयी उत्कृष्ट बे गाऊ नीं कहिबी । एतलै जे क्षेत्रे तथा ते काले मनुष्य तिर्यंच नों एक पल्य नों आउखो हुवै, तिवारै मनुष्य नीं तो एक गाऊ नीं अवगाहना, गज प्रमुख युगलिया नीं बे गाऊ नीं अवगाहना हुवै, ते तिर्यंच एक पल्य स्थितिक बे गाऊवंत इहां ग्रहण कियो ।

२९. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट थी, एक पल्योपम होय जी ।
ए जघन्य गमो धुर कल्प में ऊपजवा योग्य जोय जी ।
३०. काल आदेश करिनैं तिको, जघन्य अनैं उत्कृष्ट जी ।
दौय पल्योपम जाणवो, ए गति-आगति इष्ट जी ॥

सोरठा

३१. इक पल्य तिरि भव इष्ट, इक पल्य सोहम्म सुर स्थिति ।
जघन्य अनैं उत्कृष्ट, दौय पल्य इम जाणवूं ॥
३२. जघन्य त्रिण गम जोय, तेह विषे ए इक गमो ।
जुगल जोतिषी होय, तेह तणीं पर जाणवूं ॥
३३. *तेहिज आपणपै थयो, उत्कृष्ट आउखावंत जी ।
प्रथम गमक सरीखा तिहां, चरम गमा त्रिहुं हुंत जी ॥
३४. णवरं स्थिति अथवा वली, काल आदेश पहिछाण जी ।
उपयोगे करि जाणवो, वारू है जिनवर वाण जी ॥

सोरठा

३५. युगल तिरिक्ख नीं जाण, जघन्य अनैं उत्कृष्ट थी ।
स्थिति तीन पल्य माण, देव तणीं स्थिति हिव कहूं ॥
३६. सप्तम गमे उप्पन्न, ओघिक स्थितिक नैं विषे ।
अष्टम गमे सुजन्न, जघन्य स्थितिक सुर नैं विषे ॥
३७. नवम गमे पहिछाण, उत्कृष्ट स्थितिक नैं विषे ।
काल आश्रयी जाण, कहियै हिव संवेध प्रति ।
३८. सप्तम गम संवेह, जघन्य थकी पल्य च्यार नों ।
त्रिण पल्य युगल भवेह, इक पल्य सोहम्म सुर स्थिति ॥
३९. उत्कृष्ट अद्धा संच, षट पल्योपम बिहुं भवे ।
त्रिण पल्य युगल तिर्यंच, त्रिण पल्य सोहम्म सुर स्थिति ॥
४०. अष्टम गम संवेह, जघन्य नैं उत्कृष्ट थी ।
च्यार पल्योपम जेह, त्रिण पल्य तिरि इक पल्य सुरे ॥
४१. नवम गमे संवेह, जघन्य अनैं उत्कृष्ट थी ।
षट पल्योपम जेह, त्रिण पल्य तिरि त्रिण पल्य सुरे ॥
ए असंख्यात वर्षायु सन्नो तिर्यंच सौधमं ऊपजं, तेहनां ७ गमा कहा ।

*लघु : मम करो काया माया

२८. ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं दो
गाउयाइं ।

वा०—‘जहन्नेणं धणुपुहत्तं’ ति क्षुद्रकायचतुष्पदा-
पेक्षं ‘उक्कोसेणं दो गाउयाइं’ ति यत्र क्षेत्रे काले वा
गव्यूतमाना मनुष्या भवन्ति तत्सम्बन्धिनो हस्त्या-
दीनपेक्षयोक्तमिति । (वृ० प० ८५१)

२९. ठिती जहण्णेणं पलिओवमं, उक्कोसेण वि पलि-
ओवमं ।
३०. कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं, उक्कोसेण
वि दो पलिओवमाइं, एवतियं काल सेवेज्जा, एव-
तियं कालं गतिरागतिं करेज्जा ४-६ ।
(श० २४।३४०)

३३. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्ठितीओ जाओ,
आदिल्लगमगसरिसा तिण्णिण गमगा नेयव्वा,
३४. नवरं—ठिठिं कालादेसं च जाणेज्जा ७-९ ।
(श० २४।३४१)

पहिले देवलोक में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच ऊपजै, तेहनों अधिकारः

४२. *जो संख वर्षायु सन्नी तिरि ? इत्यादिक पूछेह जी ।
जिम संख वर्षायु तिरि असुर में, ऊपजता नैं कहेह जी ॥
४३. तिमहिज नव गम पिण इहां, णवरं विशेष छै एह जी ॥
स्थिति फुन कायसंवेध नैं, उपयोग करीनैं जाणेह जी ॥

वा०—इहां कह्यु णवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा—ते स्थिति सौधर्मं विषे ऊपजै, ते देव नैं जाणवी । इहां सौधर्मं नों नाम तो नथी कह्यु, पिण समचैं स्थिति कही । ए तिर्यच नां भव नैं स्थिति न संभवै, ते असुरकुमार नैं विषे संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यच ऊपजै, ते सन्नी तिर्यच नैं स्थिति प्रथम तीन गमे जघन्य अंतर्भूतं, उत्कृष्ट कोड़ पूर्व । मभम तीन गमे जघन्य-उत्कृष्ट अंतर्भूतं । उत्कृष्ट तीन गमे जघन्योत्कृष्ट कोड़ पूर्व । अनैं संख्यात वर्षायुष सन्नी तिर्यच सौधर्मं ऊपजै, तेहनीं पिण नव गमे एतलीज स्थिति हुवै, ते माटै ए तिर्यच नैं स्थिति न संभवै । सौधर्मं देवपणैं ऊपजै, ते देव नैं स्थिति संभवै । जे पूर्व कह्यु—संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य जोतिषी में ऊपजै, तेहनां प्रश्नोत्तर में जिम असुरकुमार नैं विषे संख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य ऊपजतां नैं ९ गमा कह्या तिम कहिवा । णवरं—जोतिसियठिति संवेह च जाणेज्जा । इहां जोतिषी नों नाम लेई नैं कह्यु तिम इहां सौधर्मं नों नाम नथी लीधूं । पिण स्थिति सौधर्मं नों संभवै ।

बलि संख्याता वर्षायु सन्नी तिर्यच जोतिषी में ऊपजै तिके पिण जिम असुरकुमार नैं विषे संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यच ऊपजता नैं कह्यु, तिमज नवही गमा कहिवा । णवरं जोतिसियठितिसंवेह च जाणेज्जा । इहां पिण जोतिषी रो नाम लेई देव नैं स्थिति कही, तिम इहां सौधर्मं देव नैं स्थिति जाणवी ।

तथा आगल एहवूं कहिसै—संख्याता वर्षायुष सन्नी मनुष्य सौधर्मं में ऊपजै, ते जिम असुरकुमार नैं विषे संख्याता वर्षायुष सन्नी मनुष्य उपजतां नैं कह्या, तिमहिज नव गमा कहिवा । णवरं सोहम्मग देव ठिति संवेह च जाणेज्जा । इहां पिण देव नैं स्थिति कही, इम आगल पिण सनतकुमार महेंद्रादिक नाम लेई देव नैं स्थिति कही । तिम इहां सौधर्मं नों नाम तो नथी लियो समचैं स्थिति कही, पिण देव नैं स्थिति जाणवी ।

तथा असंख्याता वर्षायु सन्नी तिर्यच व्यंतर में ऊपजता नैं बिचल तीन गमा अनैं छेहला तीन गमा जिम नागकुमार नां उद्देशा में कह्या, तिम कहिवा । णवरं ठितिसंवेह च जाणेज्जा । इहां पिण समचैं स्थिति कही, वाणव्यंतर नों नाम नथी कह्यु । पिण ए वाणव्यंतरां नों स्थिति संभवै । जे नागकुमार में तो उत्कृष्ट देश ऊण दोय पत्य नैं स्थिति, इहां व्यंतर में एक पत्य नों स्थिति । तिम संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यच सौधर्मं में ऊपजै, तियां पिण देव नैं स्थिति जाणवी । ए स्थिति कही ते प्रथम उपजात द्वारे एतली स्थिति में ऊपजै । प्रथम द्वार में फेर अनैं संवेध ते छेहला वीसमा द्वार में फेर जाणवूं ।

४४. आपणपै सन्नी तिरि हुवै,
जघन्य काल स्थितिक जिह वार जी ॥
तीनूंई गमा विषे तदा, एह लद्धो सुविचार जी ॥

*लय : मम करो काया माया

१. देखें परि. २, यंत्र १५२

१९६ भगवती जोड़

४२. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदिय ? संखेज्जवासा-
उयस्स जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स
४३. तहेव नव वि गमा, नवरं—ठिति संवेहं च
जाणेज्जा ।

४४. जाहे य अप्पणा जहण्णकालट्ठित्तिओ भवति ताहे
तिसु वि गमएसु

४५. सम्यकदृष्टि हुवे तिको, मिथ्यादृष्टि पिण होय जी ।
मिश्रदृष्टि नहिं ह्वं जिको, जघन्य स्थितिक थकी जोय जी ॥

सोरठा

४६. जघन्य स्थितिक तिरि मांय, मिश्रदृष्टि पावै नथी ।
दृष्टि त्रिहुं पिण थाय, अजघन्य आयुवंत में ॥
४७. *सम्यकदृष्टि रै नियमा बे ज्ञान नीं,
मिथ्यादृष्टि तणें जोय जी ।
नियमा है दोय अज्ञान नीं, शेष तिमहीज अवलोय जी ॥

सोरठा

४८. जघन्य स्थितिक तिरि मांय, ज्ञान तथा अज्ञान बे ।
अवधि विभंग न पाय, तिण सूं नियमा बे तणीं ॥
४९. *मनुष्य थकी जो ऊपजै, भेद जिम जोतिषी मांय जी ।
ऊपजता थकां नैं कह्यो, तिम इहां पिण कहिवाय जी ।
५०. जाव असंख वर्षायुष, सन्नी मनुष्य छै जेह जी ।
ऊपजवा नैं योग्य छै, सौधर्म देवपणेह जी ?
पहलं देवलोक में मनुष्य युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार'
५१. इम हिज असंख वर्षायुष, सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच जी ।
सोहम्मे ऊपजता तणां, सप्त गमा कह्या संच जी ॥
५२. तिमहिज सप्त गमा इहां, णवरं बे धुर गम मांय जी ।
ओगाहण जघन्य गाऊ तणीं, उत्कृष्ट गाऊ त्रिण पाय जी ॥

सोरठा

५३. तिहां युगल तिरि इष्ट, जघन्य पृथक धनु नीं कही ।
षट गाऊ उत्कृष्ट, इहां गाऊ इक तीन नीं ॥
५४. *तृतीय गमा नैं विषे वलि, जघन्य अनें उत्कृष्ट जी ।
तीन गाऊ नीं अवगाहना, श्री जिन वचन ए श्रेष्ठ जी ।

सोरठा

५५. तिहां जघन्य उत्कृष्ट, आखी षट गाऊ तणीं ।
इहां गाऊ त्रिण इष्ट, जघन्य अनें उत्कृष्ट थी ॥
५६. *तुर्य गमा नैं विषे वली, जघन्य अनें उत्कृष्ट जी ।
एक गाऊ नीं अवगाहना, अंतर बे गम इष्ट जी ॥
बा०—इहां पांचमों, छठो गमो, चउथा गमा नैं अंतरगत जानवो ।

सोरठा

५७. तिहां धनु पृथक जघन्य, उत्कृष्ट बे गाऊ तणीं ।
इहां इक गाऊ जन्य, जघन्य अनें उत्कृष्ट थी ॥

*लय : मम करो काया माया

१. देखें परि. २, यंत्र १५४

४५. सम्मदिट्टी वि, मिच्छादिट्टी वि, नो सम्मामिच्छा-
दिट्टी ।

४६. 'नो सम्मामिच्छादिट्टी' त्ति मिश्रदृष्टिनिषेध्यो
जघन्यस्थितिकस्य तदसम्भवादजघन्यस्थितिकेषु
दृष्टित्रयस्यापि भावादिति, (वृ० प० ८५१)
४७. दो नाणा दो अण्णाणा नियमं । 'सेसं तं चेव'
१-९ । (श० २४।३४२)

४८. तथा ज्ञानादिद्वारेऽपि द्वे ज्ञाने वा अज्ञाने वा स्यातां,
जघन्यस्थितेरन्ययोरभावादिति । (वृ० प० ८५१)
४९. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जति ? भेदो जहेव जोति-
सिएसु उववज्जमाणस्स,
५०. जाव— (श० २४।३४३)
असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए
सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववज्जित्तए ?
५१. एवं जहेव असंखेज्जवासाउयस्स सण्णिपंचिदिय-
तिरिक्खजोणियस्स सोहम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स
५२. तहेव सत्त गमगा, नवरं—आदिल्लिएसु दोसु गमएसु
ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं तिण्णि
गाउयाइं ।
५३. आद्यगमयोहिं सर्वत्र धनुपृथक्त्वं जघन्यावगाहना
उत्कृष्टा तु गव्यूतषट्कमुक्ता इह तु 'जहन्नेणं गाउयं'
मित्यादि, (वृ० प० ८५१)
५४. ततियगमे जहण्णेणं तिण्णि गाउयाइं, उक्कोसेणं वि
तिण्णि गाउयाइं ।

५५. तृतीयगमे तु जघन्यत उत्कर्षतश्च षट् गव्यूतान्यु-
क्तानि इह तु त्रीणि, (वृ० प० ८५१)
५६. चउत्थगमए जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं वि गाउयं ।

५७. चतुर्थे गमे तु प्राग् जघन्यतो धनुपृथक्त्वमुत्कर्षतस्तु
द्वे गव्यूते उक्ते इह तु जघन्यत उत्कर्षतश्च गव्यूतम,
(वृ० प० ८५१)

५८. *पाछला तीन गमा विषे, जघन्य अनें उत्कृष्ट जी ।
तीन गाऊ नीं अवगाहना, शेष तिमज सह इष्ट जी ॥
वा० —ए असंख वर्षायु सन्नी मनुष्य सौधर्म ऊपजै, तेहनां ७ गमा कह्या ।
पहलें देवलोक में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'
५९. जो संख वर्षायु सन्नी मनुष्य, इम संख वर्षायुष जाण जी ।
सन्नी मनुष्य जिम असुर में, ऊपजता नें पिछाण जी ॥
६०. तिमज इहां पिण नव गमा, णवरं सौधर्म सुर स्थित जी ।
कायसंवेध वलि जाणवूं, शेष तिमहिज कथित जी ॥

वा०—प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमे जघन्य १ पत्य, उत्कृष्ट २ सागर ।
द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्य-उत्कृष्ट १ पत्य नीं स्थिति । तृतीय, षष्ठम,
नवम गमके जघन्य-उत्कृष्ट २ सागर नीं थिति ।

हिवै कायसंवेधे भव जघन्य गमे २, उत्कृष्ट गमे ८ । तेहनों नव ही गमे
काल कहै छै —प्रथम गमे जघन्य पृथक मास १ पत्य, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ८
सागर । द्वितीय गमे जघन्य पृथक मास १ पत्य, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्य ।
तृतीय गमे जघन्य पृथक मास २ सागर, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ८ सागर । चतुर्थ
गमे जघन्य पृथक मास १ पत्य, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ८ सागर । पंचम गमे
जघन्य पृथक मास १ पत्य, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ४ पत्य । षष्ठम गमे जघन्य
पृथक मास २ सागर, उत्कृष्ट ४ पृथक मास ८ सागर । सप्तम गमे जघन्य कोड़
पूर्व १ पत्य, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ८ सागर । अष्टम गमे जघन्य कोड़ पूर्व १
पत्य, उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ४ पत्य । नवम गमे जघन्य कोड़ पूर्व २ सागर,
उत्कृष्ट ४ कोड़ पूर्व ८ सागर ।

६१. ईशाण सुर प्रभु ! किहां थकी ऊपजै ते सलहीज जी ?
सौधर्म सुर सम वारता, ईशाण सुर नीं एहीज जी ॥
दूजै देवलोक में तिर्यच युगलियो ऊपजै, तेहनों अधिकार'
६२. णवरं जे युगल तिर्यच नीं, जेह स्थानक विषे जात जी ।
ऊपजता नें सौधर्म में, स्थिति पत्योपम ख्यात जी ॥
६३. तिम इहां युगल तिर्यच नें, स्थानक तेह विषेह जी ।
ऊपजता नें ईशाण में, साधिक पत्य करेह जी ॥

सोरठा

६४. ईशाणे अवलोय, साधिक पत्योपम तणीं ।
स्थिति जघन्य छै सोय, तिणसूं साधिक पत्य कही ॥
६५. *तुर्य गमे अवगाहना, जघन्य पृथक धनु जाण जी ।
उत्कृष्ट साधिक गाउ बे, शेष तिमहिज पहिछाण जी ॥

*लय : मम करो काया माया

१. देखें परि० २, यंत्र १५०

१९६ भगवती जोड़

५८. पच्छिमएमु तिसु गमएमु जहण्णेणं तिण्णि गाउयाइं
उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाइं, सेसं तहेव निरव-
सेसं । (श० २४।३४४)

५९. जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ? एवं
संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्साणं जहेव असुरकुमारेसु
उववज्जमाणणं
६०. तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवरं—सोहम्मदेव-
द्विंति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चैव १-९ ।
(श० २४।३४५)

६१. ईसाणदेवा णं भते ! कओहितो उववज्जंति ?
ईसाणदेवाणं एस चैव सोहम्मगदेवसरिसा वत्तव्वया,
६२. नवरं—असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचदियतिरिक्ख-
जोणियस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स
पलिओवमठिती
६३. तेसु ठाणेसु इह सातिरेगं पलिओवमं कायव्वं ।

६४. 'सातिरेगं पलिओवमं कायव्वं' ति ईशाने सातिरेक-
पत्योपमस्य जघन्यस्थितिकत्वात्, (वृ० प० ८५१)
६५. चउत्थगमे ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं
सातिरेगाइं दो गाउयाइं । सेसं तहेव ।
(श० २४।३४६)

वा०—अवगाहना जघन्य पृथक धनुष्य नीं कही, तेहनुं न्याय—जे सुषम अरा नै विषे साधिक पल्योपम आउखावंत तिर्यंच ऊपनां, ते तिर्यंच में जेहनी लघु काय छै, तेहनी अपेक्षाए कह्युं । उत्कृष्ट साधिक बे गाऊ नीं कही, तेहनों न्याय—जे काल नै विषे जे मनुष्य नीं अवगाहना साधिक गाऊ नीं हुवै । ते काल नै विषे ऊपनां जे हस्ती प्रमुख तेहनीं अपेक्षाए साधिक बे गाऊ नीं कही ।

दूजें देवलोक में मनुष्य युगलियो ऊपजें, तेहनों अधिकार'

६६. असंख वर्षायुष नां सन्नी मनुष्य नै पिण तिमहीज जी ।
स्थिति जिम युगल तिर्यंच नै, आखी छै तिम सलहीज जी ॥

वा० असंख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य ईशान कल्पे ऊपजें, तेहनीं पिण जिम सौधर्म युगलियो मनुष्य ऊपजें तेहनीं वक्तव्यता कही तिमहीज कहिवी । अनै स्थिति जिम तिर्यंच युगलियो ईशाने ऊपजें, तेहनीं कही तिम कहिवी । एतलै तिर्यंच युगलिया नै जे स्थानक नै विषे सौधर्म ऊपजता थका नै पल्योपम स्थिति कही, तिम तिर्यंच युगलिया नै ते स्थानक नै विषे ईशाने ऊपजता नै स्थिति साधिक पल्य नीं कहिवी । एहवुं तिर्यंच नै अधिकारे कह्युं छै, तिमहिज युगलिया मनुष्य नै अधिकारे कहिवुं । तेहनीं विधि कहै छै—जे असंख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य नै जे स्थानक नै विषे सौधर्म ऊपजता थका नै पल्योपम नीं स्थिति कही, तिम युगलिया मनुष्य नै ते स्थानक नै विषे ईशान कल्पे ऊपजतां थकां नै स्थिति साधिक पल्योपम नीं कहिवी ।

६७. अवगाहना पिण इह विधे, जे स्थानके गाऊ नीं ख्यात जी ।
तेह स्थानक नै विषे इहां, साधिक गाऊ नीं थात जी ॥

वा०—अवगाहना पिण सौधर्म कल्प में युगलियो मनुष्य ऊपजें, ते अधिकारे जे स्थानक नै विषे असंख्यात वर्षायुष सन्नी मनुष्य नीं एक गाऊ नीं अवगाहना कही, ते स्थानक नै विषे ईशान कल्पे युगलियो मनुष्य ऊपजता थका नीं साधिक गाऊ नीं कहिवी ।

६८. शेष परिमाणादि जे लद्धी, तिणहीज रीत कहेह जी ।
सोहम्मे युगल मनु ऊपजें, तिमज ईशान विषेह जी ॥

६९. संख वर्षायु सन्नी तिरि', अथवा सन्नी मनु' जाण जी ।
जिमहिज सौधर्म कल्प में, ऊपजतां नै पिछाण जी ॥

७०. तिमहिज नव गमका सहु, णवरं ईशान विषेह जी ।
देव तणीं स्थिति जाणवी, वलि जाणवुं कायसवेह जी ॥

वा०—स्थिति जे प्रथम, चोथे, सातमे गमे संख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यंच पर्याप्तो सन्नी मनुष्य ईशान कल्पे जघन्य साधिक पल्योपम काल स्थितिक नै विषे ऊपजें, उत्कृष्ट साधिक दोय सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजें । अनै

१. देखें परि २, यंत्र १५३

२. देखें परि २, यंत्र १५१

३. देखें परि २, यंत्र १५४

वा०—'चउत्थगमए ओगाहणा जहन्नेणं धणुहपुहुत्तं' ति ये सातिरेकपल्योपमायुषस्तिर्यंचः सुषमा-रोद्भवाः क्षद्रतरकायास्तानपेक्ष्योक्तम्,—'उक्कोसेणं साइरेगाइं दो गाउयाइं' ति एतच्च यत्र काले सातिरेकगव्यूतमाना मनुष्या भवन्ति तत्कालभवान् हस्त्यादीनपेक्ष्योक्तं, (वृ० प० ८५१)

६६. असंखेज्जवासाउयसण्णमणुस्सस वि तहेव ठिती जहा पचिदियतिरिक्खजोणियस्स असंखेज्जवासा-उयस्स ।

६७. ओगाहणा वि जेसु ठाणेसु गाउयं तेसु ठाणेसु इहं सातिरेगं गाउयं ।

वा०—'जेसु ठाणेसु गाउयं' ति सौधर्मदेवाधिकारे येषु स्थानेष्वसङ्ख्यातवर्षायुर्मनुष्याणां गव्यूतमुक्तं 'तेसु ठाणेसु इहं साइरेगं गाउयं' ति जघन्यतः सातिरेकपल्योपमस्थितिकत्वादीशानकदेवस्य प्राप्तव्य-देवस्थित्यनुसारेण चासङ्ख्यातवर्षायुर्मनुष्याणां स्थितिसद्भावात् तदनुसारेणैव च तेषामवगाहना-भावादिति । (वृ० प० ८५१)

६८. सेसं तहेव । (श० २४।३४७)

६९. संखेज्जवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्जमाणं

७०. तहेव निरवसेसं नव वि गमगा, नवरं—ईसाणठिंति संवेहं च जाणेज्जा । (श० २४।३४८)

दूजे, पांचमे, आठमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट साधिक पत्योपम काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । अनै तीजे, षष्ठम, नवम गमे जघन्य उत्कृष्ट साधिक बे सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजे । अनै कायसंवेध गमे-गमे प्रति बिहुं भव नीं स्थिति विचारी कहिवूं ।

७१. सनतकुमार सुर हे प्रभु ! किहां थकी ऊपजेह जी ?
इह विधि प्रश्न पूछघे छते, श्री जिन उत्तर देह जी ॥

७२. जिम सक्करप्रभा पृथ्वी तणां, नेरइया नुं उपपात जी ।
आखियो तिणहिज रीत सूं, इहां कहिवूं अवदात जी ॥

तीजें देवलोक में संख्याता वर्ष नों सत्री तिर्यंच ऊपजें, तेहनों अधिकार^१

७३. यावत जेह पर्याप्ता, संख वर्षायु सन्नी तिर्यंच जी ।
जेह ऊपजवा नै योग्य प्रभु ! सुर सनतकुमार में संच जी ॥

७४. शेष परिमाण नें आदि दे, फुन भवादेश पर्यंत जी ।
जिम ऊपजता नें सौधर्म मे, तिम सहु वार्ता हुंत जी ॥

७५. णवरं जे सनतकुमार नीं, स्थिति फुन कायसंवेह जी ।
उपयोगे करी जाणवूं, गमे-गमे प्रति जेह जी ॥

वा०—प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके संख्यात वर्षायु सत्री तिर्यंच पर्याप्तो सनतकुमार कल्पे जघन्य २ सागर, उत्कृष्ट ७ सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । अनै द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट २ सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । अनै तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्य-उत्कृष्ट ७ सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । अनै कायसंवेधे संख्यात वर्षायु सत्री तिर्यंच अनै सनत-कुमार देव ए बिहुं भव नीं स्थिति विचारी कहिवूं ।

७६. आपणपै सन्नी तिरि हुवै,
जघन्य काल स्थितिक जिहवार जी ।
तीनूई गमक विषे तदा, कहिवी धुर लेश पंच धार जी ॥

वा०—जघन्य स्थितिक तिर्यंच सनतकुमार नै विषे ऊपजै तो जघन्य स्थिति सामर्थ्य थकी कृष्णादि च्यार लेशया मांहे अनेरी एक लेशया नै विषे परिणत थई मरण समये पद्मलेशया प्रतै आसादी नै मरै, तिवारै आंगला भव नीं लेशया परिणाम थयां जीव परभव प्रतै जावै । इसो आगम मांहे कह्युं छै । तिवारै एहनै पंच लेशया हुवै ।

७७. शेष तिमज कहिवो सहु, ए कह्यो सन्नी तिर्यंच जी ।
सन्नी मनुष्य थकी ऊपजै, कहियै छै तेह सुसंच जी ॥

तीजें देवलोक में संख्याता वर्ष नों सत्री मनुष्य ऊपजें, तेहनों अधिकार^१

७८. जो सन्नी मनुष्य थकी ऊपजै, मनुष्य नें जिमहिज जाण जी ।
सक्करप्रभा नारकि विषे ऊपजता नै पहिछाण जी ॥

७१. सणकुमारदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जति ?

७२. उववाओ जहा सक्करप्पभापुढविनेरइयाणं,

७३. जाव— (श० २४।३४९)

पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए सणकुमारदेवेसु उववज्जत्तए ?

७४. अवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा सच्चेव वत्तव्वया भाणियव्वा जहा सोहम्मे उववज्जमाणस्स,

७५. नवरं—सणकुमारट्ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।

७६. जाहे य अप्पणा जहण्णकालट्ठितीओ भवति ताहे तिसु वि गमएसु पंच लेस्साओ आदिल्लाओ काय-व्वाओ ।

वा०—‘पंच लेस्साओ आदिल्लाओ कायव्वाओ’ ति जघन्यस्थितिकस्तियंक् सनत्कुमारे समुत्पित्सुज्जघन्य-स्थितिसामर्थ्यात्कृष्णादीनां चतसृणां लेशयानामन्य-तरस्यां परिणतो भूत्वा मरणकाले पद्मलेशयामासाद्य म्रियते ततस्तत्रोत्पद्यते, यतोऽग्रेतनभवलेशयापरिणामे सति जीवः परभवं गच्छतीत्यागमः, तदेवमस्य पञ्च लेशया भवन्ति । (वृ० प० ८५१)

७७. सेसं तं चेव । (श० २४।३५०)

७८. जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जति ? मणुस्साणं जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणं

१. देखें परि २, यंत्र १५५

२. देखें परि २, यंत्र १५७

२०० भगवती जोड़

७९. तिमज इहां पिण नव गमा, णवरं विशेष छै एह जी ॥
सनतकुमार नीं स्थिति वलो, कायसंवेध जाणेह जी ॥

वा०—सन्नी तिर्यंच सनतकुमार में ऊपजै तिहां नव गमे सनतकुमार देव नीं स्थिति कही, तिका इहां पिण जाणवी । अनै कायसंवेध नवू गमे यंत्र थकी जाणवो ।

चौर्ये स्युं आठवें देवलोक तक सन्नी तिर्यंच अनै सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार ।

८०. माहेंद्र देव ! भगवंत जी ! किहां थकी उपजंत जी ?
जिम कह्युं सनतकुमार नों, तिम माहेंद्र सुर पिण हुंत जी ॥

८१. णवरं माहिंदग सुर स्थिति, साधिक भणवी है सोय जी ।
सर्व ही इम ब्रह्मलोक नां, सुर नीं पिण वारता जोय जी ॥

८२. णवरं ब्रह्मलोक सुर नीं स्थिति, अथवा संवेध पहिछाण जी ॥
एम यावत ही सहस्सार लग, णवरं स्थिति संवेध जाण जी ॥

वा०—ब्रह्मलोक सुर नीं स्थिति पहिले, चौथे, सातमे गमे जघन्य ७ सागर, उत्कृष्ट १० सागर । द्वितीय, पंचम, अष्टम गमे जघन्य-उत्कृष्ट ७ सागर । तीजे, छठे, नवमे गमे जघन्य-उत्कृष्ट १० सागर । अनै कायसंवेध सन्नी मनुष्य अनै ब्रह्मलोके सुर—ए बिहुं नां भव नीं स्थिति नों काल जघन्योत्कृष्ट विचारी कहिवूं । लंतक सुर नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य १० सागर, उत्कृष्ट १४ सागर । २, ५, ८, गमे जघन्य-उत्कृष्ट १० सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्य-उत्कृष्ट १४ सागर । महाशुक्र देव नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य १४ सागर, उत्कृष्ट १७ सागर । २, ५, ८, गमे जघन्य-उत्कृष्ट १४ सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्य-उत्कृष्ट १७ सागर । सहस्सार देव नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य १७ सागर, उत्कृष्ट १८ सागर । २, ५, ८ गमे जघन्य-उत्कृष्ट १७ सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्य-उत्कृष्ट १८ सागर । अनै कायसंवेध बिहु भव नों विचारी सर्व ठिकारों कहिवो ।

८३. लंतकादिक विषे ऊपजै, जघन्य काल स्थितिक तिर्यंच जी ।
त्रिण मध्य गमक तेहनें विषे, कहिवो लेश्या छहुं संच जी ॥

वा०—सनतकुमार नै विषे जघन्य काल स्थितिक तिरि ऊपजता नै पंच लेश्या पूर्वे जिणे न्याय करिके कही, तिण न्याय करे लंतकादिक नै विषे ऊपजतां नै इहां षट लेश्या कहिवी ।

८४. ऊपजतो ब्रह्म लंतके, पंच संघयण धुर पेख जी ।
महाशुक्र सहस्सार फुन, च्यार संघयण धुर देख जी ॥

वा०—छेवटा संघयण नां धणी प्रथम च्यारईज देवलोक नां गमन निबंधपणां थकी अनै पांचमां, छठा कल्प नै विषे ऊपजता थका नै छेवटा बिना पंच संघयण पावै । अनै सातमां, आठमां कल्प में ऊपजै, तिण में कीलिका, छेवटा बिना च्यार संघयण पावै ।

८५. चिहुं संघयण तिर्यंच में पिण अछे,
मनुष्य में पिण चिहुं जाण जी ।
शेष तिमहिज कहिवो सहु, श्री जिन आण प्रमाण जी ॥

१ देखे परि. २, यंत्र १५५-१५७

७९. तहेव नव वि गमा भाणियव्वा, नवरं—सणकुमार-
ट्टिति संवेहं च जाणेज्जा । (श० २४।३५१)

८०. माहिंदगदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?
जहा सणकुमारदेवाणं वत्तव्वया तथा माहिंदगदेवाण
वि भाणियव्वा,

८१. नवरं—माहिंदगदेवाणं ठिती सातिरेगा भाणियव्वा
सच्चेव । एवं बंभलोगदेवाण वि वत्तव्वया,

८२. नवरं—बंभलोगट्टिति संवेहं च जाणेज्जा । एवं जाव
सहस्सारो, नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।

८३. लंतगादीणं जहणकालट्टितियस्स तिरिक्खजोणियस्स
तिसु वि गमएसु छप्पि लेस्साओ कायव्वाओ ।

वा०—‘लंतगाईणं जहण्णे’ त्यादि, एतद्भाषना
चानन्तरोक्तन्यायेन कार्या, (वृ० प० ८५१)

८४. संघयणाइं बंभलोग-लंतएसु पंच आदिल्लगाणि,
महासुक्क-सहस्सारेसु चत्तारि ।

वा०—सेवार्तसंहननस्य चतुर्णामिव देवलोकानां गमने
निबन्धनत्वात्, यदाह—

“छेवट्ठेण उ गम्मइ चत्तारि उ जाव आइमा कप्पा ।
वड्ढेज्ज कप्पजुयलं संघयणे कीलियाईए ॥१॥”
(वृ० प० ८५१)

८५. तिरिक्खजोणियाण वि मणुस्साण वि । सेसं तं चेव ।
(श० २४।३५२)

नों देवलोक में सज्ञी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

८६. आणत देवता हे प्रभु ! किहां थकी उपजेह जी ?
उपपात जिम सहस्सार देव नों, आखयो तेम कहेह जी ॥
८७. णवरं विशेष छै एतलो, आणत कल्प विषेह जी ।
तिरिक्खयोनिक नहि ऊपजै, मनुष्य थकी उपजेह जी ॥
८८. जाव पर्याप्त संख्यात जे, वर्षायु सन्नी मनु जेह जी ।
जेह ऊपजवा नें योग्य छै, आणत कल्प विषेह जी ॥
८९. इत्यादि मनुष्य नों वारता, जिम सहस्सार विषेह जी ।
ऊपजता नें आखी तिका, वक्तव्यता इहां लेह जी ॥
९०. णवरं धुर तीन संघयण ह्वै, शेष परिमाणदि जाण जी ।
कहिवो है कल्प सहस्सार ज्युं, अनुबंध लग पहिछाण जी ॥
९१. भवादेश करि जघन्य थी, तीन भव ग्रहण करेह जी ।
उत्कृष्ट सप्त भव ग्रहण छै, हिव तसु न्याय वरेह जी ॥

सोरठा

९२. आणत प्रमुख मांय, उपजै मनुष्य थकीज ते ।
चवी मनुष्य में आय, जघन्य थकी भव तीन इम ॥
९३. प्रथम मनुष्य भव पेख, आणत सुर दूजे भवे ।
तीजे भव मनु लेख, जघन्य थकी भव तीन इम ॥
९४. भव उत्कृष्टज सात, मनुष्य देव मनु सुर वलि ।
मनुष्य देव मनु खयात, इम उत्कृष्टज सप्त भव ॥
९५. *काल आदेश करि जघन्य थी, सागर कहिये अठार जी ।
दोय पृथक वर्ष अधिक ही, हिव तसु न्याय अवधार जी ॥

सोरठा

९६. प्रथम मनुष्य भव मांय, वर्ष पृथक नों आउखो ।
भोगव आनत जाय, उदधि अठार जघन्य स्थिति ॥
९७. तीजे भव अवधार, वर्ष पृथक स्थितिक ह्वै ।
एवं उदधि अठार, वर्ष पृथक बे अधिक फुन ॥
९८. *उत्कृष्ट काल भव सप्त नों, उदधि सत्तावन न्हाल जी ।
कोड़ पूर्व चिहुं अधिक ही, ए गति-आगति काल जी ॥

सोरठा

९९. आनत कल्पे सोय, उत्कृष्ट स्थिति उगणीस दधि ।
ते त्रिण सुर भव होय, उदधि सतावन इम हुवै ॥
१००. कोड़ पूर्व नां पेख, करे च्यार भव मनुष्य नां ।
इण न्याये करि लेख, कोड़ पूर्व चिहुं अधिक ही ॥

*सय : मम करो काया माया

१. देखे परि. २, यंत्र १५६

२०२ भगवती जोड़

८६. आणयदेवा णं भते ! कओहितो उववज्जति ?
उववाओ जहा सहस्सारदेवाणं,
८७. नवरं तिरिक्खजोगिया खोड्येव्वा,
८८. जाव --- (श० २४।३५३)
पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे
भविए आणयदेवेसु उववज्जित्तए ?
८९. मणुस्साण य वत्तव्वया जहेव सहस्सारेसु उववज्ज-
माणणं,
९०. नवरं-- तिण्णि संघयणाणि, सेसं तहेव जाव अणु-
बंधो ।
९१. भवादेसेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं
सत्त भवग्गहणाइं ।

९२. 'जह्णनेणं तिन्नि भवग्गहणाइं' ति आनतादिदेवो
मनुष्येभ्य एवोत्पद्यते तेष्वेव च प्रत्यागच्छतीति
जघन्यतो भवत्रयं भवतीति, (वृ० प० ८५१, ८५२)
९४. एवं भवसप्तकमप्युत्कर्षतो भावनीयमिति,
(वृ० प० ८५२)
९५. कालादेसेणं जहण्णेणं अट्टारस सागरोवमाइं दोहि
वासपुहत्तेहि अब्भहियाइं,

९८. उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोवमाइं चउहि पुव्व-
कोडीहि अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं काल गतिरागतिं करेज्जा ।

९९. 'उक्कोसेणं सत्तावन्नं' मित्यादि, आनतदेवाना-
मुत्कर्षत एकोनविंशतिसागरोपमाण्यायुः, तस्य च
भवत्रयभावेन सप्तपञ्चाशत्सागरोपमाणि ।
(वृ० प० ८५२)
१००. मनुष्यभवचतुष्टयसम्बन्धिपूर्वकोटिचतुष्काभ्यधिकानि
भवन्तीति । (वृ० प० ८५२)

१०१. *शेष पिण अठ गमा इह विधे,

भणवा पिण णवरं विशेख जी ।

स्थिति संवेध प्रति जाणवूं, शेष तिमहिज संपेख जी ॥

वा०—इहां आणत सुर नैं विषे मनुष्य ऊपजै, तेहनैं सहस्सार नैं विषे मनुष्य ऊपजै तेहनैं भलायो । जिवारै कोई पूछै—मनुष्य सहस्सार देव नैं विषे ऊपजै तेहनीं स्थिति जघन्य १७ सागर, उत्कृष्ट १८ सागर हुवै । अनैं आणत देव नीं जघन्य १८ सागर, उत्कृष्ट १९ सागर हुवै । ते इहां सहस्सार सुर थकी आणत देव नीं स्थिति में फेर नथी पाइयो ते किम ? इति प्रश्न । तेहनो उत्तर—जे पूर्वे ब्रह्मलोक में ऊपजै, ते माहेंद्र में ऊपजै तिण नैं भलायो । णवरं ठितिसंवेहं च जाणेज्जा । ए ब्रह्मलोक नां देव नीं स्थिति अनैं संवेध में फेर जाणवो एवं जाव सहस्सारो णवरं—ठितिसंवेहं च जाणेज्जा—इम यावत सहस्सार सुर नीं स्थिति संवेध में फेर जाणवो । अनैं आणत सुर किहां थकी ऊपजै ? तेहनो उपपात सहस्सार नीं पर कहिवो । णवरं तिर्यंच न ऊपजै । जाव पर्याप्त संख्यात वर्षाणु सन्नी मनुष्य भगवान ! आणत देव नैं विषे ऊपजवा योग्य तेहनीं पूछा—मनुष्य नीं वक्तव्यता जिमहिज सहस्सार नैं विषे ऊपजता थका नैं तिम कहिवी । णवरं तीन संघयण । शेष तिमज अनुबंध लगौ ।

इहां आणत नैं सहस्सार भलायो, ते सहस्सार नैं विषे ठितिसंवेहं च जाणेज्जा कह्यो । ते आणत सुर नीं स्थिति में अनैं संवेध में फेर इहां पिण कहिवो । तिहां स्थिति प्रथम, चतुर्थ, सप्तम गमके जघन्य १८ सागर, उत्कृष्ट १९ सागर । अनैं द्वितीय, पंचम, अष्टम गमके जघन्योत्कृष्ट १८ सागर । अनैं तृतीय, षष्ठम, नवम गमके जघन्योत्कृष्ट १९ सागर । अनैं कायसंवेध मनुष्य, आणत सुर ए बिहुं नां जघन्योत्कृष्ट भव नुं काल विचारी कहिवूं ।

दसवें स्युं बारहवें देवलोक तक सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनो अधिकार^१

१०२. एवं यावत ही अच्युत सुरा, णवरं विशेष छै एह जी ।

द्वितीय तथा कायसंवेध प्रति, उपयोग करीनैं जाणेह जी ॥

वा०—पाणत, आरण, अच्यु सुर नैं विषे ऊपजवा योग्य मनुष्य ऊपजै, ते केतला काल नीं स्थितिक नैं विषे ऊपजै ? इहां पाणत सुर नीं स्थिति १,४,७ गमे जघन्य १९ सागर, उत्कृष्ट २० सागर । २,५,८ गमे जघन्योत्कृष्ट १९ सागर । ३,६,९ गमे जघन्योत्कृष्ट २० सागर काल स्थितिक नैं विषे ऊपजै । अनैं आरण सुर नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य २० सागर, उत्कृष्ट २१ सागर । २, ५, ८ गमे जघन्योत्कृष्ट २० सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्योत्कृष्ट २१ सागर काल स्थितिक नैं विषे ऊपजै । अनैं अच्यु सुर नीं स्थिति १,४,७ गमे जघन्य २१ सागर, उत्कृष्ट २२ सागर । २,५,८ गमे जघन्योत्कृष्ट २१ सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्योत्कृष्ट २२ सागर । अनैं कायसंवेध सर्वं नुं विचारी कहिवूं ।

१०३. आनतादिक चिहुं कल्प में, ऊपजता नैं कहाय जी ।

तीन संघयण जे आदि नां, आखिया श्री जिनराय जी ।

१०१. एवं सेसा वि अट्टु गमगा भाणियव्वा, नवरं—

ठिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव ।

१०२. एवं जाव अच्युदेवा, नवरं—ठिति संवेहं च

जाणेज्जा ।

१०३. चउसु वि संघयणा तिण्णि आणयादीसु ।

(श० २४।३५४)

*लय : मम करो काया माया

१. देखें परि. २ यंत्र १५७

नव ग्रैवेयक में सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

१०४. सुर ग्रैवेयक भगवंत जी ! किहां थकी उपजंत जी ।
एहिज वक्तव्यता तसु, णवरं विशेष ए हुंत जी ॥
१०५. दोय संघयण ते मनुष्य में, देव नीं स्थिति उदार जी ।
कायसंवेध बिहु भव तणों, जाणवो मन सूं विचार जी ॥

वा० —इहां ग्रैवेयक देव नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य २२ सागर, उत्कृष्ट ३१ सागर । २, ५, ८ गमे जघन्योत्कृष्ट २२ सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्योत्कृष्ट ३१ सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । कायसंवेध विचारी कहिवूं ।

चार अनुत्तर विमान में सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

१०६. हे भगवंत जी ! विजय सुर, फुन वैजयंत कहेह जी ।
जयंत अपराजित देव ते, किहां थकी उपजेह जी ?
१०७. एहिज वक्तव्यता सहु, जाव अनुबंध लगेह जी ।
णवरं विशेष संघयण धुर, शेष तिमहिज कहेह जी ॥

वा० —इहां विजयादिक नीं स्थिति जघन्य ३१ सागर, उत्कृष्ट ३३ सागर । ए ग्रैवेयक थकी ओधिक छै, ते किम नथी कह्यो ? एहनों उत्तर—इहां विजयादिक नों प्रश्न करी ग्रैवेयक नीं वक्तव्यता ते सहु भलाई तिण ग्रैवेयक री वक्तव्या में एहवूं पाठ कह्यू छै—'ठितिसंवेहं च जाणेज्जा—ए पाठ इहां पिण कहिवो । ते माटै स्थिति रो जुदो विशेष नथी करघो अनै मनुष्य नां संघयण नों जुदो विशेषण करघो ।

१०८. भवादेश करि जघन्य थी, तीन भव ग्रहण करेह जी ।
प्रथम मनुष्य भव जाणवूं, द्वितीय सुर तृतीय नर लेह जी ॥
१०९. उत्कृष्ट पंच भव ग्रहण ह्वै, धुर मनु द्वितीय भव देव जी ।
तृतीय मनु तुर्य भव सुर तणों नर भव पंचमो हेव जी ॥
११०. काल आदेश करि जघन्य थी, सागर सुर इकतीस जी ।
पृथकज वर्ष बे अधिक हो, मनु भव एह जगीस जी ॥
१११. उत्कृष्ट दधि छासठ वलि, कोड़ पूर्व वलि तीन जी ।
उत्कृष्ट सुर स्थिति भवे, त्रिण भव मनुष्य नां चीन जी ॥
११२. करै काल गति-आगति एतलुं, शेष पिण अठ गम एम जी ।
णवरं स्थिति कायसंवेध प्रति, जाणवूं ते धर प्रेम जी ॥

वा०—इहां च्यार अनुत्तर विमान देव नीं स्थिति १, ४, ७ गमे जघन्य ३१ सागर, उत्कृष्ट ३३ सागर । २, ५, ८ गमे जघन्योत्कृष्ट ३१ सागर । ३, ६, ९ गमे जघन्योत्कृष्ट ३३ सागर काल स्थितिक नै विषे ऊपजै । अनै कायसंवेध विचारी कहिवूं ।

११३. मनुष्य विषेज लद्धी जिजा, परिमाणादिक नीं पहिचाण जी ।
गमक नव ही नै विषे जिजा, आगल कहियै सुजाण जी ॥
११४. जिम ग्रैवेयक नै विषे, ऊपजता नै आख्यात जी ।
कहिवो है तिणहीज रीत सुं,
णवरं संघयण धुर थात जी ॥

१. देखें परि. २, यंत्र १५८

२. देखें परि. २, यंत्र १५९

२०४ भगवती जोड़

१०४. गेवेज्जगदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववज्जति ?
एस चेव वक्तव्यया, नवरं—
१०५. दो संघयणा । ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।
(श० २४।३५५)

१०६. विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजित देवा णं भंते
कओहिंतो उववज्जति ?
१०७. एस चेव वक्तव्यया निरवसेसा जाव अणुबंधो त्ति,
नवरं—पढमं संघयणं । सेसं तहेव ।

१०८. भवादेशेणं जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाइं,

१०९. उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं ।

११०. कालादेशेणं जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाइं दोहिं
वासपुहत्तेहिं अब्भहियाइं,

१११. उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोवमाइं तिहिं पुव्वकोडीहिं
अब्भहियाइं,

११२. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागतिं
करेज्जा । एवं सेसा वि अट्ठुं गमगा भाणियव्वा,
नवरं—ठिति संवेहं च जाणेज्जा ।

११३. मणूसलद्धी नवसु वि गमएसु

११४. जहा गेवेज्जेसु उववज्जमाणस्स, नवरं—पढम-
संघयणं ।
(श० २४।३५६)

सर्वार्थसिद्ध में सन्नी मनुष्य ऊपजै, तेहनों अधिकार'

११५. सव्वट्टसिद्धग सुरा हे प्रभु ! किहां थकी उपजंत जी ?
ऊपजवोज विजयादि नों, जिम कह्यो तिमज ए हुंत जी ॥
११६. यावत ते भगवंतजी ! केतला काल नीं ताय जी ।
स्थितिक विषे तिको ऊपजै ? ताम कहै जिनराय जी ॥
११७. स्थिति जघन्य उत्कृष्ट थी, तेतीस सागर तेह जी ।
काल स्थितिक विषे ऊपजै, मनु ऊपजवा योग्य जेह जी ॥
११८. शेष परिमाण नैं आदि दे, विजयादिक विषे विख्यात जी ।
ऊपजता नैं जिम आखियो, तिमज कहिवूं अवदात जी ॥
११९. भवादेशे करि तीन भव, प्रथम मनुष्य नुं पेख जी ।
द्वितीय सर्वार्थसिद्ध सुरा, तृतीय फुन मनु भव लेख जी ॥
१२०. काल आदेश करि जघन्य थी,
सुर स्थिति उदधि तेतीस जी ।
पृथक जे वर्ष बे अधिक फुन,
मनुष्य भव स्थिति जगीस जी ॥
१२१. उत्कृष्ट उदधि तेतीस सुर, पूर्वं कोड़ बे न्हाल जी ।
एतलो काल सेवै तिको, ए गति-आगति काल जी ॥

११५. सव्वट्टगसिद्धगदेवा णं भंते ! कओहितो उववज्जंति ?
उववाओ जहेव विजयादीणं,
११६. जाव --- (श० २४।३५७)
से णं भंते ! केवतिकालट्टितीएसु उववज्जेज्जा ?
११७. गोयमा ! जहण्णेणं तेत्तीससागरोवमट्टितीएसु,
उक्कोसेण वि तेत्तीससागरोवमट्टितीएसु
उववज्जेज्जा ।
११८. अवसेसा जहा विजयाइसु उववज्जंताणं,
११९. नवरं—भवादेशेणं तिण्णि भवग्गहणाइं,
१२०. कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि
वासपुहत्तेहि अब्भहियाइं,
१२१. उक्कोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि पुव्व-
कोडीहि अब्भहियाइं, एवतियं कालं सेवेज्जा,
एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा १ ।
(श० २४।३५८)
१२२. सो चेव अप्पणा जहण्णकालट्टितीओ जाओ, एस चेव
वत्तव्वया, नवरं—
१२३. ओगाहणा-ठितीओ रयणिपुहत्त-वासपुहत्ताणि । सेसं
तहेव । संवेहं च जाणेज्जा २ । (श० २४।३५९)

सोरठा

१२४. कालादेश संवेह, जघन्य अनैं उत्कृष्ट यी ।
दधि तेतीस सुरेह, वर्ष पृथक बे अधिक ही ॥
१२५. *तेहिज आपणपै थयुं, जिष्ठ काल स्थितिकमंत जी ।
एहिज वत्तव्वया तसु, णवरं विशेष ए हुंत जी ॥
१२६. मनु भव में अवगाहना, जघन्य अनैं उत्कृष्ट जी ।
पांचसौ धनुष्य नीं जाणवी, आउखो हिव तसु इष्ट जी ॥
१२७. स्थिति तसु जघन्य थी कोड़ पुव्व,
उत्कृष्ट पिण पूर्वं कोड़ जी ।
शेष तिमहिज कहिवो सह, लद्धी परिमाणादि जोड़ जी ॥
१२८. यावत भव आश्रयी लगै, काल तसु जघन्य उत्कृष्ट जी ।
तेतीस सागर सुर भवे, बे पुव्व कोड़ मनु इष्ट जी ॥

१२५. सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्टितीओ जाओ, एस
चेव वत्तव्वया, नवरं—
१२६. ओगाहणा जहण्णेणं पंच धणुसयाइं, उक्कोसेण वि
पंच धणुसयाइं ।
१२७. ठिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ।
सेसं तहेव
१२८. जाव भवादेशो त्ति । कालादेशेणं जहण्णेणं तेत्तीसं
सागरोवमाइं दोहि पुव्वकोडीहि अब्भहियाइं, उक्को-
सेण वि तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहि पुव्वकोडीहि
अब्भहियाइं,

*लय : मम करो काया माया

१. देखें परि. २, यंत्र १६०

१२९. एतलो काल सेवै तिको, ए गति-आगति काल जी ।
सव्वट्टिसिद्ध सुर नां ए त्रिण गमा,
सेवं भंते ! गुणमाल जी ॥

१३०. इम कही गोतम गुणनिला, भगवंत ते ज्ञानवंत जी ।
यावत विचरै संजम करी, तप करि आतम भावंत जी ॥

सोरठा

१३१. सर्वार्थसिद्ध मांय, जावै इक मनु स्थान नों ।
गमका तीनज थाय, तूटा शेषज षट गमा ॥

वा०—पहिला दूजा देवलोक में च्यार ठिकाणां रो आवै—असंख्यात वर्षायु सन्नी तिर्यंच १, संख्याता वर्षायु सन्नी तिर्यंच २, असंख्यात वर्षायु सन्नी मनुष्य ३, अनै संख्याता वर्षायु सन्नी मनुष्य ४ ।

१३२. सौधर्म कल्पे सोय, तिरिक्ख युगलियो ऊपजै ।
जघन्य गमे सुजोय, तीन णाणत्ता तेहनां ॥

१३३. अवगाहन अवलोय, जघन्य पृथक धनु नीं कही ।
उत्कृष्ट गाऊ दोय, मध्यम त्रिण गम नें विषे ॥

१३४. आयु जघन्योत्कृष्ट, एक पल्य नों आखियो ।
अनुबंध इतोज इष्ट, ए तीनुई णाणत्ता ॥

१३५. उत्कृष्ट गमे पिण तीन, अवगाहण षट कोस नीं ।
आयु अनुबंध चीन, तीन पल्योपम जाणवं ॥

१३६. सौधर्म कल्पे सोय, मनुष्य युगलियो ऊपजै ।
जघन्य गमे सुजोय, तीन णाणत्ता तेहनां ॥

१३७. अवगाहन अवलोय, इक गाऊ जघन्योत्कृष्ट ।
आयु अनुबंध जोय, जघन्योत्कृष्टज एक पल्य ॥

१३८. उत्कृष्ट गमके तीन, अवगाहन जघन्योत्कृष्ट ।
गाऊ तीन सुचीन, आयु अनुबंध तीन पल्य ॥

१३९. कल्प ईशान मभार, तिरिक्ख-युगलियो ऊपजै ।
जघन्य गमे विचार, तीन णाणत्ता तेहनां ॥

१४०. अवगाहन अवलोय, जघन्य पृथक धनुष्य नीं ।
उत्कृष्ट गाऊ दोय, जाभेरी तिरि युगल नीं ॥

१४१. आयु जघन्योत्कृष्ट, साधिक पल्योपम तणों ।
अनुबंध इतोज इष्ट, तुर्य गमे त्रिण णाणत्ता ॥

१४२. उत्कृष्ट गमे पिण तीन, अवगाहण षट कोस नीं ।
आयु अनुबंध चीन, तीन पल्योपम जाणवूं ॥

१४३. कल्प ईशान मभार, मनुष्य युगलियो ऊपजै ।
जघन्य गमे विचार, तीन णाणत्ता तेहनां ।

१४४. अवगाहन अवलोय, साधिक गाऊ जघन्य जिठ ॥
आयु अनुबंध सोय, साधिक पल्य जघन्योत्कृष्ट ।

१४५. उत्कृष्ट गमके तीन, अवगाहन जघन्योत्कृष्ट ।
गाऊ तीन सुचीन, आयु अनुबंध तीन पल्य ॥

२०६ भगवती जोड

१२९. एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति
करेज्जा ३ । एते तिण्णि गमगा सव्वट्टिसिद्धगदेवाणं ।
(श० २४।३६०)

सेवं भंते ! सेवं भंते !

१३०. त्ति भगवं गोयमे जाव विहरइ । (श० २४।३६१)

१४६. संख वर्षायु जेह, पंचेंद्रिय सन्नी तिरि ।
सौधर्मादि विषेह, ब्रह्म कल्प लग ऊपजै ॥
१४७. जघन्य गमेज आठ, अवगाहन आंगुल तर्णों ।
असंख भाग धुर वाट, उत्कृष्ट पृथक धनुष्य नीं ॥
१४८. लेश्या च्यारज पाय, ऊपजता धुर कल्प बे ।
सनत आदि त्रिण मांय, ऊपजता नैं लेश पंच ॥
१४९. दृष्टि तिरिक्ख में दोय, दोय ज्ञान अज्ञान बे ।
समुद्घात त्रिण होय, अध्यवसाय कह्या भला ॥
१५०. आयु नैं अनुबंध, जघन्य अनें उत्कृष्ट ही ।
अंतर्मुहूर्त्त संघ, जघन्य गमे अठ णाणत्ता ॥
१५१. उत्कृष्ट गमके दोय, आयु फुन अनुबंध ही ।
जघन्योत्कृष्ट सुजोय, कोड़ पूर्व नों जिन कह्यु ॥
१५२. लंतकादि सहस्सार, तिरि-पं. सन्नी ऊपजै ।
सात णाणत्ता धार, लेश्या नों नहि णाणत्तो ॥
१५३. उत्कृष्ट गमके दोय, आयु नैं अनुबंध फुन ।
जघन्योत्कृष्ट सुहोय, कोड़ पूर्व नों आखियो ॥
१५४. सन्नी मनु संख्याय, सौधर्म नैं ईशाण में ।
ऊपजतां नैं पाय, जघन्य गमे पंच णाणत्ता ॥
१५५. पृथक अंगुल अवगाह, भजना ज्ञान अज्ञान त्रिण ।
समुद्घात पंच ताह, पृथक मास अनुबंध स्थिति ॥
१५६. उत्कृष्ट गमके तीन, अवगाहन जघन्योत्कृष्ट ।
धनुष्य पंच सय चीन, आयु अनुबंध कोड़ पुव्व ॥
१५७. सनतकुमारज आदि, विमान च्यार अनुत्तरे ।
मनु ऊपजतां लाधि, जघन्य गमे त्रिण णाणत्ता ॥
१५८. जघन्योत्कृष्ट अवगाह, पृथक हस्त तर्णी कही ।
आयु अनुबंध ताह, पृथक वर्ष जघन्योत्कृष्ट ॥
१५९. उत्कृष्ट गमके तीन, अवगाहन जघन्योत्कृष्ट ।
धनुष्य पंच सय चीन, आयु अनुबंध कोड़ पुव्व ॥
१६०. सव्वट्टसिद्ध रैं मांहि, जघन्य स्थितिक मनु ऊपजै ।
तीन णाणत्ता ताहि, धुर गम तर्णी अपेक्षया ॥

बा०—मनुष्य मरी नैं सर्वार्थसिद्ध में ऊपजै, तेहनैं विषे पहिला तीन गमा हिज हुवै । इहां जघन्य स्थिति नां अभाव थी मध्यम तीन गमा न हुवै । अनें उत्कृष्ट स्थिति नां अभाव थी छेहला तीन गमा पिण न हुवै । तिहां अजघन्योत्कृष्ट तेतीस सागर नीं स्थिति माटै तेहनैं ओधिक कहियै ते माटै प्रथम तीन गमा हुवै, इम पूर्व वृत्तिकार कह्यु । तिण लेखे मनुष्य मरी सर्वार्थसिद्ध नैं विषे ऊपजै, तेहनां तीन गमा ए हुवै—ओधिक नैं ओधिक, जघन्य नैं ओधिक, उत्कृष्ट नैं ओधिक—ए लौकिक केहण माटै पहिलो, चौथो अनें सातमो गमक हुवै इहां जघन्य गमे णाणत्ता ३, उत्कृष्ट गमे णाणत्ता ३ हुवै । अनें कोटा वाला यंत्र नैं विषे कह्यु मनुष्य सर्वार्थसिद्ध नैं विषे ऊपजै, तेहनां ३ गमा—तीजो, छठो, नवमो गमो हुवै ।

१६१. जघन्योत्कृष्ट अवगाह, पृथक हस्त तर्णी कही ।
आयु अनुबंध ताह, पृथक वर्ष जघन्योत्कृष्ट ॥

१६२. जेष्ठ स्थितिक मनु जंत, अवगाहन जघन्योत्कृष्ट ।
धनुष पंच सय हुंत, आयु अनुबंध कोड़ पुव्व ॥
१६३. सव्वट्टसिद्ध रै मांय, ऊपजतां सन्नी मनुष्य ।
गमा तीनज पाय, टूटै शेषज षट गमा ॥
१६४. वैमानिक रै मांय, ऊपजतां नै णाणत्ता ।
इक सय त्राण् पाय, बे सय गुणती गमक सहु ॥
१६५. सत्तवीस छै स्थान, इक-इक स्थानक नां वलि ।
नव-नव गमका जान, बे सय तयांलीस इम ॥
१६६. सौधर्म नै ईशाण, ऊपजतां तिरि मनु युगल ।
सात-सात गम जाण, बे-बे तूटा अष्ट इम ॥
१६७. सव्वट्टसिद्ध रै मांहि, मनु ऊपजतां त्रिण गमा ।
तूटा षट गम ताहि, इम तूटा चवदै गमा ॥
१६८. शेष रह्या ए सोय, बे सय गुणती गमक जे ।
न्याय विचारी जोय, निपुण बुद्धि करि एहनों ॥
१६९. *ए चउवीसम शतक नां, त्रिण सय इकवीस स्थान जी ।
अष्टवीस सय ऊपरै, गमा निव्यासी जान जी ॥
१७०. संमूर्च्छिम मनु साठ गम, युगल तिरिय मनु वार जी ।
षट-षट गति आगति सव्वट्ट, ए तूटा असी च्यार जी ॥
१७१. पृथ्वी प्रमुख मनुष्य में, संमूर्च्छिम मनु जंत जी ।
तूटै तसु षट-षट गमा, साठ गमा इम हुंत जी ॥
१७२. धुर बे कल्प रु जोतिषी, युगल तिरिय मनु जंत जी ।
तूटै तसु चिहुं-चिहुं गमा, द्वादश गम इम हुंत जी ॥
१७३. गमनागमने सव्वट्टसिद्ध, षट-षट गम तूटंत जी ।
एवं चउरासी गमा, तूटै तसु विरतंत जी ॥
१७४. शतक चउवीसम अर्थ थी, आख्यो चउवीसमुद्देश जी ।
उगणीसै तेवीस आसाढ विद, तीज भृगुवार विशेष जी ॥
१७५. ढाल ए च्यार सय ऊपरै, प्रवर बतीसमीं पेख जी ।
भिक्षु भारीमाल ऋषिराय थी,
'जय-जश' हरष विशेष जी ॥

चतुर्विंशतितमशते चतुर्विंशोद्देशकार्थः ॥२४॥२४॥

गीतक छंद

१. चउवीसमें शत चरम जिनवर, अर्थ आख्या गुणनिला ।
पर अर्थ निपुणज गणधरे, जे स्थापिया सूत्रे भला ॥
२. तसु बुद्धि पिण बहु गमक करि, विस्तारवा वांछै नहीं ।
फुन अम्ह जिसा किम कही सकै,
गंभीर अर्थ जिके सही ॥

१७४. चतुर्विंशतितमशते चतुर्विंशतितमः ॥२४॥
समाप्तं च विवरणतश्चतुर्विंशतितमं शतम् ॥२४॥
(वृ० प० ८५२)

*लय : मम करो काया माया

२०८ भगवती जोड़

गमा रा यंत्र

२४ ढंडकां में जे जे ठिकाणां नां ऊपजै तेहनों यंत्र

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२४ ढंडक के नाम	सात नारकी	असुर कुमार	नाग कुमार	सुपर्ण कुमार	विद्युत कुमार	अग्नि कुमार	द्वीप कुमार	उदधि कुमार	दिग कुमार	वायु कुमार	स्तनित कुमार	पृथ्वीकाय	अपक
जेतता ठिकाणां नां ऊपजै	१५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	५	२६	२६
जे जे ठिकाणां नां ऊपजै, तेहनां	प्रथम नारकी में ३ ठिकाणां नां ऊपजै - असत्री तिर्यच पंचेंद्री १ सत्री तिर्यच पंचेंद्री २ सत्री मनुष्य ३	असत्री तिर्यच पंचेंद्री १ सत्री तिर्यच पंचेंद्री २ सत्री मनुष्य ३	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	अ	भवनपति १० पाच स्थावर १५ तीन विकलेंद्री १८ असत्री तिर्यच पंचेंद्री १६ सत्री तिर्यच पंचेंद्री २० संख्याता वर्ष नां सत्री मनुष्य २१ असत्री मनुष्य २२ व्यंतर २३	
न्यास न्यास			र	र	र	र	र	र	र	र	र		
नाम कहै	दूनी नारकी में २ ठिकाणां नां ऊपजै - सत्री तिर्यच पंचेंद्री १ सत्री मनुष्य २ शेष पांच नारकी में पिण दो-दो ठिकाणां नां ऊपजै - सत्री तिर्यच पंचेंद्री १ सत्री मनुष्य २ एवं सात नारकी में सर्व १५ ठिकाणां नां ऊपजै ।	तिर्यच युगलियो ४ मनुष्य युगलियो ५	र	र	र	र	र	र	र	र	र		
छे			व	व	व	व	व	व	व	व	व	ज्योतिषी २४ प्रथम दो देवलोक २६	

प्रथम नरक रत्नप्रभा में ३ ठिकाणां नां ऊपजै - असत्री तिर्यच पंचेंद्रीय १, संख्याता वर्षनां सत्री तिर्यच पंचेंद्रीय २, संख्याता वर्ष नां सत्री मनुष्य ३ ।

१ प्रथम नरक में असत्री तिर्यच पंचेंद्रीय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नीं संख्या अनै तेहनां नाम	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार एक समय में केता ऊपजै		३ संघर्षण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टिद्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० सर्प
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	१
१.	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै अंसखभाग	१,२,३ उपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख्यातमो भाग	हजार जोजन जलघरादि नी अपेक्षा	१ हुंडक	३ कृष्ण, नील कापोत	१ मिथ्या दृष्टि पर्याप्ता माटे	असत्री पर्याप्ता में न हुवै	२ मति श्रुत	२ वचन, काया	१ सर्प अपक
२.	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष												
३.	ओधिक नै उत्कृष्ट	पत्यनैअसंख भाग	पत्य नै असंख भाग												
४.	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै असंख भाग	१,२,३ उपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख्यातमो भाग	हजार जोजन जलघरादि नी अपेक्षा	१ हुंडक	३ कृष्ण, नील कापोत	१ मिथ्या दृष्टि पर्याप्ता माटे	असत्री पर्याप्ता में न हुवै	२ मति श्रुत	२ वचन, काया	१ सर्प अपक
५.	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष												
६.	जघन्य नै उत्कृष्ट	पत्यनैअसंख भाग	पत्य नै असंख भाग												
७.	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै असंख भाग	१,२,३ उपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख्यातमो भाग	हजार जोजन जलघरादि नी अपेक्षा	१ हुंडक	३ कृष्ण, नील कापोत	१ मिथ्या दृष्टि पर्याप्ता माटे	असत्री पर्याप्ता में न हुवै	२ मति श्रुत	२ वचन, काया	१ सर्प अपक
८.	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष												
९.	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	पत्यनैअसंख भाग	पत्य नै असंख भाग												

वार्त्तिका - 'असत्री तिर्यच पंचेंद्री प्रथम नरक में ऊपजै तिन में समदृष्टि तथा ज्ञान न कइया । अनै असत्री तिर्यच में और सूत्रे समदृष्टि तथा ये ज्ञान कइया । इहा समदृष्टि अनै ज्ञान न कइया ते कारण कांइ ? इति प्रश्नः उत्तर - इहां धुर सूत्रे इम पृच्छयो-जो असत्री तिर्यच पंचेंद्री थकी ऊपजै तो हे भगवंत! सूं जलघर थकी, कै थलघर थकी, कै खेघर थकी ऊपजै? जिन कहै - हे गोतम! त्रिहुं थकी ऊपजै । जो त्रिहुं थकी ऊपजै तो सूं पर्याप्ता के अपर्याप्ता मरी ऊपजै ? जिन कहै - हे गोतम! पर्याप्ता थकी ऊपजै, पिण अपर्याप्ता थकी न ऊपजै । पर्याप्तो असत्री तिर्यच पंचेंद्री ऊपजवा जोग्य ते रत्नप्रभा नै विषै ऊपजै, शेष ६ नारक न ऊपजै । पर्याप्तो असत्री तिर्यच रत्नप्रभा में ऊपजवा जोग्य ते किति स्थिति नै विषै ऊपजै? इत्यादि द्वार । सातमा द्वार में १ मिथ्यादृष्टि कही । आठमा द्वार में २ अज्ञान कइया । ते इहां पर्याप्तोज नरक में ऊपजै, ते ऊपजवा जोग्य पर्याप्तो । तिन में समदृष्टि तथा ज्ञान न हुवै एहवू जगाय छै । अथवा सारवादन सम्यक्त्वंत असत्री तिर्यच पंचेंद्री नरक में न ऊपजतो हुवै तो पिण ज्ञानी जाणै । १० भवणपति तथा व्यंतर में असत्री तिर्यच पंचेंद्री ऊपजै तिहा पिण समदृष्टि तथा ज्ञान न कइया । ते पिण असत्री तिर्यच पंचेंद्री ऊपजवा जोग्य ते पर्याप्ता माटे समदृष्टि तथा ज्ञान न कइया इति भाव जगाय छै । (ज.स.)

१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
तेजकाय	वायुकाय	वनस्पतिकाय	बैन्द्रिय	तैन्द्रिय	चउरिन्द्रिय	तिर्यच पंचेद्री	मनुष्य	व्यंतर	ज्योतिषी	वैमानिक
१२	१२	२६	१२	१२	१२	३६	४३	५	४	२७
५						सात नारकी ७ दस भवनपति १७ पांच धार २२ तीन विकलेद्री २५ असन्नी तिर्यच पंचेद्री २६ संख्यात वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेद्री २७ संख्यात वर्ष नां सन्नी मनुष्य २८ असन्नी मनुष्य २९ व्यंतर ३० ज्योतिषी ३१ आठ पहिला देव लोक ३६	छह नारकी ६ दस भवनपति १६ पृथ्वी १७ अप १८ वनस्पति १६ तीन विकलेद्री २२ असन्नी तिर्यच पंचेद्री २३ संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेद्री २४ असन्नी मनुष्य २५ संख्यात वर्ष नां सन्नी मनुष्य २६ व्यंतर २७ ज्योतिषी २८ बारह देवलोक ४० नव ग्रैवेयक ४१ चार अनुत्तर विमान ४२ सर्वार्थ सिद्ध ४३	अ सु र कु मा र व त	संख्यात वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेद्री १ संख्यात वर्ष नां सन्नी- मनुष्य २ तिर्यच युगलियो ३ मनुष्य युगलियो ४	पहिला दूजा देव लोक में चार-चार ठिकाणां नां ऊपजे-संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेद्री १ संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २ तिर्यच युगलियो ३ मनुष्य युगलियो ४ एवं ८ तीजा देव लोक स्युं आठवां देवलोक ताई दो-दो ठिकाणां नां ऊपजे-संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच १ संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २ एवं १२ नवमां देवलोक सूं बारमा देवलोक ताई, नौ ग्रैवेयक, चार अनुत्तर विमान अर्थात् सर्वार्थसिद्ध-ए सात ठिकाणां में एक-एक ठिकाणां नां ऊपजे-संख्यात वर्ष नां सन्नी मनुष्य १ एवं ८+१२+७ सर्व २७ ठिकाणां नां वैमानिक में ऊपजे ।

११	१२	१३	१४	१५	१६	१७		१८	१९		नाणत्ता	भव		२०	
						आयु	द्वार		अध्यवसाय	द्वार		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट भव
४	४	५	७	२	३	जघन्य	उत्कृष्ट	असंख्याता	जघन्य	उत्कृष्ट	०	२	२	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष	१ कोड पूर्व पत्य रो असंख्यातमो भाग
४	४	५	३	२	१	अंत- मुहूर्त	कोड पूर्व	भला, भूडा	अंत- मुहूर्त	कोड पूर्व	०	२	२	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. पत्य नौ असंख्या- तमो भाग	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य रो असंख्यातमो भाग
४	४	५	३	२	१	अंत- मुहूर्त	अत- मुहूर्त	भूडा, नरक में जावे ते माटे	अंत- मुहूर्त	अंत- मुहूर्त	३	२	२	१ अंतर्मु. पत्य रो असंख्यातमो भाग १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. पत्य रो असंख्य तमो भाग	१ अंतर्मु. पत्य रो असंख्यातमो भाग १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु० पत्य रो असंख्यातमो भाग
४	४	५	३	२	१	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला, भूडा,	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२	२	२	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य रो असंख्या तमो भाग	१ कोड पूर्व पत्य रो असंख्या-तमो भाग १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य रो असंख्या-तमो भाग

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घातद्वार	१५ वेदनाद्वार	१६ वेदद्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	७	२	३							२	८	१ अंतर्मु० १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४ सागर
५	४	५	वेदना, कषाय, मारणा० वेक्रिय, तेजस	२	३	अंतर्मु०	कोड पूर्व	भला, भूंडा	अंतर्मु०	कोड पूर्व	०	२	८	१ अंतर्मु० १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष
											८ अवगाहना, लेश्या,	२	८	१ अंतर्मु० १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु० ४ सागर
५	४	५	वेदना, कषाय, मारणांतिक	२	३	अंतर्मु०	अंतर्मु०	भूंडा	अंतर्मु०	अंतर्मु०	दृष्टि, अज्ञान, रामुदघात, आयु, अध्यवसाय, अनुबंध	२	८	१ अंतर्मु० १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु० ४० हजार वर्ष
												२	८	१ अंतर्मु० १ सागर	४ अंतर्मु० ४ सागर
५	४	५	५ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला, भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु, अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४ सागर
												२	८	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष
												२	८	१ कोड पूर्व १ सागर	४ कोड पूर्व ४ सागर

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घातद्वार	१५ वेदनाद्वार	१६ वेदद्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
५	४	५	६ पहिली	२	३	पृथक मास	कोड पूर्व	भला भूंडा	पृथक मास	कोड पूर्व	०	२	८	१ पृथक मास १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४ सागर
												२	८	१ पृथक मास १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष
												२	८	१ पृथक मास १ सागर	४ कोड पूर्व ४ सागर
५	४	५	५ पहिली	२	३	पृथक मास	पृथक मास	भला भूंडा	पृथक मास	पृथक मास	५ अवगाहना, ज्ञान, समुद्घात, आयु अनुबंध	२	८	१ पृथक मास १० हजार वर्ष	४ पृथक मास ४ सागर
												२	८	१ पृथक मास १० हजार वर्ष	४ पृथक मास ४० हजार वर्ष
												२	८	१ पृथक मास १ सागर	४ पृथक मास ४ सागर
५	४	५	६ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना, आयु अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४ सागर
												२	८	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष	४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष
												२	८	१ कोड पूर्व १ सागर	४ कोड पूर्व ४ सागर

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेदद्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
														जघन्य	उत्कृष्ट
५	४	५	५ पहिली	२	३	१ अंतर्मुहूर्त	कोड पूर्व	भला, भूंडा	अंतर्मुहूर्त	कोड पूर्व	०	२	८	१ अंतर्मुहूर्त १ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर
												२	८	१ अंतर्मुहूर्त १ सागर	४ कोड पूर्व ४ सागर
												२	८	१ अंतर्मुहूर्त ३ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर
५	४	५	३ पहिली	२	३	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	८ अव, लेश्या दृष्टि, अज्ञान, समु, आयु, अध्य. अनुबंध	२	८	१ अंतर्मुहूर्त १ सागर	४ अंतर्मुहूर्त १२ सागर
												२	८	१ अंतर्मुहूर्त १ सागर	४ अंतर्मुहूर्त ४ सागर
												२	८	१ अंतर्मुहूर्त ३ सागर	४ अंतर्मुहूर्त १२ सागर
५	४	५	५ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला, भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर
												२	८	१ कोड पूर्व १ सागर	४ कोड पूर्व ४ सागर
												२	८	१ कोड पूर्व ३ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर

५ दूजी नरक में संख्याता वर्ष नों सन्नी मनुष्य ऊपजे तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३						
१	ओधिक नै ओधिक	१ सागर	३ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	६	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ सागर	१ सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ सागर	३ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	१ सागर	३ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	६	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ सागर	१ सागर												
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	३ सागर	३ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ सागर	३ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	६	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ सागर	१ सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ सागर	३ सागर												

सीजी नरक बालुकाप्रभा में २ ठिकानां नां ऊपजे—संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेंदिय १, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २।

६ तीजी नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेंदिय ऊपजे तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३						
१	ओधिक नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता या असंख्याता ऊपजे	५ पहिला	अंगुल नो असंख्यातमो भाग	हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता या असंख्याता ऊपजे	५ पहिला	अंगुल नो असंख्यातमो भाग	पृथक् धनुष्य	६	३ पहिली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता या असंख्याता ऊपजे	५ पहिला	अंगुल नो असंख्यातमो भाग	हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												

७ तीजी नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ऊपजे तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३						
१	ओधिक नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	५ पहिली	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	५ पहिली	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३ सागर	७ सागर	१.२.३ ऊपजे	संख्याता ऊपजे	५ पहिली	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	३ सागर	३ सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	७ सागर	७ सागर												

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	७	२	३	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	कोड कोड पूर्व	०	२	८	१ पृथक् वर्ष १ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर
४	४	५	६ पहिली	२	३	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अवगाहना, आयु, अनु.	२	८	१ पृथक् वर्ष १ सागर	४ पृथक् वर्ष १२ सागर
४	४	५	६ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना, आयु, अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १ सागर	४ कोड पूर्व १२ सागर

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	५ पहिली	२	३	अंतर्गृहीत	कोड पूर्व	मला भूंडा	अंतर्गृहीत	कोड पूर्व	०	२	८	१ अंतर्गृहीत ३ सागर	४ कोड पूर्व २८ सागर
४	४	५	३ पहिली	२	३	अंतर्गृहीत	अंतर्गृहीत	भूंडा	अंतर्गृहीत	अंतर्गृहीत	८ अव, लेख्या, दृष्टि, अज्ञान, समु, आयु अध्ये० अनुबंध	२	८	१ अंतर्गृहीत ३ सागर	४ अंतर्गृहीत २८ सागर
४	४	५	५ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला, भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु, अनु.	२	८	१ कोड पूर्व ३ सागर	४ कोड पूर्व २८ सागर

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	६ पहिली	२	३	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	०	२	८	१ पृथक् वर्ष ३ सागर	४ कोड पूर्व २८ सागर
४	४	५	६ पहिली	२	३	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अवगाहना, आयु अनुबंध	२	८	१ पृथक् वर्ष ३ सागर	४ पृथक् वर्ष २८ सागर
४	४	५	६ पहिली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना, आयु अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व ३ सागर	४ कोड पूर्व २८ सागर

चौथी नरक पंचम्या में २ ठिकाणां नां ऊपजै-संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेदी १, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २।

८ चौथी नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २		
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३				
१	ओधिक नै ओधिक	७ सागर	१० सागर		संख्याता या असंख्याता ऊपजै	४ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	१ हजार योजन	६	६	३			३	२		
२	ओधिक नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	४ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	पृथक् धनुष्य	६	३ पहली	१ मिथ्या	३	३	३	२		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३
४	जघन्य नै ओधिक	७ सागर	१० सागर									०	२ नियमा			३	२
५	जघन्य नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	४ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	पृथक् धनुष्य	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	७ सागर	१० सागर									३	३			३	३
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	४ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	१ हजार योजन	६	६	३	३	३	३	२		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३

९ चौथी नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ऊपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २		
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३				
१	ओधिक नै ओधिक	७ सागर	१० सागर		संख्याता ऊपजै	४ पहला	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४	३	३	२		
२	ओधिक नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	४ पहला	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४	३	३	२		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									४	३			४	३
४	जघन्य नै ओधिक	७ सागर	१० सागर									४	३			४	३
५	जघन्य नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	४ पहला	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४	३	३	२		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									४	३			४	३
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	७ सागर	१० सागर									४	३			४	३
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	७ सागर	७ सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	४ पहला	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४	३	३	२		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									४	३			४	३

पांचमी नरक पूषम्या में २ ठिकाणां नां ऊपजै-संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेदी १, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २।

१० पांचमी नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २		
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३				
१	ओधिक नै ओधिक	१० सागर	१० सागर		संख्याता या असंख्याता ऊपजै	३ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	हजार योजन	६	६	३	३	३	३	२		
२	ओधिक नै जघन्य	१० सागर	१० सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	३ पहला	अंगुल नौ असंख्य भाग	पृथक् धनुष्य	६	३ पहली	१ मिथ्या	३	३	३	२		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३
४	जघन्य नै ओधिक	१० सागर	१० सागर									०	२ नियमा			३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० सागर	१० सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	३	अंगुल नौ असंख्य भाग	हजार योजन	६	६	३	३	३	३	२		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० सागर	१० सागर	१,२,३ ऊपजै	संख्याता या असंख्याता ऊपजै	३	अंगुल नौ असंख्य भाग	हजार योजन	६	६	३	३	३	३	२		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर									३	३			३	३

११ पांचमी नरक में संख्याता वर्ष नां सत्री मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० सागर	१० सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	३ पहला	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	१० सागर	१० सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	३ पहला	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० सागर	१० सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	३ पहला	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१० सागर	१० सागर												

छट्टी नरक तमप्रभा में २ ठिकाणां नां रूपजै - संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच १, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २।

१२ छट्टी नरक में संख्याता वर्ष नां सत्री तिर्यच रूपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१, २, ३ रूपजै	संख्याता या असंख्याता रूपजै	२ पहला	अंगुल नै असंख भाग	१ हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१, २, ३ रूपजै	संख्याता या असंख्याता रूपजै	२ पहला	अंगुल नै असंख भाग	पृथक् धनुष्य	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
६	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१, २, ३ रूपजै	संख्याता या असंख्याता रूपजै	२ पहला	अंगुल नै असंख भाग	हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												

१३ छट्टी नरक में संख्याता वर्ष नां सत्री मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	२ पहिला	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	२ पहिला	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
६	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० सागर	२२ सागर	१,२,३ रूपजै	संख्याता रूपजै	२ पहिला	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० सागर	१० सागर												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	२२ सागर	२२ सागर												

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	६ केवलवर्जी	२	३	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	०	२	८	१ पृथक् वर्ष १० सागर १ पृथक् वर्ष १० सागर १ पृथक् वर्ष १७ सागर	४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ४० सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर
४	४	५	६ केवलवर्जी	२	३	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अवगाहना आयु अनुबंध	२	८	१ पृथक् वर्ष १० सागर १ पृथक् वर्ष १० सागर १ पृथक् वर्ष १७ सागर	४ पृथक् वर्ष ६८ सागर ४ पृथक् वर्ष ४० सागर ४ पृथक् वर्ष ६८ सागर
४	४	५	६ केवलवर्जी	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना आयु अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १० सागर १ कोड पूर्व १० सागर १ कोड पूर्व १७ सागर	४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ४० सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्गृह्य	कोड पूर्व	मला भूंडा	अंतर्गृह्य	कोड पूर्व	०	२	८	१ अंतर्गृह्य १७ सागर १ अंतर्गृह्य १७ सागर १ अंतर्गृह्य २२ सागर	४ कोड पूर्व ८८ सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ८८ सागर
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्गृह्य	अंतर्गृह्य	भूंडा	अंतर्गृह्य	अंतर्गृह्य	८ अव० लेखा, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, समु०, आयु, अद्य, अनु०	२	८	१ अंतर्गृह्य १७ सागर १ अंतर्गृह्य १७ सागर १ अंतर्गृह्य २२ सागर	४ अंतर्गृह्य ८८ सागर ४ अंतर्गृह्य ६८ सागर ४ अंतर्गृह्य ८८ सागर
४	४	५	५ पहली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु, अनुबंध	२	८	१ कोड पूर्व १७ सागर १ कोड पूर्व १७ सागर १ कोड पूर्व २२ सागर	४ कोड पूर्व ८८ सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ८८ सागर

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	६ पहली	२	३	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	०	२	८	१ पृथक् वर्ष १७ सागर १ पृथक् वर्ष १७ सागर १ पृथक् वर्ष २२ सागर	४ कोड पूर्व ८८ सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ८८ सागर
४	४	५	६ पहली	२	३	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अवगाहना, आयु, अनु.	२	८	१ पृथक् वर्ष १७ सागर १ पृथक् वर्ष १७ सागर १ पृथक् वर्ष २२ सागर	४ पृथक् वर्ष ८८ सागर ४ पृथक् वर्ष ६८ सागर ४ पृथक् वर्ष ८८ सागर
४	४	५	६ पहली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना, आयु, अनु.	२	८	१ कोड पूर्व १७ सागर १ कोड पूर्व १७ सागर १ कोड पूर्व २२ सागर	४ कोड पूर्व ८८ सागर ४ कोड पूर्व ६८ सागर ४ कोड पूर्व ८८ सागर

सातमीं नरक तमतमा में २ ठिकाणां ना ऊपजै - संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच १, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य २।

१४ सातमीं नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	अवगाहना द्वार				५	३		
						जघन्य		उत्कृष्ट	५	३					
१	ओधिक नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता या	१ बज्र	अंगुलनों	हजार	६	६	३	३	३	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	असंख्याता	ऋषभ	असंख	योजन				३	३		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर		ऊपजै	नाराच	भाग								
४	जघन्य नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता या	१ बज्र	अंगुलनों	पृथक्	६	३	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	असंख्याता	ऋषभ	असंख	धनुष्य		पहली	मिथ्या		नियमा		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर		ऊपजै	नाराच	भाग								
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता या	१ बज्र	अंगुलनों	हजार	६	६	३	३	३	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	असंख्याता	ऋषभ	असंख	योजन				३	३		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर		ऊपजै	नाराच	भाग								

१५ सातमीं नरक में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ऊपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	अवगाहना द्वार				५	३		
						जघन्य		उत्कृष्ट	५	३					
१	ओधिक नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता	वज्र	पृथक्	५ सौ	६	६	३	४	३	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	हाथ	धनुष्य				४	३		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर												
४	जघन्य नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता	वज्र	पृथक्	पृथक्	६	६	३	४	३	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	हाथ	हाथ				४	३		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	२२ सागर	३३ सागर	१,२,३	संख्याता	वज्र	५ सौ	५ सौ	६	६	३	४	३	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	२२ सागर	२२ सागर	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	धनुष्य				४	३		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३३ सागर	३३ सागर												

असुरकुमार में ५ ठिकाणां ना ऊपजै - असन्नी तिर्यच पंचेद्री १, तिर्यच युगलियो २, संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेद्री ३, मनुष्य युगलियो ४, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ५।

१६ असुरकुमार में असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	अवगाहना द्वार				५	३		
						जघन्य		उत्कृष्ट	५	३					
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै असंख्य भाग	१,२,३	संख्याता	१	अंगुलनों	१ हजार	१	३	१	०	२	२ वच,	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	या असंख्याता	छेवटो	असंख	योजन	हुंडक	पहली	मिथ्या		नियमा	काय	
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	पत्य नै असंख भाग	पत्य नै असंख भाग		ऊपजै		भाग								
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै असंख्य भाग	१,२,३	संख्याता	१	अंगुलनों	१ हजार	१	३	१	०	२	२ वच,	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	या असंख्याता	छेवटो	असंख	योजन	हुंडक	पहली	मिथ्या		नियमा	काय	
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	पत्य नै असंख भाग	पत्य नै असंख भाग		ऊपजै		भाग								
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नै असंख भाग	१,२,३	संख्याता	१	अंगुलनों	१ हजार	१	३	१	०	२	२ वच,	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	या असंख्याता	छेवटो	असंख	योजन	हुंडक	पहली	मिथ्या		नियमा	काय	
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	पत्य नै असंख भाग	पत्य नै असंख भाग		ऊपजै		भाग								

११ श्रद्धा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	५ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	अंत मुहूर्त	कोड पूर्व	मला भूंडा	अंतमुहूर्त	कोड पूर्व	०	३ ३ ३	७ ७ ५	२ अंतमुहूर्त २२ सागर २ अंतमुहूर्त २२ सागर २ अंतमुहूर्त ३३ सागर	४ कोड पूर्व ६६ सागर ४ कोड पूर्व ६६ सागर ३ कोड पूर्व ६६ सागर
४	४	५	३ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	अंतमु०	अंतमु०	भूंडा	अंतमु०	अंतमुहूर्त	८ अ० लेखा, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, समु० आयु, अय्य०, अनु०	३ ३ ३	७ ७ ५	२ अंतमुहूर्त २२ सागर २ अंतमुहूर्त २२ सागर २ अंतमुहूर्त ३३ सागर	४ अंतमुहूर्त ६६ सागर ४ अंतमुहूर्त ६६ सागर ३ अंतमुहूर्त ६६ सागर
४	४	५	५ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु, अनुबंध	३ ३ ३	७ ७ ५	२ कोड पूर्व २२ सागर २ कोड पूर्व २२ सागर २ कोड पूर्व ३३ सागर	४ कोड पूर्व ६६ सागर ४ कोड पूर्व ६६ सागर ३ कोड पूर्व ६६ सागर

नोट - ३३ सागर की स्थिति के उत्कृष्ट भव दो ही हो सकते हैं। यदि तीन भव होते हैं तो जघन्य स्थिति २२ सागर ही होते हैं।

११ श्रद्धा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	६ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	०	२ २ २	२ २ २	१ पृथक् वर्ष २२ सागर १ पृथक् वर्ष २२ सागर १ पृथक् वर्ष ३३ सागर	१ कोड पूर्व ३३ सागर १ कोड पूर्व २२ सागर १ कोड पूर्व ३३ सागर
४	४	५	६ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भूंडा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अवगाहना, आयु अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ पृथक् वर्ष २२ सागर १ पृथक् वर्ष २२ सागर १ पृथक् वर्ष ३३ सागर	१ पृथक् वर्ष ३३ सागर १ पृथक् वर्ष २२ सागर १ पृथक् वर्ष ३३ सागर
४	४	५	६ पहली	२	२ पुरुष नपुंसक	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अवगाहना, आयु अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ कोड पूर्व २२ सागर १ कोड पूर्व २२ सागर १ कोड पूर्व ३३ सागर	१ कोड पूर्व ३३ सागर १ कोड पूर्व २२ सागर १ कोड पूर्व ३३ सागर

११ श्रद्धा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० काय-संवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतमुहूर्त	कोड पूर्व	मला भूंडा	अंतमुहूर्त	कोड पूर्व	०	२ २ २	२ २ २	१ अंतमुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतमुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतमुहूर्त पत्य नों असंख भाग	१ कोड पूर्व पत्य नों असंख भाग १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य नों असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतमुहूर्त	अंतमुहूर्त	मला	अंतमुहूर्त	अंतमुहूर्त	३ आयु, अध्यवसाय, अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ अंतमुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतमुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतमुहूर्त पत्य नों असंख भाग	१ अंतमुहूर्त पत्य नों असंख भाग १ अंतमुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतमुहूर्त पत्य नों असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य नों असंख भाग	१ कोड पूर्व पत्य नों असंख भाग १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व पत्य नों असंख भाग

१७ असुर कुमार में तिर्यच युगलियो रूपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	३ पत्य	१, २, ३	संख्याता	१ वज	पृथक		रामघोरस			०	२ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	६ गाउ		४ पहली	१ मिथ्या				
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	६ गाउ	समघोरस	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	कोड पूर्व जाझी	१, २, ३	संख्याता	१ वज	पृथक		समघोरस			०	२ नियमा	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	हजार	योजन						
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	कोड पूर्व जाझी	कोड पूर्व जाझी	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	गाउ	समघोरस	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	३ पत्य	१, २, ३	संख्याता	१ वज	पृथक		समघोरस			०	२ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	गाउ		४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	धनुष्य	गाउ		४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२

१८ असुरकुमार में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच रूपजै तेहनो यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ सागर जाझी	१, २, ३	संख या	६	अंगुलनी	हजार	६	६	३	३	३	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख		असंख	योजन				३	३		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ सागर जाझी	१ सागर जाझी	ऊपजै	ऊपजै		भाग								
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ सागर जाझी	१, २, ३	संख या	६	अंगुलनी	पृथक	६	४	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख		असंख	धनुष्य		पहली	मिथ्या		नियमा		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ सागर जाझी	१ सागर जाझी	ऊपजै	ऊपजै		भाग								
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ सागर जाझी	१, २, ३	संख या	६	अंगुलनी	हजार	६	६	३	३	३	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख		असंख	योजन				३	३		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ सागर जाझी	१ सागर जाझी	ऊपजै	ऊपजै		भाग								

१९ असुरकुमार में मनुष्य युगलियो रूपजै तेहनो यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	३ पत्य	१, २, ३	संख्याता	१ वज	५ सी धनुष्य	३ गाउ	१	४	१	०	२	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	जाझी		समघोरस	पहली	मिथ्या		नियमा		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	३ गाउ	३ गाउ	समघोरस	पहली	मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ कोडपूर्व जाझी	१, २, ३	संख्याता	१ वज	५ सी धनुष्य	५ सी धनुष्य	१	४	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	जाझी		समघोरस	पहली	मिथ्या		नियमा		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व जाझी	१ कोडपूर्व जाझी	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	जाझी		समघोरस	पहली	मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	३ पत्य	१, २, ३	संख्याता	१ वज	३ गाउ	३ गाउ	१	४	१	०	२ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	३ गाउ	३ गाउ	समघोरस	पहली	मिथ्या		नियमा		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	३ गाउ	३ गाउ	समघोरस	पहली	मिथ्या		नियमा		

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	६ कोचल वजी	२		पृथक् मास	कोडपूर्व	भलाभूंडा	पृथक् मास	कोडपूर्व	०	२	८	१ पृथक्मास १० हजार वर्ष १ पृथक्मास १० हजार वर्ष १ पृथक्मास १ सागर जाडो	४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो
४	४	५	५	२	३	पृथक् मास	पृथक् मास	भलाभूंडा	पृथक् मास	पृथक् मास	५ अब०, ज्ञान, समु० आयु, अनुबंध	२	८	१ पृथक्मास १० हजार वर्ष १ पृथक्मास १० हजार वर्ष १ पृथक्मास १ सागर जाडो	४ पृथक्मास ४ सागर जाडो ४ पृथक्मास ४० हजार वर्ष ४ पृथक्मास ४ सागर जाडो
४	४	५	६	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भलाभूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	३ अब०, आयु, अनुबंध	२	८	१ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व १ सागर जाडो	४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुराक	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	भला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	०	२	२	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त, पत्य नो असंख भाग	१ कोडपूर्व पत्य नो असंख भाग १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नो असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुराक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	३ आयु अध्य० अनुबंध	२	२	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त, पत्य नो असंख भाग	१ अंतर्मुहूर्त, पत्य नो असंख भाग १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त, पत्य नो असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुराक	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भला भूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	३ आयु, अय० अनुबंध	२	२	१ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नो असंख भाग	१ कोडपूर्व पत्य नो असंख भाग १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नो असंख भाग

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	कोडपूर्व जाडो	३ पत्य	भला भूंडा	कोडपूर्व जाडो	३ पत्य	०	२	२	१ कोडपूर्व जा. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा. १० हजार वर्ष	३ पत्य २ पत्य देसूण ३ पत्य १० हजार वर्ष
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	२ पत्य देसूण	३ पत्य	भला भूंडा	२ पत्य देसूण	३ पत्य	२ आयु, अनु.	२	२	२ पत्य देसूण २ पत्य देसूण	३ पत्य २ पत्य देसूण
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	कोडपूर्व जाडो	कोडपूर्व जाडो	भला भूंडा	कोडपूर्व जाडो	कोडपूर्व जाडो	३ अवगाहना, आयु अनु.	२	२	१ कोडपूर्व जा. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा. १ कोडपूर्व जा.	१ कोडपूर्व जा. १ कोडपूर्व जा. १ कोडपूर्व जा. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा. १ कोडपूर्व जा.
४	४	५	३ पहली	२	३ स्त्री, पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनुबंध	२	२	३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य २ पत्य देसूण	३ पत्य २ पत्य देसूण ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य ० पत्य देसूण

२३ नव निकाय में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच रूपजै तेहनों यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता या	६	आंगुलनों	हजार	६	६	३	३	३	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख्याता		असंख	योजन				३	३		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य		ऊपजै		भाग								
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता या	६	आंगुलनों	पृथक्	६	४	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख्याता		असंख	धनुष्य		पहली	गिथ्या		२		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य		ऊपजै		भाग								
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता या	६	आंगुलनों	हजार	६	६	३	३	३	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	असंख्याता		असंख	योजन				३	३		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य		ऊपजै		भाग								

२४ नव निकाय में मनुष्य युगलियो रूपजै तेहनों यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता	१ वज्र	५ सौ धनुष्य	३ गाउ	१	४	१	०	२	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	जाड़ी		१	४	गिथ्या		२		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	देसूण २ गाउ	३ गाउ	१	४	गिथ्या		२	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	कोड पूर्व जाडो	१,२,३	संख्याता	१ वज्र	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	१	४	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	जाड़ी		१	४	गिथ्या		२		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	कोड पूर्व जाडो	कोड पूर्व जाडो						१	४	गिथ्या		२		
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता	१ वज्र	३ गाउ	३ गाउ	१	४	१	०	२	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच			१	४	गिथ्या		२		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य						१	४	गिथ्या		२		

२५ नव निकाय में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (५)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता	६	पृथक्	५ सौ	६	६	३	४	३	३	
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै		आंगुल	धनुष्य				४	३		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य												
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता	६	पृथक्	पृथक्	६	६	३	३	३	३	
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै		आंगुल	आंगुल				३	३		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	देसूण २ पत्य	१,२,३	संख्याता	६	५ सौ	५ सौ	६	६	३	४	३	३	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै		धनुष्य	धनुष्य				४	३		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	देसूण २ पत्य	देसूण २ पत्य												

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेद्य द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	मत्ता भूंडा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	०	२ २ २	२ २ २	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त २ पत्य देरूप	४ कोडपूर्व ८ पत्य देरूप ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ८ पत्य देरूप
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	मत्ता	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	८ अ.व. लेश्या, दृष्टि ज्ञान-अज्ञान, समु. आयु, अध्व, अनु.	२ २ २	२ २ २	१ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त १० हजार वर्ष १ अंतर्मुहूर्त २ पत्य देरूप	४ अंतर्मु. ८ पत्य देरूप ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ८ पत्य देरूप
४	४	५	५ पहली	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	मत्ता भूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	२ आयु अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व २ पत्य देरूप	४ कोडपूर्व ८ पत्य देरूप ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ८ पत्य देरूप

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेद्य द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	कोडपूर्व जाडी	३ पत्य	मत्ता भूंडा	कोडपूर्व जाडी	३ पत्य	०	२ २	२ २	१ कोडपूर्व जा० १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा० १० हजार वर्ष	३ पत्य २ पत्य देरूप ३ पत्य १० हजार वर्ष
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	देरूप २ पत्य	३ पत्य	मत्ता भूंडा	देरूप २ पत्य	३ पत्य	३ अवगाहना, आयु, अनुबंध	२ २	२ २	२ पत्य देरूप २ पत्य देरूप	३ पत्य २ पत्य देरूप
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	कोडपूर्व जाडी	कोडपूर्व जाडी	मत्ता भूंडा	कोडपूर्व जाडी	कोडपूर्व जाडी	३ अवगाहना, आयु, अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ कोडपूर्व जा० १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा० १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा० १ कोडपूर्व जा०	१ कोडपूर्व जा० १ कोडपूर्व जा० कोडपूर्व जा० १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जा० १ कोडपूर्व जा०
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	मत्ता भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	३ अवगाहना, आयु, अनुबंध	२ २ २	२ २ २	३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य २ पत्य देरूप	३ पत्य २ पत्य देरूप ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य २ पत्य देरूप

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेद्य द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	६ पहली	२	३	पृथक् मास	कोड पूर्व	मत्ता भूंडा	पृथक् मास	कोड पूर्व	०	२ २ २	२ २ २	१ पृथक् मास १० हजार वर्ष १ पृथक् मास १० हजार वर्ष १ पृथक् मास २ पत्य देरूप	४ कोड पूर्व ८ पत्य देरूप ४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोड पूर्व ८ पत्य देरूप
४	४	५	५ पहली	२	३	पृथक् मास	पृथक् मास	मत्ता भूंडा	पृथक् मास	पृथक् मास	५ अ.व., ज्ञान, समु० आयु० अनु०	२ २ २	२ २ २	१ पृथक् मास १० हजार वर्ष १ पृथक् मास १० हजार वर्ष १ पृथक् मास २ पत्य देरूप	४ पृथक् मास ८ पत्य देरूप ४ पृथक् मास ४० हजार वर्ष ४ पृथक् मास ८ पत्य देरूप
४	४	५	६ पहली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	मत्ता भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ अव० आयु० अनुबंध	२ २ २	२ २ २	१ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व १० हजार वर्ष १ कोड पूर्व २ पत्य देरूप	४ कोड पूर्व ८ पत्य देरूप ४ कोड पूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोड पूर्व ८ पत्य देरूप

अप तथा वनस्पति में २६-२६ ठिकाणां नां ऊपजै — दस भवनपति १०, व्यंतर ११, ज्योतिषी १२, प्रथम दो देवलोक १४, पांच स्थावर १६, तीन विकलेन्द्रिय २२, अरान्नी तिर्यच पंचेंदिय २३, सन्नी तिर्यच पंचेंदिय २४, अरान्नी मनुष्य २५, सन्नी मनुष्य कर्मभूमि २६। तेउ, वायु में १२-१२ ठिकाणां नां ऊपजै। १४ देवता रा टल्या।

४४ च्यार थावर में पृथ्वीकाय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपत्त द्वार		२ परिमाण द्वार		३ साधयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	२
												५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण ३ जघन्य उत्कृष्ट आयु में ऊपजै		१, २ गमै समय-समय असंख्याता ऊपजै ३ गमै जघन्य १, २, ३ उत्कृष्ट संख या असंख ऊपजै		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुलनों असंख भाग		मसूर चंद्र	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण ३ जघन्य नै जघन्य		ऊपरवत्		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुलनों असंख भाग		मसूर चंद्र	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण ३ उत्कृष्ट नै जघन्य		जघन्य १, २, ३ उत्कृष्ट संख या असंख ऊपजै		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुलनों असंख भाग		मसूर चंद्र	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२

२० कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में पृथ्वी		तेक में पृथ्वी	
	ज.	स.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल
२	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल
३	२	८	१ अंतर्मु, ७ हजार वर्ष	८८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, ३ दिन रात	८८ हजार वर्ष १२ दिन रात
४	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल
५	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु	असंख काल असंख काल
६	२	८	१ अंतर्मु, ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु, २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, ३ दिन रात	४ अंतर्मु, १२ दिन रात
७	२	८	२२ हजार वर्ष १ अंतर्मु	८८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष १ अंतर्मु	८८ हजार वर्ष १२ दिन रात
८	२	८	२२ हजार वर्ष १ अंतर्मु	८८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु	२२ हजार वर्ष १ अंतर्मु	८८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु
९	२	८	२२ हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	८८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष ३ दिन रात	८८ हजार वर्ष १२ दिन रात

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नापत्ता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	२२ हजार वर्ष	भलाभूंजा	अंतर्मुहूर्त	२२ हजार वर्ष	०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंजा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	४ लेश्या, आयु, अध्य० अनु०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	भलाभूंजा	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	२ आयु, अनुबंध

यायु में पृथ्वी		वनस्पति में पृथ्वी	
जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ८८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ८८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ४ अंतर्मुहूर्त १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
१२ हजार वर्ष १ अंतर्मु. २२ हजार वर्ष १ अंतर्मु. २२ हजार वर्ष ३ हजार वर्ष	८८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष ८८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ८८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष १ अंतर्मु. २२ हजार वर्ष १ अंतर्मु. २२ हजार वर्ष १० हजार वर्ष	८८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष ८८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ८८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष

४५ च्यार थावर में अपकाय रूपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य		६	६	३	५	३	३	२
							जघन्य	उत्कृष्ट							
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै	१, २	गमै समय समय असंख्याता रूपजै, ३ गमै जघन्य १, २, ३ उत्कृष्ट संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नों असंख भाग	थिबुक पाणी नां परपोटा	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
४	जघन्य नै ओधिक	२, ५, ८	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिणरे जघन्य आयु में रूपजै	रूपरवत्		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नों असंख भाग	थिबुक पाणी नां परपोटा	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३, ६, ९	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै	जघन्य १, २, ३ उत्कृष्ट संख या असंख रूपजै		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नों असंख भाग	थिबुक पाणी नां परपोटा	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में अप		तेऊ में अप	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
२	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
३	२	८	१ अंतर्मु, ७ हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, ३ दिन रात	२८ हजार वर्ष १२ दिन रात
४	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
५	२	असंख	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
६	२	८	१ अंतर्मु, ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु, २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, ३ दिन रात	४ अंतर्मु, १२ दिन रात
७	२	८	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष १२ दिन रात
८	२	८	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.
९	२	८	७ हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष ३ दिन रात	२८ हजार वर्ष १२ दिन रात

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	१ फर्ष	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	७ हजार वर्ष	मलामूंडा	अंतर्मुहूर्त	७ हजार वर्ष	०
४	४	१ फर्ष	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	मूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	४ लेश्या, आयु, अध्य० अनु०
४	४	१ फर्ष	३ पहली	२	१ नपुंसक	७ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष	मलामूंडा	७ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष	२ आयु, अनुबंध

वयु में अप		वनस्पति में अप	
जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
१ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंख काल असंख काल
१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	४ अंतर्मुहूर्त १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	४ अंतर्मुहूर्त ४० हजार वर्ष
४ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
४ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.	७ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	२८ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.
४ हजार वर्ष ३ हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	७ हजार वर्ष १० हजार वर्ष	२८ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष

४६ च्यावर थावर में तेरुकाय रूपजै तेहनों यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहन द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टिद्वार	८ ज्ञान- अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण काय में रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै	१, २	गमै समय समय असंख्याला रूपजै ३ गमै जघन्य १,२,३ उत्कृष्ट संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नौ असंख भाग	सूचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गमै जिण काय में रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै		रूपरबत्	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नौ असंख भाग	सूचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गमै जिण काय में रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै		जघन्य १,२,३ उत्कृष्ट संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल नौ असंख भाग	सूचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	

२० कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में तेऊ		तेऊ में तेऊ	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	असंख	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल
२	२	असंख	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल
३	२	८	१ अंतमुं, ७ हजार वर्ष	१२ दिन रात २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, ३ दिन रात	१२ दिन रात १२ दिन
४	२	असंख	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल
५	२	असंख	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	असंख काल असंख काल
६	२	८	१ अंतमुं, ७ हजार वर्ष	४ अंतमुं, २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, ३ दिन रात	४ अंतमुं, १२ दिन रात
७	२	८	३ दिन रात १ अंतमुं	१२ दिन रात २८ हजार वर्ष	३ दिन रात १ अंतमुं	१२ दिन रात १२ दिन
८	२	८	३ दिन रात १ अंतमुं	१२ दिन रात २८ हजार वर्ष	३ दिन रात १ अंतमुं	१२ दिन रात १२ दिन
९	२	८	३ दिन रात ७ हजार वर्ष	१२ दिन रात २८ हजार वर्ष	३ दिन रात ३ दिन रात	१२ दिन रात १२ दिन

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्गृहीत	३ दिन रात	भलाभूंडा	अंतर्गृहीत	३ दिन रात	०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्गृहीत	अंतर्गृहीत	भूंडा	अंतर्गृहीत	अंतर्गृहीत	३ आयु, अथ० अनु०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	३ दिन रात	३ दिन रात	भलाभूंडा	३ दिन रात	३ दिन रात	२ आयु, अनुबंध

वायु में तेज		वनरपति में तेज	
जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. ३ हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल १२ दिन रात १२ हजार वर्ष	१ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १० हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल १२ दिन रात ४० हजार वर्ष
१ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. ३ हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ४ अंतर्गु १२ हजार वर्ष	१ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १ अंतर्गु. १० हजार वर्ष	असंख काल असंख काल असंख काल असंख काल ४ अंतर्गु ४० हजार वर्ष
३ दिन रात १ अंतर्गु. ३ दिन रात १ अंतर्गु. ३ दिन रात ३ हजार वर्ष	१२ दिन रात १२ हजार वर्ष १२ दिन रात ४ अंतर्गु. १२ दिन रात १२ हजार वर्ष	३ दिन रात १ अंतर्गु. ३ दिन रात १ अंतर्गु. ३ दिन रात १० हजार वर्ष	१२ दिन रात ४० हजार वर्ष १२ दिन रात ४ अंतर्गु. १२ दिन रात ४० हजार वर्ष

४७ च्यार थावर में वायुकाय रूपजै तेहनों यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगहना द्वार		५ संताण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण जिण काय	१, २	गमै समय समय असंख्याता	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल	पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
२	ओधिक नै जघन्य	२,५,८	गमै जिण जिण काय में रूपजै विण रै जघन्य		रूपजै ३ गमै जघन्य १, २, ३		नों असंख भाग								
३	ओधिक नै उत्कृष्ट		उत्कृष्ट आयु में रूपजै		उत्कृष्ट संख या असंख रूपजै										
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गमै जिण जिण काय में रूपजै विण रै	रूपरवत्		१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल	पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
५	जघन्य नै जघन्य		जघन्य आयु में रूपजै				नों असंख भाग								
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गमै जिण जिण काय में रूपजै विण रै	जघन्य १, २, ३	उत्कृष्ट संख या	१ छेवटो	जघन्य उत्कृष्ट आंगुल	पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य		उत्कृष्ट आयु में रूपजै		असंख रूपजै		नों असंख भाग								
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में वायु		लोक में वायु	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
२	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
३	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	१२ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१२ हजार वर्ष १२ दिन रात
४	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
५	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
६	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४ अंतर्मु. १२ दिन रात
७	२	८	३ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१२ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	३ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१२ हजार वर्ष १२ दिन रात
८	२	८	३ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.	३ हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु.
९	२	८	३ हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	१२ हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	३ हजार वर्ष ३ दिन रात	१२ हजार वर्ष १२ दिन रात

११ संज्ञा द्वारा ४	१२ कथाय द्वारा ४	१३ इन्द्रिय द्वारा ५	१४ समुद्घात द्वारा ७	१५ वेदना द्वारा २	१६ वेद द्वारा ३	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा असंख्याता	१९ अनुबंध द्वारा		नाणसा
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	१ फर्श	४ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	३ हजार वर्ष	भलाभूंडा	अंतर्मुहूर्त	३ हजार वर्ष	०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मु	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	४ समु० आयु, अय्य० अनु.
४	४	१ फर्श	४ पहली	२	१ नपुंसक	३ हजार वर्ष	३ हजार वर्ष	भलाभूंडा	३ हजार वर्ष	३ हजार वर्ष	२ आयु, अनुबंध

वायु में वायु		वनस्पति में वायु	
जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	असंखकाल असंखकाल असंखकाल असंखकाल १२ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	असंखकाल असंखकाल असंखकाल असंखकाल १२ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	असंखकाल असंखकाल असंखकाल असंखकाल ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	असंखकाल असंखकाल असंखकाल असंखकाल ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
३ हजार वर्ष १ अंतर्मु. १ हजार वर्ष १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष ३ हजार वर्ष	१२ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	३ हजार वर्ष १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष १० हजार वर्ष	१२ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष १२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष ४० हजार वर्ष

४८ चार थावर में वनस्पति रूपजै तेहनों यंत्र (५)

गमा	२० द्वार भी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३						
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण काय		१, २ गमै समय समय		१ छेवटो	आंगुल नौ	१ हजार	नाना प्रकार नां	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
२	ओधिक नै जघन्य	में रूपजै तिण १ जघन्य		असंख रूपजै, वनस्पति में वनस्पति			असंख भाग	योजन							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	उत्कृष्ट आयु में रूपजै		समय समय अनंत रूपजै ३ गमै जघन्य				जाड़ी							
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण काय		ऊपरवत्		१ छेवटो	आंगुल नौ	१ हजार	नाना प्रकार नां	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
५	जघन्य नै जघन्य	में रूपजै तिणरे					असंख भाग	योजन							
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	जघन्य आयु में रूपजै						जाड़ी							
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण काय		जघन्य १,२,३ उत्कृष्ट		१ छेवटो	आंगुल नौ	१ हजार	नाना प्रकार नां	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	में रूपजै तिण २		संख या			असंख भाग	योजन							
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	उत्कृष्ट आयु में रूपजै		असंख रूपजै				जाड़ी							

२० कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में वनस्पति		रोक में वनस्पति	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
	१	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.
२	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
३	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४० हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४० हजार वर्ष १२ दिन रात
४	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
५	२	असंख	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल
६	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४ अंतर्मु. १२ दिन रात
७	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष १२ दिन रात
८	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु.
९	२	८	१० हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	४० हजार वर्ष २८ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष ३ दिन रात	४० हजार वर्ष १२ दिन रात

११ संज्ञा द्वारा ४	१२ कथाय द्वारा ४	१३ इन्द्रिय द्वारा ५	१४ समुदायतल द्वारा ७	१५ वेदना द्वारा २	१६ वेद द्वारा ३	१७ आयु द्वारा		१८ अध्ययसाय द्वारा असंख्याता	१९ अनुबंध द्वारा		नामसा
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	१० हजार वर्ष	मला भूजा	अंतर्मुहूर्त	१० हजार वर्ष	०
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूजा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	५ अव० लेश्या, आयु, अध्य०, अनुबंध
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	मलाभूजा	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	२ आयु, अनुबंध

वायु में वनस्पति		भव		वनस्थिति में वनस्पति	
जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	२	अन्त	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	अन्तकाल अन्तकाल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	२	अन्त	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	अन्तकाल अन्तकाल
१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	४० हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	२	८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	२	अन्त	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	अन्तकाल अन्तकाल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	असंखकाल असंखकाल	२	अन्त	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	अन्तकाल अन्तकाल
१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	२	८	१ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
४० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४० हजार वर्ष
४० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु.	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु.
४० हजार वर्ष ३ हजार वर्ष	४० हजार वर्ष १२ हजार वर्ष	२	८	१० हजार वर्ष १० हजार वर्ष	४० हजार वर्ष ४० हजार वर्ष

४६ चार थावर में बेइन्द्रिय ऊपजै तेहर्नो यंत्र (६)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपसोमद्वा	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	२	
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गर्भे जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१२ योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियम	२ बघ काय	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गर्भे जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै जघन्य आयु में ऊपजै	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	आंगुल नौ असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियम	१ काय	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गर्भे जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१२ योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियम	२ बघ काय	२

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में बेइन्द्रिय		तेऊ में बेइन्द्रिय	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
२	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
३	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४८ वर्ष २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४८ वर्ष १२ दिन रात
४	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
५	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
६	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४ अंतर्मु. १२ दिन रात
७	२	८	१२ वर्ष १ अंतर्मु.	४८ वर्ष २८ हजार वर्ष	१२ वर्ष १ अंतर्मु.	४८ वर्ष १२ दिन रात
८	२	८	१२ वर्ष १ अंतर्मु.	४८ वर्ष ४ अंतर्मु.	१२ वर्ष १ अंतर्मु.	४८ वर्ष ४ अंतर्मु.
९	२	८	१२ वर्ष ७ हजार वर्ष	४८ वर्ष २८ हजार वर्ष	१२ वर्ष ३ दिन रात	४८ वर्ष १२ दिन रात

११ श्रुति द्वारा ४	१२ कथाय द्वारा ४	१३ इन्द्रिय द्वारा ५	१४ समुद्घात द्वारा ७	१५ वेदना द्वारा २	१६ वेद द्वारा ३	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा असंख्याता	१९ अनुबंध द्वारा		नापात्ता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	२ फर्श रस	३ पहली	२	१ नमुंसक	अंतर्मुहूर्त	१२ वर्ष	मलामूंडा	अंतर्मुहूर्त	१२ वर्ष	०
४	४	२ फर्श रस	३ पहली	२	१ नमुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	७ अब० दृष्टि, ज्ञान, योग, आयु, अर्थ, अनु०
४	४	२ फर्श रस	३ पहली	२	१ नमुंसक	१२ वर्ष	१२ वर्ष	मलामूंडा	१२ वर्ष	१२ वर्ष	२ आयु, अनुबंध

वायु में वेइन्द्रिय		वनस्पति में वेइन्द्रिय	
जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४८ वर्ष १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४८ वर्ष ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
१२ वर्ष १ अंतर्मु. १२ वर्ष १ अंतर्मु. १२ वर्ष ३ हजार वर्ष	४८ वर्ष १२ हजार वर्ष ४८ वर्ष ४ अंतर्मु. ४८ वर्ष १२ हजार वर्ष	१२ वर्ष १ अंतर्मु. १२ वर्ष १ अंतर्मु. १२ वर्ष १० हजार वर्ष	४८ वर्ष ४० हजार वर्ष ४८ वर्ष ४ अंतर्मु. ४८ वर्ष ४० हजार वर्ष

५० चार थावर में तेइंद्रिय रूपजे तेहनों यंत्र (७)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६			६
						६			६	३	५			३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गर्म जिण जिण काय में रूपजे तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजे।	१,२,३	रूपजे	संख या असंख रूपजे	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	३ गाउ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काय	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गर्म जिण जिण काय में रूपजे तिण रै जघन्य आयु में रूपजे	१,२,३	रूपजे	संख या असंख रूपजे	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	३ गाउ	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गर्म जिण जिण काय में रूपजे तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजे।	१,२,३	रूपजे	संख या असंख रूपजे	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	३ गाउ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काय	२

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	मंत्र		अप में तेइंद्रिय		तेऊ में तेइंद्रिय	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	संख्यात	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल
२	२	संख्यात	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल
३	२	८	१ अंतमुं ७ हजार वर्ष	१६६ दिन रात २० हजार वर्ष	१ अंतमुं ३ दिन रात	१६६ दिन रात १२ दिन
४	२	संख्यात	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल
५	२	संख्यात	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल	१ अंतमुं, १ अंतमुं	संखकाल संखकाल
६	२	८	१ अंतमुं ७ हजार वर्ष	४ अंतमुं २० हजार वर्ष	१ अंतमुं ३ दिन रात	४ अंतमुं १२ दिन रात
७	२	८	४६ दिन रात १ अंतमुं	१६६ दिन रात २० हजार वर्ष	४६ दिन रात १ अंतमुं	१६६ दिन रात १२ दिन
८	२	८	४६ दिन रात १ अंतमुं	१६६ दिन रात ४ अंतमुं	४६ दिन रात १ अंतमुं	१६६ दिन रात ४ अंतमुं
९	२	८	४६ दिन रात ७ हजार वर्ष	१६६ दिन रात २० हजार वर्ष	४६ दिन रात ३ दिन रात	१६६ दिन रात १२ दिन

११ संज्ञा द्वार	१२ कथाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाशता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	३ ऊपरली	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	४६ दिन रात	भलामूंडा	अंतर्मुहूर्त	४६ दिन रात	०
४	४	३ ऊपरली	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	७ अव० दृष्टि, ज्ञान, योग, आयु, अघ्य, अनु०
४	४	३ ऊपरली	३ पहली	२	१ नपुंसक	४६ दिन रात	४६ दिन रात	भलामूंडा	४६ दिन रात	४६ दिन रात	२ आयु, अनुबंध

वायु में तेईदिय		वनस्पति में तेईदिय	
जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल १६६ दिन रात १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल १६६ दिन रात ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
४६ दिन रात १ अंतर्मु. ४६ दिन रात १ अंतर्मु. ४६ दिन रात ३ हजार वर्ष	१६६ दिन रात १२ हजार वर्ष १६६ दिन रात ४ अंतर्मु. १६६ दिन रात १२ हजार वर्ष	४६ दिन रात १ अंतर्मु. ४६ दिन रात १ अंतर्मु. ४६ दिन रात १० हजार वर्ष	१६६ दिन रात ४० हजार वर्ष १६६ दिन रात ४ अंतर्मु. १६६ दिन रात ४० हजार वर्ष

५१ चार थावर में चउरिंद्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (८)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपाल द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५			३
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गर्म जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	४ गाउ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वध काय	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गर्म जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै जघन्य आयु में ऊपजै।	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	आंगुल नौ असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गर्म जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।	१,२,३	ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	४ गाउ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वध काय	२

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में चउरिंद्रिय		तेऊ में चउरिंद्रिय	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
२	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
३	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	२४ मास २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	२४ मास १२ दिन रात
४	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
५	२	संख्यात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	संखकाल संखकाल
६	२	८	१ अंतर्मु. ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	४ अंतर्मु. १२ दिन रात
७	२	८	६ मास १ अंतर्मु.	२४ मास २८ हजार वर्ष	६ मास १ अंतर्मु.	२४ मास १२ दिन रात
८	२	८	६ मास १ अंतर्मु.	२४ मास ४ अंतर्मु.	६ मास १ अंतर्मु.	२४ मास ४ अंतर्मु.
९	२	८	६ मास ७ हजार वर्ष	२४ मास २८ हजार वर्ष	६ मास ३ दिन रात	२४ मास १२ दिन रात

११ संज्ञा द्वारा	१२ कषाय द्वारा	१३ इन्द्रिय द्वारा	१४ समुद्घात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणता
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य	
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	६ मास	मलाभूंडा	अंतर्मुहूर्त	६ मास	०
४	४	४	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	७ अव० दृष्टि, ज्ञान, योग आयु, अघ्य, अनु०
४	४	४	३ पहली	२	१ नपुंसक	६ मास	६ मास	मलाभूंडा	६ मास	६ मास	२ आयु, अनुबंध

वायु में चउरिदिय		वनस्पति में चउरिदिय	
जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल २४ मास १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल २४ मास ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	संखकाल संखकाल संखकाल संखकाल ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
६ मास १ अंतर्मु. ६ मास १ अंतर्मु. ६ मास ३ हजार वर्ष	२४ मास १२ हजार वर्ष २४ मास ४ अंतर्मु. २४ मास १२ हजार वर्ष	६ मास १ अंतर्मु. ६ मास १ अंतर्मु. ६ मास १० हजार वर्ष	२४ मास ४० हजार वर्ष २४ मास ४ अंतर्मु. २४ मास ४० हजार वर्ष

५२ च्यार थावर में असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (६)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६			६
						६			६	३	५			३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार योजना	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वष काय	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रै जघन्य आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	आंगुल नौ असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार योजना	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वष काय	२

२०
कायसंघेद द्वार

गमा	भव		अप में असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय		तेऊ में असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	८	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ कोडपूर्व १२ दिन सख
२	२	८	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं
३	२	८	१ अंतमुं ० ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, ३ दिन रात	४ कोडपूर्व १२ दिन सख
४	२	८	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ अंतमुं हत २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ अंतमुं, १२ दिन रात
५	२	८	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ अंतमुं हत ४ अंतमुं	१ अंतमुं, १ अंतमुं	४ अंतमुं, ४ अंतमुं
६	२	८	१ अंतमुं, ७ हजार वर्ष	४ अंतमुं हत २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, ३ दिन रात	४ अंतमुं, १२ दिन रात
७	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व १२ दिन सख
८	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं
९	२	८	१ अंतमुं, ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं, ३ दिन रात	४ कोडपूर्व १२ दिन सख

११ द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्धान्त द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य	
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	भलाभूंडा	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	०
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	७ अव, दृष्टि, ज्ञान, योग, आयु, अघ्य, अनु.
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	भलाभूंडा	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	२ आयु, अनु.

बायु में असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय		बनस्पति में सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय	
जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष
१ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष

५३ च्यार थावर में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच ऊपजै यंत्र (१०)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवागहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपवोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				८			
						५			३	३	२				
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिन जिन काय में ऊपजै तिन १ जघन्य उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।		१,२,३ ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	६	आंगुल नों असंख भाग	१ हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिन जिन काय में ऊपजै तिन २ जघन्य आयु में ऊपजै।		१,२,३ ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	६	आंगुल नों असंख भाग	आंगुल नों असंख भाग	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिन जिन काय में ऊपजै तिन ३ उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।		१,२,३ ऊपजै	संख या असंख ऊपजै	६	आंगुल नों असंख भाग	१ हजार योजन	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच		तेऊ में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यच	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं. १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व १२ दिन छ
२	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०	१ अंतमुं. १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं
३	२	८	१ अंतमुं ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं. ३ दिन रात	४ कोडपूर्व १२ दिन छ
४	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं.	४ अंतमुं हूँ २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं. १ अंतमुं.	४ अंतमुं. १२ दिन छ
५	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं.	४ अंतमुं हूँ ४ अंतमुं.	१ अंतमुं. १ अंतमुं.	४ अंतमुं. ४ अंतमुं.
६	२	८	१ अंतमुं ७ हजार वर्ष	४ अंतमुं हूँ २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं. ३ दिन रात	४ अंतमुं. १२ दिन छ
७	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व १२ दिन छ
८	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०	१ कोडपूर्व १ अंतमुं.	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं
९	२	८	१ कोडपूर्व ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	४ कोडपूर्व १२ दिन छ

११ संज्ञा द्वारा	१२ कथाय द्वारा	१३ इन्द्रिय द्वारा	१४ समुद्घात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३	जघन्य	उत्कृष्ट	असंख्याता	जघन्य	उत्कृष्ट	०
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	मलामूंजा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	६ अव, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, रामु आयु, अध्या, अनु.
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	मूंजा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	२ आयु, अनुबंध
४	४	५	५ पहली	२	३	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	मलामूंजा	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	२ आयु, अनुबंध

वायु में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यघ		वनस्पति में संख्याता वर्ष नों सन्नी तिर्यघ	
जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, ३ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष
१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, ३ हजार वर्ष	४ अंतर्मु, १२ हजार वर्ष ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मु, १२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु, ४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मु, ४० हजार वर्ष
१ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व १२ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष

५४ च्यावर मॆं संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (११)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टिद्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नॆं ओधिक	१.४.७ गमॆं जिण जिण काय		१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नॆं	५ सॆं	६	६	३	४ मजना	३ मजना	३	२
२	ओधिक नॆं जघन्य	मॆं रूपजै तिण १ जघन्य उत्कृष्ट		रूपजै	रूपजै		असंख भाग	धनुष्य							
३	ओधिक नॆं उत्कृष्ट	आयु मॆं रूपजै ।													
४	जघन्य नॆं ओधिक	२.५.८ गमॆं जिण जिण काय		१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नॆं	आंगुल नॆं	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ विथगा	१ काय	२
५	जघन्य नॆं जघन्य	मॆं रूपजै तिण १ जघन्य आयु		रूपजै	रूपजै		असंख भाग	असंख भाग							
६	जघन्य नॆं उत्कृष्ट	मॆं रूपजै ।													
७	उत्कृष्ट नॆं ओधिक	३.६.९ गमॆं जिण जिण काय		१.२.३	संख्याता	६	५ सॆं	५ सॆं	६	६	३	४ मजना	३ मजना	३	२
८	उत्कृष्ट नॆं जघन्य	मॆं रूपजै तिण १ उत्कृष्ट		रूपजै	रूपजै		धनुष्य	धनुष्य							
९	उत्कृष्ट नॆं उत्कृष्ट	आयु मॆं रूपजै ।													

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप मॆं संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य		वनरपति मॆं संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष
२	२	८	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०
३	२	८	१ अंतमुं ० ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष
४	२	८	१ अंतमुं १ अंतमुं	४ अंतमुं हूरी २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं १ अंतमुं	४ अंतमुं ४० हजार वर्ष
५	२	८	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ अंतमुं हूरी ४ अंतमुं	१ अंतमुं ० १ अंतमुं	४ अंतमुं ४ अंतमुं
६	२	८	१ अंतमुं ० ७ हजार वर्ष	४ अंतमुं हूरी २८ हजार वर्ष	१ अंतमुं ० १० हजार वर्ष	४ अंतमुं ४० हजार वर्ष
७	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष
८	२	८	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०	१ कोडपूर्व १ अंतमुं	४ कोडपूर्व ४ अंतमुं ०
९	२	८	१ कोडपूर्व ७ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व २८ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व १० हजार वर्ष	४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष

११ संज्ञा द्वारा	१२ कथाय द्वारा	१३ इन्द्रिय द्वारा	१४ समुदघात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणत्ता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	भलाभूंड	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	०
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंड	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	६ अव, लेख्य, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, सनु, आयु, अथ, अनु.
४	४	५	६ पहली	२	३	१ कोडपूर्व	कोडपूर्व	भलाभूंड	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	३ अव, आयु, अनु.

क्रमा	भव		लोक में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य		वायु में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष
२	२	२	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु०	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु०
३	२	२	१ अंतर्मु० ३ दिन रात	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष
४	२	२	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मुहूर्त ३ दिन रात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष
५	२	२	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.
६	२	२	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष
७	२	२	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष
८	२	२	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु.
९	२	२	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	१ कोडपूर्व ३ दिन रात	१ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व ३ हजार वर्ष

५५ च्यार थावर में असन्नी मनुष्य ऊपजै तेहनों यंत्र (१२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपशोम द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक में ओधिक	१ गमै जघन्य उत्कृष्ट आयु में		१,२,३ ऊपजै	संख या अंसख ऊपजै	१ छेवटो	आंगुलनों अंसख भाग	आंगुलनों अंसख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
२	ओधिक में जघन्य	२ गमै जघन्य आयु में													
३	ओधिक में उत्कृष्ट	३ गमै उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।													

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में असन्नी मनुष्य		वनस्पति में असन्नी मनुष्य	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	८	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु०	४ अंतर्मु० २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु०	४ अंतर्मु० ४० हजार वर्ष
२	२	८	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु०	४ अंतर्मु० ४ अंतर्मु०	१ अंतर्मु० १ अंतर्मु०	४ अंतर्मु० ४ अंतर्मु०
३	२	८	१ अंतर्मु० ७ हजार वर्ष	४ अंतर्मु० २८ हजार वर्ष	१ अंतर्मु० १० हजार वर्ष	४ अंतर्मु० ४० हजार वर्ष

५६ अप तथा वनस्पति में असुरकुमार ऊपजै तेहनों यंत्र (१३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपशोम द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक में ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै		१,२,३ ऊपजै	संख या अंसख ऊपजै	असंघयणी	आंगुलनों अंसख भाग	७ हाथ	१ समवीरंस	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
२	ओधिक में जघन्य														
३	ओधिक में उत्कृष्ट	जघन्य उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।													
४	जघन्य में ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै जघन्य		१,२,३ ऊपजै	संख या अंसख ऊपजै	असंघयणी	आंगुलनों अंसख भाग	७ हाथ	१ समवीरंस	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
५	जघन्य में जघन्य														
६	जघन्य में उत्कृष्ट	जघन्य में उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।													
७	उत्कृष्ट में ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण काय में ऊपजै तिण रै उत्कृष्ट		१,२,३ ऊपजै	संख या अंसख ऊपजै	असंघयणी	आंगुलनों अंसख भाग	७ हाथ	१ समवीरंस	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट में जघन्य														
९	उत्कृष्ट में उत्कृष्ट	उत्कृष्ट में उत्कृष्ट आयु में ऊपजै।													

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाशता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	०

गमा	ज.	उ.	तेज में असन्धी मनुष्य		वायु में असन्धी मनुष्य	
			जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष
२	२	२	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.
३	२	२	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१ अंतर्मु. ३ दिन रात	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष	१ अंतर्मु. ३ हजार वर्ष

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाशता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१० हजार वर्ष	१ सागर जाडो	भला भूडा	१० हजार वर्ष	१ सागर जाडो	०
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	भला भूडा	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	२ आयु अनुबंध
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ सागर जाडो	१ सागर जाडो	भला भूडा	१ सागर जाडो	१ सागर जाडो	२ आयु अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में असुरकुमार		वनस्पति में असुरकुमार	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो ७ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १० हजार वर्ष
२	२	२	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.
३	२	२	१० हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	१ सागर जाडो ७ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १० हजार वर्ष	१ सागर जाडो १० हजार वर्ष
४	२	२	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १० हजार वर्ष
५	२	२	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु.
६	२	२	१० हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष ७ हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष १० हजार वर्ष
७	२	२	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो ७ हजार वर्ष	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १० हजार वर्ष
८	२	२	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.	१ सागर जाडो १ अंतर्मु.
९	२	२	१ सागर जाडो ७ हजार वर्ष	१ सागर जाडो ७ हजार वर्ष	१ सागर जाडो १० हजार वर्ष	१ सागर जाडो १० हजार वर्ष

५६ अप तथा वनस्पति में ज्योतिषी रूपजै तेहनों यन्त्र (२४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१.४.७ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	२.५.८ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३.६.९ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२

६० अप तथा वनस्पति में प्रथम देवलोक सौधर्म नां देव रूपजै तेहनों यन्त्र (२५)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१.४.७ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३ मिथ्या	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	२.५.८ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३ मिथ्या	३ नियमा	३ नियमा	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३.६.९ गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै।		१.२.३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	७ हाथ	१ समचौरंस	१ तेजु	३ मिथ्या	३ नियमा	३ नियमा	३	२

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३	अघपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	भलामूंडा	अघपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	०
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	अघपाव पत्य	अघपाव पत्य	भलामूंडा	अघपाव पत्य	अघपाव पत्य	२ आयु अनुबंध
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष	भलामूंडा	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष	२ आयु अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में ज्योतिषी ऊपजे		वनस्पति में ज्योतिषी ऊपजे	
	ज०	उ०	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष ७ हजार वर्ष	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १० हजार वर्ष
२	२	२	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०
३	२	२	अघपाव पत्य ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष ७ हजार वर्ष	अघपाव पत्य १० हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष १० हजार वर्ष
४	२	२	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य ७ हजार वर्ष	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य १० हजार वर्ष
५	२	२	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०	अघपाव पत्य १ अंतर्मु०
६	२	२	अघपाव पत्य ७ हजार वर्ष	अघपाव पत्य ७ हजार वर्ष	अघपाव पत्य १० हजार वर्ष	अघपाव पत्य १० हजार वर्ष
७	२	२	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १० हजार वर्ष
८	२	२	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०	१ पत्य १ लाख वर्ष १ अंतर्मु०
९	२	२	१ पत्य १ लाख वर्ष ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष १० हजार वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष १० हजार वर्ष

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३	१ पत्य	२ सागर	भला मूंडा	१ पत्य	२ सागर	०
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	१ पत्य	भला मूंडा	१ पत्य	१ पत्य	२ आयु अनुबंध
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	२ सागर	२ सागर	भला मूंडा	२ सागर	२ सागर	२ आयु अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में सौधर्म देव		वनस्पति में सौधर्म देव	
	ज०	उ०	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	१ पत्य १ अंतर्मु०	२ सागर ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ अंतर्मु०	२ सागर १० हजार वर्ष
२	२	२	१ पत्य १ अंतर्मु०	२ सागर १ अंतर्मु०	१ पत्य १ अंतर्मु०	२ सागर १ अंतर्मु०
३	२	२	१ पत्य ७ हजार वर्ष	२ सागर ७ हजार वर्ष	१ पत्य १० हजार वर्ष	२ सागर १० हजार वर्ष
४	२	२	१ पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य ७ हजार वर्ष	१ पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १० हजार वर्ष
५	२	२	१ पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ अंतर्मु०	१ पत्य १ अंतर्मु०
६	२	२	१ पत्य ७ हजार वर्ष	१ पत्य ७ हजार वर्ष	१ पत्य १० हजार वर्ष	१ पत्य १० हजार वर्ष
७	२	२	२ सागर १ अंतर्मु०	२ सागर ७ हजार वर्ष	२ सागर १ अंतर्मु०	२ सागर १० हजार वर्ष
८	२	२	२ सागर १ अंतर्मु०	२ सागर १ अंतर्मु०	२ सागर १ अंतर्मु०	२ सागर १ अंतर्मु०
९	२	२	२ सागर ७ हजार वर्ष	२ सागर ७ हजार वर्ष	२ सागर १० हजार वर्ष	२ सागर १० हजार वर्ष

६१ अप तथा वनस्पति में दूसरा देवलोक ईशान नां देव रूपजै तेहनों यंत्र (२६)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २		
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३				
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुलनों असंख भाग	७ हाथ	१	समधीरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुलनों असंख भाग	७ हाथ	१	समधीरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गमै जिण जिण काय में रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	असंघयणी	आंगुलनों असंख भाग	७ हाथ	१	समधीरंस	१ तेजु	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२

३ विकलेंद्री में १२ ठिकाणां नां रूपजै - पांच शथावर ५, तीन विकलेंद्रीय ८, असानी तिर्यच पंचेंद्रीय ६, संख्याता वर्ष नां सानी तिर्यच १०, संख्याता वर्ष नां सानी मनुष्य ११, असानी मनुष्य १२ ।

६२ तीन विकलेंद्रीय में पृथ्वीकाय रूपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७	गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	मसूर चंद्र	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८	गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	मसूर चंद्र	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९	गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३	रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	मसूर चंद्र	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाइो	२ सागर जाइो	भला भूंडा	१ पत्य जाइो	२ सागर जाइो	०
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाइो	१ पत्य जाइो	भलाभूंडा	१ पत्य जाइो	१ पत्य जाइो	२ आयु अनुबंध
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	२ सागर जाइो	२ सागर जाइो	भलाभूंडा	२ सागर जाइो	२ सागर जाइो	२ आयु अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		अप में ईशान देव		वनस्पति में ईशान देव	
	ज०	उ०	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	२	१ पत्य जाइो १ अंतमुहूर्त	२ सागर जाइो ७ हजार वर्ष	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १० हजार वर्ष
२	२	२	१ पत्य जाइो १ अंतमुहूर्त	२ सागर जाइो १ अंतमु	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १ अंतमु.
३	२	२	१ पत्य जाइो ७ हजार वर्ष	२ सागर जाइो ७ हजार वर्ष	१ पत्य जाइो १० हजार वर्ष	२ सागर जाइो १० हजार वर्ष
४	२	२	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	१ पत्य जाइो ७ हजार वर्ष	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	१ पत्य जाइो १० हजार वर्ष
५	२	२	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	१ पत्य जाइो १ अंतमु.	१ पत्य जाइो १ अंतमु.
६	२	२	१ पत्य जाइो ७ हजार वर्ष	१ पत्य जाइो ७ हजार वर्ष	१ पत्य जाइो १० हजार वर्ष	१ पत्य जाइो १० हजार वर्ष
७	२	२	२ सागर जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो ७ हजार वर्ष	२ सागर जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १० हजार वर्ष
८	२	२	२ सागर जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १ अंतमु.	२ सागर जाइो १ अंतमु.
९	२	२	२ सागर जाइो ७ हजार वर्ष	२ सागर जाइो ७ हजार वर्ष	२ सागर जाइो १० हजार वर्ष	२ सागर जाइो १० हजार वर्ष

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतमुहूर्त	२२ हजार वर्ष	भला भूंडा	अंतमुहूर्त	२२ हजार वर्ष	०
४	४	१ फर्ष	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतमुहूर्त	अंतमुहूर्त	भूंडा	अंतमुहूर्त	अंतमुहूर्त	४ लेरथा, आयु अथ० अनुबंध
४	४	१ फर्ष	३ पहली	२	१ नपुंसक	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	भलाभूंडा	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	२ आयु अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		बेइन्द्रिय में पृथ्वीकाय		तेइन्द्रिय में पृथ्वीकाय		चउरिन्द्रिय में पृथ्वीकाय	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	संख	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल
२	२	संख	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल
३	२	८	१ अंतमु. १२ वर्ष	८८ हजार वर्ष ४८ वर्ष	१ अंतमु. ४६ दिन रात	८८ हजार वर्ष १६६ दिन रात	१ अंतमु. ६ मास	८८ हजार वर्ष २४ मास
४	२	संख	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल
५	२	संख	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल	१ अंतमु. १ अंतमु.	संखकाल संखकाल
६	२	८	१ अंतमु. १२ वर्ष	४ अंतमु. ४८ वर्ष	१ अंतमु. ४६ दिन रात	४ अंतमु. १६६ दिन रात	१ अंतमु. ६ मास	४ अंतमु. २४ मास
७	२	८	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष ४८ वर्ष	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष १६६ दिन रात	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष २४ मास
८	२	८	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष ४ अंतमु. ०	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष ४ अंतमु. ०	२२ हजार वर्ष १ अंतमु.	८८ हजार वर्ष ४ अंतमु. ०
९	२	८	२२ हजार वर्ष १२ वर्ष	८८ हजार वर्ष ४८ वर्ष	२२ हजार वर्ष ४६ दिन रात	८८ हजार वर्ष १६६ दिन रात	२२ हजार वर्ष ६ मास	८८ हजार वर्ष २४ मास

६३ तीन विकलेंद्रिय में अपकाय रूपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेश्या द्वार ४ पहली	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	थिबुक	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२		
२	ओधिक नै जघन्य														
३	ओधिक नै उत्कृष्ट														
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	थिबुक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२		
५	जघन्य नै जघन्य														
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नों असंख भाग	थिबुक	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२		
८	उत्कृष्ट नै जघन्य														
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६४ तीन विकलेंद्रिय में तेऊकाय रूपजै तेहनों यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेश्या द्वार ३ पहली	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	सुचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२		
२	ओधिक नै जघन्य														
३	ओधिक नै उत्कृष्ट														
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे जघन्य आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	सुचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२		
५	जघन्य नै जघन्य														
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	सुचीकलाप	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२		
८	उत्कृष्ट नै जघन्य														
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६५ तीन विकलेंद्रिय में वाउकाय रूपजै तेहनों यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेरया द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
२	ओधिक नै जघन्य	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
५	जघन्य नै जघन्य	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		पताका	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६६ तीन विकलेंद्रिय में वनस्पतिकाय रूपजै तेहनों यंत्र (५)

गमा	२० द्वार नी संख्या अनै तेहनां नाम	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेरया द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		नाना प्रकार	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
२	ओधिक नै जघन्य	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
३	ओधिक नै उत्कृष्ट														
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		नाना प्रकार	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
५	जघन्य नै जघन्य	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकाणै रूपजै तिण रे		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग		नाना प्रकार	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६७ तीन विकलेंद्रिय में बेइंद्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (६)

गमा	२० द्वार नी संख्या अनै तेहनां नाम	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेरया द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	१२ योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काया	२	
२	ओधिक नै जघन्य														
३	ओधिक नै उत्कृष्ट														
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य आयु में रूपजै।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	आंगुल नो असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
५	जघन्य नै जघन्य														
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	१२ योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काया	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य														
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६८ तीन विकलेंद्रिय में तेइंद्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (७)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेरया द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य-उत्कृष्ट आयु में रूपजै।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	३ गाऊ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काय	२	
२	ओधिक नै जघन्य														
३	ओधिक नै उत्कृष्ट														
४	जघन्य नै ओधिक	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य आयु में रूपजै।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	आंगुल नो असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२	
५	जघन्य नै जघन्य														
६	जघन्य नै उत्कृष्ट														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै।	१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नो असंख भाग	३ गाऊ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वच काय	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य														
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट														

६६ तीन विकलेंद्रिय में चउरिंद्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (८)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१ २ ३	ओधिक नै ओधिक ओधिक नै जघन्य ओधिक नै उत्कृष्ट	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	४ गाऊ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वघ काय	२
४ ५ ६	जघन्य नै ओधिक जघन्य नै जघन्य जघन्य नै उत्कृष्ट	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	आंगुलनौ असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७ ८ ९	उत्कृष्ट नै ओधिक उत्कृष्ट नै जघन्य उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	४ गाऊ	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वघ काय	२

७० तीन विकलेंद्रिय में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (९)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१ २ ३	ओधिक नै ओधिक ओधिक नै जघन्य ओधिक नै उत्कृष्ट	१,४,७ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वघ काय	२
४ ५ ६	जघन्य नै ओधिक जघन्य नै जघन्य जघन्य नै उत्कृष्ट	२,५,८ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै जघन्य आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	आंगुलनौ असंख भाग	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७ ८ ९	उत्कृष्ट नै ओधिक उत्कृष्ट नै जघन्य उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३,६,९ गमै जिण जिण ठिकानै रूपजै तिण रै उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।		१,२,३ रूपजै	संख या असंख रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार योजन	१ हुंडक	३ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	२ वघ काय	२

७१ तीन विकर्लेन्द्रिय में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच रूपजै तेहनों यंत्र (१०)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१.४.७ गमै जिण जिण		१.२.३	संख या	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	असंख रूपजै		असंख भाग	योजन							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
४	जघन्य नै ओधिक	२.५.८ गमै जिण जिण		१.२.३	संख या	६	आंगुल नौ	आंगुलनौ	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
५	जघन्य नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	असंख रूपजै		असंख भाग	असंख भाग							
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	जघन्य आयु में रूपजै ।													
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३.६.६ गमै जिण जिण		१.२.३	संख या	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	असंख रूपजै		असंख भाग	योजन							
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													

७२ तीन विकर्लेन्द्री में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (११)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेश्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१.४.७ गमै जिण जिण		१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नौ	५ सौ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	रूपजै		असंख भाग	धनुष्य							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	जघन्य उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													
४	जघन्य नै ओधिक	२.५.८ गमै जिण जिण		१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नौ	आंगुलनौ	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
५	जघन्य नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	रूपजै		असंख भाग	असंख भाग							
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	जघन्य आयु में रूपजै ।													
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	३.६.६ गमै जिण जिण		१.२.३	संख्याता	६	५ सौ	५ सौ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	ठिकानै रूपजै तिण रे		रूपजै	रूपजै		धनुष्य	धनुष्य							
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	उत्कृष्ट आयु में रूपजै ।													

७३ तीन विकलेंद्री में असन्नी मनुष्य रूपजे तेहनों यंत्र (१२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ गमै जघन्य उत्कृष्ट आयु		१,२,३	संख या	१ छेवटो	आंगुल नौ	आंगुल नौ	१ हुंडक	३ पहली	१ गिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
२	ओधिक नै जघन्य	२ गमै जघन्य आयु		ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	असंख भाग							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ गमै उत्कृष्ट आयु में रूपजे ।													

तिर्यचपंचेंद्रिय में ३६ ठिकानां नां रूपजे — सात नरक ७, दस भवनपति १७, पांचस्थावर २२, तीन विकलेंद्रिय २५, असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय २६, सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय २७, असन्नी मनुष्य २८, सन्नी मनुष्य २६, व्यंतर ३०, ज्योतिषी ३१, प्रथम आठ देवलोक ३६ ।

७४ तिर्यच पंचेंद्रिय में प्रथम नरक नां नेरइया रूपजे तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	७ धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	३ हाथ							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व					६ आंगुल							
४	जघन्य नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	७ धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	३ हाथ							
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व					६ आंगुल							
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	७ धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	३ हाथ							
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व					६ आंगुल							

७५ तिर्यच पंचेंद्रिय में दूसरी नरक नां नेरइया रूपजे तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	१५ ।। धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	१२ आंगुल							
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व												
४	जघन्य नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	१५ ।। धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	१२ आंगुल							
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१,२,३	संख या	असंघयणी	आंगुल नौ	१५ ।। धनुष्य	१ हुंडक	१ कापोत	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	ऊपजे	असंख रूपजे		असंख भाग	१२ आंगुल							
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व												

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३			असंख्याता			
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूजा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	०

२०
कायसंवेध द्वार

गमा	भव		वेदद्विय में असत्री मनु०		तेइद्विय में असत्री मनु०		चउरिद्विय में असत्री मनु०	
	ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
१	२	८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त ४८ वर्ष	१ अंतर्मु १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त १६६ दिन रात	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त २४ मास
२	२	८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु.
३	२	८	१ अंतर्मु. १२ वर्ष	४ अंतर्मुहूर्त ४८ वर्ष	१ अंतर्मु. ४८ दिन रात	४ अंतर्मुहूर्त १६६ दिन रात	१ अंतर्मु. ६ मास	४ अंतर्मुहूर्त २४ मास

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१० हजार वर्ष	१ सागर	भला भूजा	१० हजार वर्ष	१ सागर	०	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व	४ सागर ४ कोडपूर्व ४ सागर ४ अंतर्मु. ४ सागर ४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	भला भूजा	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	२ आयु अनुबंध	२	८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व	४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१ सागर	१ सागर	भला भूजा	१ सागर	१ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	१ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ कोडपूर्व	४ सागर ४ कोडपूर्व ४ सागर ४ अंतर्मु. ४ सागर ४ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणत्ता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१ सागर	३ सागर	भला भूजा	१ सागर	३ सागर	०	२	८	१ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ कोडपूर्व	१२ सागर ४ कोडपूर्व १२ सागर ४ अंतर्मु. १२ सागर ४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१ सागर	१ सागर	भला भूजा	१ सागर	१ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	१ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ अंतर्मु. १ सागर १ कोडपूर्व	४ सागर ४ कोडपूर्व ४ सागर ४ अंतर्मु. ४ सागर ४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	३ सागर	३ सागर	भला भूजा	३ सागर	३ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	३ सागर १ अंतर्मु. ३ सागर १ अंतर्मु. ३ सागर १ कोडपूर्व	१२ सागर ४ कोडपूर्व १२ सागर ४ अंतर्मु. १२ सागर ४ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
								३ सागर								७ सागर	३ सागर
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	३ सागर	७ सागर	भला भूंडा	३ सागर	७ सागर	०	२	८	३ सागर	१ अंतर्मु.	२८ सागर ४ कोडपूर्व	२८ सागर ४ अंतर्मु
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	३ सागर	३ सागर	भला भूंडा	३ सागर	३ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	३ सागर	१ अंतर्मु.	१२ सागर ४ कोडपूर्व	१२ सागर ४ अंतर्मु
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	७ सागर	७ सागर	भला भूंडा	७ सागर	७ सागर	२ आयु, अनु०	२	८	७ सागर	१ अंतर्मु.	२८ सागर ४ कोडपूर्व	२८ सागर ४ अंतर्मु

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
								७ सागर								१० सागर	७ सागर
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	७ सागर	१० सागर	भला भूंडा	७ सागर	१० सागर	०	२	८	७ सागर	१ अंतर्मु.	४० सागर ४ कोडपूर्व	४० सागर ४ अंतर्मु.
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	७ सागर	७ सागर	भला भूंडा	७ सागर	७ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	७ सागर	१ अंतर्मु.	२८ सागर ४ कोडपूर्व	२८ सागर ४ अंतर्मु
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१० सागर	१० सागर	भला भूंडा	१० सागर	१० सागर	२ आयु, अनु०	२	८	१० सागर	१ अंतर्मु.	४० सागर ४ कोडपूर्व	४० सागर ४ अंतर्मु

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कषाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुद्घात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्यता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
								१० सागर								१७ सागर	१० सागर
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१० सागर	१७ सागर	भला भूंडा	१० सागर	१७ सागर	०	२	८	१० सागर	१ अंतर्मु.	६८ सागर ४ कोडपूर्व	६८ सागर ४ अंतर्मु.
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१० सागर	१० सागर	भला भूंडा	१० सागर	१० सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	१० सागर	१ अंतर्मु.	४० सागर ४ कोडपूर्व	४० सागर ४ अंतर्मु
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१७ सागर	१७ सागर	भला भूंडा	१७ सागर	१७ सागर	२ आयु, अनु०	२	८	१७ सागर	१ अंतर्मु.	६८ सागर ४ कोडपूर्व	६८ सागर ४ अंतर्मु

११ शां. द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल		उत्कृष्ट काल
								१७ सागर							२२ सागर	मला भूंडा	१७ सागर
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१७ सागर	२२ सागर	मला भूंडा	१७ सागर	२२ सागर	०	२	८	१७ सागर	१ अंतर्मु.	८८ सागर	४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	१७ सागर	१७ सागर	मला भूंडा	१७ सागर	१७ सागर	२ आयु अनुबंध	२	८	१७ सागर	१ अंतर्मु.	६८ सागर	४ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	२२ सागर	२२ सागर	मला भूंडा	२२ सागर	२२ सागर	२ आयु अनु०	२	८	२२ सागर	१ अंतर्मु.	८८ सागर	४ कोडपूर्व
												२	८	२२ सागर	१ अंतर्मु.	८८ सागर	४ कोडपूर्व
												२	८	२२ सागर	१ अंतर्मु.	८८ सागर	४ कोडपूर्व
												२	८	२२ सागर	१ कोडपूर्व	६८ सागर	४ कोडपूर्व

११ शां. द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल		उत्कृष्ट काल
								२२ सागर							३३ सागर	मला भूंडा	२२ सागर
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	२२ सागर	३३ सागर	मला भूंडा	२२ सागर	३३ सागर	०	२	६	२२ सागर	१ अंतर्मु.	६६ सागर	३ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	२२ सागर	२२ सागर	मला भूंडा	२२ सागर	२२ सागर	२ आयु अनुबंध	२	६	२२ सागर	१ अंतर्मु.	६६ सागर	३ कोडपूर्व
४	४	५	४ पहली	२	१ नपुंसक	३३ सागर	३३ सागर	मला भूंडा	३३ सागर	३३ सागर	२ आयु अनु०	२	४	३३ सागर	१ अंतर्मु.	६६ सागर	२ कोडपूर्व
												२	४	३३ सागर	१ अंतर्मु.	६६ सागर	२ कोडपूर्व
												२	४	३३ सागर	१ अंतर्मु.	६६ सागर	२ अंतर्मु.
												२	४	३३ सागर	१ कोडपूर्व	६६ सागर	२ कोडपूर्व

नोट : ३३ सागर की स्थिति के उत्कृष्ट २ भव ही हो सकते हैं । ३ भव २२ सागर से होते हैं ।

११ शां. द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्रघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल		उत्कृष्ट काल
								अंतर्मुहूर्त							२२ हजार वर्ष	मला भूंडा	अंतर्मुहूर्त
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	२२ हजार वर्ष	मला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	२२ हजार वर्ष	०	२	८	१ अंतर्मु.	१ अंतर्मु.	८८ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	४ लेख्या, आयु, अध्य०, अनु०	२	८	१ अंतर्मु.	१ अंतर्मु.	४ अंतर्मु.	४ कोडपूर्व
४	४	१ फर्श	३ पहली	२	१ नपुंसक	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	मला भूंडा	२२ हजार वर्ष	२२ हजार वर्ष	२ आयु अनुबंध	२	८	२२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु.	८८ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व
												२	८	२२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु.	८८ हजार वर्ष	४ अंतर्मु.
												२	८	२२ हजार वर्ष	१ अंतर्मु.	८८ हजार वर्ष	४ अंतर्मु.
												२	८	२२ हजार वर्ष	१ कोडपूर्व	८८ हजार वर्ष	४ कोडपूर्व

६१ तिर्यच पंचेंद्रिय में असन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (१८)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख या	१ छेवटो	आंगुल नो	१ हुंडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२	
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	संख या	असंख	आंगुल नो	असंख भाग						
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	संख या	असंख	रूपजै							

६२ तिर्यच पंचेंद्रिय में संख्याता वर्षनां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (१९)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नो	५ सौ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	५ सौ	धनुष्य						
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	५ सौ	धनुष्य						
४	जघन्य नै ओधिक	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख्याता	रूपजै	आंगुल नो	आंगुल नो	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२	
५	जघन्य नै जघन्य	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	आंगुल नो	असंख भाग						
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	आंगुल नो	असंख भाग						
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	संख्याता	रूपजै	५ सौ	५ सौ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	५ सौ	धनुष्य						
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	रूपजै	संख्याता	रूपजै	५ सौ	धनुष्य						

६३ तिर्यच पंचेंद्रिय में असुरकुमार रूपजै तेहनों यंत्र (२०)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख या	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख या	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख या	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	असंघयणी	आंगुल नो	७ हाथ	१	४ पहली	३	३ नियमा	३ भजना	३	२

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार		
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	०	२ २ २	८ ८ ८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व	४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु. ४ कोडपूर्व	

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	
															जघन्य
४	४	५	६ केवल वजी	२	३	अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	भला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	१ कोड पूर्व	०	२ २	८ ८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ कोडपूर्व ३ कोडपूर्व ३ पल्य ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मु.
४	४	५	६ केवल वजी	२	३	पृथक् मास	१ कोडपूर्व	भला भूंडा	पृथक् मास	१ कोड पूर्व	३ अव. आयु. अनु.	२ २	२ २	१ पृथक् मास ३ पल्य	१ कोडपूर्व ३ पल्य
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	६ अव. लेश्या, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान योग, समु. आयु, अद्य, अनु.	२ २ २	८ ८ ८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व	४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु. ४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व
४	४	५	६ केवल वजी	२	३	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	भला भूंडा	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	३ अव० आयु. अनुबंध	२ २ २	८ ८ ८	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व १ अंतर्मु. १ कोडपूर्व ३ पल्य	४ कोडपूर्व ३ कोडपूर्व ३ पल्य ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु. १ कोडपूर्व ३ पल्य

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	
															जघन्य
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१० हजार वर्ष	१ सागर जाडो	भला भूंडा	१० हजार वर्ष	१ सागर जाडो	०	२ २ २	८ ८ ८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व	४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो ४ अंतर्मु. ४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	भला भूंडा	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	२ आयु अनुबंध	२ २ २	८ ८ ८	१० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व	४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व ४० हजार वर्ष ४ अंतर्मु. ४० हजार वर्ष ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ सागर जाडो	१ सागर जाडो	भला भूंडा	१ सागर जाडो	१ सागर जाडो	२ आयु अनुबंध	२ २ २	८ ८ ८	१ सागर जाडो १ अंतर्मु. १ सागर जाडो १ अंतर्मु. १ सागर जाडो १ कोडपूर्व	४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व ४ सागर जाडो ४ अंतर्मु. ४ सागर जाडो ४ कोडपूर्व

११८ मनुष्य में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय रूपजै तेहनों यंत्र (१४)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवागहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३	३	३				
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	असंख	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	६	असंख	रूपजै	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	संख	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	असंख	६	आंगुल नौ	आंगुल नौ	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	६	असंख	असंख भाग	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	६	असंख	रूपजै	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	असंख रूपजै	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	असंख रूपजै	६	आंगुल नौ	असंख भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	पर्यादा संख रूपजै	६	आंगुल नौ	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२

११९ मनुष्य में असन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (१५)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवागहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						३			३	३	३				
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	असंख्याता रूपजै	१ छेवटो	आंगुल नौ	१ हुडक	१	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	असंख्याता रूपजै	१ छेवटो	असंख	भाग	१	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख्याता रूपजै	१ छेवटो	असंख	भाग	१	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काय	२

१२० मनुष्य में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (१६)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवागहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	६		
						अनै तेहनां नाम			३	३	३			३	
१	ओधिक नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	आंगुल नौ	५ सी	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	६	असंख	घनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	पृथक्	५ सी	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	६	आंगुल नौ	आंगुल नौ	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
५	जघन्य नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	६	असंख	असंख भाग	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१.२.३	रूपजै	६	असंख	असंख भाग	६	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	१ काया	२
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ अंतर्मुहूर्त	३ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	५ सी	५ सी	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ अंतर्मुहूर्त	१ अंतर्मुहूर्त	१.२.३	रूपजै	६	घनुष्य	घनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१.२.३	रूपजै	६	घनुष्य	घनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कथाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुदघात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार		
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	भला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	०	२ २	८ ८	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	१ अंतर्मु. १ अंतर्मु.	४ कोडपूर्व, ३ कोडपूर्व ३ पत्य ४ कोडपूर्व, ४ अंतर्मुहूर्त
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	भला	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	२ पर्याप्ता, संख्याता	२ २	२ २	१ अंतर्मु, ३ पत्य		१ कोडपूर्व, ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भलाभूंडा भूंडा भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	६ अब०, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, लेख्या, समु, आयु, अध्य, अनु.	२ २ २	८ ८ ८	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, ४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व	४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	२ आयु अनुबंध	२ २ २	८ ८ २	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व ३ पत्य	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व, ४ अंतर्मु, ४ कोडपूर्व ३ पत्य	४ कोडपूर्व, ३ कोडपूर्व ३ पत्य ४ कोडपूर्व, ४ अंतर्मु, १ कोडपूर्व, ३ पत्य

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कथाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुदघात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	३ पहली	२	१ ननुसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भला भूंडा भूंडा भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	०	२ २ २	८ ८ ८	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व	४ अंतर्मु ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मु ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मु ४ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार ४	१२ कथाय द्वार ४	१३ इन्द्रिय द्वार ५	१४ समुदघात द्वार ७	१५ वेदना द्वार २	१६ वेद द्वार ३	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार असंख्याता	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	भला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	०	२ २	८ ८	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु,	४ कोडपूर्व, ३ कोडपूर्व ३ पत्य ४ कोडपूर्व, ४ अंतर्मुहूर्त
४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	पृथक् भास	कोडपूर्व	भला भूंडा	पृथक् भास	कोडपूर्व	३ अब०, आयु, अनु.	२ २	२ २	१ पृथक् भास ३ पत्य	१ कोडपूर्व ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भलाभूंडा भूंडा भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	६ अब०, लेख्या, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, समु, आयु, अध्य, अनु.	२ २ २	८ ८ ८	१ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व	४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व ४ अंतर्मुहूर्त ४ अंतर्मु, ४ अंतर्मुहूर्त ४ कोडपूर्व
४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	कोड पूर्व	कोड पूर्व	भला भूंडा	कोड पूर्व	कोड पूर्व	३ अब, आयु, अनुबंध	२ २ २	८ ८ २	१ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व १ अंतर्मु, १ कोडपूर्व ३ पत्य	४ कोडपूर्व, ३ कोडपूर्व ३ पत्य ४ कोडपूर्व, ४ अंतर्मु, १ कोडपूर्व ३ पत्य

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार			
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	
																	अघपाव पत्य
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	अघपाव पत्य	१ पत्य	१ लाख वर्ष	मला भूंडा	अघपाव पत्य	१ पत्य	१ लाख वर्ष	०	२	८	अघपाव पत्य १ पृथक् मास	४ पत्य ४ लाख वर्ष ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	अघपाव पत्य	अघपाव पत्य		मला भूंडा	अघपाव पत्य	अघपाव पत्य		२	२	८	अघपाव पत्य १ पृथक् मास	अर्ध पत्य ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	१ पत्य	१ पत्य	१ लाख वर्ष	मला भूंडा	१ पत्य	१ पत्य	१ लाख वर्ष	२	२	८	१ पत्य १ लाख वर्ष १ पृथक् मास	४ पत्य ४ लाख वर्ष ४ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार		
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	१ पत्य	२ सागर		मला भूंडा	१ पत्य	२ सागर		२	८	१ पत्य १ पृथक् मास	८ सागर ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	१ पत्य	१ पत्य		मला भूंडा	१ पत्य	१ पत्य		२	८	१ पत्य १ पृथक् मास	४ पत्य ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	२ सागर	२ सागर		मला भूंडा	२ सागर	२ सागर		२	८	२ सागर १ पृथक् मास	८ सागर ४ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वार		
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	१ पत्य	२ सागर		मला भूंडा	१ पत्य	२ सागर		२	८	१ पत्य जाडो १ पृथक् मास	८ सागर जाडो ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	१ पत्य	१ पत्य		मला भूंडा	१ पत्य	१ पत्य		२	८	१ पत्य जाडो १ पृथक् मास	४ पत्य जाडो ४ कोडपूर्व
४	४	५	५ पहली	२	२ स्त्री, पुरुष	२ सागर	२ सागर		मला भूंडा	२ सागर	२ सागर		२	८	२ सागर जाडो १ पृथक् मास	८ सागर जाडो ४ कोडपूर्व

१३० मनुष्य में छठे लान्तक देवलोक नां ऊपजै तेहनों यंत्र (३४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अव० भवधारणी				५ संठाण ६		६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		अव० भवधारणी		अव० उत्तर वै०		मूल	वैक्रिय			५	३		
							जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट								
१	ओधिक नै ओधिक	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	५ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	५ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	५ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२

१३१ मनुष्य में सातवें शुक्र देवलोक नां ऊपजै तेहनों यंत्र (३५)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अव० भवधारणी				५ संठाण ६		६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		अव० भवधारणी		अव० उत्तर वै०		मूल	वैक्रिय			५	३		
							जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट								
१	ओधिक नै ओधिक	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख्याता भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख्याता भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख्याता भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२

१३२ मनुष्य में आठवें सहस्रार देवलोक नां ऊपजै तेहनों यंत्र (३६)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अव० भवधारणी				५ संठाण ६		६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		अव० भवधारणी		अव० उत्तर वै०		मूल	वैक्रिय			५	३		
							जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट								
१	ओधिक नै ओधिक	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पृथक् वर्ष	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व	१,२,३ ऊपजै	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	४ हाथ	आंगुल नौ संख भाग	१ लाख योजन	१ समघोरंस	नाना प्रकार	१ शुक्ल	३	३ नियमा	३ नियमा	३	२

१३६ मनुष्य में सर्वार्थ-सिद्ध नां ऊपजै तेहनों यंत्र (४३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ पृथक्वर्ष	१ कोडपूर्व	१.२.३	संख्याता ऊपजै	असंघयणी	आंगुल नौ असंख भाग	१ हाथ	१ समचौरस	१ शुक्ल	१ समदृष्टि	३ नियमा	०	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पृथक्वर्ष	१ पृथक्वर्ष	ऊपजै	ऊपजै										
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ कोडपूर्व	१ कोडपूर्व												

वाणव्यंतर में ५ ठिकाणां नां ऊपजै-असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय १, तिर्यच युगलियो २, संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच ३, मनुष्य युगलियो ४, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ५।

१४० वाणव्यंतर में असन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नौ असंख भाग	१.२.३	असंख ऊपजै	१	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार	१ हुडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	२ वच काय	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	छवेतो									
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	पत्य नौ असंख भाग	पत्य नौ असंख भाग												
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नौ असंख भाग	१.२.३	असंख ऊपजै	१	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार	१ हुडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	२ वच काय	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	छवेतो									
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	पत्य नौ असंख भाग	पत्य नौ असंख भाग												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	पत्य नौ असंख भाग	१.२.३	असंख ऊपजै	१	आंगुल नौ असंख भाग	१ हजार	१ हुडक	३ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	२ वच काय	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै	छवेतो									
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	पत्य नौ असंख भाग	पत्य नौ असंख भाग												

१४१ वाणव्यंतर में तिर्यच युगलियो ऊपजै तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नी संख्या अनै तेहनां नाम	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता ऊपजै	१ वज ऋषभ नाराच	पृथक घनुष्य	६ गाऊ	१ समचौरस	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै										
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य	१.२.३	संख्याता ऊपजै	१ वज ऊपजै	पृथक घनुष्य ऋषभ नाराच	६ गाऊ	१	४ समचौरस	१ मिथ्या पहली	०	२ नियमा	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता ऊपजै	१ वज ऋषभ नाराच	पृथक घनुष्य	१ हजार धनुष्य जाडी	१ समचौरस	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै										
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता ऊपजै	१ वज ऋषभ नाराच	पृथक घनुष्य	६ गाऊ	१ समचौरस	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	ऊपजै	ऊपजै										
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य												

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	सत्ता रूप ४ करण रूप ३	२	१ पुरुष	३३ सागर	३३ सागर	भला भूंडा	३३ सागर	३३ सागर	०	२	२	३३ सागर १ पृथक वर्ष ३३ सागर १ पृथक वर्ष ३३ सागर १ कोडपूर्व	३३ सागर १ कोडपूर्व ३३ सागर १ पृथक वर्ष ३३ सागर १ कोडपूर्व

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भला भूंडा	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	०	२	२	१ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. पत्य नों असंख भाग	१ कोडपूर्व पत्य नों असंख भाग १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नों असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	३ आयु, अत्य. अनुबंध	२	२	१ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. पत्य नों असंख भाग	१ अंतर्मु. पत्य नों असंख भाग १ अंतर्मु. १० हजार वर्ष १ अंतर्मु. पत्य नों असंख भाग
४	४	५	३ पहली	२	१ नपुंसक	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भला भूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	२ आयु, अनुबंध	२	२	१ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नों असंख भाग	१ कोडपूर्व पत्य नों असंख भाग १ कोडपूर्व १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व पत्य नों असंख भाग

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुदघात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	कोडपूर्व जाडो	३ पत्य	भला भूंडा	कोडपूर्व जाडो	३ पत्य	०	२	२	१ कोडपूर्व जाडो १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जाडो १० हजार वर्ष	३ पत्य १ पत्य ३ पत्य १० हजार वर्ष
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	१ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनुबंध	२	२	१ पत्य १ पत्य	३ पत्य १ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	कोडपूर्व जाडो	कोडपूर्व जाडो	भला भूंडा	कोडपूर्व जाडो	कोडपूर्व जाडो	३ अव, आयु, अनुबंध	२	२	१ कोडपूर्व जाडो १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जाडो १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जाडो १ कोडपूर्व जाडो	१ कोडपूर्व जाडो १ कोडपूर्व जाडो १ कोडपूर्व जाडो १० हजार वर्ष १ कोडपूर्व जाडो १ कोडपूर्व जाडो
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनुबंध	२	२	३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य १ पत्य	३ पत्य १ पत्य ३ पत्य १० हजार वर्ष ३ पत्य १ पत्य

१४२ वाणव्यंतर में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच रूपजै तेहनों यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५			३
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	असंख	६	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		असंख	योजन								
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य				भाग									
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	असंख	६	आंगुलनों	१ हजार	६	४ पहली	१ मिथ्या	०	२ नियमा	३	२	
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		असंख	धनुष्य								
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य				भाग									
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	असंख	६	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		असंख	योजन								
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य				भाग									

१४३ वाणव्यंतर में मनुष्य युगलियो रूपजै तेहनों यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५			३
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज	५ सौ धनुष्य	३ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२	
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		जाडी		समचौरस	पहली	मिथ्या		२ नियमा			
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज	१ कोस	३ कोस	१	४	१	०	२ नियमा	३	२	
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	१	४	१	०	२ नियमा	३	२	
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		जाडी		समचौरस	पहली	मिथ्या		२ नियमा			
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य													
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज	३	३	१	४	१	०	२ नियमा	३	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		गाऊ	गाऊ	१	४	१		२ नियमा			
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य						समचौरस	पहली	मिथ्या		२ नियमा			

१४४ वाणव्यंतर में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (५)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		६	जघन्य				उत्कृष्ट	५			३
१	ओधिक नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	पृथक्	५ सौ धनुष्य	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
२	ओधिक नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		आंगुल									
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य													
४	जघन्य नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	पृथक्	पृथक्	६	६	३	०	३ भजना	३	२	
५	जघन्य नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		आंगुल	आंगुल								
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य													
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१० हजार वर्ष	१ पत्य	१.२.३	संख्याता	६	५ सौ	५ सौ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२	
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	रूपजै	रूपजै		धनुष्य	धनुष्य								
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य	१ पत्य													

ज्योतिषी में ४ टिकाणां नां ऊपजे — तिर्यच युगलियो १, संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय २, मनुष्य युगलियो ३, संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य ४।

१४५ ज्योतिषी में तिर्यच युगलियो ऊपजे तेहनों यंत्र (१)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	२
												५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	पृथक्	६ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	धनुष्य		समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	पृथक्	६ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	पृथक्	१८ सौ	१	४	१	०	२	३	२
५	X गमा टूटा			ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	धनुष्य	धनुष्य जाड़ी	समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
६	X गमा टूटा														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	पृथक्	६ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	धनुष्य		समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष												

१४६ ज्योतिषी में मनुष्य युगलियो ऊपजे तेहनों यंत्र (२)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	२
												५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	६ सौ	३ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	धनुष्य जाड़ी		समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	१ गाऊ	३ गाऊ	१	४	१	०	२	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	६ सौ	६ सौ	१	४	१	०	२	३	२
५	X गमा टूटा			ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	धनुष्य जाड़ी	धनुष्य जाड़ी	समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
६	X गमा टूटा														
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	संख्याता	१ वज्र	३	३	१	४	१	०	२	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे	ऋषभ नाराच	गाऊ	गाऊ	समचौरस	पहली	मिथ्या	२	नियमा		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष												

१४७ ज्योतिषी में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय ऊपजे तेहनों यंत्र (३)

गमा	२० द्वार नीं संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	५	३	३	२
												५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	असंख	६	आंगुलनी	१ हजार	६	६	३	३	३	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे		असंख भाग	योजन				३	भजना	३	
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष												
४	जघन्य नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	असंख	६	आंगुलनी	१ हजार	६	४	१	०	२	३	२
५	जघन्य नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे		असंख भाग	धनुष्य		पहली	मिथ्या	२	नियमा		
६	जघन्य नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष												
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	अधपाव पत्य	१ पत्य १ लाख वर्ष	१.२.३	असंख	६	आंगुलनी	१ हजार	६	६	३	३	३	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	अधपाव पत्य	अधपाव पत्य	ऊपजे	ऊपजे		असंख भाग	योजन				३	भजना	३	
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	१ पत्य १ लाख वर्ष	१ पत्य १ लाख वर्ष												

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाशता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	६ पहली	२	३	पृथक् मास	कोडपूर्व	भला भूंडा	पृथक् मास	कोडपूर्व	०	२ २ २	८ ८ ८	१ पृथक् मास अधपाव पत्य १ पृथक् मास अधपाव पत्य १ पृथक् मास १ पत्य १ लाख वर्ष	४ कोडपूर्व ४ पत्य ४ लाख वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अधपाव पत्य ४ कोडपूर्व ४ पत्य ४ लाख वर्ष
४	४	५	५ पहली	२	३	पृथक् मास	पृथक् मास	भला भूंडा	पृथक् मास	पृथक् मास	५ अव., ज्ञान, समु. आयु, अनु.	२ २ २	८ ८ ८	१ पृथक् मास अधपाव पत्य १ पृथक् मास अधपाव पत्य १ पृथक् मास १ पत्य १ लाख वर्ष	४ पृथक् मास ४ पत्य ४ लाख वर्ष ४ पृथक् मास ४ अधपाव पत्य ४ पृथक् मास ४ पत्य ४ लाख वर्ष
४	४	५	६ पहली	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भला भूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	३ अव., आयु, अनुबंध	२ २ २	८ ८ ८	१ कोडपूर्व अधपाव पत्य १ कोडपूर्व अधपाव पत्य १ कोडपूर्व १ पत्य १ लाख वर्ष	४ कोडपूर्व ४ पत्य ४ लाख वर्ष ४ कोडपूर्व ४ अधपाव पत्य ४ कोडपूर्व ४ पत्य ४ लाख वर्ष

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाशता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	१ पत्य	३ पत्य	०	२ २	२ २	१ पत्य १ पत्य १ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य ३ पत्य १ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनु.	२	२	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	१ पत्य	भला भूंडा	१ पत्य	१ पत्य	३ अव., आयु, अनु.	२	२	१ पत्य १ पत्य	१ पत्य १ पत्य
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनुबंध	२ २ २	२ २ २	३ पत्य १ पत्य ३ पत्य १ पत्य ३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य ३ पत्य १ पत्य ३ पत्य ३ पत्य

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नाशता	भव		२० कायसंवेध द्वार	
						जघन्य	उत्कृष्ट		असंख्याता	जघन्य		उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाडो	३ पत्य	भला भूंडा	१ पत्य जाडो	३ पत्य	०	२ २	२ २	१ पत्य जाडो १ पत्य जाडो १ पत्य जाडो १ पत्य जाडो	३ पत्य ३ पत्य ३ पत्य १ पत्य जाडो
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनु.	२	२	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाडो	१ पत्य जाडो	भला भूंडा	१ पत्य जाडो	१ पत्य जाडो	३ अव., आयु, अनु.	२	२	१ पत्य जाडो १ पत्य जाडो	१ पत्य जाडो १ पत्य जाडो
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	२ आयु, अनुबंध	२ २ २	२ २ २	३ पत्य १ पत्य जाडो ३ पत्य १ पत्य जाडो ३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य ३ पत्य १ पत्य जाडो ३ पत्य ३ पत्य

१५१ पहले दूजे देवलोक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच पंचेंद्रिय ऊपजै तेहनों यंत्र (३)

गमा	१ उर्पपात द्वार				२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संटाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
	पहले में		दूसरे में		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				ज्ञान	अज्ञान		
	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट			६			५	३	३			२	
१	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जा.	२ सागर जा.	१,२,३	ऊपजै	६	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
२	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जा.	१ पत्य जा.												
३	२ सागर	२ सागर	२ सागर जा.	२ सागर जा.												
४	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जा.	२ सागर जा.	१,२,३	ऊपजै	६	आंगुलनों	पृथक	६	४ पहली	२ साम्यक्	२ नियमा	२ नियमा	३	२
५	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जा.	१ पत्य जा.												
६	२ सागर	२ सागर	२ सागर जा.	२ सागर जा.												
७	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जा.	२ सागर जा.	१,२,३	ऊपजै	६	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
८	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जा.	१ पत्य जा.												
९	२ सागर	२ सागर	२ सागर जा.	२ सागर जा.												

१५२ प्रथम देवलोक में मनुष्य युगलियो ऊपजै तेहनों यंत्र (४)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संटाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				ज्ञान	अज्ञान		
		६	३	६	३	६	३	५	३	३	२				
१	ओधिक नै ओधिक	१ पत्य	३ पत्य	१,२,३	संख्याता	वज्र	१	३	१	४	२ साम्यक्	२	२	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पत्य	१ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	गाऊ	गाऊ	समचौरंस	पहली	मिथ्या	नियमा	नियमा		
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१,२,३	संख्याता	वज्र	३	३	१	४	२ साम्यक्	२	२	३	२
				ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	गाऊ	गाऊ	समचौरंस	पहली	मिथ्या	नियमा	नियमा		
४	जघन्य नै ओधिक	१ पत्य	१ पत्य	१,२,३	संख्याता	वज्र	१ गाऊ	१ गाऊ	१	४	२ साम्यक्	२	२	३	२
				ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	गाऊ	गाऊ	समचौरंस	पहली	मिथ्या	नियमा	नियमा		
५	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
६	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ पत्य	३ पत्य	१,२,३	संख्याता	वज्र	३	३	१	४	२ साम्यक्	२	२	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ पत्य	१ पत्य	ऊपजै	ऊपजै	ऋषभ नाराच	गाऊ	गाऊ	समचौरंस	पहली	मिथ्या	नियमा	नियमा		
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य												

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३			असंख्याता			
४	४	५	५ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	भला भूडा	अंतर्मुहूर्त	कोडपूर्व	०
४	४	५	३ पहली	२	३	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	भला	अंतर्मुहूर्त	अंतर्मुहूर्त	८ अव., लेखा, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, समु., आयु, अय्य, अनु.
४	४	५	५ पहली	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भला भूडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	२ आयु, अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वार

भव		पहले में		दूसरे में	
ज.	उ.	जघन्य काल	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
२	८	१ अंतर्मु. १ पत्य	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ अंतर्मु. १ पत्य जाइओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाइओ
२	८	१ अंतर्मु. १ पत्य	४ कोडपूर्व ४ पत्य	१ अंतर्मु. १ पत्य जाओ	४ कोडपूर्व ४ पत्य जाइओ
२	८	१ अंतर्मु. २ सागर	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ अंतर्मु. २ सागर जाइओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाइओ
२	८	१ अंतर्मु. १ पत्य	४ अंतर्मु. ८ सागर	१ अंतर्मु. १ पत्य जाइओ	४ अंतर्मु. ८ सागर जाइओ
२	८	१ अंतर्मु. १ पत्य	४ अंतर्मु. ४ पत्य	१ अंतर्मु. १ पत्य जाइओ	४ अंतर्मु. ४ पत्य जाइओ
२	८	१ अंतर्मु. २ सागर	४ अंतर्मु. ८ सागर	१ अंतर्मु. २ सागर जाइओ	४ अंतर्मु. ८ सागर जाइओ
२	८	१ कोडपूर्व १ पत्य	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ कोडपूर्व १ पत्य जाइओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाइओ
२	८	१ कोडपूर्व १ पत्य	४ कोडपूर्व ४ पत्य	१ कोडपूर्व १ पत्य जाइओ	४ कोडपूर्व ४ पत्य जाइओ
२	८	१ कोडपूर्व २ सागर	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ कोडपूर्व २ सागर जाइओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाइओ

११ संज्ञा द्वार	१२ कषाय द्वार	१३ इन्द्रिय द्वार	१४ समुद्घात द्वार	१५ वेदना द्वार	१६ वेद द्वार	१७ आयु द्वार		१८ अध्यवसाय द्वार	१९ अनुबंध द्वार		नागता	२० कायसंवेध द्वार					
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल		
४	४	५	७	२	३			असंख्याता									
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	३ पत्य	भला भूडा	१ पत्य	३ पत्य	०	२	२	१ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य १ पत्य	३ पत्य १ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूडा	३ पत्य	३ पत्य	३	२	२	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य	१ पत्य	भला भूडा	१ पत्य	१ पत्य	३	२	२	१ पत्य १ पत्य	१ पत्य १ पत्य	१ पत्य १ पत्य	१ पत्य १ पत्य
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	अव. आयु, अनु.	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूडा	३ पत्य	३ पत्य	३	२	२	३ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य
											अव., आयु, अनुबंध	२	२	३ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य १ पत्य	३ पत्य ३ पत्य

१५३ दूसरे देवलोक मे मनुष्य युगलियो रूपजै तेहनों यंत्र (५)

गमा	२० द्वार नी संख्या	१ उपपात द्वार		२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
१	ओधिक नै ओधिक	१ पत्य जाइओ	३ पत्य	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	१ वज ऋषभ नाराच	१ गाऊ जाइओ	३ गाऊ	१ समचीरंस	४ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२
२	ओधिक नै जघन्य	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ												
३	ओधिक नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	१ वज ऋषभ नाराच	३ गाऊ	३ गाऊ	१ समचीरंस	४ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२
४	जघन्य नै ओधिक	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	१ वज ऋषभ नाराच	१ गाऊ जाइओ	१ गाऊ जाइओ	१ समचीरंस	४ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२
५	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
६	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
७	उत्कृष्ट नै ओधिक	१ पत्य जाइओ	३ पत्य	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	१ वज ऋषभ नाराच	३ गाऊ	३ गाऊ	१ समचीरंस	४ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२
८	उत्कृष्ट नै जघन्य	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ												
९	उत्कृष्ट नै उत्कृष्ट	३ पत्य	३ पत्य												

१५४ पहले दूजै देवलोक में संख्याता वर्ष नां सन्नी मनुष्य रूपजै तेहनों यंत्र (६)

गमा	१ उपपात द्वार				२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार ६	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार ६	६ लेख्या द्वार ६	७ दृष्टि द्वार ३	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार ३	१० उपयोग द्वार २
	पहले में		दूसरे में		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट				५	३		
	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट												
१	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जाइओ	२ सागर जाइओ	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	६	पृथक् आंगुल	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
२	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ												
३	२ सागर	२ सागर	२ सागर जाइओ	२ सागर जाइओ												
४	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जाइओ	२ सागर जाइओ	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	६	पृथक् आंगुल	पृथक् आंगुल	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
५	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ												
६	२ सागर	२ सागर	२ सागर जाइओ	२ सागर जाइओ												
७	१ पत्य	२ सागर	१ पत्य जाइओ	२ सागर जाइओ	१,२,३ ऊपजै	संख्याता रूपजै	६	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२
८	१ पत्य	१ पत्य	१ पत्य जाइओ	१ पत्य जाइओ												
९	२ सागर	२ सागर	२ सागर जाइओ	२ सागर जाइओ												

११ शिक्षा द्वारा	१२ कषाय द्वारा	१३ इन्द्रिय द्वारा	१४ समुद्घात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणता	भव		२० कायसंवेध द्वारा	
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाओ	३ पत्य	भला भूंडा	१ पत्य जाओ	३ पत्य	०	२	२	१ पत्य जाओ १ पत्य जाओ	३ पत्य ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	३	२	२	३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	१ पत्य जाओ	१ पत्य जाओ	भला भूंडा	१ पत्य जाओ	१ पत्य जाओ	३	२	२	१ पत्य जाओ १ पत्य जाओ	१ पत्य जाओ
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
४	४	५	३ पहली	२	२ स्त्री पुरुष	३ पत्य	३ पत्य	भला भूंडा	३ पत्य	३ पत्य	३	२	२	३ पत्य १ पत्य जाओ	३ पत्य ३ पत्य
														३ पत्य १ पत्य जाओ	३ पत्य १ पत्य जाओ
														३ पत्य ३ पत्य	३ पत्य ३ पत्य

११ शिक्षा द्वारा	१२ कषाय द्वारा	१३ इन्द्रिय द्वारा	१४ समुद्घात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणता
						जघन्य	उत्कृष्ट		जघन्य	उत्कृष्ट	
४	४	५	७	२	३	पृथक् मास	कोडपूर्व	भला भूंडा	पृथक् मास	कोडपूर्व	०
४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	पृथक् मास	कोडपूर्व	भला भूंडा	पृथक् मास	कोडपूर्व	५
४	४	५	५ पहली	२	३	पृथक् मास	पृथक् मास	भला भूंडा	पृथक् मास	पृथक् मास	अब, ज्ञान समु, आयु, अनु.
४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	भला भूंडा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	३
											अब, आयु, अनुबंध

२०
कायसंवेध द्वारा

भव		प्रथम देवलोक में		दूसरे देवलोक में	
जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल	जघन्य काल	उत्कृष्ट काल
२	८	१ पृथक् मास १ पत्य	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ पृथक् मास १ पत्य जाओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाओ
२	८	१ पृथक् मास १ पत्य	४ कोडपूर्व ४ पत्य	१ पृथक् मास १ पत्य जाओ	४ कोडपूर्व ४ पत्य जाओ
२	८	१ पृथक् मास २ सागर	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ पृथक् मास २ सागर जाओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाओ
२	८	१ पृथक् मास १ पत्य	४ पृथक् मास ८ सागर	१ पृथक् मास १ पत्य जाओ	४ पृथक् मास ८ सागर जाओ
२	८	१ पृथक् मास १ पत्य	४ पृथक् मास ४ पत्य	१ पृथक् मास १ पत्य जाओ	४ पृथक् मास ४ पत्य जाओ
२	८	१ पृथक् मास २ सागर	४ पृथक् मास ८ सागर	१ पृथक् मास २ सागर जाओ	४ पृथक् मास ८ सागर जाओ
२	८	१ कोडपूर्व १ पत्य	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ कोडपूर्व १ पत्य जाओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाओ
२	८	१ कोडपूर्व १ पत्य	४ कोडपूर्व ४ पत्य	१ कोडपूर्व १ पत्य जाओ	४ कोडपूर्व ४ पत्य जाओ
२	८	१ कोडपूर्व २ सागर	४ कोडपूर्व ८ सागर	१ कोडपूर्व २ सागर जाओ	४ कोडपूर्व ८ सागर जाओ

१५५ तीजे चौथे पांचवें देवलोक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच ऊपजै तेहनों यंत्र (७)

गमा	१ उपपात द्वार						२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
	तीसरे में		चौथे में		पांचवें में		जघन्य	उत्कृष्ट	६	अवगाहना द्वार		६	६	३	ज्ञान-अज्ञान द्वार		३	२	
	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट				जघन्य	उत्कृष्ट				५	३			
१	२ सा.	७ सागर	२ सा. जा	७ सा. जा.	७ सा.	१० सा.	१.२.३	संख या	तीजे चौथे देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
२	२ सा.	२ सागर	२ सा. जा	२ सा. जा.	७ सा.	७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
३	७ सा.	७ सागर	७ सा. जा	७ सा. जा.	१० सा.	१० सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
४	२ सा.	७ सा.	२ सा. जा	७ सा. जा.	७ सा.	१० सा.	१.२.३	संख या	पांचवे देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	पृथक्	६	५ पहली	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२	
५	२ सा.	२ सा.	२ सा. जा	२ सा. जा.	७ सा.	७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
६	७ सा.	७ सा.	७ सा. जा	७ सा. जा.	१० सा.	१० सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
७	२ सा.	७ सा.	२ सा. जा	७ सा. जा.	७ सा.	१० सा.	१.२.३	संख या	छठे देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	१ हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
८	२ सा.	२ सा.	२ सा. जा	२ सा. जा.	७ सा.	७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
९	७ सा.	७ सा.	७ सा. जा	७ सा. जा.	१० सा.	१० सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२

१५६ छठे सूं आठवें देवलोक में संख्याता वर्ष नां सन्नी तिर्यच ऊपजै तेहनों यंत्र (८)

गमा	१ उपपात द्वार						२ परिमाण द्वार		३ संघयण द्वार	४ अवगाहना द्वार		५ संठाण द्वार	६ लेख्या द्वार	७ दृष्टि द्वार	८ ज्ञान-अज्ञान द्वार		९ योग द्वार	१० उपयोग द्वार	
	छठे में		सातवें में		आठवें में		जघन्य	उत्कृष्ट	६	अवगाहना द्वार		६	६	३	ज्ञान-अज्ञान द्वार		३	२	
	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट				जघन्य	उत्कृष्ट				५	३			
१	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१८ सा.	१.२.३	संख या	छठे देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
२	१० सागर	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
३	१४ सागर	१४ सागर	१७ सागर	१७ सागर	१८ सा.	१८ सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
४	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१८ सा.	१.२.३	संख या	सातवें आठवें देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	पृथक्	६	६	२ सम्यक् मिथ्या	२ नियमा	२ नियमा	३	२	
५	१० सागर	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
६	१४ सागर	१४ सागर	१७ सागर	१७ सागर	१८ सा.	१८ सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
७	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१८ सा.	१.२.३	संख या	छठे देवलोक में ५ संघयणी ऊपजै	आंगुलनों	हजार	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२	
८	१० सागर	१० सागर	१४ सागर	१४ सागर	१४ सा.	१७ सा.	ऊपजै	असंख		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२
९	१४ सागर	१४ सागर	१७ सागर	१७ सागर	१८ सा.	१८ सा.	ऊपजै	ऊपजै		आंगुलनों	असंख	भाग	६	६	३	३ भजना	३ भजना	३	२

२ परिभाषा द्वारा		३ संघर्षण द्वारा		४ अवगाहना द्वारा		५ संताप द्वारा	६ लेखा द्वारा	७ दृष्टि द्वारा	८ ज्ञान-अज्ञान द्वारा		९ योग द्वारा	१० उपयोग द्वारा	११ संज्ञा द्वारा	१२ कषाय द्वारा	१३ द्वन्द्व द्वारा	१४ समुद्घात द्वारा	१५ वेदना द्वारा	१६ वेद द्वारा	१७ आयु द्वारा		१८ अध्यवसाय द्वारा	१९ अनुबंध द्वारा		नाणसा
जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	जघन्य	उत्कृष्ट	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२	४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	जघन्य	उत्कृष्ट	असंख्याता	जघन्य	उत्कृष्ट	
१.२.३ रूपजै	संख्याता रूपजै	तीजे धीधे ६ संघर्षणी रूपजै पांचमै छठै ५	पृथक् हाथ	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२	४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	मला भुंजा	पृथक् वर्ष	कोड पूर्व	०	
१.२.३ रूपजै	संख्याता रूपजै	संघर्षणी रूपजै सालमै आठमै ४ संघर्षणी रूपजै नवमा सँ बारमै	पृथक् हाथ	पृथक् हाथ	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२	४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	मला भुंजा	पृथक् वर्ष	पृथक् वर्ष	३ अव. आयु. अनु.	
१.२.३ रूपजै	संख्याता रूपजै	३ संघर्षणी रूपजै।	५ सौ धनुष्य	५ सौ धनुष्य	६	६	३	४ भजना	३ भजना	३	२	४	४	५	६ केवल वर्जी	२	३	कोडपूर्व	कोडपूर्व	मला भुंजा	कोडपूर्व	कोडपूर्व	३ अव. आयु. अनु.	

आठवें में		नौवें में		दसवें में		बारहवें में		बारहवें में		
ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	
१ पृथक् वर्ष १० सागर	४ कोडपूर्व ७२ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ कोडपूर्व ६६ सागर
१ पृथक् वर्ष १० सागर	४ कोडपूर्व ६८ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ कोडपूर्व ६६ सागर
१ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ कोडपूर्व ७२ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २२ सागर	४ कोडपूर्व ६६ सागर
१ पृथक् वर्ष १० सागर	४ पृथक् वर्ष ७२ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ पृथक् वर्ष ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ पृथक् वर्ष ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ पृथक् वर्ष ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ पृथक् वर्ष ६६ सा.
१ पृथक् वर्ष १० सागर	४ पृथक् वर्ष ६८ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ पृथक् वर्ष ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ पृथक् वर्ष ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ पृथक् वर्ष ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ पृथक् वर्ष ६३ सा.
१ पृथक् वर्ष १८ सागर	४ पृथक् वर्ष ७२ सागर	३ ७	२ पृथक् वर्ष १६ सागर	४ पृथक् वर्ष ५७ सागर	२ पृथक् वर्ष २० सागर	४ पृथक् वर्ष ६० सागर	२ पृथक् वर्ष २१ सागर	४ पृथक् वर्ष ६३ सागर	२ पृथक् वर्ष २२ सागर	४ पृथक् वर्ष ६६ सा.
१ कोडपूर्व १० सागर	४ कोडपूर्व ७२ सागर	३ ७	२ कोडपूर्व १८ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ कोडपूर्व १६ सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ कोडपूर्व २० सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ कोडपूर्व २१ सागर	४ कोडपूर्व ६६ सागर
१ कोडपूर्व १० सागर	४ कोडपूर्व ६८ सागर	३ ७	२ कोडपूर्व १८ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ कोडपूर्व १६ सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ कोडपूर्व २० सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ कोडपूर्व २१ सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर
१ कोडपूर्व १८ सागर	४ कोडपूर्व ७२ सागर	३ ७	२ कोडपूर्व १६ सागर	४ कोडपूर्व ५७ सागर	२ कोडपूर्व २० सागर	४ कोडपूर्व ६० सागर	२ कोडपूर्व २१ सागर	४ कोडपूर्व ६३ सागर	२ कोडपूर्व २२ सागर	४ कोडपूर्व ६६ सागर

४४ घरां में ३२१ टिकाणां नां ऊपजै तेह में नाणता पड़े तेहनों विवरो।

		१ तिर्यच पंचेन्द्रिय		२ मनुष्य		३ पृथ्वी		४ अप		५ वनस्पति		६ तेऊ		७ वायु		८ बेइन्द्रिय		९ तेइन्द्रिय		१० चउरिन्द्रिय	
		ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
१	रत्नप्रभा	२	२	२	२																
२	सककरप्रभा	२	२	२	२																
३	बालुकाप्रभा	२	२	२	२																
४	पंकप्रभा	२	२	२	२																
५	वृगप्रभा	२	२	२	२																
६	तमप्रभा	२	२	२	२																
७	तमतामा	१	१	४	४																
८	असुरकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
९	नागकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१०	सुपर्णकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
११	विद्युतकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१२	अग्निकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१३	झीपकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१४	उदधिकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१५	दिककुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१६	वायुकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१७	स्तनिकुमार	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१८	व्यंतर	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
१९	ज्योतिषी	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
२०	सौपर्मथुर	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
२१	ईशानसुर	५	५	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२	२
सर्व नाणता		८४		८०		५६		५६		५६											

		१ तिर्यच पंचेन्द्रिय		२ मनुष्य		३ पृथ्वी		४ अप		५ वनस्पति		६ तेऊ		७ वायु		८ बेइन्द्रिय		९ तेइन्द्रिय		१० चउरिन्द्रिय	
		ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
४३	सन्नी मनुष्य	४४	४४	३६	३६	२२	२२	१४	१४	९	९	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१
४४	सन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय	३६	३६	२२	२२	१४	१४	९	९	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१	१	१
४५	असन्नी तिर्यच पंचेन्द्रिय	२२	२२	१४	१४	९	९	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१	१	१	१	१
४६	तिर्यच युगलियो	१४	१४	९	९	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१	१	१	१	१	१	१
४७	मनुष्य युगलियो	१४	१४	९	९	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१	१	१	१	१	१	१
४८	असन्नी मनुष्य (जघन्य उत्कृष्ट गमां नहीं हवै)	१०	१०	६	६	४	४	३	३	२	२	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१
सर्व नाणता		३२		३२		३२		३२		३२		३२		३२		३२		३२		३२	

सर्व नाणता

२१ विद्युत		२२ अग्नि		२३ झीप		२४ उदधि		२५ दिक्		२६ वायु		२७ स्तनित		२८ व्यंतर		२९ ज्योतिषी		३० सौपर्म		३१ ईशान	
ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३	५	३
८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२
३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३
३४		३४		३४		३४		३४		३४		३४		३४		२६		२६		२६	

		१ तिर्यच पंचेन्द्रिय		२ मनुष्य		३ पृथ्वी		४ अप		५ वनस्पति		६ तेऊ		७ वायु		८ बेइन्द्रिय		९ तेइन्द्रिय		१० घउरिन्द्रिय	
		ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
२२	पृथ्वीकाय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२
२३	अपकाय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२
२४	तेउकाय	६	ठिकाणां में ऊपजै	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२	३	२
२५	वायुकाय	६	ठिकाणां में ऊपजै	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२	४	२
२६	वनस्पतिकाय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	५	२	५	२	५	२	५	२	५	२	५	२	५	२	५	२	५	२
२७	बेइन्द्रिय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२
२८	तेइन्द्रिय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२
२९	घउरिन्द्रिय	१०	ठिकाणां में ऊपजै	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२	७	२
३०	सानत्सुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३१	महेन्द्रसुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३२	ब्रह्मसुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३३	लान्ताकसुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३४	शुक्रसुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३५	सहस्रारसुर	२	ठिकाणां में ऊपजै	२	२	२	२														
३६	आणतसुर	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
३७	पाणतसुर	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
३८	आरणसुर	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
३९	अच्युतसुर	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
४०	प्रैवेयक	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
४१	अनुत्तर विमान	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
४२	सर्वार्थसिद्ध	१	ठिकाणां में ऊपजै	१	२	१	२														
सर्व नाणता		=१		६४		५७		५७		५७		५७		५७		५७		५७		५७	

११ रतन		१२ सककर		१३ वालुका		१४ पंक		१५ धूम		१६ तम		१७ तमतमा		१८ असुर		१९ नाग		२० सुपर्ण	
ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
५	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	५	३	५	३	५	३
८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२	८	२
३	२													३	२	३	२	३	२
														३	२	३	२	३	२
														३	३	३	३	३	३
२३		१६		१६		१६		१६		१६		१६		३४		३४		३४	


३२ सन्त		३३ माहेन्द्र		३४ ब्रह्म		३५ लान्ताक		३६ शुक्र		३७ सहस्रार		३८ आणत		३९ पाणत		४० आरण		४१ अच्युत		४२ प्रैवेयक		४३ अनुत्तर		४४ सर्वार्थसिद्ध	
ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.	ज.	उ.
३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	३	
८	२	८	२	८	२	७	२	७	२	७	२														
१६		१६		१६		१५		१५		१५		६		६		६		६		६		६		६	

२४ दंडक में गमा अनै नाणता

	१ नारको	२ असुर	३ नाग	४ सुपर्ण	५ विद्युत्	६ अग्नि	७ द्वीप	८ उदधि	९ दिक्	१० वायु	११ स्तनित	१२ पृथ्वी
१ गमा नी संख्या	१३५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५	४५
२ जघन्य उत्कृष्ट गमे नाणता नी संख्या	११६	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४	३४

१३ अप	१४ तेऊ	१५ वायु	१६ वनस्पति	१७ बेइन्द्रिय	१८ तेइन्द्रिय	१९ षउरिन्द्रिय	२० तिर्यच पंचेन्द्रिय	२१ मनुष्य	२२ व्यंतर	२३ ज्योतिषी	२४ वैमानिक	सर्वसंख्या
२२८	१०२	१०२	२२८	१०२	१०२	१०२	३४५	३७५	४५	३२	२२६	२८०५
१४५	८६	८६	१४५	८६	८६	८६	१६७	२०६	३४	२६	१६३	१६६८

असुरादि १० भदनघते व्यंतर, ज्योतिषी, सोधर्म अनै ईशान—ए १४ ठिकाणै तिर्यच युगलियो ऊपजै तिण रे लीजे गमे २-२ नाणता पडै। इम २८ नाणता हुवै। ए १४ ठिकाणै मनुष्य युगलियो ऊपजलां लीजे गमे ३-३ नाणता पडै, इम ४२ नाणता हुवै। बिहुं युगलियां नां लीजे गमा आश्री ७० नाणता हुवै। ए नाणता उपपुक्ता १६६८ सिवाय जाणवा। ए १६६८ नाणता जघन्य अनै उत्कृष्ट गमा आश्री कहया। तेह में औधिक गमा नां ७० नाणता भेला कीयां २०६८ नाणता हुवै। तथा असन्नी मनुष्य मनुष्य में ऊपजला पूजे लीजे गमे १-१ नाणता हुवै, ए २ नाणता भेला कीयां २०७० नाणता हुवै। ए नाणता नी संख्या कही। तिण में न्यून-अधिक आया हुवै तो बहुधुत विचारी लीज्यो।



प्रज्ञापुरुष जयाचार्य

छोटा कद, छरहरा बदन, छोटे-छोटे हाथ-पांव, श्यामवर्ण, दीप्त ललाट, ओजस्वी चेहरा— यह था जयाचार्य का बाहरी व्यक्तित्व।

अप्रकंप संकल्प, सुदृढ़ निश्चय, प्रज्ञा के आलोक से आलोकित अंतःकरण, महामनस्वी, कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति, इष्ट के प्रति सर्वात्मना समर्पित, स्वयं अनुशासित, अनुशासन के सजग प्रहरी, संघ व्यवस्था में निपुण, प्रबल तर्कबल और मनोबल से संपन्न, सरस्वती के वरदपुत्र, ध्यान के सूक्ष्म रहस्यों के मर्मज्ञ—यह था उनका आंतरिक व्यक्तित्व।

तेरापंथ धर्मसंघ के आद्यप्रवर्तक, आचार्य भिक्षु के वे अनन्य भक्त और उनके कुशल भाष्यकार थे। उनकी ग्रहण-शक्ति और मेधा बहुत प्रबल थी। उन्होंने तेरापंथ की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और धर्मसंघ को नया रूप देकर उसे दीर्घायु बना दिया।

उन्होंने राजस्थानी भाषा में साढ़े तीन लाख श्लोक प्रमाण साहित्य लिखा। साहित्य की अनेक विधाओं में उनकी लेखनी चली। उन्होंने भगवती जैसे महान् आगम ग्रंथ का राजस्थानी भाषा में पद्यमय अनुवाद प्रस्तुत किया। उसमें ५०१ गीतिका हैं। उसका गंथमान है साठ हजार पद्य प्रमाण।

- जन्म—१८६० रोयट (पाली मारवाड़)
- दीक्षा—१८६९ जयपुर
- युवाचार्य पद—१८९४ नाथद्वारा
- आचार्य पद—१९०८ बीदासर
- स्वर्गवास—१९३८ जयपुर

